

दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय
स्व० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी



अजीमगंज-कलकत्ता

जन्म ता. २८-६-१८८५]

[मृत्यु ता. ७-७-१९४४

स्वर्गवासी साधुचरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी



बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्यश्लोक पिता

जन्म-त्रि स १९२१, मार्ग वदि ६ 卐 स्वर्गवास्त-त्रि स १९८४, पोष सुदि ६

सिंघी जैन ग्रन्थ माला

*****[ग्रन्थांक ३६]*****

कविराज-स्वयम्भूदेव-रचित

पउमचरिउ

[अपभ्रंशभाषाप्रथित महाकाव्यात्मक जैन रामायण]

— [तृतीय भाग] —



SINGHI JAIN SERIES

*****[NUMBER 36]*****

PAUMACARIU

[A Jainistic Rāma-Epic in Apabhraṁśa]

COMPOSED BY

Kavirāja Svayambhūdeva

— [THIRD PART] —

क ल क त्ता नि वा सी

साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी पुण्यस्मृतिनिमित्त
प्रतिष्ठापित एवं प्रकाशित

सिंघी जैन ग्रन्थ माला

[जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक-इत्यादि विविधविषयगुम्फित प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राचीनगूजरी, -राजस्थानी आदि नाना भाषानिबद्ध सार्वजनीन पुरातन वाङ्मय तथा नूतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशनी सर्वश्रेष्ठ जैन ग्रन्थावलि]

प्रतिष्ठाता

श्रीमद्-डालचन्दजी-सिंघीसत्पुत्र

स्व० दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय

श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान सम्पादक तथा संचालक

आचार्य जिन विजय मुनि

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

निवृत्त ऑनररि डायरेक्टर

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

*

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

प्रकाशक

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

जयन्तकृष्ण ह. दवे, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी रोड, बम्बई, नं. ७, द्वारा प्रकाशित
तथा - लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६-२८ कोलमाट स्ट्रीट, -बम्बई, नं. २, द्वारा मुद्रित

कविराज - स्वयम्भूदेव - विरचित

पु म च रि उ

[अपभ्रंशभाषाग्रथित महाकाव्यात्मक जैन रामायण]
विविध पाठभेद, प्रस्तावना, विशिष्ट शब्दकोष, परिशिष्टादि समन्वित



संपादनकर्ता

डॉ. हरिवल्लभ चूनीलाल भायाणी, एम्. ए, पीएच्. डी.

(प्राध्यापक, प्राकृत एवं गुजराती साहित्य, भारतीय विद्याभवन, बम्बई)



तृतीय भाग

(युद्ध काण्ड एवं उत्तर काण्ड)



प्रकाशनकर्ता

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ

भारतीय विद्याभवन, बम्बई

विक्रमाब्द २०१६]

प्रथमावृत्ति, पंचशत प्रति

[ख्रिस्ताब्द १९६०

ग्रन्थांक ३६]

सर्वाधिकार सुरक्षित

[मूल्य रु० १०/५०

SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL,
PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS
IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSHA AND OLD RAJASTHANI-
GUJARATI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT
RESEARCH SCHOLARS

ESTABLISHED

IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT LIKE LATE SETH

ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ
OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

DANASILA - SAHITYARASIKA - SANSKRITIPRIYA
ŚRĪ BAHADUR SINGH SINGHI

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

ĀCHĀRYA JINA VIJAYA MUNI

ADHISTHĀTĀ, SINGHĪ JAIN ŚĀSTRA ŚĪKSHĀ PĪṬHA
(Retired Honorary Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay)

PUBLISHED

UNDER THE PATRONAGE OF

ŚRĪ RAJENDRA SINGH SINGHI

AND

ŚRĪ NARENDRA SINGH SINGHI

BY THE ADHISTHĀTĀ

SINGHI JAIN SHASTRA SHIKSHAPĪTH
BHARATIYA VIDYA BHAVAN, BOMBAY

PAUMACARIU

OF

KAVIRĀJA SVAYAMBHŪDEVA

(A pre-tenth century Jainist'c Rāma epic in Apabhraṁśa)
Critically edited for the first time with an elaborate
Introduction, Index Verborum and Appendices

BY

HARIVALLABH C. BHAYANI, M A., Ph D
(Professor of Prakrit and Gujarati, Bharatiya Vidya Bhavan)



THIRD PART

(YUDDHA KĀṆDA AND UTTARA KĀṆDA)



PUBLISHED BY

Adhiṣṭhātā, Singhi Jain Śāstra Śikṣāpīṭha
BHARATIYA VIDYA BHAVAN
BOMBAY

V. E. 2016]

First Edition

[A D 1960

Vol. No. 36]

८२

[Price Rs. 10/50

॥ सिंधीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः ॥

अस्ति वज्राभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥	१
वहवो निव्रसन्त्यत्र जेना ऊकेशवशाजाः । धनाढ्या नृपसम्मन्या धर्मकर्मपरायणाः ॥	२
श्रीडालचन्द्र इत्यासीत् तेज्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सचरित्रो यः सिंधीकुलप्रभाकरः ॥	३
बाल्य एव गतो यश्च कर्तुं व्यापारविस्तृतिम् । कलिकातामहापुर्यां धृतधर्मार्थनिश्चयः ॥	४
कुशाप्रीयया सद्बुद्ध्या सहृदया च सन्निष्ठया । उपाज्यं विपुलां लक्ष्मीं कोट्यधिपोऽजनिष्ट मः ॥	५
तस्य मञ्जुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । जाता पतिव्रता पत्नी श्रीलसौभाग्यभूषणा ॥	६
श्रीवहादुरसिंहाख्यो गुणवोस्तनयस्तयोः । सज्जातः सुकृती दानी धर्मप्रियश्च धीनिधिः ॥	७
प्राप्ता पुण्यवता तेन पत्नी तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तत्कुलाम्बरम् ॥	८
श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्य ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् दक्षिणवाहुवत् पितुः ॥	९
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सुतः । सूनुर्वरिन्द्रसिंहश्च कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥	१०
सन्ति त्रयोऽपि सत्पुत्रा आसुभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मागानुगामिनः ॥	११
अन्येऽपि बहवस्तसाभवन् स्वचादिवान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धः सन् स राजेव व्यराजत ॥	१२

अन्यच्च -

सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यासीत् सदाचारी तच्चित्रं विदुषां खलु ॥	१३
नाहंकारो न दुर्भावो न विलासो न दुर्चर्यः । दृष्टं कदापि यद्गोहे सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥	१४
भक्तो गुरुजनानां स विनीतः मज्जनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽभूत् प्रीतः पोष्यरणेष्वपि ॥	१५
देश-कालस्थितिज्ञोऽसौ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादि-साहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥	१६
समुद्भवैः समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचाराय च शिक्षायां दत्तं तेन धनं धनम् ॥	१७
गत्वा सभा-समित्यादौ भूत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मठाः ॥	१८
एव धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया । अकरोत् स यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥	१९
अथान्यदा प्रसङ्गेन स्वपितुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥	२०
पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचिः स्वयम् । तस्मात् तज्ज्ञानबुद्धयर्थं यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥	२१
विचार्यैवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धेयानां स्वमित्राणां विदुषां चापि तादृशाम् ॥	२२
जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शांतिं निकेतने । सिंधीपदाङ्कितं जैनज्ञानपीठं मतिष्ठिपत् ॥	२३
श्रीजिनविजयः प्राज्ञो मुनिनाम्ना च विश्रुतः । स्वीकर्तुं प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम् ॥	२४
तस्य सौजन्य-सौहार्दं स्वैर्यौदार्यादिसद्गुणैः । वशीभूय मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥	२५
कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिना । रसैर्नागाङ्क-चन्द्राब्दे तत्प्रतिष्ठा व्यधीयत ॥	२६
प्रारब्धं मुनिना चापि कार्यं तदुपयोगिकम् । पाठनं ज्ञानलिप्सूनां ग्रन्थानां ग्रथनं तथा ॥	२७
तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चैषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥	२८
उदारचेतसा तेन धर्मशीलेन दानिना । व्ययितं पुष्कलं द्रव्यं तत्तत्कार्यसुसिद्धये ॥	२९
छात्राणां वृत्तिदानेन नैकेषां विदुषां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं स प्रदत्तवान् ॥	३०
जलवाय्वादिकानां तु प्रातिकूल्यादसौ मुनिः । कार्यं त्रिवार्षिकं तत्र समाप्यान्यत्रावासितः ॥	३१
तत्रापि सततं सर्वं साहाय्यं तेन यच्छता । ग्रन्थमालाप्रकाशाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥	३२
नन्द-निर्धेङ्क-चन्द्राब्दे कृता पुनः सुयोजना । ग्रन्थावल्या स्थिरत्वाय विस्तराय च नूतना ॥	३३
ततो मुनेः परामर्शात् सिंधीवंशनभस्वता । भाविद्या भवना येयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥	३४
आसीत्तस्य मनोवाञ्छाऽपूर्वग्रन्थप्रकाशने । तदर्थं व्ययितं तेन लक्षावधि हि रूप्यकम् ॥	३५
दुर्विलासाद् विधेर्हन्तः दौर्भाग्याच्चात्मवन्धुनाम् । स्वल्पेनैवाथ कालेन स्वर्गं स सुकृती ययौ ॥	३६
विधु-शून्यै-ख-नेत्रा-ब्दे मासे धापाठसञ्ज्ञके । कलिकातानगर्यां स प्राप्तवान् परमा गतिम् ॥	३७
पितृभक्तैश्च तत्पुत्रं प्रेयसे पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्यै प्रकाश्यतेऽधुना त्वियम् ॥	३८
सैषा ग्रन्थावलिः श्रेष्ठा प्रेषा प्रज्ञावतां प्रथा । भूयाद् भूत्यै सतां सिंधीकुलकीर्तिप्रकाशिका ॥	३९
विद्वज्जनकृताह्लादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके श्रीसिंधी ग्रन्थमालिका ॥	४०

॥ सिंधीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥

स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतविश्रुतः । रूपाहेलीति सन्नानी पुरिका यत्र सुस्थिता ॥	१
सदाचार-विचाराभ्या प्राचीननृपतेः सम । श्रीमच्चतुरसिंहोऽत्र राठोडान्वयभूमिप ॥	२
तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूद् राजपुत्र. प्रमिद्विभाक् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलाप्रणी ॥	३
मुञ्ज-भोजमुखा भूषा जाता यस्मिन् महाकुले । किं वपर्यते कुलीनत्व तत्कुलजातजन्मन. ॥	४
पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्य रूप-लावण्य-सुवाक् सौजन्यभूषिता ॥	५
क्षत्रियाणीं प्रभापूर्णां शौर्योद्दीप्तमुत्पाकृतिम् । यां दृष्ट्वैव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥	६
पुत्र. किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरतिप्रिय । रणमल्ल इति चान्यद् यन्नाम जननीकृतम् ॥	७
श्रीदेवीहंसनामाऽत्र राजपूज्यो यतीश्वर । ज्योतिर्भेषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रिय ॥	८
आगतो मरुदेशाद् यो भ्रमन् जनपदान् बहून् । जात. श्रीवृद्धिसिंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पद परम् ॥	९
तेनाथाप्रतिभ्रेण्णा स तत्सूनुः स्वसन्निधौ । रक्षित. शिक्षित सम्भक्, कृतो जैनमतानुग ॥	१०
दौर्भाग्यात् तच्छिशोर्बाल्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमूढ स्वगृहात् सोऽथ यदृच्छया विनिर्गत ॥	११
तथा च-	
भ्रान्त्वा नैकेषु देशेषु संमेव्य च बहून् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा जातो जैनमुनिस्तत ॥	१२
ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्वातत्त्वगवेषिणा ॥	१३
अधीता त्रिविधा भाषा भारतीया युरोपजा. । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रव-नूतनकालिका ॥	१४
येन प्रकाशिता नैके ग्रन्था विद्वत्प्रशंसिता । लिखिता बहवो लेखा ऐतिह्यतथ्यगुम्फिता. ॥	१५
बहुभिः सुविद्वद्भिस्तन्मण्डलैश्च स सत्कृत. । जिनविजयनाम्नाऽथ विख्यात सर्वत्राभवद् ॥	१६
तस्य तां विश्रुतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहूत सादर पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥	१७
पुरे चाहम्मदावादे राष्ट्रीय- शिक्षणालय । विद्यापीठ इति ख्यात्या प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥	१८
भाचार्यत्वेन तत्रोच्चैर्नियुक्त. स महात्मना । रस-मुनि-निधीन्द्रवदे पुरा तत्त्वा ख्यमन्दिरे ॥	१९
वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूय तत् पदं तत. । गत्वा जर्मनराष्ट्रे स तत्संस्कृतिसमधीतवान् ॥	२०
तत आगत्य मँल्लो राट्टकार्यं च सक्रियम् । कारावागोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वातन्त्र्यसङ्गरे ॥	२१
क्रमात् ततो विनिर्मुक्तः स्थित. शान्ति निकेतने । विश्वग्रन्थकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूपिते ॥	२२
निधीपदयुत जैन ज्ञानपीठं तत्राश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंधीश्रीढालचन्द्रस्य सूनुना ॥	२३
श्रीबहादुरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यथ निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥	२४
प्रतिष्ठितश्च नस्यासौ पदेऽधिष्ठातृमन्त्रके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् ग्रन्थयन् जैनवाक्यम् ॥	२५
तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे ह्येषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥	२६
अथैवं विगतं तस्य वर्षाणामष्टकं पुन. । ग्रन्थमालाविकासादिप्रवृत्तिषु प्रयस्यत. ॥	२७
बाण-रत्न-नैवेन्द्रवदे मुंबाईनगरीस्थित. । मुग्धीति विरुदख्यात. कन्हैयालाल-धीसय. ॥	२८
प्रवृत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितो । कर्मनिष्ठस्य तस्याभूत् प्रयत्न. सफलोऽचिरात् ॥	२९
विदुषां श्रीमतां योगात् पीठो जात. प्रतिष्ठित. । भारतीय पदोपेत. विद्याभवन सञ्ज्या ॥	३०
आहूतः सहकार्यार्थं स मुनिस्तेन सुहृदा । ततः प्रभृति तत्रापि तत्कार्यं सुप्रवृत्तवान् ॥	३१
तत्रवनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका ह्यपेक्षिता । स्वीकृता च सद्भावेन साऽप्याचार्यपदाश्रिता ॥	३२
नन्द-निधयङ्क-चन्द्रावदे वैक्रमे विहिता पुन. । एतद्ग्रन्थावलीस्थैर्यकृते नूतनयोजना ॥	३३
परामर्शात् ततस्तस्य श्रीसिंधीकुलभास्वता । भाविद्या भवनार्थेन ग्रन्थमाला समर्पिता ॥	३४
प्रदत्ता दशासाहस्री पुनस्तस्योपदेशान. । स्वपितृस्मृतिमन्दिरकरणाय मुग्धीतिना ॥	३५
दवाटस्थे गते काले सिंधीवर्यो दिवंगत. । यस्तस्य ज्ञानसेवाया साहाय्यमकरोत् महत् ॥	३६
पितृकार्यप्रगत्यर्थं यत्नशीलैस्तदात्मजै. । राजेन्द्रसिंहमुख्यैश्च सत्कृतं तद्वचस्त ॥	३७
पुण्यश्लोकपितुर्नाम्ना ग्रन्थागारकृते पुन. । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो ह्यर्द्धलक्ष धनं ददौ ॥	३८
ग्रन्थमालाप्रसिद्धयर्थं पितृवत् तस्य काक्षितम् । श्रीसिंधीसपुत्रं सर्वं तद्गिराऽनुविधीयते ॥	३९
विद्वज्जनकृताह्लादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिर नन्दविषय लोके जिनविजय भारती ॥	४०

SINGHI JAIN SERIES

ॐ अद्यावधि मुद्रितग्रन्थ नामावलि ॐ

- | | |
|--|---|
| १ मेख्खुजाचार्यरचित प्रबन्धचिन्तामणि
मूल सस्कृत ग्रन्थ. | २२ महेश्वरसूरिकृत नाणपंचमीकथा. (प्रा०) |
| २ पुरातनप्रबन्धसंग्रह बहुविध ऐतिह्यतथ्यपरिपूर्ण
अनेक प्राचीन निबन्ध सचय | २३ श्रीमद्रवाहुआचार्यकृत भद्रबाहुसंहिता. |
| ३ राजनेरखरसूरिरचित प्रबन्धकोश. | २४ जिनेश्वरसूरिकृत कथाकोपप्रकरण. (प्रा०) |
| ४ जिनप्रभसूरिकृत विविधतीर्थकल्प. | २५ उदयप्रभसूरिकृत धर्माभ्युदयमहाकाव्य. |
| ५ मेघविजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकाव्य. | २६ जयसिंहसूरिकृत धर्मोपदेशमाला. (प्रा०) |
| ६ योगविजयोपाध्यायकृत जैनतर्कभाषा. | २७ कोऊहलविरचित लीलावई कथा. (प्रा०) |
| ७ हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा | २८ जिनदत्ताख्यानद्वय. (प्रा०) |
| ८ भद्रकलङ्कदेवकृत अकलङ्कग्रन्थत्रयी. | २९ खयंभूविरचित पउमचरिउ. भाग १ (अप०) |
| ९ प्रबन्धचिन्तामणि - हिन्दी भाषांतर. | ३० " " " " २ " |
| १० प्रभाचन्द्रसूरिरचित प्रभावकचरित. | ३१ सिद्धिचन्द्रकृत काव्यप्रकाशखण्डन. |
| ११ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भानुचन्द्रगणिकरित. | ३२ दामोदरपण्डित कृत उक्तिव्यक्तिप्रकरण. |
| १२ योगविजयोपाध्यायविरचित ज्ञानविन्दुप्रकरण. | ३३ मित्रभिन्न विद्वत्कृत कुमारपालचरित्रसंग्रह. |
| १३ हरिषेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोश. | ३४ जिनपालोपाध्यायरचित खरतरगच्छ बृहद्गुर्वावलि. |
| १४ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग. | ३५ उद्द्योतनसूरिकृत कुवलयमाला कथा. (प्रा०) |
| १५ हरिभद्रसूरिविरचित धूर्ताख्यान. (प्राकृत) | ३६ गुणपालमुनिरचित जंबुचरियं. (प्रा०) |
| १६ दुर्गदेवकृत रिष्टसमुच्चय (प्राकृत) | ३७ पूर्वाचार्यविरचित जयपायड-निमित्तशास्त्र (प्रा०) |
| १७ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य | ३८ भोजनूपतिरचित शृङ्गारमञ्जरी. (सस्कृत कथा) |
| १८ कवि अञ्जुल रहमानकृत सन्देशरासक (अपभ्रंश) | ३९ वनसारगणीकृत-भर्तृहरशतकत्रयटीका. |
| १९ भर्तृहरिकृत शतकत्रयादि सुभाषितसंग्रह | ४० कौटल्यकृत अर्थशास्त्र - सटीक. (कतिपयअंश) |
| २० गान्ध्याचार्यकृत न्यायावतारवार्तिक-वृत्ति. | ४१ विज्ञापिलेखसंग्रह विज्ञापिमहालेख - विज्ञापिनिवेणी
आदि अनेक विज्ञापिलेख समुच्चय. |
| २१ कवि धाहिलरचित पउमसिरीचरिउ. (अप०) | ४२ महेश्वरसूरिकृत नर्मदासुन्दरीकथा. (प्रा०) |
| | ४३ हेमचन्द्राचार्यकृत-छन्दोऽनुशास. |
| | ४४ खयंभुकविरचित पउमचरिउ. भा० ३ |

Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs

Dr. G. H. Buhler's Life of Hemachandrāchārya.

Translated from German by Dr Manilal Patel, Ph. D.

- 1 स्व. बाबू श्रीवहादुरसिंहजी सिंघी स्मृतिग्रन्थ [भारतीयविद्या भाग ३] सन १९४५.
- 2 Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume
BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
- 3 Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and its Contribution
to Sanskrit Literature By Dr. Bhogilal J. Sandesara,
M. A., Ph. D. (S.J.S 33)
- 4-5 Studies in Indian Literary History. Two Volumes.
By Prof. P. K. Gode, M A (S. J. S No. 37-38.)

ॐ संप्रति मुद्र्यमाणग्रन्थनामावलि ॐ

- | | |
|--|---|
| १ पट्टावलि संग्रह. | ६ रामचन्द्रकविरचित-मल्लिकामकरन्दादिनाटकसंग्रह |
| २ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, भाग २. | ७ तरुणप्रभाचार्यकृत पडावश्यकबालावबोधवृत्ति. |
| ३ फीतिंफौमुदी आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह | ८ प्रद्युम्नसूरिकृत मूलशुद्धिप्रकरण-सटीक. |
| ४ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीकर्मचन्द्रवचनप्रबन्ध. | ९ कुवलयमाला कथा, भाग २ |
| ५ गुणप्रभाचार्यकृत विनयसूत्र. (बौद्धशास्त्र) | १० छन्दोऽनुशासन, भाग २ |

मुनि श्री जिनविजयजी को

जिनका समग्र जीवन
सारस्वत यज्ञ एवं श्रम-यज्ञ के
समन्वय का एक सुभग प्रतीक-सा रहा है

सादर सख्तेह समर्पितं

हरिवल्लभ भायाणी

Table of Contents

	Page
GENERAL EDITOR'S FOREWORD	1-2
PREFACE	3-5
INTRODUCTION	7-46
I. A brief outline of the narrative in Sandhis 57-90	7-17
II. Metres of Sandhis 57-90	19-22
Appendix I Conspectus of the metres of Sandhis 1-90	23-27
Appendix II Metres of Svayambhū's Ritthanemicanu	28-35
III Miscellanea.	36-46
Find of another Tippāna on the Paumacariu Works ascribed to Svayambhū. Find of another MS of the Svayam bhūcchandas. A stotra by Svayambhū. Svayambhū's date. Caturmukha and Svayambhū.	
Appendix III Text of the stotra of Svayambhū...	46
Text of the Paumacariu, Sandhis 57-90	9-292
Yuddha-kānda (Sandhis 57-77)	9-906
Sandhi 57	9
" 58	10
" 59	14
" 60	29
" 61	26
" 62	38
" 63	49
" 64	42
" 65	44
" 66	62
" 67	69
" 68	62
" 69	64
" 70	86
" 71	903
" 72	994
" 73	924
" 74	932
" 75	984
" 76	946
" 77	964

Uttara-kānda (Sandhis 78-90)

१७७-२९२

Sandhi 78	१७७
” 79	१८७
” 80	१९४
” 81	२०१
” 82		२१०
” 83	२१९
” 84	२२८
” 85		२४२
” 86		२४९
” 87	२६०
” 88		२६९
” 89				२७६
” 90		२८३

Appendix IV - Tippana for Sandhis 1-67(5)

२९३-३०

Śabdasūcīh

३०६-३२६

Corrections and Alterations

३२७-३२८



General Editor's Foreword

Parts One and Two of Svayambhūdeva's *Paumacarru* were published in 1953 as Volumes No 34 and 35 respectively of the Singhi Jain Series. At that time it was expected that Part Three would be ready for publication in about two years' time. But it is after an interval of some seven years that I have been able to put this last part before the public. It is commonplace, but on that account not any less reassuring, to observe that successful completion of extensive and hard undertakings rests on the conjunction of numerous favourable factors, not a few of which habitually elude us or go beyond our control. I feel, therefore, a profound sense of satisfaction at seeing at last the full fructification of my long-cherished desire to put within the reach of a larger public, the pleasures and treasures of *Paumacarru*, the *kāvyaūdāmani* of Svayambhū. And even though the work of publication was spread over a period of about fifteen years, I consider myself, in view of my quite ripe age, to be in this regard more fortunate than the poet Svayambhū, who had to leave the composition of the *Paumacarru* unfinished, and whose son Tribhuvana took on himself to bring it to completion.

In my foreword to the First Part, I have already referred in brief to the great literary, linguistic and culture-historical worth of the *Paumacarru*, to my long-standing interest in that work, and to the periodical efforts made to create conditions favouring its publication. The Singhi Jain Series, all through its existence, has been striving, among other things, to make available to the scholars and lovers of India's priceless past, some unique works of Prakrit and Apabhramśa literatures. And towards fulfilment of that end, the Series has brought out works like the *Kathākosaprakaraṇa*, *Dhūrtāhijāna*, *Samdeśarāsaka*, *Paumasuricarru*, *Nānapañcamīkahā*, *Nammayāsundarikahā*, *Līlāvalahā*, *Kivalayamālā-kahā*, *Uktivyākṛtī-prakaraṇa* and *Jambucarīya* - all of them enjoying singular distinction in more than one way. Svayambhū's Apabhramśa Rāmāyana too, in virtue of its several exclusive distinctions, goes to serve the same end. Svayambhū's poetry has earned high encomiums for itself from his distinguished contemporaries and successors, as well as from modern lovers of Classical literature. His rich and vivid imagery, fluency of style and confident mastery of poetic craftsmanship are for anybody to perceive and appreciate. He would certainly appropriate a place of pride in any account of Classical Indian literature.

In fine, I offer my congratulations to my dear pupil and colleague Prof. H C Bhayani for bringing a long and arduous task to a successful end. He has fulfilled his assignment with creditable devotion and patience. Aside from preparing an authentic text of the epic, he has studied critically and exhaustively, several of its important aspects. Vastness of the work and considerations of time and space inevitably imposed limits on the number and extent of the aspects he studied, but even then in his introductions and glossaries to the different parts of the *Paumacariu* much valuable information has been extracted and systematically presented. In several ways he has specialized in Apabhramśa studies and through his distinguished contributions to Middle Indo-Aryan and especially Apabhramśa scholarship he has earned a creditable status for himself. I could not but say these few words even at the cost of repeating what I said in my Foreword to the First Part. His keen and ever-ready cooperation has made it possible to present *Paumacariu* to the public in a form consistent with the scholarly standards of the Singhi Jain Series. My good wishes are always with him in all his prospective scholarly undertakings, and I pray that he may have a long and active life so that the scholarly world may see numerous such research works accomplished at his hands.

The Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs, Government of India, have contributed a share towards the cost of publication of this work. We are thankful to them for this appreciation of the work of the Singhi Jain Series and the Bharatiya Vidya Bhavan.

JINA VIJAYA MUNI

PREFACE

This third and last part of the *Paumacarru* (PC), containing twentyone Sandhis of the Yuddha Kānda and thirteen Sandhis of the Uttara Kānda, completes the long-standing work of editing and publishing this earliest available and quite an outstanding Apabhramśa Purānic epic. Even though it had started printing already in 1953 when the second part appeared, the printing was frequently held up for long stretches due to various causes. Any way, for me it is a matter of no small satisfaction that the work could be at long last completed, *jananayanānanda-janeriyaë, āsisaë savvahö keriyë* 'with the delighting blessings of all', to use Svayambhū's own words. Due to its early age and manifold importance PC has aroused very keen interest in several scholars, as can be judged from their relevant writings¹. But several aspects of the work remain yet to be systematically exploited and explored, and some students are in fact currently occupied with a few of them. The quality and range of Svayambhū's poetry too cannot but charm an ever-widening circle of lovers of our classical literature.

There remains now the most pleasant duty of acknowledging obligations. Keen personal interest and invaluable guidance of Acharya Shri Jina-Vijayaḥ have been the prime inspiring factor in this undertaking from its start to finish. His vast knowledge of the rich documentary sources of Ancient and Medieval Indian culture, as also his great experience accumulated over a life-time that has been given to searching out, editing and interpreting those sources, was always readily available to me. Above all there was the highly inspiring example of his personal life, plain, straightforward, generous to a fault and dedicated to the cause of learning to such an extent that single-handed, it has achieved what would require work of several life-times. My multiple indebtedness to him cannot be recounted in full, let alone the question of repaying it. The one consolation I can

1 Besides the accounts, articles etc of V M Kulkarni, Harivamsh Kochar, Rahul Sankrityayan, Bholashankara Vyas and others, there has appeared a Hindi translation of the first 57 Sandhis prepared by Devendrakumara Jain. The translation, however, unfortunately gives the impression of having been done in a hurry and with frequent misunderstanding and rough-handling. This observation applies also with equal force to the PC text reproduced to accompany that translation. But despite these limitations the effort is to be commended for putting Svayambhū's work within the reach of a wider public.

take in this matter is that my labours could serve to realize Muniji's long-cherished desire to place Svayambhū's great work before the public. But public acknowledgement of indebtedness has always a formal ring about it, and due to my long association with Muniji and due to his personal interest in my work, I seem to have by now acquired something like a right, by constant use, over his affection and generosity. I can only earnestly wish that for many years to come he may continue to inspire, guide and bless us and offer at the shrine of Sarasvatī the prize fruits of his life-long labours.

Next I may take this opportunity to acknowledge the debt of my various predecessors in general in the field of Apabhramśa studies, and here special mention should be made of L. Alsdorf of Hamburg University. His masterly *Harivamśa-Purāna* is in several ways a pioneering work in Apabhramśa textual editing and text-based studies. The clear stamp of that work would be readily recognised on the method, form and character of text-editing and general studies presented in the *Paumacarīu*. Of course no presumptuous comparison is to be suspected in these words. I am only trying to say that I have greatly benefited by Alsdorf's method, insights and results as revealed by his edition of the Harivamśa portion of Puspadanta's *Mahāpurāna*.

For the loan of Mss. and other materials used in editing the text, and for the printing of the book, my sincere thanks are due to the following persons and institutions. The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona and Dr. P. K. Gode, the learned and ever-helpful Superintendent of the Mss. department; the Trustees of the Godikā Jain Temple Mss. Collection, Sangner and Dr. Hiralal Jain, Director, Vaishali Institute of Prakrit and Jainology, Muzaffarpur, the Managing Committee and the Secretary of the Śrī Digambar Atiśay Ksetra Śrī Mahāvīrjī, Jaipur, the trustees of the Digambar Jain Terahpanthī Baiā Mandir Śāstra Bhandār, Jaipur, late Pandit Nathuram Premi, the then General Secretary of the Manikyacandīa Digambar Jain Granthamala; the Trustees of the Ailaka Pannalal Sarasvatī Bhandār, Bombay; the Manager and the workers of the Nirnayasagar Press, Bombay.

Great credit goes to Śrī Rajendra Singh Singhi and Śrī Narendra Singh Singhi for their continued patronage to the Singhi Jain Series, which has since long become indispensable to

all students of India's past I cannot feel grateful for the inclusion of this Third Part also in the Series for publication.

To the Bharatiya Vidya Bhavan I owe so much that it would be futile to put it here in words I have received unhampered research and other facilities throughout my association with it. But when we think of the inestimable and multiform contributions made and still being made by Dr K. M. Munshi, the illustrious President of the Bhavan, through his vast number of creative, scholarly and critical-reflective writings, and through institutional activities, towards the cause of resuscitating and radiating the basic values of India's culture, Bhavan's encouragement to and manifold interest in the scholarly research is nothing to be wondered at In giving voice here, however, to my sense of gratitude to the Bhavan, I feel the satisfaction of discharging a genuine duty

Kartika Shuddha Pratipada
V S 2017
Bombay

H. C. BHAYANI

INTRODUCTION

1. A BRIEF OUTLINE OF THE NARRATIVE IN SANDHIS LVII - XC

YUDDHA - KĀṆḌA

Sandhi LVII Vibhīšana Insulted by Rāvana, Goes over to Rāma.

On hearing the sound of Rāma's war-drums Vibhīšana met Rāvana and tried to persuade him to give up Sītā and save himself from sin, and all others from destruction. Rāvana first confessed he was a slave of his senses. But Indrajit flared up against Vibhīšana for intimidating them in Rāma's name. Vibhīšana persisted in the same vein. Now Rāvana too got wild. He ordered Vibhīšana to leave Lankā. Smarting under the insult Vibhīšana along with his army, went over to Rāma. On Hanumat's advice, Rāma welcomed him and promised him the throne of Lankā. At that moment Bhāmandala too arrived along with his army, one thousand Aksauhini strong.

Sandhi LVIII Angada's Mission of Conciliation

Rāma in a final bid to save peace sent Angada to Rāvana with an appeal to return Sītā. But Laksmana urged him to adopt an aggressive attitude. Accordingly Rāma, Laksmana, Vibhīšana, Sugrīva, Hanumat and others sent provocative challenges to Rāvana through Angada. Angada approached Rāvana. The latter ridiculed Rāma's proposal. Indrajit supported him. Angada delivered the challenges and returned.

Sandhi LIX Description of Rāvana's Forces Poised for Battle

List of prominent warriors, parting scenes, spirited vows. Hasta and Prahasta were appointed to command the army, four thousand Aksauhini strong.

Sandhi LX Description of Rāma's Forces Poised for Battle.

List of prominent warriors, their strength, spirit and achievements; the army was two thousand Aksauhini strong. The heavenly nymphs, come there as spectators, argued as to which of the two sides would win.

Sandhi LXI. Fall of Hasta and Prahasta in the First Day's Battle

The opposite armies joined in battle. In the first encounter Rāma's forces were compelled to retreat. But shortly they rallied, and forced the enemy ranks to disperse. Thereupon Hasta and Prahasta rushed to the van, confronted Nala and Nila and eventually got killed by them. At sunset the fighting stopped for the day.

Sandhi LXII. High Morale of Ravana's Generals.

Jambuvat reassembled Pama's forces to form the impenetrable Lion Array (*siṁha-vyūha*). Ravana on his secret nightly inspection got a glimpse of the high morale of his loyal generals, whom he honoured with presents.

Sandhi LXIII. The Second Day's Engagements.

The next day hostilities were resumed. Santāpana, Prathita, Āyaca, Durita and Vighna from Pama's side fell fighting. At the day's end Ravana's side rejoiced. Rāma's side snorted under the setback.

Sandhi LXIV LXV. The Third Day's Engagements.

Fighting between Sardūla and Vajrodara, Bāhubali (and later Vijaya and Śvayambhū) and Śiṁhadamaṇa, Saṁkrodha and Khavīcarī, Vibhīn and Vidhi, Vikālatājar and Śambhu, Hanumat and Mālin (and later, Vajrodara, Jambumūlin and Mahodara)—the former from Rāma's side, the latter from Ravana's. Eventually Hanumat was surrounded all at once by a host of Ravana's warriors.

Single-handed Hanumat repulsed their attack. Jambuvat and others rushed to his help. Kumbhakarna came out to counter their onslaught. He spread a reign of terror. All the chief warriors of Pama fell upon him in concert. But with a magic missile, he put all the hostile forces to sleep. Sugriva countered it with its anti-missile. Thereafter Vajraṇṣ, Ghana-vāhana and Indrajit respectively engaged Viradhita, Bhamaṇḍala and Sugriva. The latter two were discomfited. Fettered by means of the Serpent-Missile, they were captured alive. Kumbhakarna caught Hanumat, but Aṅgada fell upon him and removed his clothes. Hanumat escaped. Vibhīṣaṇa informed Rāma about the capture of Sugriva and Bhamaṇḍala. Rāma used Garuḍa-Vidyā and effected their release.

Sandhi LXVI. The Fourth Day's Battle: Lakṣmaṇa Struck with Śakti.

Hala and Nala pressed hard on the enemy ranks. Each one from both the sides sought out his match and got engaged with him. Pavana was engaged by Vibhīṣaṇa. Lakṣmaṇa caught Indrajit, while Pama captured Kumbhakarna. Finding himself in great difficulty, Ravana threw a powerful Śakti on to Vibhīṣaṇa, but Lakṣmaṇa intervened, and was struck senseless.

Rāma fell upon Rāvana and worsted him six times over. At evening the hostilities ceased for the day.

Sandhi LXVII Rāma's Grief Rāvana's Incurability

Rāma's grief and lament The whole of the camp was aggrieved. Sītā too, when told about Laksmana's condition, lamented Rāvana was pained to learn Kumbhakarna captured But this did not make him budge from his position Within a day the fate of the battle would be decided, he thought Rāma was somehow consoled He vowed to kill Rāvana the very next day, if Laksmana did not come round Sugrīva organised the forces to form an impenetrable protective fortress around Laksmana's body.

Sandhi LXVIII The Story of Viśalyā

At that juncture, Prince Praticandra from Devasangitapura arrived there and told Rāma to fetch the ablution waters of king Dronaghana's daughter Viśalyā and sprinkle Laksmana with them Once he himself, battered by an enemy and fallen within the precincts of Ayodhyā, was revived and cured by Bharata by means of those magic waters Bharata had learnt about them from Dronaghana during a raging epidemic, when the latter's city alone in the whole kingdom had remained unaffected The story behind the wonderful properties of Viśalyā's waters was unfolded by a holy monk. In her previous birth Viśalyā was a Vidyādhara princess called Anangaśarā Punarvasu took her by force, but unable to counter the attack of the pursuing army, he dropped her in a wilderness and fled She practised austerities for thousands of years Once when she was being swallowed by a python, Saudāsa offered to kill the beast But she stopped him, consistently with her vow of Ahimsā Having died, she was reborn as Viśalyā, while Punarvasu was reborn Laksmana

Sandhi LXIX Viśalyā is Brought Laksmana Revives

Hanumat offered to fetch the healing waters before dawn Sugrīva and Bhāmandala became his assistants. They left by their aerial cars Passing over the ocean, the mountains Malaya and Kiskindha, rivers from Kishnavenā to Narmadā, and the Vindhya, they reached Ayodhyā and informed Bharata about Laksmana's condition Bharata's lament The Royal harem and the people too were aggrieved At Kaikeyā's request, Dronaghana sent Viśalyā herself along with one thousand girls to

Sandhi LXII. High Morale of Rāvanas Generals

Jāmbūvat reassembled Rāma's forces to form the impenetrable Lion Array (siṃha-vyūha). Rāvana on his secret nightly inspection got a glimpse of the high morale of his loyal generals, whom he honoured with presents

Sandhi LXIII The Second Day's Engagements

The next day hostilities were resumed Santāpana, Prathita, Ākrośa, Durita and Viḡhna from Rāma's side fell fighting At the day's end Rāvana's side rejoiced Rāma's side smarted under the setback

Sandhi LXIV-LXV The Third Day's Engagements

Fighting between Śārdūla and Vajrodara, Bāhubali (and later Vijaya and Svayambhū) and Simhadamana, Samkrodha and Khavicārin, Vilāpin and Vidhi, Viśālatejas and Śambhu, Hanumat and Mālin (and later, Vajrodara, Jambūmālin and Mahodara)—the former from Rāma's side, the latter from Rāvana's Eventually Hanumat was surrounded all at once by a host of Rāvana's warriors

Single-handed Hanumat repulsed their attack Jāmbūvat and others rushed to his help Kumbhakarna came out to counter their onslaught He spread a reign of terror All the chief warriors of Rāma fell upon him in concert But with a magic missile, he put all the hostile forces to sleep Sugrīva countered it with its anti-missile Thereafter Vajranās, Ghana-vāhana and Indrajit respectively engaged Virādhita, Bhāmandala and Sugrīva The latter two were discomfited Fettered by means of the Serpent-Missile, they were captured alive. Kumbhakarna caught Hanumat, but Angada fell upon him and removed his clothes Hanumat escaped Vibhīsana informed Rāma about the capture of Sugrīva and Bhāmandala Rāma used Garuda-Vidyā and effected their release

Sandhi LXVI The Fourth Day's Battle : Laksmana Struck with Śakti

Nala and Nila pressed hard on the enemy ranks Each one from both the sides sought out his match and got engaged with him. Rāvana was engaged by Vibhīsana Laksmana caught Indrajit, while Rāma captured Kumbhakarna Finding himself in great difficulty, Rāvana threw a powerful Śakti on to Vibhīsana, but Laksmana intervened, and was struck senseless

Sandhi LXXIV The Last Battle

Rāvana started for a final show-down with Rāma. Seeing ill-omens Mandodarī tried to dissuade him, but to no avail. Description of Rāvana going to the battle-field. Lakshmana and others on the opposite side were all prepared. A very fierce fighting ensued. Descriptions of the dust raised, of the heroic deeds of the fighting warriors.

Sandhi LXXV The Fall of Rāvana.

Mīga worsted Hanumat, Bhāmandala, Sugrīva and Vibhīšana in successive encounters. Rāma pushed back Mīga. Rāvana intervened. Their fighting continued incessantly for seven days, when Lakshmana intervened. Rāvana used Bahurūpinī which endlessly multiplied his form and renewed amputated limbs. After ten days' incessant battle Rāvana threw the most powerful Cakra at Lakshmana. The Cakra, instead of killing, acknowledged him as its master. Struck with the same Cakra by Lakshmana, Rāvana fell dead.

Sandhi LXXVI Grief of Rāvana's Family

Laments of Vibhīšana, of Mandodarī and other queens, of Kumbhakarna, Indrajit etc.

Sandhi LXXVII Rāvana's Cremation

Rāma consoled Vibhīšana. Funeral pyre was prepared. Rāvana's body was laid thereon. The pyre was lighted. Description of the burning pyre. Rāvana's relatives performed obsequies. Rāma affirmed his trust in Vibhīšana.

UTTARA-KĀNDA

Sandhi LXXVIII Reunion with Sītā Triumphant Entry into Lankā Departure for Ayodhyā

On hearing Monk Aprameyabala's impressive sermon on the all-devouring and inescapable Kāla, Indrajit, Ghana-vāhana, Mrga, Kumbhakarna, Māricī, Mandodarī and others took ordination. At the instance of Vibhīšana, Rāma met Sītā and received her with great feeling and admiration.

Description of the triumphal entry into Lankā. Rāma sang a hymn at the Śāntinātha temple. Vibhīšana was crowned king of Lankā. All the princesses Rāma and Lakshmana had acquired on their way from Ayodhyā came over to Lankā. Rāma spent there six years. Nārada gave the news of Rāma and Lakshmana to suffering Sukośalā and going to Lanka conveyed to Rāma her

grief due to long separation from him Rāma decided to return to Ayodhyā at once. Vibhīšana transformed Ayodhyā into a golden city. On their way to Ayodhyā Rāma showed to Sītā from their aerial car all the places below, rich in associations of their eventful past.

Sandhi LXXIX Return to Ayodhyā Bharata renounces the world.

Bharata gave a warm welcome to Rāma. Glorious entry into Ayodhyā. Reunion of Rāma and Lakṣmaṇa with their mothers. Once Bharata became disgusted with the ephemeral worldly pleasures and expressed his decision to renounce them. On Rāma's instruction the young ladies of the harem tried to allure Bharata to sensual pleasures, but he was unmoved. The Royal elephant Trijagadvibhīšana once ran amuck, but on seeing Bharata he recalled his previous birth and was pacified. But he gave up food and drink. This mystery of the strange behaviour of the elephant was solved by the monk Kulabhīšana by narrating to Rāma a previous birth of Bharata. Thereupon Bharata along with Kaikeyā and many others renounced the world. Rāma was crowned king.

Sandhi LXXX Śatruḡha's Conquest of Mathurā.

Rāma honoured each of his associates with a share of his territories. Śatruḡha decided to win for himself Mathurā from king Madhu. He besieged the city. In the battle that ensued, Madhu's son Lavanamahārṇava was killed, and Madhu too was fatally wounded by Śatruḡha, who now became the lord of Mathurā.

Sandhi LXXXI Sītā's Exile Birth of Lavana and Ankuṣa

Rāma satisfied Sītā's pregnancy-longing for performing a ceremonial worship of the Jina. In the meanwhile people's representatives approached Rāma and complained that loose women had been justifying their behaviour with the instance of Rāma's acceptance of Sītā even when she had been kept by Rāvana for a year. Rāma was shocked by this, but not to displease the people and giving consideration to inborn fickleness of women, he ordered his commander, in spite of Lakṣmaṇa's protests, to take away Sītā and abandon her in wilderness. Sītā, shattered with grief and lonely, bewailed her tragic lot in the terrific wilderness. Vajrajaṅgha, Rāma's sister's husband, happened to pass through that

region. He took Sītā with him and gave her shelter as to a sister. Sītā gave birth to twins. They were named Lavana and Ankuśa. They grew up, strong and powerful.

Sandhi LXXXII Exploits of Lavana and Ankuśa.

Their Conflict with Rāma and Lakṣmana

As king Pṛthu spurned Vajrajanḡha's proposal to give his daughters in marriage to Lavana and Ankuśa, Vajrajanḡha took an invasion against him. He first defeated Pṛthu's ally Vyāghra-ratha. Later Pṛthu also surrendered and married his daughters to Lavana and Ankuśa. They conquered all those kings who had not so far yielded even to Rāma's might. Thereafter being incited by Nārada, who narrated to them their mother's tragic story, they decided to take revenge on Rāma and invaded Ayodhyā. Accepting their challenge Rāma and Lakṣmana offered battle. In their combat with Lavana and Ankuśa respectively, Rāma and Lakṣmana got into serious difficulties. At last Lakṣmana released the Cakra, over and over again, against Ankuśa, but every time it returned without harming the latter. Then Nārada revealed to Rāma and Lakṣmana the identity of the two princes. The hostilities ended.

Sandhi LXXXIII Sītā's Ordeal and Renunciation

Lavana and Ankuśa were given a royal welcome to Ayodhyā. Hanumat and others pressed Rāma to accept Sītā back. Vibhīṣana called Trijatā to Ayodhyā, for testifying to Sītā's purity. On her advice Rāma decided to hold an ordeal for Sītā, who though unwilling, was persuaded by Vibhīṣana and others to come to Ayodhyā. Sītā undertook to pass the fire-ordeal. Rāma got prepared a terrible fire. Sītā entered it fearlessly. Through her power of chastity the blazing pyre was transformed into a beautiful surging lake. Sītā was seated in its midst on a divine throne. All those present there paid their homage to her. Rāma offered ample apologies and readily declared his reacceptance of her. But Sītā, disgusted with the world, took ordination from the monk Sarvabhūṣana. Thereupon Rāma swooned. Reviving, he rushed to attack Sarvabhūṣana. But as he approached the enlightened sage, his anger subsided.

Sandhi LXXXIV Accounts of Previous Births of the Principal Characters

On Vibhīṣana's request monk Sakalabhūṣana narrated the previous births of Rāma, Lakṣmana and all other chief personages.

Merchant Śigaradatta in Kāśyapūṭi promised to give his daughter Guṇavati in marriage to Niyadatta's elder son Dhanadatta. But his wife Ratnaprabhā wanted her to be given to Śrīkīnta, who was wealthier. Coming to know this Dhanadatta's younger brother Vasudatta, on the advice of his father's Brahmin friend Yajñabali, once attacked Śrīkīnta. Both died fighting and were reborn as deer. Dhanadatta, feeling depressed due to these developments, left his home to see the world. Guṇavati could not bring her mind to marry anybody else. She somehow developed an utter dislike for monks and religion. Having died, she was born as a female deer in the same place where these two deer lived. They fought with each other for her sake, died and thereafter passed through a series of animal births, cursed every time with the spirit of vengeance.

Dhanadatta on his wanderings once accepted Anuvratas from a monk. After his death, he was reborn as a god and thence as a merchant's son named Padmaruci. Once he recited the Namaskāras to a dying bull, who was on that account reborn as prince Visabhadhvaja in the same city. Remembering his previous birth, he got a temple constructed on the very spot where he had died as a bull and got the dying scene painted on the walls. As Padmaruci happening to see it showed signs of interest, he was identified as the benefactor of the previous birth. They became friends, did many pious deeds, died and were reborn as gods. Thence passing through a few more births, Padmaruci was born as Prince Śrīcandra. He practised numerous vows and austerities and was reborn as a god and finally as Daśaratha's son Rāma. Visabhadhvaja was reborn as Sugriva. Śrīkīnta wandering through many births was reborn as prince Śāmbhu and similarly Vasudatta was reborn as his preceptor Śrībhūti. Guṇavati due to the merits earned by hearing Namaskāras in her elephant birth, was reborn as Śrībhūti's daughter Vegavati. Śāmbhu killed Śrībhūti for refusing to give him Vegavati, and thereafter raped her. She cursed that she would be the cause of his death. She became a nun, and after her death was reborn in Brahma Heaven. Śāmbhu went to hell, and thereafter wandered through many low births. Once in his birth as a Brahmin's son he became a monk, practised austerities and died with a longing to be born as a Vidyādhara. He was reborn as Ravana. Śrībhūti, in his birth as the Vidyādhara Punarvasu practised austerities and was reborn as Lakṣmana. Guṇavati's brother has been born ulti-

mately as Bhāmandala Yajñabali has become Vibhīšana Gunavati has become Sītā In her birth as Vegavati, she first circulated a false charge about a monk, but later on, punished with a swelling face by the Śāsana-devatā, she owned up her falsehood, in consequence Sītā had to suffer false accusation

Vālin, in his previous birth as a deer had died while hearing sacred texts, in his birth as a Jain layman he led a very pious life, and in his birth as a prince practised many austerities Hence he was born with extraordinary powers

Sandhi LXXXV. Previous Births of Lavana and Ankuśa
Kīntavakra's Renunciation Sītā is Reborn as Indra

Lavana and Ankuśa in their previous birth as sons of a Brahmin offered food to a pious monk Hence they passed through various high births and were now born as Sītā's sons

These accounts of various rebirths proved highly instructive to the audience Rāma's commander Kīntavakra renounced the world with a promise to Rāma to enlighten him at proper time. Rāma, repenting his treatment of Sītā, went to her and paid his homage. All returned to Ayodhyā Rāma and Laksmana missed Sītā very much Sītā practised rigorous austerities She died and was born as Indra in the sixteenth heaven.

Sandhi LXXXVI Svayamvara of the Princesses of
Kāñcanasthāna Fate of Bhāmandala and Hanumat

Lavana and Ankuśa were chosen by the princesses Mandākinī and Candrabhāgā in a Svayamvara Feeling offended by this Laksmana's sons were about to strike up a row, but their eight elder brothers dissuaded them Feeling dejected, they renounced the world

Once in the rainy season, Bhāmandala was struck dead by lightning

Hanumat once while returning from a pilgrimage saw a meteor fall and disappear, and being at once thrown into the mood of renunciation, he gave up the world, and his wives, along with Pavanañjaya and Añjanā followed Hanumat practised austerities and attained omniscience.

Sandhi LXXXVII Laksmana's Death

Once Indra talked before the gods about the great merits of the human birth which could lead to liberation One god pointed

out the infatuations the human beings were prone to, citing Rāma as a good illustration. India explained that Rāma did not give up the world out of unbounding love for Laksmāna, who cannot endure separation from Rāma even for a moment. Two gods, out of curiosity, went to Rāma's palace and loudly uttered the words 'Alas, Rāma died,' so as to reach Laksmāna's ears. That very moment he fell dead. Taken aback, the repenting gods hurried back to the heaven. Laments of Laksmāna's queens and mothers. Overwhelmed with the grief, Lavāna and Ankuśa renounced the world. Rāma's lament; the whole of Ayodhyā wept. Vidyādharma kings, on receiving the news, rushed to Ayodhyā. Vibhīšana tried to console Rāma.

Sandhi LXXXVIII Rāma's Loss of Reason and Renunciation.

Due to great grief Rāma went out of his mind. Under the delusion that Laksmāna was alive, he daily bathed and clothed and fed the corpse and carrying it on his shoulders he wandered for six months. Taking advantage of his plight, the sons of Indrajit and Sunda invaded Ayodhyā. But Jatāyīn and Kītāntavaktīa, both as gods, drove them away by creating a magic army. Then Kītāntavaktīa, with a view to cure Rāma, appeared before him as indulging in many an absurd activity. Jatāyīn too appeared, carrying a corpse on his shoulders. These opened Rāma's eyes. The two gods exhorted him. Being asked by Rāma, they revealed their identity. Rāma renounced the world. So did Śatughna, Vibhīšana, Sugrīva and others, including Rāma's mothers. Rāma practised austerities on the Kōtasilā.

Sandhi LXXXIX Rāma Attains Omniscience

Seeing Rāma practising austerities, Sītendīa, out of attachment, tried to tempt him by assuming the form of Sītā and inviting him to share choice pleasures in her company. Ten thousand Vidyādhara damsels were also created to lure Rāma. But he remained steadfast in his meditation and consequently attained Kevala. Sītendra apologized, and thence went to hell to exhort Laksmāna. Śambuka, Rāvāna and Laksmāna were suffering torments of hell and still fighting with each other. Sītendīa exhorted them to give up anger. They were pacified. His effort to lift them from hell failed. He returned to Rāma after persuading Rāvāna and Laksmāna to accept Samyaktva. Rāma admonished him to give up attachment.

Sandhi XC. Liberation of Rāma and Others

In reply to Sitendra's enquiry, Rāma narrated the destinies of Daśaratha, Lavana, Aṅkuśa, Aparājītā and others. Bhāmandala had once created a magic city in order to help three monks stranded in wilderness during a rainy season. He also used to feed monks. As a reward for those good deeds, he was reborn in the Southern Kūru-land. Rāma also narrated the future births of Rāvana, Lakṣmana and of Sitendra himself. The latter, after pilgrimage and a visit to Brāmandala, returned to his heaven. Lavana, Ankuśa, Indrajit, Ghanavāhana, Kumbhakarna and Rāma all attained Nirvāna in due course.



II METRES OF PAUMACARIU, SANDHIIS 57—90

A. Metres of the *Kaṭavakā*-commencing piece

No	Name	Type	Rhymescheme	No. of moras per Pāda	Gana-scheme	Place of occurrence with Kad if any
1	Helā (Dvipadī)	Samā Dvipadī	a, b	22	6 + u - u + 4 + u - u + - -	59, 63, 85
2	Kāmalakḥā	"	"	27	6 + u - u + 4 + 4 + 4	
3	Dvipadī	"	"	28	(u - u avoided) + u - -	66
4	Jambhettikā	Catuspadī	a, b; c, d (see remarks)	9	6 + u - u + 4 + 4 + u - u - 70, 75 4 (u - u avoided) + - u - 81	
5	Apsarovilasita	"	"	12	6 + 4 (u - u avoided) + uu	77
6	Vadanaka (See remarks)	"	"	16	6 + 4 + 4 (u - u avoided) + 2 72	
7	Mātrā-Mañjarī	Dvibhaṅgī of a Viśamā Pañca- padī and a Samā Dvipadī	c, e f, g		a 5 + 5 + 4 + u b, d 4 + 4 + uu c, e 5 + 5 + u - uu f, g 3 + 3 + 4 + 4 + 1 (u - u avoided) + u -	79
8	Pāranaka	Samā Dvipadī	a, b	15	4 + 4 + 4 + uu	60, 61, 3, 62, 2-5, 7, 9-13, 63, 8, 9, 64, 3, 5, 6, 10-13, 66, 2, 12, 14, 68, 1-7, 9-13, 71, 3, 4, 12-14, 16, 17, 74, 1, 4, 9 (11, 4, 8), 16, 18, 78, 1-10, 12-20, 80, 1-7, 9, 10, 12, 13, 84, 7, 23, 85, 7; 87, 7, 10, 11, 88, 9, 10, 89, 6, 90, 1, 2, 8, 9, 10.

B - Metres of the *Yamakas* or the *Kāvānaka*-body

(a.) The Principal Metres

Samā Dvipadī	a, b	15	4 + 4 + 4 + uu
--------------	------	----	----------------

No	Name	Type	Rhymescheme No. Pāda per Pāda	Place of occurrence (Sandhu No with Kad if any)
9	Paddhadrikā	" "	16	4 + 4 + 4 + u - u 58, 59, 60, 2 (1), 8 (11, 7, 8), 10 - 12; 61, 1, 5, 7, 9 - 14, 63, 1 - 5, 7, 64, 1; 2, 4 - 7, 9 - 15, 65, 1 - 9, 66, 3, 7, 10, 11, 69, 71, 7, 8, 10, 72, 1 - 14, 74, 1 (11, 7, 8), 2, 5, 9 (ex. 11, 4, 8), 10 - 12, 14, 17, 75, 1, 2, 4 - 9, 11 - 22, 79, 14, 82, 1 - 13, 15 - 19, 84, 1, 13, 16, 85, 3 4, 10, 86, 1 - 4, 6, 8 - 14, 16 - 18, 88, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 89, 7, 9, 12, 90, 4
10	Vadanaka	" "	" "	6 + 4 + 4 + uu 57, 1, 2, 12, 60, 8 (11, 1 - 6), 61, 2, 6, 8, 62, 6, 8, 14, 63, 6, 10 - 12, 66, 1, 6, 9, 13, 67, 68, 8, 70, 71, 1, 2, 73, 1, 2, 4 - 6, 81 - 4, 74, 3, 6 - 8, 13, 15, 76, 77, 79, 1 - 13, 81, 1 - 8, 11 - 15 83, 84, 2 - 6, 8 - 12, 14, 15, 17 - 22 24, 25, 85, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 86, 19, 87, 1 - 3, 12, 15, 88, 1, 5, 11, 89, 1 - 5, 8, 10, 11, 13, 90, 3, 5 - 7, 11, 12

(b) The Variation Meters
(a) Non-repetitive Mātrā Metres.

	Samā Dvīpadi	a, b	16	4 + 4 + 4 + 4
11	Rayadā	"	"	4 + 4 + 4 + 4
12	Māgadhapratyadhikā	"	"	4 + 4 + 4 + -
13.	Mattamātanga	"	"	6 + 4 + 4 + 2
14.	Adullā	"	" (Yamaka)	"

59, 1, 60, 3
60, 1
59, 3, 60, 4
57, 4, 6, 8, 10

No	Name	Type Rhymescheme per Pāda	No of moras	Gana-scheme	Place of occurrence (Sandhi No with Kad if any)
15	Utprahāsini	"	"	6 + 4 + u - u -	60 6
16	Vilāsini	"	"	3 + 3 + 4 + 3 + u -	57 3, 5, 7, 9, 11, 64 8, 75 3, 81 10, 86 7
17	Helā	"	22	6 + 4 + 4 + 4 + - -	66.5
18	Utsāha	"	24	4 + 4 + u - u + 4 + u - u - - 88 4	
19	Dvipadi	"	28	6 + u - u + 4 + 4 + u - u - 60 7, 86.15	
20	Bhramarapada	(see remarks)	rhyme-scheme 28 of the Satpadi	10 + 8 + 10	86 5

(b.) Repetitive Mātrīā and Aksaragana Metres

Samā Dvipadi	a, b	8 syl	four times u -	59 7, 61 4, 71 6, 11 (II 25 - 32), 73 7, 80 8, 82 14
21	Pramāni (Nārāc)	"	"	59 2
22	Samāni (Tomara)	"	thrice (- uu) + - -	59 8, 71 11 (II 1 - 8),
23	Dodhaka	"	11 "	71 5
24	Mātrāsamaka	"	16 moras	59 6
25.	Totaka	"	12 syl -	75 10
26	Manthāna	"	10 moras	66 4, 78 11
27	Somarāji	"	6 syl.	71 9
28	Madanāvātara	"	20 moras	60 5, 66 8, 72 3 (II 1 - 4), 81.9
29	Bhujangaprayāta	"	I four times uu uu u	59 1
30	Candakāla Dandaka	"	II " uu u uu	59 10, 71 11 (II 17 - 24), 80 11
		"	III " u uu uu	71 15, 72 15, 73 3 (II 5 - 8)
		"	unrhymed	
		12 syl	uuuu + any number of - u -	
		Uariable		

(c.) Non-repetitive Aksaragana Metres.

31	Kumārālakṭā	Samā Dvipadi	a, b	7 syl	u - u u u - - 71 11 (II 9 - 16)
32.	Parivanditā (Svāgatā)	"	"	11 "	- u - u u u - u u - - 59 5

C. Metres of the Ghattā or the Kadavaka-closing piece

33	Śrīhaviṛmbhita	Antarasamā	<i>a, b</i>	6, 13	63
		Caturpadī			
34	Manmathatilaka	"	"	7, 13	65, 66
35	Abhisārikā	"	"	8, 12	60
36	Ratnāvālī	"	"	8, 16	77
37	Ketalīkusuma	"	"	9, 14	85
38	Trivalītarangalā	"	"	9, 16	72
39	Kāminihāsa	"	"	11, 12	62
40	Premavilāsa	"	"	11, 14	70
41	Kāñicanamālā	"	"	11, 15	73
42	Abhinavavasantaśrī	"	"	13, 9	89
43	Bhramaravilāsa	"	"	13, 10	80
44	Sahakārakusumamañjarī	"	"	13, 14	68, 82
45	Kāminīkrīdanakā	"	"	13, 15	79
46	Kāminīkankanaḥasta	"	"	13, 16	57, 76, 86
47	Anangalalitā	"	"	14, 13	61 (ex, 1, 2), 67, 83, 84, 90
48	Manmathavilasita	"	"	15, 13	69, 75, 78, 81, 87
49	Kuñjaravilasita	Ardhasamū	<i>a, b, c, d</i>	14, 12	64
		Catuspadī			
50	Pōranaka	Sarvasamā	"	15	74
		Catuspadī			
51	Paddhadīkā	"	"	16	59, 88
52	—	Ṣatpadī	<i>a, b, d, e, c, f</i>	6, 8, 13	61 (1, 2)
		(see remarks)			
53	Chaddanīkā	"	"	10, 8, 13	58
54	Rasanādāma	"	"	12, 8, 13	71

Remarks—No 4 is called Jambhittā in the Mss P, S. In the first Kadavaka the rhyme scheme is *a, b, c, d* and the refrain *tēna tēna tēna citem* is repeated after each Pīda. For all the remaining Kadavakas the refrain is absent in the Mss. The rhyme *a, b, c, d*, is found in the head stanzas of Kad 1 to 6 and 14 only. For the rest the scheme is *b, d*. No. 6 also is said by the Mss to be Jambhittā. But in that case, the opening piece would consist of two stanzas or eight lines. Morastructure too has to be adjusted to suit the scheme of Jambhittā. It appears to me now more logical to look upon the commencing piece of Sandhi 72 rather as Vadanaka, and consequently the lines are to be read as sixteen-moraic instead of eight-moraic as printed. The same remarks apply to the metre of the commencing piece of Sandhi 48 in supercession of what has been said on p 18 of the introduction to Part II. No 20 can also be looked upon as a Satpadī (as is suggested in the text by spacing) with the scheme 10, 8, 9. Similarly No 52 can be taken to be the same as No 47 with internal rhymes.

APPENDIX I

Conspectus of all the Metres of PC Sandhis I—XC

I Metres of the Kadavaka-commencing piece

No	Name	Type	Rhyme- scheme	No of moras per pāda	Occurrence (Sandhi No)
1	Mañjarī	Samā Dvīpadī	<i>a, b</i>	21	19, 45
2	Helā	„	„	22	17, 25, 59, 63, 85
3	Sālabhañjikā	„	„	24	46
4	Kāmalekhā	„	„	27	66
5	Dvīpadī	„	„	28	13, 40, 51, 70, 75
6	Āranāla (with internal rhymes)	„	<i>a, b, d, e, c, f</i> partly	30 (12+8+10 or 10+8+12)	53
7.	Jambhettikā	„ Catuspadī	<i>a, b, c, d,</i> partly <i>b, d</i>	9	81
8	Apsarovilasita	„	<i>a, b, c, d</i>	12	77
9	Gandhodakadhārā	„	<i>a, b, c, d</i>	13	3, 49
10	Pāranaka	„	„	15	50
11.	Vadanaka	„	„	16	48, 72
12	Nidhyāyikā	„	„	19	52
13.	Dohā	„	<i>b, d</i>	13,11	54
14.	Mātrā-Mañjarī	Dvībhāṅgī of an Antara Samā Pañcapadī and a Samā Dvīpadī	<i>c, e, f, g</i>	15, 11, 21	74

II Metres of the Yamakas or the Main Body of the Kadavaka

A The Principle Metres

Their description is as follows

Name	type	shyme scheme	No of mosas per Pāda
Pāranaka	Samā Dvīpadī	<i>a, b</i>	15
Paddhadikā (Paddhadīā)	„ „	„	16 (end <u>uuuu</u>)
Vadanaka	„ „	„	16 (end <u>uuuu</u>)

Their places of occurrence are as follows

- 15 Pāranaka—1 (1, 3), 5 (6), 6, 9 (1, 11, 13, 14), 12, 15, 19, 23 (1, 10), 25 (8), (=No 10) 26 (16), 27 (1-8, 10-14), 29 (6), 30 (1, 3, 5, 6), 32 (7, 11), 33, 34 (1-2, 4-9, 11), 36, 39 (1-9, 11-12), 43 (1-3, 11, 13, 14, 16-19), 44 (14), 45 (5, 6, 10, 11), 47 (2), 53 (6), 54 (1-6, 12, 16), 60 (9), 61 (3), 62 (2-5, 7, 9-13), 63 (8, 9) 64 (3, 5), 65 (10-13), 66 (2, 12, 14), 68 (1-7, 9-13), 71 (3, 4, 12-14, 16, 17), 74 (1 4, 9 11 4, 8, 16, 18), 78 (1-10, 12-20), 80 (1-7, 9, 10, 12, 13), 84 (7, 23), 85 (7), 87 (7, 10, 11), 88 (9, 10), 89 (6), 90 (1, 2, 8-10)
- 16 Paddhadikā—1 (4-11, 13, 15, 16), 3 (13), 4, 7, 10, 13, 16, 18, 22, 23 (13), 24 (Paddhadīā) (9, 10), 25 (2, 5, 9, 10, 17), 27 (15) 29 (9-11), 30 (8-11), 31 (3-10, 13-16), 32 (2, 6), 37, 39 (10), 40 (4, 13, 15, 18), 43 (4-10, 12, 15), 45 (1-3, 7, 13), 48, 49 (8), 51 (1, 3-10, 12-13, 15), 54 (7,

9, 13-14), 56 (3-6, 8-12, 14-15), 58, 59 (9), 60 (2 18 11 7, 8, 10-12), 61 (1, 5, 7, 9-14), 63 (1-5, 7), 64 (1, 2, 4-7, 9-15), 65 (1-9) 66 (3, 7, 10, 11), 69, 71 (7, 8, 10), 72 (1-14), 74 (1 11 7, 8, 2, 5, 9 ex 11 4, 8, 10-12, 14, 17), 75 (1, 2, 4-9, 11-22) 79 (14), 82 (1-13, 15-19), 84 (1, 13, 16), 85 (3, 4, 10), 86 (1-4, 6, 8-14, 16-18), 88 (2, 3, 6, 7, 8, 12, 13), 89 (7, 9, 12), 90 (4)

17 Vadanaka-1 (2, 12, 14), 2, 3 (2-12), 5 (1-5, 7-16), 8, 11, 14, 17 (1, 7, 9, 11, (=No. 11) 13-15, 17, 18), 20, 21, 23 (2-7, 9, 11, 12, 14, 15), 24 (1, 3-8, 11-15), 25 (1, 3, 4, 6, 7, 11-16, 15-20), 26 (1-15, 17-20), 28, 29 (1 11 1, 2, 12, 2-5, 7, 8), 30 (2, 4, 7), 31 (1, 2, 11, 12), 32 (1, 4, 5, 8-10, 12-14), 34 (3, 10, 12, 13), 35, 38, 40 (5, 11, 14), 41, 42 (1-9, 12), 44 (1-4, 6-13, 15, 16), 45 (4, 12, 14, 15), 46 (9), 47 (1, 3-10), 49 (1-7, 9-20), 50, 52, 53 (2, 4, 5, 7-12), 54 (8, 10, 11, 15), 55 (1-4, 6-12), 56 (2, 13), 57 (1, 2, 12), 60 (8 11 1-6), 61 (2, 6, 8), 62 (6, 8, 14), 63 (6, 10-12), 66 (1, 6, 9, 13), 67, 68 (8), 70, 71 (1, 2), 73 (1, 2, 4-6, 8-14), 74 (3, 6-8, 13, 15), 76, 77, 79 (1-13), 81 (1-8, 11-15), 83, 84 (2-6, 8-12, 14, 15, 17-22, 24, 25), 85 (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12), 86 (19), 87 (1-5, 12, 15), 88 (1, 5, 11), 89 (1-5, 8, 10, 11, 13), 90 (3, 5-7, 11, 12)

B The Variation Metres.

(a) Non-repetitive Mātīā Metres

Samā Dvīpadī

No	Name	No of moras per Pāda	Place of Occurrence
18	Karīmakarabhujā-I	8 (end <u>uuu</u>)	27 (9), 40 (8), 51 (14)
19	„ -II	„ (end <u>uuu</u>)	40 (7)
20	Vasudvīpadī	8 (=3+5)	29 (1 11 3-11)
21	(A variation of Pāranaka ?)	15 (=4+4+4+u- , Jagana excluded)	56 (7)
22	Rayadā	16 (=4+4+4+4)	59 (4), 60 (3)
23	Māgadhapratyadhikā	16 (=4+4+4+ - -)	60 (1)
24	Mattamātānga	16 (=6+4+4+2)	59 (3), 60 (4)
25.	Adillā (=Nos 11 & 17 with yamaka)	16 (=6+4+2+ <u>uu</u> <u>uu</u>)	57 (4, 6, 8, 10)
26	Utprahāsini	16 (=6+4+u-u-)	60 (6)
27	Vilāsini -I	16 (=3+3+4+3+u-)	17 (12), 23 (8), 40 (2), 42 (11), 46 (1-3, 5, 7-8), 55 (5), 57 (3, 5, 7, 9, 11), 64 (8), 75 (3), 81 (10), 86 (7)
28	Helā (= No 2)	22	60 (5)
29	Candralekhā (?) -I (with internal rhymes & caesuras at 10, 18)	24 (=6+ <u>uuu</u> +4+ <u>uuu</u> +4+ -)	40 (16)
30	Candralekhā (?) -II (with internal rhymes & caesuras at 10, 18)	24 (=6+ <u>uu</u> +4+ <u>uuu</u> +4+ -)	53 (1, 3)

31	Sālabhañjikā (= No 3)	24 (= 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3)	42 (10)
32	Dvīpadī (= No 5)	28 (6 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + -)	60 (7), 86 (15)
33	Bhramarapada (with internal rhymes)	28 (6 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + -)	86 (5)
	at 10, 18)	jagana excluded)	

Viśamā Dvīpadī

34	Sārdha-Paddhadikā (?) -I (= Karīmakarabhujā-I & Paddhadikā)	8, 16	17 (8)
35	Sārdha Paddhadikā (?) -II (= Paddhadikā & Karīmakarabhujā)	16, 8	40 (9)
36	Sārdha-Vadanaka (= Vadanaka & Karīmakarabhujā II)	16, 8	40 (10)

(b) Repetitive Mātrā Metres

No	Name	No of moras per Pāda	Place of occurrence
37	Manthāna	10 (= <u>uu</u> <u>uu</u> u twice)	75 (10)
38	Madanāvātāra-I	20 (= <u>uu</u> u <u>uu</u> four times)	3 (1), 9 (12), 24 (2), 46 (4, 6), 60 (5), 66 (8), 72 (3 1-4), 81 (9)
39	Madanāvātāra-II	20 (= <u>uu</u> <u>uu</u> u four times)	46 (10), 71 (9)
40	Madanāvātāra-III	20 (= u <u>uu</u> <u>uu</u> ,, ,,)	59 (1)
41	Mātrāsamaka	16 (<u>uu</u> <u>uu</u> ,, ,,)	71 (5)

(c) Non-repetitive Aksaragana Metres.

Samā Dvīpadī.

No	Name	Scheme	Place of Occurrence
42	Kumāralalitā	u - uuu - -	71 (11 9-16)
43	Parivanditā (= Svāgatā)	- u - uuu - uu - -	59 (5)

(d) Repetitive Aksaragana Metres

Samā Dvīpadī

No	Name	Scheme	Place of Occurrence
44	Pramānī (= Nārāca)	u - four times	17 (16), 32 (3), 40 (12), 44 (5), 45 (8), 53 (9 4-7), 59 (7), 61 (4), 71 (6, 11 25-32), 73 (7), 80 (8), 82 (14,
45	Samānī (= Tomara)	- u four times	40 (6), 45 (9), 59 (2)
46	Somarājī	u - - twice	66 (4), 78 (11)
47	Bhujāñgaprayāta	u - - four times	40 (3), 56 (1), 59 (10), 71 (11 17-24) 80 (11)
48	Totaka	uu - four times	59 (6)
49	Dodhaka	- uu thrice + - -	59 (8), 71 (11 1-8)

Visamā Dvīpadī

No	Name	Scheme	Place of Occurrence
50	Vilāsini -II and Pramānī	odd Pāda u - twice even ,, u - four times	40 (1)

Dandāka

51	Mixture of Jīmūta and Līlākara	uuuuu + 11 or 12 raganas	51 (2)
52	Mixture of Uddāma, Śankha and Samudra	uuuuu + 13, 14 or 15 raganas	40 (17)
53	Candakāla (unrhymed)	uuuuu + any no of raganas	71 (15), 72 (15), 73 (3 ll 5-8)

III *Metres of the Ghattā or the Kaḍavaka-closing piece.**Antarasamā Catuspadī*

54	Sūbhavījṛmbhita	6, 13	63
55	Manmathatilaka	7, 13	65, 66
56	Abhisūrikā	8, 12	60
57	Madanodaya	8, 14	25, 26, 53
58.	Ratnāvalī	8, 16	77
59	Madhukaravṛnda	9, 13	7, 42, 54
60.	Ketakikusuma	9, 14	22, 36, 38, 41, 42 (opening), 46, 85
61.	Trivalītarangaka	9, 16	72
62	Navapuspamdhaya 12 See f n 9, p 20	10, 13	16
63	Kāminihāsa*	11, 12	5, 23, 24, 62
64	Premavīlāsa	11, 14	2, 55, 70
65	Kāñcanamālā	11, 15	73
66	Abhinavavasantaśrī	13, 9	89
67	Bhramaravīlāsa	13, 10	1, 8)
68	Mukhapālanatilaka	13, 14	39, 45, 68, 82
69	Vasantalekhā	13, 15	8, 11, 19, 21 50, 79
70	Madhurālāpīnīhastā	13, 16	6, 28, 51, 57, 76, 86
71	Anangalalitā	14, 13	13, 44, 49, 56, 61 (except 1, 2), 67, 83, 84, 90
72	Rājahamsa	15, 12	10
73	Manmathavīlāsita	15, 13	43, 69, 75, 78, 81, 87

Ardhasamā Catuspadī

74	Kuñjaravīlāsita	14, 12	64
----	-----------------	--------	----

Sarvasamā Catuspadī

75	Dhruvaka	9	33
76	Pāranaka	15	9, 18, 27, 48, 74
77	Paddhadikā-	16	34, 35, 47, 59, 88

Ṣatpadi

78 A Ṣatpada Jāti	6, 6, 12	3
79 A Ṣatpada Upajāti	8, 8, 12	15 (1, 2, 3)
80. A , "	8, 8, 14	14
81 —	6, 8, 13	61 (1, 2)
82 —	8, 6, 12	15
83 (Harinīpada)	9, 7, 12	12
84 (Skandhakasamā ?)	9 7, 14	32
85 (Chaddanikā)	10, 8, 13	17, 20, 31, 37, 40, 52, 58
86 (Mauktikadāma)	12, 8, 12	4
87. (Rasanādāma)	12, 8, 13	71
88 (Upagandharva)	13, 7, 14	29, 30

APPENDIX II

METRES OF SVAYAMBHŪ'S RITTHANEMICARIU *

The 112 Sandhis of the Ritthanemicariu, containing a grand total of 1937 Kadavakas, are distributed over four Kāndas Yādava (13), Kuru (19), Yuddha (60), Uttara (20). All the 112 Sandhis of the Ritthanemicariu (further here shortened as Rc) are not Svayambhū's work. After the completion of the ninety-ninth Sandhi, the composition was intercepted by his death. His son Tribhuvana undertook to complete the work and composed the rest, viz, the portion covered by the Sandhis 100 to 112. Further, in the fifteenth century one Yasahkirta Bhattāraka filled up a few gaps (possibly due to missing folios in the MSS of Rc then available) he found in the portion covered by the Sandhis 105 to 112. These interpolations (or substitutions) probably did not extend beyond a limited number of Kadavakas. Definite information on this point, however, can be derived only from a critical study of the text.

The Rc is unpublished so far. The present account is based on two MSS.

- 1 MS No 1117 of 1891-95 from the Government MSS collection at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona dated V S 1582
- 2 A MS from the Anjika Pannalal Sarasvati Bhandal collection, Bombay, dated V S 1991, this being a recent copy of an older MS dated V S 1582

Only an outline analysis is prepared for the present purpose. Individual details about these metres and especially the exact scheme of the tentatively identified Ghattās from the eight rehandled Sandhis can be derived only from a critical text.

Information about all the metres of the Ritthanemicariu, employed in the three sections of the Kadavaka, viz, the opening piece, the Yamakas or the main body and the Ghattā or the closing piece is tabulated below in that order.

I METRES OF THE KADAVAKA-OPENING PIECE

No	Name	Occurs in Sandhi	No of Moras per Pāda	Gana-Scheme	Rhyme-scheme	Type	Class
1.	Helā	17,31,60,103	22	6 + u'uu + 4	a/b	Samā	Dvīpadī Khañjaka
2.	Dvīpadī (Pk Duvai)	43,74,88,105	28	6 + u'uu + 4 + 4 + 4 + u'uu + -	"	"	"
3.	Āranāla	37	30	6 + u'uu + -	a/b with /2 + u'uu + - /2 + u'uu + - -	Samā	internal Dvīpadī Khañjaka
4.	Mātrā-cum- Mañjarī	62	Odd Pādas of Mātrī 15 Even Pādas of Mātrā 11	1 Pāda of Mātrā 5 + 5 + 4 + 1, 3 & 5 Pādas of Mātrā 5 + 5 +	c/c, f/g	Dvībhāṅgī of a Pañcapadī and a Samā Dvīpadī	Śūsaka

* Reprinted with appropriate changes from *Bhāratiya Vidyā*, 18, 1-2, 1960, pp. 86-94

			Mañjarī 21	u'uu + 1, 2&4 Pādas: 4 + 4 + 3, Mañjarī · 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 3			
5.	Dohā (Sk. Dvipathaka)	107	Odd Pādas 13 Even 11	Odd Pādas 6 + 4 + uu, Even Pādas 6 + 4 + u;	b/d	Antarasamā Catuspadī	Dhruvā
6	Gandhodaka- dhārā	16, 63, 64, 66	13	6 + 4 + uu	a/b,c/d	Samā Catuspadī	"
7	Pāranaka	104	15	4 + 4 + 4 + uu	"	"	"
8	Jambhettikā	68,73	8	4 + - uu	"	Samā Dvipadī	Shorter Dvipadī

Remarks—This shows that eighteen Sandhis in all out of a total of one hundred and twelve have the Kadavaka-opening piece. For Dohā and Mātrī see Jacobi, Sanatkumāracarita, 20-25, Alsdorf, Kumārapālapratibodha, 70-72, Bhayani, Sandeśarāsaka, Introduction, 62-64, 66-68. Mañjarī alone is used in Paumacariu 19, 45, while Mātrī combined with Mañjarī is used in Paumacariu 74. Āranāla also in the same form is found in Paumacariu 53 and Mahipurīna 16. It differs from one described by the Chandonuśāsana, which does not include rhyme-distinguished internal caesuras and the form uuu for the third caturmātra, among the characteristics of Āranāla. In the form in which it is found in the three epics, it is undistinguishable from a Satpadī. Most of the Dvipadis, too, defined at Svayambhūcchandas 6, 163 ff can well pass off as Śatpadis.

II METRES OF THE YAMAKAS OR THE MAIN BODY OF THE KADAVAKA

A. *The Principle metres*

Paddhadiā (Paddhatikā), Vadanaka and Pāranaka are the principle metres of the Apabhramsa epic. They are of the Samā Dvipadī type with the rhyme-scheme a/b. They have the following schemes

3 See the discussion further below in this appendix

Paddhadiā · 4	4	4	u uu u	(16 moras per verse line)
Vadanaka	6	4 +	uu — + uu	(" " ")
Pāranaka	4	4	4 uu	(15 " " ")

Their places of occurrence in the *Rc* are as follows

Name Occurs in Sandhi

- 9 Vadanaka 1 (4), 3 (6), 5, 9 (ex 8, 14, 18), 12, 14 (ex 14), 15, 16 (ex 4, 6-10), 18 (ex 9), 20, 23 (ex 3), 26 (ex 4), 29 (ex 7), 32, 34, 37 (ex 1), 39, 41, 43 (ex 3-6), 45, 47, 49, 51, 53 (ex 6), 55 (ex 3, 4, 5, 6, 17, 23, 24, 25, 27, 29), 58, 59, 61, 63, 64, 65 (ex 10, 16-18), 66 (12, 14, 15, 21), 67, 69, 71 (1, 4, 8, 11, 13, 15, 17), 74, 76, 78, 80, 82, 84 (ex 2), 86, 88 (ex 4, 8), 90, 92 (ex 5, 9), 94 (ex 12), 95 (3, lines 10-16), 96 (ex 2, 10), 98, 99 (ex part of 17), 100 (ex 12-13), 102 (2), 103 (9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23-25), 104 (3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 21, partly 22, 23), 105 (4, 6-16), 106 (1, 2, 4-8, 11, 14-16, 20-24),

107 (3-7, 9, 10), 108 (12, 16), 109 (2-4), 110 (2, 12), 111 (3, 4, 6-8, 10, 15, 23, 26-29), 112 (17)

10 Paddhadā

(Paddhatikā) 2 (ex 1, 2, 10), 6, 8, 13 (ex. 2, 13), 22, 24, 27, 31, 35, 38, 42, 43 (3-6), 46, 48, 52 (ex 5, 6, 12, 15), 54, 55 (4, 21, 27), 60, 62 (1-5), 65 (16-18), 66 (3-5, 8), 70, 71 (7, 18, 20), 72, 75 (ex 5), 79, 83, 87 (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), 89 (ex 4, 7, 9, 12, 13), 93, 97, 100 (12, 13), 101 (1, 4-7), 102 (3, 4, 12, 14, 16), 103 (11, 20, 22), 104 (8, 10, 15, 16, 19, 20, 22 last four lines, 24, 25), 105 (1-3), 106 (22, 23, 26, 28), 107 (8, 11), 108 (1-10, 13-15, 18-20), 109 (7, 9, 10, 13, 14), 110 (1, 3, 5, 6, 7 partly, 8-11), 111 (1, 2, 5, 11, 12, 14, 16, 18-22, 24, 25, 30, 31, 33-35), 112 (1-4, 6, 8-11, 13, 15, 16)

11 Pāranaka 1 (ex 4, 12), 4, 7 (ex 3, 6, 14), 10, 11, 14 (14), 16 (4, 6-10), 17 (2, 3), 19 (ex 8), 21, 25, 28, 30 (ex 11), 33, 36, 40, 44, 50, 52 (12), 55 (3, 25, 29), 56, 57, 62 (ex 1-5), 66 (ex 3-5, 8, 12, 14, 15, 21), 68, 71 (19), 73, 77, 81, 85, 91, 95 (ex 2, part of 3, 11-12), 101 (2, 3, 8, 9, 12-18), 102 (1, 11, 13, 14, 15, 19), 102 (18), 103 (1, 2, 14, 16), 104 (14-17), 106 (10, 12, 13, 17, 21), 107 (2), 108 (17), 111 (17), 112 (7)

Remarks Vadanaka predominates over Paddhadā and Pāranaka The latter two among themselves are equally favoured

B The Variation metres

(a) Non-repetitive Mātrā Metres

1 The Samā Dvīpadī type

Name	Occurs in	No of Moras per pāda	Gana scheme
12 Candralekhā—I	7 (3), 71 (6)	8	4 + u - u
13 Karimakarabhujā	52 (6), 71 (5), 109 (12)	8	4 + 4
14 Adillā	104 (6)	16	6 + 4 + 4 + 2 with yamaka
15 Mattamātanga	103 (3)	16	6 + 4 + 4 + 2
16 Pādākulaka	103 (4)	16	4 + 4 + 4 + 4, Jagana mostly avoided
17 Apsarā	94 (12, lines 9-10)	16	5 + 5 + 3 + 3
18 Vilāsini	9 (8), 18 (9), 30 (11), 52 (5), 55 (6), 71 (2), 87 (6), 89 (13)	16	3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3, Caesura after the 8th mora
19 Āvalī	103 (7)	20	6 + <u>uuu</u> u + 4 + <u>uuu</u> u + -
20 Rāsaka	112 (5)	21	6 + 4 + 4 + 4 + <u>uuu</u>
21 Māgadhanarkuti	103 (6)	22	6 + <u>uuu</u> u + 4 + <u>uuu</u> u + - -
22 Candralekhā—II	102 (6, 7)	24	6 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2
23 Utsāha	102 (10) (?), 108 (11)	24	4 + 4 + <u>uuu</u> u + 4 + <u>uuu</u> u + 4

24. Duvai (Dvipadī)	2 (1), 102 (10), 103 (8), 104 (2), 105 (5, two lines), 28 106 (9)				$6 + \underline{uuu}u + 4 + 4 + 4$ $+ \underline{uuu}u + -$
ii <i>The Visamā Dvipadī type.</i>					
25. Māgadbhikā	103 (5)	14, 16	a	$4 + 4 + u - u -$	
			b	$6 + 4 + u - u -$	
26. Candralekhā—I + Paddhadīā	71 (9), 106 (19), 111 (9)	8, 16	a	$4 + u - u$	
			b	$4 + 4 + 4 + u - u$	
27. Paddhadīā + Candralekhā—I	106 (25, 27)	16, 8	a	$4 + 4 + 4 + u - u$	
			b	$4 + u - u$	
28. Karṇmakarabhujā + Vadanaka	102 (17)	8, 16	a	$4 + 4$	
			b	$6 + 4 + \overline{uu} - + \overline{uu}$	
29. Gāthā	four stanzas bet- ween 13 & 14	30, 27	a	$4 + 4 + 4 + 4 + 4 +$ $\underline{uuu}u + 4 + -$	
			b	$4 + 4 + 4 + 4 + 4$ $+ u + 4 + -$,	
				the forms $\underline{uuu}u$ are forbidden for the odd Ganas	
30. Mālāgāthā	95 (2)	94, 27	a	23 times $4 + -$,	
				6th caturmātra is $\underline{uuu}u$	
			b	$4 + 4 + 4 + 4 + 4 +$ $u + 4 + -$	

iii *The Satpadī type*

31	109 (6), 112 (12)	10, 8, 5
32	102 (8)	10, 8, 9
33	111 (32)	10, 8, 13

(b) Repetitive Mātrā or Aksaragana Metres

34. Pramānī	1 (12), 7 (14, lines 5-11), 19 (8), 23 (4), 29 (7), 55 (17, 23) 87 (2), 92 (9), 96 (2), 94 (12, lines 5 to 8)	8 syllables	four times u -
35. Pañcacāmara	88 (4)	12 "	six times u -
36. Samānī	2 (2), 3 (6), 53 (8), 71 (12), 87 (4)	8 "	four times u -
37. Somarājū	37 (1), 107 (1)	6 "	Twice u - -
38. Bhujāṅgaprayāta	2 (10), 65 (10), 71 (10), 87 (16), 95 (11-12), 109 (5)	12 "	four times u - -
39. Manthāna	7 (6), 87 (14), 105 (5 partly), 106 (18), 107 (12), 109 (8)	10 moras	$5(= \underline{uu} \underline{uu} u) + 5(=$ $\underline{uu} \underline{uu} u)$

40	Madanāvātāra—I ¹	55 (5), 89 (1), 92 (5), 109 (1), 110 (4), 111 (13)	20	"	four times <u>uu uuu</u>
41	Madhukarī—I ²	71 (16), 84 (2)	25	"	five times <u>uu uuu</u>
42	Mauktikadāma	106 (3), 112 (1)	16	"	four times u—u
43	Cāru	52(5), 87(8)	10	"	5(= <u>uu uuu</u>) + 5(= <u>uu u -</u>)
44	Madanāvātāra - II ¹	26(4), 89(9,12)	20	"	four time <u>uuuu u</u>
45	Madhukarī—II ²	96(10), 71(14),75(5)	25	"	five times, <u>uu uu u</u>
46	Acaladhrti	88(8), 89(7), 99(17, few lines after the first)	16	"	four times uuuu
47	Sarvalaghu (?) <i>The Dandakas</i>	71(3)	20	"	four times uuuuu
48	Lilākara	91(12, first four lines)	66	"	6 + twelve time <u>uu uuu</u>
49	Dhruva	102(5)	81	"	6 + fifteen times <u>uu uuu</u>
50	?	7(14, first four lines)	102	"	6 + twelve times u <u>uu u</u> <u>uu uu</u>
51	?	101(1)	64	"	eight times (1 + <u>uu uu</u>)
(c) Non-repetitive Akṣara-gaṇa Metres					
52	Kumāralalitā	87(12)	7	syllables	u - uuu - -
53.	Sārīnī	87(10)	11	"	<u>uuuuuu</u> - u - - u - (Variation 12)
54	Indravamśā	105(5, lines 3-6)	12	syllables	u - u - - uu - u - <u>uu</u>
55	Prthvī	9(14,18)	17	"	u - uuu - u - /uuu - u - - u - with yamaka at the pauses

III METRES OF THE GHATĀ OR CLOSING PIECE

A. *The Antara samā Catuspādī*

	No of moras in different pādas	Place of occurrence (Sandhi)	Remarks
56	8, 12	60,61 (last but one Kadavaka)	Even pāda scheme 3 + 5 + 4
57	8, 14	37, 80	
58	8, 15	61(15)	Odd pāda scheme 4 + <u>uu uu</u>
59	9, 10	13	Even pāda scheme 1 + 1 + 2
60	9, 13	7,34,44,57,76,82,87,93	Odd pāda same as in 59 Even pāda ending in uu

1 According to Svayambhū and Hemacandra Madanāvātāra has four groups of five moras. The form of the five-morac Gaṇa is not specified in the definitions. But in the illustration they give, the five-morac Gaṇa has different structures. The basic unit of Svayambhū's Madanāvātāra illustration is uu u uu, while that of Hemacandra's is uu uu u. Consequently, to underline this distinction the forms have been labelled with numbers.

Similarly Madhukarī is given by Hemacandra as a cover term for all the metre having five five-morac gaṇas of any form. Metres of this type with basic units of differens forms have been distinguished here as Madhukarī—I and Madhukarī—II.

2 The term 'sarvalaghu' is found employed for the metre containing 16 shorts as well as for one with 20 shorts. So it is a description rather than a designation. The former type is known as Acaladhrti after Jayadeva. The latter I have been unable to find in Prakrit metrical works. Hence the general term sarvalaghu is adopted as a make-shift.

61	9, 14	28, 40, 45	Odd pāda same as in 59
62	11, 12	1, 25, 38, 75 86	Odd pāda scheme 6 + <u>uu</u> - + u In 38 at times the end is a -
63	11, 14	12, 22, 59, 102	Odd pāda as in 62
64	11, 15	2	Odd pāda as in 62 Even pāda ending in uuu
65	12, 14	63	
66	13, 10	43	Odd pāda scheme 6 + 4 + 3
67	13, 13	6, 23	Odd pāda ending in - u (casually - - in 23), even pāda scheme 6 + 4 + uuu
68	13, 14	5, 11, 16, 27, 36, 62, 68, 73, 85, 90, 94, 99	Odd pāda scheme 6 + 4 + uuu Even pāda, 4 + 4 + 4 + uuu (Occasionally 13, 16 ending in - u)
69	13, 15	24, 67	
70	13, 16	14, 19, 29, 35, 39, 41, 48, 58, 79	Odd pāda scheme 6 + 4 + uuu Even pāda scheme 4 + 4 + 4 + <u>uu</u> <u>uu</u>
71	14, 13	9, 15, 42, 47, 49, 69, 72, 84, 91 (except 10), 96 (?), 97 (?)	Odd pāda 4 + 4 + 4 + 2 Even pāda 6 + 4 + uuu
72	15, 12	101 (13, 15, 16)	
73	15, 13	10, 18, 20, 31, 46, 64, 65, 66, 72, 88, 92, 101 (except 13, 14, 15, 16)	Odd pāda 4 + 4 + 4 + 3 Even pāda 6 + 4 + uuu
74	15, 16	101 (14)	

B *The Ardha-samā Catuspadī*
(Rhyme-scheme a/b, c/d)

75 12, 14 56

C *The Sarva-samā Catuspadī*
(Rhyme-scheme a/b, c/d)

76 14 77

77 15 26, 98

78 16 8, 17, 61, 100, 110

Gana-scheme 4 + 4 + 4 + uuu

„ 4 + 4 + 4 + uu uu

D *The Satpadī*

(Rhyme-scheme a/b, d/e, c/f)

79 6, 8, 12 54

8 = 4 + - uu

80 6, 8, 13 55, 91 (10)

12 = 4 + 4 + 4

81 8, 6, 12 70

82 9, 7, 14 81, 83

83 9, 7, 15 95

84 10, 8, 13 4, 30, 52, 53, 74, 89 10 = 6 + - uu, 8 = 4 + - uu

85 12, 8 12 3, 33, 50, 71 12 = 3 + 5 + uu uu

Sandhi 33 has casually 12, 8, 13 also

86 12, 8, 13 21, 51

12 = 6 + 4 + 2

§

The Ghattās of *Santhūs 103 to 112* (except 110) appear to have been greatly interfered with. In view of a considerable degree of uncertainty about their structure, they have been excluded from the above classification. A highly tentative analysis of them is given below.

- 103 8, 11 in the majority, 10, 12, 15, 13 (last but one), 15, 12 (=last) in stray Kadavakas
104. 11 or 12 (end—u), 12 (end—), except in the 1 Kad, which seems to have 15, 12
- 105 13, 9 (Kad 1 to 4 ?), 9, 12 (Kad, 5, 10, 11 (?), 12, 13), 11, 12 (Kad 6) 15, 12 (Kad 7, 8, 9, 15, 16), 10, 8, 13 (Kad. 14).
- 106 15, 13 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 18), 9, 12 (8, 9, 12, 22, 27), 6, 6, 13 (10), 9, 7, 12 (11), 10, 8, 13 (13, 23-26), 9, 13 (?) (14-15), 15, 12 (16, 17, 19, 21). 6, 8, 13 (20) The text of Ghattās to Kad 7, 28 seems to be corrupt.
- 107 13, 11 (=Dohā, Samdhi-opening stanza), 10, 8, 13, (Kad. 1), 10, 13 (Kad 2), 15, 12 (Kad 3, 4, 6, 9, 10), 9, 12 (Kad. 5, 7, 11, 12), 15, 15 (?) (Kad. 8).
- 108 15, 13 (Opening, Kad 2-4), 9, 13 (Kad 1, 5), 11 (?), 12 (Kad 6-9, 16, 17), 16 all with the rhyme-scheme a/b, c/d (Kad 10-15), 15, 12 (Kad 19), 10, 8, 13 (Kad 20).
- 109 10, 8, 13 (Opening, Kad 1, 4, 5, 8, 9), 19, 8, 12 (Kad. 2, 3, 7, 10, 11, 13, 14), 12, 8, 12 (Kad 6), 6, 8, 13 (Kad. 12)
- 111 10, 8, 12 (Opening Kad 1, 16, 28, 30), 15, 13 (Kad 2, 22, 23), 13, 16 (Kad. 3-11 13, 24, 25), 11, 16, (Kad 12), 10 (?), 8, 12 (Kad. 14), 12 (?), 16 (Kad 15), 14, 13 (Kad 17, 19, 20), 14, 12 (Kad 18), 11, 13 (Kad 26) 10, 8, 13 (Kad. 27, 29), 6, 8, 12 (Kad 31), 15, 12 (Kad. 32-34) Gāthā (Kad. 35), the text of Ghattā to 21 seems to be corrupt.
- 112 15, 16 (Opening, Kad 1-4, 6), 13, 16 (Kad 5, 8, 9, 16), 14, 13 (Kad 7, 13) 15 (?) or 13 (?)—, 16 (Kad 10, 11, 12, 14), 10, 8, 13 (Kad 17)

A special observation is to be made concerning the Satpadi class of metres. Primarily, while discussing the metres and the metrical practice of Svayambhū's Paumacariu, attention was drawn in Part I to the problem of the Dvipadi Ghattā in the Apabhramsa epic. All prosodic authorities have consistently treated Dvipadi Ghattās too besides the Satpadi and Catuspadi types. But the actual practice of the Apabhramsa epic poets appeared on this point to be at variance with the theory, because Dvipadi Ghattās could not be identified from the works of Svayambhū and Puspadanta, who are among the earlier and most representative of the epic poets. But it appears now that if we examine the structure of the Dvipada Dhruvakas as defined by Svayambhū (*Svayambhūcchandās* 6, 163-203), many of them, in view of their caesura-bound middle section of eight moras and their rhyme-marked internal caesuras, are indistinguishable from Satpadas. Accordingly the metres of those Ghattās only which have the first, second, fourth and fifth sections of the same structure and containing 7, 8 or 9 moras would have to be identified as Satpadis. Others, even though they have an identical rhyme-scheme (viz a/b, d/e, c/f) would have to be identified as Dvipadis. But matters are not that simple. In several cases actually occurring in the Apabhramsa epics, the first and fourth sections contain 6, 7 or 9 moras (or the third and fifth contain less than seven moras) with second and fifth containing 8. These cases can come neither under the Satpadi type nor under the Dvipadi. Perhaps they are to be looked upon as so many variations of the seventh type of Chaddaniā described at Svayambhū-

chandas, 8, 20-23 The problem remains to be investigated more thoroughly. For the time being the practice of calling all the Ghattā metres with the rhyme-scheme a/b, d/e, c/f Ṣatpadīs has been continued

If we consider the distribution of the above metres over the three sections of the Apabhramśa epic from the view-point of the classification in Gāthā, Galitaka, Khañjaka, Śīrsaka and Apabhramśa sections as found, for example, in the manuals of Svayambhū and Hemacandra, we see that most of the metres figuring in the Kadavaka-opening piece are found together in the Khañjaka or occasionally in the Śīrsaka section. Further most of the variation metres are either from the 'Shorter' Dvipadī group, or Khañjakas, or from the Mātrā and Aksara-Gana metres of the repetitive type (with a few non-repetitive type of Aksara-Gana metres thrown in). Lastly for the metres of the Ghattā the manuals have a special sub-section in their Apabhramśa section. It seems that the Gāthā and Galitaka classes of metres were exclusively for Prakrit composition, the Khañjaka and Śīrsaka classes were current in Prakrit as well as Apabhramśa, while the metres of the Apabhramśa section were exclusive to that literature

III Miscellanea

Find of another *Tippaṇa* on the PC

The materials used to constitute the text of the *Yuddha* and *Uttara Kānda* of *Svayambhū's Paumacarru* are the same as used for the earlier *Kāndas*—with only one exception. For the portion from *Sandhi 67* to the end a manuscript of the *Paumacariya-Tippaṇa* has been used. When I learnt about the existence of that manuscript, the text of *Sandhis 37* to *66* was already printed. So the manuscript could be utilized only for the rest of the text. The description of the Ms. is as under.

Paumacariya Tippaṇa. No 1399 (p. 249) in the *Rājasthānke Jaina Śāstra Bhandārō-kī Granth Sūcī*, Part II, prepared by *Kasturichand Kashval (Jaipur)*. Wrapper No. 942. Belonging to the *Mss Collection of the Telahpantha Digambar Jain Badā Mandir of Jaipur*. No of folios—56, of which folios No 5, 7, 17, 20, 21, 26, 28, 39, 42, 53 are missing, while only the first half of folios No 10 and 13 is preserved. Size—11 × 4 inches, 9 to 11 lines per side, 36 to 40 letters per line. Bold and neat handwriting. Beginning *ॐ नमः सर्वज्ञाय । स्वायम्भुव महावीर प्रणिपत्य जगद्गुरु । रामायणस्य वक्ष्यामि टिप्पणं मतिशक्ति । End. इति रामायणे नवति सधि समाप्ता ॥ छ ॥ ॥ छ ॥* Then in a different, irregular and uncouth hand *श्रीमूलसधे नद्याम्नाये सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुदाचार्यान्वये भटारक श्रीपद्मनंदिदेवा तत्पटे भटारक श्रीशुभचंद्रदेवास्तत्पटे जिनचंद्रदेवास्तच्छिष्यमुनिश्रीरत्नकीर्तिस्तच्छिष्यमुनिश्रीहेमचंद्र । तदाम्नाये पंडेलवालान्वये श्रीमेत्रे (?) (illegible) स केला (illegible) जयसी (?) इदं पुस्तक लिख . रत्याय प्रदत्त ॥*

Some of the letters of the colophon are illegible because of the superimposed impression of the writing from some other Ms folio transferred through contact. The Ms does not give any date of composition or copying. Nor is mentioned the name of the author. The major portion of the glosses is common between the *Tippaṇa* in the manuscript P (called here PT) and the present *Tippaṇa* (called here JT). But there are numerous omissions and extra glosses in JT. I have formed an impression that JT is based on PT, but at present I am not in a position to point out any definite evidence in support of this guess.

The additional glosses of JT are all noted down for *Sandhis 67* 6 to 90. The same for the earlier portion of the *Paumacarru*, viz, *Sandhis 1* to 67 5 have been given at the end of the text in the form of an appendix (*Appendix IV*, p. 293-305).

JT. has proved valuable from several points of view. Aside from giving meanings of certain rare and otherwise obscure words, and removing textual obscurities or corruption of some of the glosses of PT, it also serves to some extent the purpose of an additional Ms of PC, as it reproduces in original the words and expressions it translates. It would be readily seen that the MS before the author of JT and that before the author of PT belonged to the same family. Even a casual glance at the appendix giving JT glosses would suffice to reveal the very close correspondence between the readings as found with JT and PT. But that does not mean that the text before JT was just another copy of P. Like PT, JT too knows and occasionally records variants, only a part of which correspond to the readings of A.

Works ascribed to Svayambhū

Further importance of JT lies in the fact that at two places it casually gives some information about the author of PC. Explaining the word *punu* in the opening stanza of the first Sandhi, the gloss says¹ *punu* - 'once more' i. e. after having composed a Sanskrit and Prakrit grammar, a manual of prosody, a double-meaning (*dvīsandhāna*) Kāvya, and the Bhārata'. According to this statement, already before writing PC Svayambhū had to his credit four works. Of these 'the Bhārata' of the glossator is the same as the *Harivaṁśa-purāṇa* or *Ratthanemīcaru*. The 'Chandas' can be easily identified with the *Svayambhūchandas*. Regarding the *dvīsandhāna*, we are not in a position to say whether it was the same as the *Suddhayacariya* referred to in the much-discussed stanza² found in the beginning of Svayambhū's *Ratthanemīcaru*, Sandhi 100, or it was altogether a different work. Lastly there remains the Sanskrit-Prakrit grammar. The point of crediting Svayambhū with writing a grammar has been already considered by me in the introduction to Part I (p 29). Jain and Premi have expressed the view that Svayambhū might have been the author of a grammar. Jain is inclined to credit Svayambhū also with works on Rhetorics and Lexicography. The references on which these inferences are based are of quite a general nature, and it was possible to read too much into them. But now the statement of the author of JT lends some strength to the inferences of Jain and Premi about Svayambhū's authorship of a grammar, and makes it likely that Tribhuvana's

1 पुनू = पुन, सम्कृत-प्राकृत-व्याकरण-छन्दो-द्विसन्धान-भारत-सूत्रकान्तरम् ।

2 काङ्गण धोमचरिय सुद्धयचरिय च गुणगणयत्रिय । हरिवसमोहहरणे सरससई सुदियदेह-व्व ॥

allusion to *Svayambhūvyākaraṇa* may have some specific reference. But even now, inspite of the express statements of the glossator, I find it difficult to quite dispel my scepticism about this matter. The reason is twofold. Firstly the glossator of J. is silent about Svayambhū's supposed works on Kosa and Alankāra³. The possible alternative of these works being according to the glossator successors of the PC. is to be ruled out, because he (i. e. the glossator) informs us, in the gloss on one of the Pīasasti stanzas at the end of Sandhi 83⁴, that Mahākavi Svayambhū went to heaven after that much of PC had been composed. This means that according to the glossator PC was the last work of Svayambhū, which death did not allow him to finish.

Secondly, as this very statement of the glossator shows, the traditions about Svayambhū and his works reported by him are not quite reliable, for we have unimpeachable evidence to believe that *Svayambhūchhandas* containing actual quotations from the PC, and the *Ritthanemcariu* making a direct reference to the PC were composed after the same. It cannot be, therefore, the last work of Svayambhū. On this point the glossator's report is in conflict with the actual facts. This would caution us against putting too much reliance on the statement listing Svayambhū's works. Some more definitive evidence is required before we can take Svayambhū's grammar for a positive fact. But the glossator's statement has certainly lifted it out of the realm of mere speculation. In this connection, however, the following Pīasasti stanza, found at the beginning of Sandhi 67 of the Rc, appears to be significant.

गजति ताम्र कडमत्कुंजरा लक्ष्म-लक्ष्मण-विहीणा ।

जा सत्त-दीह-जीह सर्वभु-सीह ण पेच्छंति ॥

'The proud poet-elephants, ignorant of of the Śāstīic subjects and expositions, loar only so long as they do not sight the Svayambhūlion, with seven long tongues'

'The seven tongues' can be taken to allude to Svayambhū's seven works. 1. *Suddhayacariya*, 2. *Paumacariu*, 3. *Svayambhucchandas*, 4. *Ritthanemcariu* these four are definite. If the *divan-dhānakāvya* mentioned by the glossator in JT is different from the *Suddhayacariya* it would be the fifth work. If we credit Svayambhū with the authorship of a grammar it would be the sixth. Some

3 Even if we take सूत्र in the above citation to mean one of these, there would still be discrepancy of one

4 इति कृते रामचरिते स्वयमुमहाकविर्वैवलीनीवभूव ।

work on Kosa or Alamkāra or some *stotra* would be the seventh. Only some more reliable source of information can dispel the fog of speculation.

Find of another MS of the Svayambhūchhandas

In the section on the *Svayambhūchhandas* (Sc) in the introduction to Part I, I had examined the question of the scope and contents of the lost portion of the Sc and had come to the conclusion that it did contain a section on the Prakrit metres strictly so called. Happily this conclusion has been now borne out in full by the find of the fragments of a fresh MS. of the Sc from a Tibetan monastery⁵. The script of the Tibetan Ms is Old Bengali and even though several folios are missing, it gives us a fair idea of the Pk metres treated in the Sc. The Prakrit section has all its sub-divisions with which we are familiar from the prosodic manuals of Hemacandra and others, viz., Gāthā, Galitaka, Khañjaka and Śirsaka sections, besides the well known Vainavṛtta. Illustrative citations are given from a host of Prakrit poets, most of them coming to our knowledge for the first time. There are citations from Pravarasena's *Setubandha* (3,9) and Harsa's *Ratnāvrī* (1, 13-15). Several Gāthās known to us from collections like the *Sattasaī* and *Vajjālagga* are ascribed to specific authors⁶.

Some doubts had been raised, in the introduction to Part I, about the authenticity of certain ascriptions of Sc. Certain

5 The Ms has been utilized by Prof. H. D. Velankar in his new edition of the Sc prepared for the Singhī Jain Series.

6 e.g. *Sattasaī* 1, 75 (*va pommārūa-maragaa-* etc) is ascribed to Pālitta (= Pādalyta, the author of the lost Prakrit Kathā *Toraṅgavaī*), Sa 2, 97 = *Vajja* 476 (*pavrajvāno gāmo* etc), to Bhogika, *Vajjā* 431 (*Suhaa gaam tuha vīrohe* etc) to Candana, *Līlāvī* 1294 (omitted in some Mss of that work and cited at *Chandonuśāsana*, I 10 1), to Varmaputra (Vammautta), *Paramātmaprakāsa* 2, 117 (*te ca suhaā* etc), to Vidagdha. The last-noted case is interesting also from another point of view. Sc cites it with the specifically stated purpose of illustrating in Pk prosody the non-position-making character of consonant clusters with a posterior *r*. Hence the authenticity of the *dr* clusters of *vodrahadhaha* in the stanza in question are beyond any doubt. This is further supported by *Siddhahema* 8, 2, 80 and *Chandonuśāsana* 1, 7, 6 (the Paryāya Tippanaka on this cites the whole stanza). But the stanza as found cited in the *Paramātmaprakāsa* has the *r* clusters assimilated. This means that either the scribes of the MSS of the PP affected that change or that the stanza was known to the author of the PP in a changed form—in a form later than that known to Svayambhū. The second alternative suggested here would gain support from some other facts (frequency of the pleonastic suffix *da*, relatively late words like *jamala* 'near', *vari* over, clearly derivative character of some stanzas, etc) regarding the language and the text of the *Paramātmaprakāsa*.

illustrative stanzas ascribed by the Ms of the Sc to Caturmukha were shown to be actual citations from one of Svayambhū's own works, viz, the PC. Two similar cases in further support of that point can be now cited with the help of the present part of the PC. The passage cited at Sc I 156 and 157 under the names of Māura-deva and Rajjautta to illustrate a variety of the Dandaka called Candavāla are identical respectively with PC 73 3 5-8 and 72 15 5-6⁷. As the passages in question occur in the midst of a Kadavaka as its integral part, the possibility of their being outright borrowings on the part of Svayambhū appears very unlikely, and the ascriptions in the Sc text as available to us at present (based on a single and late Ms) are to be considered erroneous. Incidentally this brings the number of passages of the Sc identified from the PC to fourteen.

A stotra by Svayambhū

One more identification, though quite accidental, may be also noted here. Sc. 8, 41 cites a regular Kadavaka made up of 8 yamakas of Paddhadikā closed with a Śatpadi Ghattā to illustrate the Sandhi-opening Paddhadikā and Chaddanikā. Now along with the folios of *Paumacariya-Tippana* Ms JT (described at the start of the present section) there were found mixed up a few stray leaves of some other MSS. One of these stray leaves appears to have belonged to a MS containing a collection of Jain stotias. The contents of that single leaf are as follows:

1. Last lines of a 'Padmāvatidevī Stotia' 2 'Pāśvanāthastotia' or 'Yamaka-stotra' in Sanskrit by Padmaprabhadeva, possibly a disciple of Padmanandin. 3. An incomplete Jina-stotia in Apabhramśa. The third item in the above list of contents, viz., the Jina-stotia turns out to be identical with the illustration of the Sandhi-Paddhadikā and Sandhi-Chaddanikā cited at the *Svayambhūcchandās* 8, 41-45, except that the Sc citation omits the opening stanza. The stray leaf contains the text of the stotia only up to the third line of the fourth Paddhadī stanza and so the sequel and colophon are missing. Both the versions are reproduced in Appendix III. As portions of the stotia are anonymously cited in the Sc, it is quite likely that Svayambhū himself was its author.

⁷ See, Bhayam H. C., 'Caturmukha, one of the earliest Apabhramśa epic poets', *Journal of the Oriental Institute, Baroda*, 7, 3, 1958 p. 218. The paper considers Caturmukha's works as the probable source of some epic citations in the Ap section of the Sc.

Svayambhū's date

In the discussion of Svayambhū's date in Part I (pp 7-9) of PC the range between A. D 677 and 960 could not be narrowed down in any definite manner for want of some positive clue. Such a clue is now fortunately available from the text included in this Part. In the description of Hanumat's journey from Lankā to Ayodhyā (69 1 to 69 8), there is a reference to Seunadesa 69 6 3 reads as follows .

puṇu sari Bhīmarāhi jal'oha-phāra /
jā Seuna-desahō amīya-dhāra //

It means 'Further (they saw) the river Bhīmarāthī, carrying a vast mass of waters, it was a veritable stream of nectar for the Seuna-country'.

Now we know from a copper-plate grant of Seunacandra II⁸ that Seunacandra I, son of Drdhaprahāna (who was the founder of the Yādava dynasty of Devagiri), founded the city called 'Seunapura' in Sindinera

Bhagvanlal Indrajī and other authorities place this Drdhaprahāra in the first half of the 9th cent A. D.⁹ As the date of Seunacandra II is 1069, and as he is seventh in line after Seunacandra I, the latter is likely to have flourished in about A. D. 860, if we count 30 years on an average for each generation. This is further supported by the fact that making a similar calculation on the basis of the date of Vaddiga¹⁰ (c. A. D. 916), who is third from Seunacandra I, we reach about A. D. 826. Accordingly if Seunacandra I founded the Seunapura (after which the region over which he ruled came to be known as 'Seunadesa') in, say, about A. D. 840, it could have become fairly well-known by about A. D. 860. In that case we can reasonably assign Svayambhū to a period approximately between A. D. 840-920. The latter half of the ninth century can be taken as his literarily active period. Half a century later appeared the poet Puspadanta. Incidentally the above reference from the PC. throws some fresh light on the location of the Seunadesa. Bhagvanlal Indrajī identified Sindinera (where-

8 Ed. by Pandit Bhagvanlal Indrajī in *Indian Antiquary* 12, 1883, pp 119 ff.

9 op. cit, p 126, 'The Struggle for Empire' = The History and culture of the Indian People, Vol. v), 1957, Bombay, p 185.

10 IA, 12, pp. 126, 128

in Seunapura is said to have been situated) with modern Sinnar, about twenty miles south of Nasik. D C Ganguly says that Seunadeśa 'was situated on the confines of Dandaka, and included Devagiri, modern Daulatābād, in the Amangābād District'¹¹ But according to Svayambhū the river Bhīmarathī i. e. Bhīmā was 'like a stream of nectar to the Seunadeśa' This means that the Seunadeśa should have been on the Bhīmā river i. e. further south than has been so far understood

Does Svayambhū's going out of the way in specially describing the river Bhīmarathī as 'a stream of nectar to the Seunadeśa' imply anything—say, for example, a close association of Svayambhū with the Seunadesa or Seunapura? This is more than we can say. True, the Seunas were vassals of the Rāstrakūtas of Mānyakheta and of the Cālukyas of Kalyāna for more than three hundred years,¹² and some of the Rāstrakūta kings are known to have given patronage to Jainism. The great Apabhramśa poet Puspadanta (mid-tenth century) had a Rāstrakūta minister for his patron. Even one of the Seuna kings himself, viz., Seunacandīa III, was sympathetic towards Jainism, as is shown by his donation, in A. D. 1141, of three shops for maintaining the temple of Tirthamkari Candraprabha at Anjanerī, near Nasik¹³ These facts may not be quite without significance. But in the absence of any more substantial data it would be unsafe to speculate any further in this matter.

Part II of PC has two passages, significant on account of their reference to various contemporary geographical place names. The first passage (Sandhi 45, Kadavaka 4) describes the famous products of various places that were available as commodities in the market of Laksmīnagara or Śīnagara, the capital of the Vidyādharā king Hanumat in the Hanuūha Dvīpa. The places and products are tabulated below

11 'The Struggle for Empire', 185

12 The Struggle for Empire', 185

13 See the stone inscription from the Jain temple edited by Bhagvanlal Indraji at IA, 12, 1883, pp. 126-129

<i>Place</i>	<i>Its famous product</i>
Deulavādaya (Devakulapātaka)	panna (betel leaf)
Ceī (Cedi ?) ¹⁴	phoppala (betel-nut)
Karahāḷaya (Karahātaka)	jāhulla cunna (chunam perfumed with jasmine ?)
Cittauda (Citiakūta, modern Chitor)	kañcua (<i>chola</i>)
Rāmaura (Rāmapura)	gula (<i>gul</i>)
Paithāna (Piatisthāna, modern Paithan)	sala (arrow ?) ¹⁵
Aivaḍḍa (=Anahila-pattana, acc to the gloss, modern Patan)	bhujāṅga (paramou ?)
Abhua (Arbuda, modern Abu)	addha-vesa (?) (v. l. andhidesa, andhivesa)
Kannādaya (Kainātaka)	jovvana (=youth ?)
Harikelaya (=Vanga, modern Bengal) ¹⁶	celaya (precious cloth)
Vaddāyaya	lavana (rock salt)
Vanāyaya (Vajrākara)	vana (diamond)
Simghala (Simhala, modern Ceylon)	mani (jewel)
Nevāla (Nepāla)	katthūlī (musk)
Sañjāna (modern Sanjan)	mottiya-hāra (pearl necklace)
Vajjara	khara (donkey)
Kekkāṇa (Kaykān)	haya (horse)
Paunāya	kāvithi ('scented powder', according to the gloss)
Nandurabāra (=Nandurba)	vānī (speech ?)
Kañcī (=Kāñcī, modern Conjevaram)	nayaya (?)
Cina (=China)	netta (fine fabric)

The second passage (Sandhi 49, Kadavaka 8) names various places along with the beautiful parts of the body for which then ladies were famous. These are tabulated below

14 The Apabhramśa adjective actually used is 'ceullau', which is taken to mean 'belonging to Ceī'

15 The gloss meanniglessly takes this to be 'a lake' or 'water'

16 cf 'Vangās tu Harikelīyāh', Hemacandra's 'Abhidhānacintāmanī', 957

<i>Place</i>	<i>Part of the body</i>
Paunāia	pāya-tala (soles of feet)
Siṅghala (Siṃhala, Ceylon)	naha (nails)
Ceī ¹⁷ (= Cedi ?)	anguliya (fingers)
Golla (= Mahāiāstia ?)	guppha (ankles)
Māyandi (= Mākandi)	pottai ¹⁸ (calves)
Siripavvaya (= Śīpavata)	mandiya (knees)
Nippāla (= Nepāla)	uu-jua (thighs)
Karahādaya (Karahātaka)	kadi (waist)
Kañci (Kāñci)	soni (hips)
Gambhira (Gambhīrā)	nāhiya (navel)
Singāriya (v. l. sigāriya, sivāri- ya ?)	putthi (back)
Elaua (= Elāpua, Ellora)	thana (breasts)
Majjhima-desa (= Madhyadeśa)	vacchayala (chest)
Pacchima-desa (= Paśchimadeśa)	bhua-sihara (shoulders)
Vāramaī (= Dvāravati, Dwarka)	vāhula (arms)
Sindhava (= Sindhu, Sind)	manivandha (wrists)
Kacchāyana (= Kaccha, Cutch)	gīva (neck)
Goggada (v l Kokkaniya)	uttha (lips)
Kannāda (Kainātaka)	dasana (teeth)
Kālohana (= Kāyāvahana, Karvan)	jīha (tongue)
Tuṅga-vīsaya (for Tunda-vīsaya i e Tondainād or Tondaman- dalam ?)	nāsa (nose)
Gambhira (Gambhīrā)	loyana (eyes)
Ujjeni (Ujjayinī, Ujjain)	bhauhā (eyebrows)
Cittaūḍa (= Citrakūta, Chitor)	bhāla (forehead)
Kāsi (Kāśī, Banaras)	kavola (cheeks)
Kannāujja (= Kānyakubja; Kanouj)	kanna (ears)
Kāola (v l. Kāvila ?)	kesa (hair)
Dāhina-desa (= Dakṣmadeśa)	vinaya (courteous manners)

The lists offer quite a tempting topic for investigation. But for fear of delaying the already over-delayed publication of the present volume, I leave them untouched.

17 The reading at 59 8 3 is to be corrected as *Ceullvhi* (A's reading) in the light of 45 4 2

18 cf. Hemacandra's 'Parisistaparvan', 8, 194 cf. Konkani, *potri* 'calf,' Marathi *māṛi* 'lap',

Svayambhū's *Ritthanemicarū* is likely to contain various clues and suggestions significant from the point of view of his date or personal account. For instance consider the following line describing Mount Ūrjayanta

तत्र तेहिं दिट्टो गिरि उज्जयंतो, करिंद व्व चदक-चंटा पुणंतो । (RC. 95 11 1)

These are quite obviously based on *Sisūpālavadha* 4,20 which describes Mount Raivataka

The following passages are important for the consideration of Svayambhū's creed

(1). ण हरिहरवभाणेहिं तिहि मि पहाणेहिं मरु सायरे मुकउ । (71, 2 Ghattā) which directly alludes to the trinity and the ocean churning episode of the Hindu mythology.

(2) In 67 1 Ghattā, Janārdana (i. e. Kṛṣṇa), Sātyaki, Bibhatsa (i. e. Aṅgula) and Vṛkodara (i. e. Bhīmasena) are compared to Paramātman, Pitāmaha (i. e. Brahmā), Hari and Hara

(3). तं पाविमि दइयरिय टिक्ख, सिक्खेवी पुणु गिरवज्ज सिक्ख । (RC. 48 12 6) has a clear reference to the Digambara sect.

Caturmukha and Svayambhū

In the paper referred to in footnote 7, I have attempted to show Caturmukha's works on Rāmāyana and Mahābhārata as the probable sources of some of the citations in the *Svayambhūcchandās*. This view can be further strengthened by a careful scanning of Svayambhū's *Ritthanemicarū* for parallels. In a casual reading I have been able to spot a few more parallels. (1) 'Ko mahū jāntahū nei dhanu' (SC. IV 4) cited under the name of Caturmukha, and 'mahu maia puamjau, jai-vi dhanamjau, sahu govindem nei dhanu' (RC. 30 1 Ghattā b). (2) 'Nila na [d]isai, paramappam jiha vinu nānem' (SC VI 65), and 'kaha va na disai, nikkalu jiha vinu jānem' (RC 71 13 Ghattā e f). (3) 'kotthatthālēna (kottuggālēna), sannahavi dasānana niggao' (SC. VI 68), and 'Macchāhiva...kottuggālem nisaiu' (RC. 29 4 Ghattā) (4) 'suvvai dūe samkhu, hanumanta na disai/saccāi saa[da]-vūhe, ekkaraha paisai' (SC VI. 155), and 'kaicindhu na disai rahu²vu), para suvvai mahumaha-jalayarahō/Saccāi patthaviu (RC 64 opening stanza) (5) The rhyme 'Ajjunu/kahim pinu (for 'punu')' of Sc VI 58¹⁹ is found at RC 51 20 Ghattā

19 This passage has been considered in § 17 of my above-mentioned paper on Caturmukha. There I had suggested to amend 'kahim pinu' of the text to 'kaheppinu' and had translated the passage accordingly. In the light of the RC. passage cited above we can now suggest 'kahim punu' as a more probable emendation. The corresponding translation would be 'but (he may be) somewhere in heaven.'

dharau ko-vi chudu ajuvi *Ajuna*
Dharmma-puttu mahu jai *lahim punu*

(6) The illustration at SC. VI 152 (which is preserved in a better form at Hemacandra's *Chandonvāsana* 6 21.2) contains the compound 'Kīva-Kanna-Kalīnga' (corrupt for the *Chandonvāsana* reading 'Kīva-Kanna-Kalīnga') The same is found in RC. 26 6 1 b *thiya Kīva-Kanna-Kalīnga-Jayaddhaha* cf. also RC. 67 11 2 b *Bhūrisava-Kalīnga-Kīva-Kannāhī*

In view of such matters one can easily see the great value of making Svayambhū's Mahābhārata epic available in print as early as possible

Appendix III

(See p 40)

1 An Apabhramśa Stotra by Svayambhū (?) found on a fragmentary MS leaf from Jaipur

रिद्धिविद्धिवरमगल	सुष्टगुणगा(?)लु	सुवकलत्तमणरजणि ।
धरि होई सुसपई	गणहरु जंपइ	विह्नरोरुदुहरांजणि ॥ छ ॥
जिणणामे मयगलु मुवइ दप्पु		केगरे वसि होइ ण उसइ सप्पु ।
जिणणामे उहइ ण धगधगतु		हुअवहु जालासअपज्जलतु ॥
जिणणामे जलणिहि देइ थाहु		आरणि चंउि णि वटइ वाउ (?) ।
जिणणामे भरसइसकलाई		तुट्टेवि जंति खणि मोवलाई ॥
जिणणामे पीडइ गहु ण कोउ		दुम्मइपिसाउ ओसरइ गोइ ॥
जिणणामे दुरियह रागहु जति		परिपुण(ण) मणोरइ णिरु हवति ॥
जिणणामे छिज्जइ मोहजालु		उप्पज्जइ देवहं सामिसालु ॥
जिणणामे णासइ सयल वाहि		गलगुंमगड ण (Here the second side

of the folio ends and the text remains incomplete)

2. The text of the above as found at Svayambhūcchandas 8, 41-45.

(पद्धडिआ जहाः—)

जिणणामे मअगल मुअइ दप्पु	केगरे वस हो[इ] ण उमइ सप्पु ॥
जिणणामे उहइ ण धगधगन्त	हुअवह जालासअपज्जलन्त ॥ ४१ ॥
जिणणामे जलणिहि देइ थाहु	आरणे वणु ण वधइ वाहु ॥
जिणणामे भवमअसखलाइ	तुट्टन्ति होन्ति खण मोकलाइ ॥ ४२ ॥
जिणणामे पीडइ गहु ण को वि	दुम्मइपिसाउ ओसरइ सो वि ॥
जिणणामे दुग्गअ खहिज्जन्ति (?)	अणुदिण वरपुण्णइ उवभवन्ति ॥ ४३ ॥
जिणणामे छिन्देवि मोहजालु	उप्पज्जइ देवत्सामिसालु ॥
जिणणामे कम्मइं णिहलेवि	मोकरागे पइसिअ सुह लहेवि ॥ ४४ ॥

(छट्टणिआ जहा—)

जिणणामपविंते	दिवसुव्वन्ते	पाउ असेसु वि छज्जइ ।
ज जं मणे भावइ	तं सुह पावइ	दीण ण कासु वि किज्जइ ॥

पुमचरिउ

चतुर्थ-पञ्चम काण्ड रूप

— तृतीय भाग —

Sandhis 57 to 82 by Svayambhū
The rest of Sandhis 83 to 90 (called Paumacariya-sesa)
by Tibhuvana.



कइराय - सयम्भुएव - किउ

पउमचरिउ



चउत्थं जुञ्जकण्डं

*

[५७. सत्त्वण्णासमो संधि]

हंसदीवें थिएँ^१ राम-वलें
अत्ति महीहर-सिहरु जिह

खोहु जाउ णिसियर-सङ्घायहों ।^५
णिवडिउँ हियउ दसाणण-रायहों^१ ॥

[१]

तूरहों सहु सुणेवि रउदहों
एहेंएँ कालें अणेयइँ जाणउँ
'णं कुल-सेलु समाहउ वज्जें
कहें जि मेरउ ण किउ णिवारिउ
तो वि सणेहें परिहच्छाँवमि
जइ कया वि उवसँमइ दसाणणु
एम वि जइ महु णं कियउ वुत्तउ
अँप्पाणु वि ण होइ^{१३} संसारिउ

खुहिय लङ्क णं वेल समुदहों ॥ १
मणेंण विसणुणु विहीसणु राणउ ॥ २
पुरि णन्दन्ति णट्टु विणु कज्जे ॥ ३
एवहिँ दूँसन्थवँउ णिरारिउ ॥ ४
उँप्पहें थियउ सुपन्थें लावमि ॥ ५
पावें छाइउ पर-महिलाणणु ॥ ६
तो^{१२} रिउ-साहणें मिलमि णिरुत्तउ ॥ ७
परिहरिँएँवउ पारायारिउ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

सुहि जें सूलु पँडिकूलणउ
ओसहु दूरुप्पणणउ वि

परु जें सहोयरु जो अणुअँत्तइ ।
वाहि सरीरहों कहेंवि घत्तँइ^{१४} ॥ ९

1 1 P S वि थिएँ, A तिथएँ 2 P हिअवउ पडिउ, S हियवउ पडिउ 3 A शुवक at the end
4 P तेहएँ, S तेहइ 5 A जाणउं 6 P A राणउ. 7 P S दूँसन्थविउ 8 A परिअच्छावमि. 9 P S
A उँप्पहि 10 A उवसँमइ 11 A किणण पउत्तउ. 12 P S ता 13 A होमि. 14 P S परिहरिउ
वि होइ परयारिउ 15 P A पडिकूलणउ 16 A अणुअँत्तइ 17 A दूरुप्पणउ 18 A घत्तइ

[१] १ दुष्करम् २ सवोवयामि ३ परन्त्रीचौर ४ आत्मीयो एव न भवति वन्धुमेहवान्
५ (P 's leading) परिहारितोऽपि ६ रञ्जु

[२]

जो^१ परतिय-परदवाहिसणु
अहिमुहु वलिउँ दसाणण-रायहों
'भो भो भू-भूसण भड-भञ्जण
५ रावण किण्ण गणहि महु वयणइँ
किं स-गेहु गिय-णयरु ण इच्छहि
किं देवावहि सेणु दिसा-वलि
किं आरोडहि राहव-केसरि
किं गिरि-समु वडुत्तणु खण्डहि
१० किं विहडन्तउ कज्जु ण सन्धहि
एकु अजसु अण्णेकु अमंज्जलु

सणें परिचिन्तेवि एम विहीसणु ॥ १
णं गुण-णिवहु दोस-सङ्गायहों ॥ २
खलहु मि खल सज्जणहु मि सज्जण ॥ ३
किण्ण गियहि णन्दन्तइँ संयणइँ ॥ ४
किं वज्जासणि सिरेण पडिच्छहि ॥ ५
किं उरें धरहि जलणं-जालावलि ॥ ६
किं जाणन्तु खाहि विस-मज्जरि ॥ ७
किं चारित्तु सीलु वउ छण्डहि ॥ ८
तइयएँ णरएँ आउँ किं वंन्धहि ॥ ९
जाणंइ देन्तह पर गुणु केवलु' ॥ १०

॥ घत्ता ॥

भणइ दसाणणु 'भाइ सुणि जाणमि पेक्खमि णरयहों सङ्कमि ।
णवर सरीरें वसन्ताइँ पञ्चिन्दियइँ ^{१४} जिणेवि ण सक्कमि' ॥ ११

१५

सो^१ जण-मण-णयणो हिरावणो
दुद्धर-धरेंणिधर-धरावणो
दुज्जण-जण-मण-जज्जरावणो
धणय-पुरन्दर-थरहरावणो
२० दाणविन्द-दुद्धम-डैरावणो
दाणें महाहयणे तुरावणो

[३]

पर-णरवर-हरिणाइँरावणो ॥ १
भड-थड-कडमहण-करावणो ॥ २
करिवर-कुम्भथलं-कप्परावणो ॥ ३
सरणाइय-भय-परिहरावणो ॥ ४
अमर-मणोहरें-वहुअँ-रावणो ॥ ५
णिसुण्डि जं जम्पन्तु रावणो ॥ ६

॥ घत्ता ॥

भणइ विहीसणु कुइय-मणु वयणु णिएँवि दसाणण-केरउ ।
'मरण-कालें आसणें थिएँ सबहों होइँ चित्तु विवरेरउ ॥ ७

2 1 P S जो. 2 P S चलिउ 3 P खलह, S खलह, A खलहु 4 A सुयणइ 5 A omits this line 6 P S जलणि 7 P S तइए 8 P S किं खाउ 9 P णिवधहि, S णिवंधहि, A वंधहि. 10 P S वि जसु 11 P S वि मगलु 12 P A जाणइ देतह 13 P S णवरि. 14 P S धरेवि
3. 1 P S णाइरावणो 2 P S A °थल° 3 P S °वहुपरावणो. 4 P S दाण महाहयणित्तु-रावणो. 5 P S सुणेवि 6 P S भासणण किए 7 P S चित्तु होइ.

[३] १ अमिराम २ एरावत गक्रराज (?) ३ पर्वताना तृपतीना वा उद्धारक ४ भयोत्पादक.
५ (P' S reading) मनोहरवधूना प्रकल्पेणानन्दकारक । अमर-मनोहरवधूकाना रावण प्रकृदकारक

[४]

पुणु वि गरुड संताउ 'विहीसणें
काइँ णरिन्दऽप्पाणँउँ 'सोसँहि
जणय-विदेहि-धीय पँइ-सारिय
एह ण सीय वँणें द्विय भल्ली
एह ण 'सीय सोर्य-संपत्ती
एह ण सीय दाढ वर-सीहहों
एह ण सीय जीह जमरायहों

काइँ णिवारिउ ण किउ विहीसणें ॥ १
एण णिहेण पइँहुँ 'विसोसहि ॥ २
पइँ सयणहुँ भवित्ति पइँसारिय ॥ ३
सर्वहुँ हियएँ पइँद्विय भल्ली ॥ ४
लङ्कहँ वज्जासणि 'संपत्ती ॥ ५
गय-गण्डत्थल-वहँल-रँसीहहों ॥ ६
केवल हाणि जँसुज्जम-रायहों ॥ ७

॥ वत्ता ॥

णन्दउ लङ्क स-तोरणिय
जाणइ सिविणँ-रिद्धि जिह

अँणुणहि रामु पमायहि जुञ्जु ।
णँ हुअ ण होइ ण होसइ तुञ्जु' ॥ ८

[५]

तं सुणेवि सत्तुत्त-मदणो
रयणासव-वंसाहिणन्दणो
इन्दई णिय-मणे विरुँद्धओ
हुअवहो व जालोलि-भासुरो
केसरि व उद्धसिय-कंधरो
'तं विहीसणा पइँ पजम्पियं

स-पुरन्दर-विजयन्त-मदणो ॥ १
दँहमुह-दिट्ठिविसाहि-णन्दणो ॥ २
जेण हणुउ पहरेवि रुद्धओ ॥ ३
हरँ सणें व कुइओ वि' भासुरो ॥ ४
पाँउँसो व उण्णइय-कंधरो ॥ ५
दहमुहस्स ण कयाँइ जं पियं ॥ ६

॥ वत्ता ॥

को तुहुँ कें वोळ्ळावियउ
जइ तहों अप्पिय जणय-सुय तो हँउँ ण वहमि इन्दइ णामु' ॥ ७

को सो लक्खणु को किर रामु ।
जइ तहों अप्पिय जणय-सुय तो हँउँ ण वहमि इन्दइ णामु' ॥ ७

4. 1 P S संतविउ. 2 P °प्पणु, S °प्पाणु. 3 P S वि सोसहि, A सोसहिं. 4 A पइँद्वि सेसहि. 5 P सव्वहु, S सव्वहो, A सव्वह. 6 P S पइँट्टी 7 A व्व हलसीहहो. 8 P S सुइणा ° 9 P S A णहु अण्ण.

5. 1 P S इदइँ 2 P S अइविरुद्धउ 3 A हरि सणो 4 A इ 5 P उद्धसिय°, S उद्धसिय°. 6 A पाउसे 7 P A कयाँइ 8 P S वोळ्ळाविउ 9 A ण वहमि हउ.

[४] १ हे विगतमी २ कट्थयसि ३ विपौपधी ४ भर्तु रामस्योत्तमा, अथवा पति सारो यस्या सा पतिसारिका ५ वने स्थिता न मनोज्ञा ६ काण्डविशेष ७ नैपा श्री ८ ते शोक-सपदेयम् ९ सप्राप्ता १० बहुलं प्रचुर रसो रक्तमीहते य ११ यगस्योद्यमस्य राज्यस्य त्रयाणा हानि १२ अनुनीयसि (१)

[५] १ शत्रो भाव शत्रुत्व, शत्रुत्वं विद्यते येषां ते शत्रुत्वमन्त, तेषां 'दणो' दानव २ अभि-वृद्धिकारक ३ द्यगमुख इव दृष्टिविष-सर्प, तस्य नन्दन पुत्र ४ महादेव शब्दे कुपितोऽपि भासुरो यथा गौरीरतिकाले ५ श्रीवा. ६ मेघो अनाशाद् भिन्न प्रहृष्ट कम् आत्मानम् वरतीति उद्धिन्नकधरो.

[६]

तं णिसुणेवि विहीसणु जरपइ
पेप्फुल्लिय-अरविन्द-पह-रणे
दुद्धम-दाणव-विन्द-पहरणे
५ अणुहरमाण-वाण-फेरुसक्कहो
ते रणे जाए णिवारेवि सक्कहो
जेण सम्बु मुहं छुच्चु कियन्तहो
जेण खरहो सिरु खुडिउ जियन्तहो
सो हरि सारहि जसु पंवरहउ

‘विरुवउ णिन्दिउ सीयहें जं पइ ॥ १
दुद्धर-णरवरिन्द-दप-हरणे ॥ २
णीसरन्त-वलहहहो पहरणे ॥ ३
जे भज्जन्ति मउप्फरु सक्कहो ॥ ४
तुम्हहु मज्जे सत्ति परिंसक्कहो ॥ ५
‘मिलेवि असेसेहिं काइ कियं’ तहो ॥ ६
चउदह-सहसेहिं काइ कियं’ तहो ॥ ७
दुज्जउ केण परज्जिउ राहउ ॥ ८

10

॥ घत्ता ॥

अणु वि हणुवहो काइ किउ
दक्खवन्तु णिय-चिन्धाइ

तुम्हहें तणए पइडुउ जो वणें ।
जिह वियहु कण्णाडिहें जोवणें ॥ ९

[७]

तं णिसुणेवि रूसिउ दसाणणो
१५ करे समुक्खयं चन्दहासयं
‘मरु पाडमि महि-मण्डले सिरं
तहिं अवसेरे कुइओ विहीसणो
लइउ खम्भु मणि-रयण-भूसिओ
वे वि पधाइयं एकमेक्कहो

जो सयं सुरिन्दस्स हाणणो ॥ १
विप्फुरन्तमिव चन्दहासयं ॥ २
मम णिन्दयरं पर-पसंसिरं ॥ ३
जो जणे सुकुइओ विहीसणो ॥ ४
दहवयणस्स जसो व भू-सिओ ॥ ५
जणु जम्पइ सियं एकमे क्हो ॥ ६

20

॥ घत्ता ॥

मण्ड धरन्त-धरन्ताहुं
णाइ परोप्परु ओवडिय

स-तरु स-खग्ग विहीसण-रावण ।
उद्ध-सोण्ड अइरावय-चारण ॥ ७

6. 1 A वित्थउ, 2 P S णरवरविद्वपहरणे 3 P परसक्कहो 4 A कयतहो. 5 P S transpose this and the next Pāda 6 A कयं. 7 P S व्वणि, A व्वणु collected as व्वणे. 8 P S वियहु, A विहु 9 A जोवणु, P S जोवणि.

7. 1 P S रोसिओ 2 P सवुकुइओ, S सुकुइओ. 3 A जसो 4 P S धाइया. 5 P रावण, S रावणा

[६] १ राम २ रणस्य विशेषणमिदम् । क्विविशिष्टे रणे । अभिनव-प्रफुल्लारविन्दवदुज्ज्वलानि नवनि-
शितानि प्रहरणानि प्रहरणे नियचरेण (२) तस्मिन् । ३ (P 's leading) अभिसुख-प्रहरण घातदानं
यत्र रणे ४ दुर्दमगत्रुन्दाना अप[ह]रण मारण यत्र रणे तस्मिन् ५ अभिसुखागच्छामनायकप्रहरणे
रणे ६ निष्ठुराद्विष्यस्य ७ तान् जयाशक्त्या ८ यदि शक्यते ९ ‘एसक्कहो’ एपाकस्य (एतस्य ?) । अत्र
ककारस्य वर्णागम १० प्रचुरा आहवा सप्रामा यस्य

[७] १ वधक २ मम निन्दाकारकम् ३ विगतभय ४ यथा इव गृहीतं भूमौ लोके स्थितं शुभ्रम्-
५ जनो ब्रवीति एकमेकस्मिन् क्रमे सप्रामलक्षणे कस्य श्री भविष्यति

[८]

नरवड् धरिउ कडच्छएँ मन्तिहिं
विहिं भाइहिं अण्णेकहो तणयहो
तो वि ण थक्कइ अमरिस-कुड्डउ
'अरे खल खुद पिमुण अकलंङ्कहो
भणइ विहीसणु 'जण-अहिरामहो
णवरि णरिन्द मूढ अविद्यप्पउ
एम भणेप्पिणु गउ णिय-भवणहो
तीसक्खोहणीहिं हँरि-सेणहो

'करँ अवराहु भडारा 'मं तिहिं ॥ १
जो 'जीवियहो सारु तउ तणयहो' ॥ २
जो चउ-जलहि-विहूसिय-कुँ-द्धउ ॥ ३
मरु मरु णीसरु णीसरु लँङ्कहो ॥ ४
जइ अच्छमि तो दोहउ रामहो ॥ ५
जिह 'सक्कहि तिह रक्खहि अप्पउ' ॥ ६
णाइँ गइन्दु रँभ-खम्भ-वणहो ॥ ७
णिग्गउ णिदलन्तु हँरिसँ णहो ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सहइ विहीसणु णीसरिउ
जसु मुहु मइलँवि रावणहो

सुहि-सामन्त-भन्ति-परियरि[य]उ ।
रामहो संसुहु णाइँ णिसरियउ ॥ ९

[९]

'हंसदीव-तीरोवर-त्थयं
सुँहउ-सुहउ-संखोह-भासुरं
णिँएवि सेणु रँवि-मण्डल-गए
दुण्णिवार-वड्डीरी सरासणे
ताव तेण बहु-पुण्णभाइणा
दण्डपाणि पट्टविउ मँहवलो
पणविऊण विण्णविउ राहवो
एक्कु वयणु पभणइ 'विहीसणो

वर-तुरङ्ग-वर-करि-चरत्थयं ॥ १
पडह-भेरि-संखोह-भासुरं ॥ २
देइ दिट्ठि हँरि मण्डलगएँ ॥ ३
राहवो वि सं-सरे सरासणे ॥ ४
स-विणएण दहवयण-भाइणा ॥ ५
जहिं स-कणहु पडिवक्ख-मँह-वलो ॥ ६
जो 'विमुक्क-सर-णिट्ठुराहवो ॥ ७
'तुमह भिच्चु एवहिं विहीसणो ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ण किउ णिवारिउ रावणोण
परम-जिणिन्दहो इन्दु जिह

लज्ज वि माणु वि मणेँ परिचत्तउ ।
तेम विहीसणु तुमहँ भत्तउ' ॥ ९

8. 1 A खमि 2 A अण्णेकु वि तणयहु. 3 P S अकलंकहो 4 P S लंकहो 5 P S जाणहि
6 P S A हरिसे णहो 7 P S A °परियरिउ. 8 P S रामणहो 9 S समुहु, A समुहँ

9. 1 P सिरामणे, S सरासणो 2 P समरे, S गहियं 3 S सरासणो. 4 P महवलो, S महावलो.
5 P S महवलो 6 A विमुक्क 7 A भविउ.

[८] १ माडत्र प्राणानामपराव कुरु २ त्वदीयस्य जीवित [स्य] य सार ३ कुम्थित-ध्वजा
यस्य ४ लंकाया ५ विक्र-परहित यथा भवति ६ कदलीस्तम्भोपलक्षितवनस्य ७ लक्ष्मण कटकस्य
८ हर्षेण 'णहु' आक्रान्त निर्दलयन

[९] १ हंसद्वीपतीरस्योपरिस्थिकं स्थितं सैन्यम् २ उत्तम-रणकम् ३ सुभटा रथास्तैर्भाष्मम्
४ आदित्यमण्डलगते ५ लक्ष्मण राज्ञाग्रे ६ (P's leading) वैरिश्चिर खण्डन ७ धनु(शुरु)पल-
क्षित ८ पुण्यभाजिना ९ दूत १० महान बलो बलिभद्र ११ विमुक्ता 'सरा' वाणा निष्ठुरा मारणा-
त्मना आहवे येन स १२ विधेयमस्येव खन शब्दो यस्य स

[१०]

तं गिसुणेवि वयणु तहों जोहहों
 ते ते मिलिया रणें इ सुमन्तहों
 'इच्छहों वलहों' देव पत्ति ज्जइ
 5 एयहुँ तणउँ चारु को जाणइ
 पभणइ मँइममुहु 'इमुँ आवइ
 पत्तिय एवहिँ रावणु 'जिर्जइ
 'किङ्कर-वहुँएहिँ एहुँ जिँ' पहुचइ
 मिलिउ विहीसणु लङ्क पईसहों

जे जे के वि राय रँजोहहों ॥ १
 मँइकन्तेण वुत्तु सामन्तहों ॥ २
 तो ण गिसायराहँ पत्तिज्जइ ॥ ३
 जेहिँ छलेण छलिय वणें जाणइ' ॥ ४
 एत्तिउ वलु पर-पुण्णेहिँ आवइ ॥ ५
 गिय-मणें सयल सङ्क वज्जिज्जइ ॥ ६
 ताहँ मि^{१०} साहणें एहुँ जि^{११} पहुचइ ॥ ७
 लग्गउ करयलें सीय हलीसहों ॥ ८
 ॥ वत्ता ॥

10

दिज्जउ रज्जु विहीसणहों
 अम्हहुँ काई महाहवेंण

जेण वे वि जुज्जन्ति परोप्परु ।
 परु जें परेण जाउ सय-सक्करु' ॥ ९

[११]

तं गिसुणेविणु पचविउँ मारुई
 15 'देव देव देविन्दै-सासणं
 आउँ विहीसणु परम-सज्जणो
 सच्चवाइ जिण-धम्म-वच्छलो
 मई समाणु एणासि जम्पियं
 जइ महु वुत्तउ ण किउ रौँणं

जो किर वँम्महु मयणु माँ-रुई ॥ १
 सच्चउ कँलहें वि महु दसासणं ॥ २
 विणयवन्तु दुण्णय-विसँज्जणो ॥ ३
 सयल-काल-परिचँत्त-वँच्छलो ॥ ४
 तं करेसि हलहरहों जं पियं ॥ ५
 तो रिउ-साहणें मिलमि रौँणं' ॥ ६

20

तं गिसुणेप्पिणु राहवेंण
 आउ विहीसणु गह-सहिउ

॥ वत्ता ॥

पेसिउ दण्डपाणि हक्कारउ ।
 एयँरहमु णाई अँझारउ ॥ ७

10. 1 P S कारणे मिलिया मतहो 2 S A देव. 3 P A तणउ. 4 P महु, S किं. 5 P परि-
 पुण्णेहि, S परिपुण्णेहि 6 P S भिज्जइ. 7 P S कि किर. 8 P S पहु रुचइ 9 P ताह, A ताहिं.
 10 P S दसाणणे 11 wanting in P S

11. 1 P S गिसुणेवि, पचविउ 2 This Pāda is wanting in A. 3 P S मारुइ. 4 A
 सच्चउ 5 P S जे (S जि) कलहे वि दसाणण 6 P S अण्णु 7 P S °विवज्जणो 8 P S °वयण°
 9 A °पडिवण्ण° 10 A हलहरसं 11 S रावण 12 P S एयारहसमु, A एयारहसुह.

[१०] १ राज्यसमूहस्य २ राममन्त्रिणा ३ प्रतिपद्यन्व यूयं ४ (P's reading) ददाति पत्नी
 सीता यदि ५ जाम्बवन्त-नामेवम् ६ कि आपदा नो (?) (of S's reading) ७ मेघते
 ८ लङ्काप्रवेगवान्छकस्य रामस्य

[११] १ जल्पित हनूमन्त २ मदनस्योत्कृष्टो (?) मा लक्ष्मी तस्या रुचिर्यस्य ३ देवेन्द्रहिंसकेन
 ४ परित्यक्त-वाक्य(?) च्छल ५ रागेन ६ मङ्गल

[१२]

जय-जय-सहें मिलिउ विहीसणु
भणइ रामु 'णउ पइँ लज्जावभि
सिरु तोडमि रावणहों जियन्तहों
तेण वि बुत्तु 'भडारा राहव
जिह अरहन्त-णाहु पर-लोयहों
एव जाम्भं पचवन्ति परोपपरु
अक्खोहणि-सहासु भामण्डलु
आउ णहङ्गणें णाणा-जाणेंहिं

विहि मि परोपपरु किउ संभासणु ॥ १
'णीसावणण लङ्क भुञ्जावमि ॥ २
संपेसमि पाहुणउ कयन्तहों ॥ ३
सुहड-सीह णिबूढ-महाहव ॥ ४
तिह तुहें सामिसालु इह-लोयहों ॥ ५
ताम 'विदेहहें णयण-सुहङ्करु ॥ ६
णाइँ सुरेहिं समाणु आखण्डलु ॥ ७
मणि-मोत्तिय-पवाल-अपमाणेंहिं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मणें परितुट्टें राहवेंण
अवरुण्डिउ पुप्फवइ-सुउँ

णरवइ-विन्दु सयलु ओसारेंवि ।
सरहंसु स ईं भु अ-जुअलु पसारेंवि ॥ ९

[५८. अट्टवण्णासमो संधि]

भामण्डलें भीसणें मिलिएँ विहीसणें कुणय-कुवुद्धि-विवज्जियउ ।
अत्थाणें दसासहों लच्छि-णिवासहों अङ्गउ दूउ विसज्जियउँ ॥ 15

[१]

वलएवें पभणिउँ जम्बवन्तु
किं गवउ गवक्खु सुसेणु तारु
किं णलु किं णीलु किमिन्दु कुन्दु
किं कुमुउ विराहिउ रयणकेसि
जं एव पपुच्छिउ राहवेण
'पेसणें सुसेणु विणएँ वि कुन्दु
अङ्गङ्गय दूअत्तणें महत्थ
महुमहणु हणुवु आहव-वमालें

'एत्तियहें मज्जेँ को बुद्धिवन्तु ॥ १
किं अङ्गणेउ रणें दुण्णिवारु ॥ २
किं अङ्गउ किं पिहुमइ मंहिन्दु ॥ ३
किं भामण्डलु किं चन्दरासि' ॥ ४
विण्णविउ णवेप्पिणु जम्बवेण ॥ ५
पञ्चङ्गें मन्तें मइसमुहु ॥ ६
णल-णील पयाणएँ सईं समत्थ ॥ ७
सुग्गीउ तुहु मि पुणु विजय-कालें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि रामें णिग्गय-णामें अङ्गउ जोत्तिउ दूअ-भरें ।
'भणु "किं वित्थारें समउ कुँमारें अज्ज वि रावण सन्धि करें" ॥ ९

12. 1 A रामणहो 2 A पाहुणउ 3 P S कियतहो 4 P S जाव. 5 P विदेहिहे, S विदेहहि.
6 A आहडलु 7 A 'सु 8 Wanting in A

1. 1 P S सत्याणु 2 A leads ध्रुवक at the end of this line 3 A पभणिउ
4 P S महहु. 5 P विणपुण, S विणयेण 6 Wanting in A

[१२] १ समस्त

[१] १ सग्रामकाले कलकलावते २ विख्यात ३ लक्ष्मणकुमारेण सह

[१०]

तं गिसुणेवि वयणु तहों जोहहों
ते ते 'मिलिया रणों इ सुमन्तहों
'इच्छहों वलहों 'देव पत्ति ज्जइ
५ एयहुँ तणउं चारु को जाणइ
पभणइ मंइममुहु 'इसुँ आवइ
पत्तिय एवहिँ रावणु 'जिर्जइ
'किङ्कर-वहुँएहिँ एहुँ जि' पहुच्चइ
मिलिउ विहीसणु लङ्कं पईसहों

जे जे के वि राय रंजोहहों ॥ १
मंइकन्तेण वुत्तु सामन्तहों ॥ २
तो ण गिसायराहँ पत्तिज्जइ ॥ ३
जेहिँ छलेण छलिय वणों जाणइ' ॥ ४
एत्तिउ वल्लु परं-पुण्णेहिँ आवइ ॥ ५
णिय-मणों सयल सङ्क वज्जिज्जइ ॥ ६
ताहँ मि^{१०} साहणों एहुँ जि^{११} पहुच्चइ ॥ ७
लगगउ करयलें सीय हलीसहों ॥ ८

10

दिज्जउ रज्जु विहीसणहों
अम्हहुँ काइँ महाहवेंण

॥ घत्ता ॥

जेण वे वि जुज्जन्ति परोप्परु ।
परु जें परेण जाउ सय-सक्करु' ॥ ९

[११]

तं गिसुणेविणुं पचविउं मारुई
१५ 'देव देव देविन्दै-सासणं
आउं विहीसणु परम-सज्जणो
सच्चवाइ जिण-धम्मं-वच्छलो
मइँ समाणु एणासि जम्पियं
जइ महु वुत्तउ ण किउ राँएणं

जो किर वंम्महु मयणु माँ-रुई ॥ १
सच्चउ कलहें वि महु दसासणं ॥ २
विणयवन्तु दुण्णय-विसंज्जणो ॥ ३
सयल-काल-परिचत्त-वच्छलो ॥ ४
तं करेमि हलहरहों जं पियं ॥ ५
तो रिउ-साहणों मिलमि राँएणं' ॥ ६

20

तं गिसुणेप्पिणु राहवेंण
आउ विहीसणु गह-सहिउ

॥ घत्ता ॥

पेसिउ दण्डपाणि हक्कारउ ।
एयारहमु णाई अँझारउ ॥ ७

10. 1 P S कारणे मिलिया मंतहो 2 S A देव 3 P A तणउं. 4 P महु, S किं 5 P परि-
पुण्णेहि, S परिपुण्णेहि 6 P S भिजइ. 7 P S कि किर 8 P S पहु रुच्चइ 9 P ताहं, A ताहिँ
10 P S दसाणणे 11 wanting in P S

11. 1 P S गिसुणेवि, पचविउ 2 This Pāda is wanting in A. 3 P S मारुइ. 4 A
सच्चउ. 5 P S जे (S जि) कलहे वि दसाणण 6 P S अणु 7 P S °विवज्जणो 8 P S °वयण°. 9 A °पडिवण्ण°. 10 A हलहरसं 11 S रावणं 12 P S एयारहसमु, A एयारहसुह

[१०] १ राज्यसमूहस्य २ राममन्त्रिणा ३ प्रतिपद्यध्वं यूयं ४ (P' s reading) ददाति पत्नी
सीता यदि ५ जाम्बवन्त-नामेवम् ६ कि आपदा नौ (?) (cf s' s reading) ७ भेद्यते
८ लङ्काप्रवेगवाञ्छकस्य रामस्य

[११] १ जल्पित हनुमन्त २ मदनस्योत्कृष्टो (?) मा लक्ष्मी तस्या रुचिर्यस्य ३ देवेन्द्रहिंसकेन
४ परित्यक्त-वाक्य(?) च्छल ५ रागेन. ६ मङ्गल

[४]

समरङ्गणं एकं लक्षणेण सन्देसउ पेसिउ तक्खणेण ॥ १
 'भणु "जहिं जें जहिं जें तुहुं कुमुअ-सण्डु तहिं तहिं सो दिणयरु तेय-पिण्डु ॥ २
 जहिं जहिं तुहुं गिरिवरु सिहर-खण्डु तहिं तहिं सो वासव-कुलिस-दण्डु ॥ ३
 जहिं जहिं आसीविसु 'वि सफणिन्दु तहिं तहिं सो 'भीसणु वर-खगिन्दु ॥ ४ ६
 जहिं जहिं तुहुं गलगज्जिय-गइन्दु तहिं तहिं सो बहु-माया-मइन्दु ॥ ५
 जहिं तुहुं हवि तहिं जलणिहि-णिहाउ जहिं तुहुं घणु तहिं सो पलय-वाउ ॥ ६
 जहिं तुहुं उब्भडु तहिं सो विणांसु जहिं तुहुं चै-सडु तहिं सो समासु ॥ ७
 जहिं तुहुं णिसि तहिं सो पवर-दिवसु जहिं तुहुं तुरङ्गु तहिं सो वि महिसु ॥ ८
 ॥ घत्ता ॥ १०

जलें थलें पायालेंहिं विसम-खयालेंहिं तुहुं जर-पायवु जहिं जें जहिं ।
 लगेसइ घित्तउ झत्ति पलित्तउ लक्खण-हुअवहु तहिं जें तहिं" ॥ ९

[५]

एत्थन्तरें रण-भर-भी'सणेण सन्देसउ दिण्णु विहीसणेण ॥ १
 'भणु "रावण जाइ कियइ छंलाइ दरिसावमि ताइ महाफलाइ ॥ २ १५
 'जें हत्थें कड्डिउ चन्दहासु जें हत्थें वइरिहिं 'किउ विणासु ॥ ३
 जें हत्थें पणइहुं दिण्णु दाणु जें हत्थें धणयहों मलिउ माणु ॥ ४
 जें हत्थें साहुकारु लडु जें हत्थें सुरवइ समरें वडु ॥ ५
 जें हत्थें सइ समलडु अडु जें हत्थें वरुणहों कियउ भडु ॥ ६
 जें हत्थें कड्डिय राम-घरिणि पञ्चाणणेण वणें जेर्म हरिणि ॥ ७ २०
 तहों हत्थहों आइउ पलय-कालु मइ उप्पाडेवउ जिह मुणालु" ॥ ८
 ॥ घत्ता ॥

अण्णु वि सविसेसउ कहि सन्देसउ "पइ 'पेसेवि जम-सासणहों ।
 राहव-संसग्गी पुरि आंवग्गी होसइ परएँ 'विहीसणहों" ॥ ९

4. 1 P S सिंग 2 A तुहुं. 3 A omits the portion from भीसणु to तुहुं (sixth line) 4 P S जहिं जहिं तुहुं 5 P S जहिं 6 P S जहिं तुहुं. 7 S विसाणु 8 P S जलथल. 9 P S लक्खणु

5. 1 A भयभीसावणेण 2 P छलइ, S छलइ. 3 P महप्फलइ, S महप्फलइ 4 A repeats lines 3 and 4 5 P S किअ(स्य)उ णासु 6 P S जेव करिणि 7 P S सदेसउ. 8 P S कहमि विसेसउ. 9 P S पेसमि 10 P कळे, S कळि.

[४] १ वज्रम् २ अग्नि ३ समुद्र-सघात ४ मेघ ५ धवश्च पलाशश्च तेषु स्थानेषु च-शब्दस्तस्य समासे विनाशो यथा धवश्चदिरपलाशा इति

[५] १ याचक्रानाम् २ स्वाधीना समस्ता वा रामस्य कळे भविष्यति ३ विभीषणस्यैतत् सदेशकम् पठ० च० २

[६]

एत्थन्तरें दिण्णु स-मच्छरेण
 'भणु "रावण कल्लएँ कवणु चोज्जु
 दुप्पेक्ख-तिक्ख-गाराय-भत्तु
 5 मुक्केक्क-चक्क-चोप्पडय-धारु
 तीरिय-तोमर-तिम्मण-णिहाउ
 सबल-हुलि-हल-करवाल-इक्खु
 तं तेहउ भोज्जु अकायरेहिं
 इन्दइ-घणवाहण-रावणेहिं

सन्देसउ 'किक्किन्धेसरेण ॥ १
 सुग्गीउ करेसइ समरें भोज्जु ॥ २
 कण्णिय-खुरुप्प-अंगिमउ देन्तु ॥ ३
 सर-झसर-सत्ति-सालणय-सारु ॥ ४
 मोगगर-मुसुण्ढि-गँय-पत्त-साउ ॥ ५
 फर-कणय-कोन्त-कल्लवण-तिक्खु ॥ ६
 भुञ्जेवउ 'परएँ णिसायरेहिं ॥ ७
 हत्थां-पहत्थ-सुयसारणेहिं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भुत्तोत्तर-कालेंहिं रणउह-सालेंहि दीहर-णिहँएँ भुत्तएँहिं ।
 अच्छेवउ सावेंहिं विगय-पयावेंहिं महु सर-सेज्जहिं सुत्तएँहिं" ॥९

[७]

पुणु पच्छलें सुर-करि-कर-भुएण
 15 'भणु इन्दइ "इच्छिउ देहिं" जुज्जु
 णिङ्गुरिय-णयण-वयणुब्भडाँहँ
 अलि-चुम्बिय-लम्बिय-मुहवडाँहँ
 पडिकूल-पवर-पँवणुच्छडाँहँ
 विहडप्फड-कडमँदण-कराँहँ
 20 दिढ गुड तोडन्तु तुरङ्गमाँहँ
 दरिसन्तु चउदिसु भड-चियाँइँ

सन्देसउ दिज्जइ मँरु-सुएण ॥ १
 हणुवन्तु भिडेसइ परँएँ तुज्जु ॥ २
 भञ्जन्तु मडप्फरु रिउ-भडाँहँ ॥ ३
 असि-घाय देन्तु सिरें गय-घडाँहँ ॥ ४
 मोडन्तु दण्ड धुअ-धयवडाँहँ ॥ ५
 भञ्जन्तु पसरु रुणें रहवराँहँ ॥ ६
 पर-वलु वलि देन्तु विहँङ्गमाँहँ ॥ ७
 धूमन्तइँ जिह दुज्जण-मुहाँइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इयँ लीलएँ साहणु रह-गय-वाहणु जिह उववणु तिह णिड्ढवमि ।
 जें पन्थें अक्खउ णिउ दुप्पेक्खउ तेण पाव पँइँ पट्टवमि" ॥ ९

6. 1 P S °मुसुण्ढि° 2 P S इत्थ° . 3 P °सालिहि, S सालिहि, A सालहि 4 P S °णिहय, A निहए 5 P S °सेज्जए

7. 1 Wanting in A 2 P S देमि 3 P समरि, S समरे 4 P °णुब्भडाहु, S °णुब्भ-डाहु and similarly in the following occurrences 5 P S °णुब्भडाहुं (S°हु) 6 A °कडवदण° 7 P विहंगमाहुं, S विहगमाहु, A विहंगमाहि 8 P S इह 9 A अक्खउं 10 A मइ, S पइ.

[६] १ सुग्रीवेन २ भगणु प्रयसेतु प्रकपेण(२) ३ गदा-प्राप्त-खाट (२). ४ प्रभाते ५ सर्वैः.

[७] १ हनूमता २ नीत . ३ मार्गेण

[८]

पुणु दिणुणु अभग्ग-मडप्फरेण
 'भणु "एसइ अजउ अलङ्ग-थाहु
 पहरण-कर-णरवर-जलयरोहु
 उत्तुङ्ग-तुरङ्ग-तरङ्ग-भङ्गु
 चक्कोहरुरुह(?)-सुंसुयर-पर्यरु
 करवाल-पहर-परिहच्छ-मच्छु
 कुम्भयल-सिलायल-विसम-त्तू हु
 तेहुँ भामण्डल-जलपवाहु

सन्देसउ सीय-सहोवरेण ॥ १
 कल्लएँ भामण्डल-जलपवाहु ॥ २
 धुय-धवल-छत्त-डिण्डीर-सोहु ॥ ३
 पवणाहय-धय-उँड्डिर-विहङ्गु ॥ ४
 गज्जन्त-मत्त-मायङ्ग-मयरु ॥ ५
 णिव-णक्क-ग्गाह-फरोह-कच्छु ॥ ६
 सिय-चमर-वैलायावलि'-समूहु ॥ ७
 रेलन्तु लङ्ग पइँसइ अथाहु" ॥ ८

॥ घत्ता ॥

बुच्चइ णल-णीलेंहिँ दूसम-सीलेंहिँ 'अङ्गय गम्पिणु एम भणें ।
 "अँ हत्थ-पहत्थहँ पहरण-हत्थहँ जिह सक्हँ तिह थाहु रणें" ॥ ९

[९]

णिय-वइरु सरेवि जसाहिणण
 भणु "रावण जिह पइँ किउ अकज्जु
 वायरणु जेम जं पुज्जणीउ
 वायरणु जेम आयम-णिहाणु
 वायरणु जेम अत्थुवहन्तु
 वायरणु जेम विग्गह-समाणु
 वायरणु जेम अद्यय-णिवाउ
 वायरणु जेम परलोय-करणु

सन्देसउ दिणुणु विराहिणण ॥ १
 चन्दोयरु मारेंवि लइउ रज्जु ॥ २
 वायरणु जेम सँ-विसज्जणीउ ॥ ३
 वायरणु जेम आएस-थाणु ॥ ४
 वायरणु जेम गुण-विद्धि देन्तु ॥ ५
 वायरणु जेम सन्धिज्जमाणु ॥ ६
 वायरणु जेम किरिया-सहाउ ॥ ७
 वायरणु जेम गण-लिङ्ग-सरणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं रज्जु महारउ गुण-गरुआरउ दिणुणु जेम खर दूसणहुँ ।
 तिह धीरुँ म छड्ढहिँ अङ्गु समोड्ढहिँ मम णारायहुँ भीसणहुँ" ॥ ९

8. 1 P A भामंडल. 2 wanting in A. 3 P S 'ठड्डिय'. 4 A 'रुकह'. 5 P S 'पवरु.
 6 P S 'परिहच्छु 7 'लिसमूहु wanting in A 8 wanting in A 9 P S भामंडल,
 wanting in A 10 P एसइ.

9. 1 The portion from 4 b to 7 b is wanting in A 2 P S विग्गह. 3 A
 चीरु 01 यीरु. 4 P चड्ढहिँ, S चड्ढहिँ, A चड्ढहिँ 5 S मग्ग, A यम 6 P णारायहुँ, S णारायहुँ,
 A नारायहुँ 7 P S A भीसणहुँ.

[८] १ कच्छु २ तट ३ बलाकावली ४ समुद्र ५ (P's leading) आगमनं करिष्यति

[९] १ दूत-हेरिफ-सहितो, अन्यत्र विन्दु-द्वयं विसर्जनीय-युक्तम् २ द्रव्यागमं, अन्यत्र प्रतिज्ञागमम्
 ३ विहम्.

[१०]

अवरो वि को वि जो जासु मल्लु
 समरङ्गणें जेण समाणु जासु
 भीसावणु रावणु राउ जेत्यु
 ६ 'भो सयल-भुवण-एकल-मल्ल
 जम-धणय-पुरन्दर-मइयवट्ट
 दुहम-दणुवइ-णिहलण-सील
 थिरे-थोर-हँत्थि-णिट्टर-पवट्ट
 दिवें दिवें कियँ-तइलोकैक-सेव

जो जसु उप्परि उवहइँ सहुँ ॥ १
 सन्देसउ पेसिउ तेण तामु ॥ २
 गउ अङ्गउ दूउ पइडु तेत्थु ॥ ३
 हरि-हर-चउराणण-हियय-सल्ल ॥ ४
 णिल्लोद्दविय-दुँग्घोद्द-थट्ट ॥ ५
 तियसिन्द-विन्द-पक्कन्द-लील ॥ ६
 कइलास-कोडि-कन्दर-णिहट्ट ॥ ७
 सन्धाणु पयत्तं करहि देव ॥ ८

10

॥ घत्ता ॥

विज्जाहर-सामिय अम्वर-गामिय वन्दिण-विन्द-णरिन्द-थुअ ।
 चन्दङ्किय-णामहुँ लक्खण-रामहुँ धुउँ अप्पिज्जउ जणिय-सुअ' ॥ ९

[११]

तं णिसुणेंवि हसिउ दसाणणेण
 15 कें लक्खणु केण पमाणु सारु
 जो ण खलिउ देवेंहिँ दाणवेहिँ
 जइ होइ सन्धि गरुडोरगाँहुँ
 जइ होइ सन्धि हुअवह-पँयाहुँ
 जइ होइ सन्धि ससि-कँञ्जयाहुँ
 20 जइ होइ सन्धि खर-कुँजराहुँ
 जइ होइ सन्धि संवरि-दिणाहुँ

'किं वुज्झियं सन्धि समासु केण ॥ १
 किं वलु किं साहणु दुँणिवारु ॥ २
 तहों कवणु गहणु किर माणवेहिँ ॥ ३
 सुर-कुँलिस-णिहाय-महाणँगाँहुँ ॥ ४
 पञ्चाणण-मत्त-महागयाहुँ ॥ ५
 दिणयर-करोह-चन्दुँजयाहुँ ॥ ६
 खयकाल-पँहञ्जण-जलहराँहुँ ॥ ७
 जइ होइ सन्धि वम्मह-जिणाँहुँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ललियक्खर-अँत्थहुँ दूर-वरत्थहुँ अणँउ(?) णव-पणस-रायणहुँ ।
 जइ सन्धि पहावइ को वि घँडावइ तो रणें राँहव-रावणहुँ' ॥ ९

10. 1 P S जो जसु कएण परिवहइ. 2 A सच्चहु 3 A समरगणु. 4 P S, °दुग्घट्ट°. 5 A °वँदि°. 6 P °हत्थ°, S °हत्थु 7 A कय°. 8 P S °णामहु, A °नामहु. 9 P S लहु. 10 A धणय°.

11. 1 P S वुज्झिउ 2 P S A °रगाहु 3 P S A °णगाहु 4 A होदि 5 P S °कुँजराहु, A °कुँजराह. 6 P S °हराहु, A °हराह 7 P S °जिणाहु, A °जिणाह. 8 P S अणणउ, A अणउं. 9 P S दुच्चयणसरासणहुँ (S °हु) 10 A यडावइ. 11 P °रामणहुँ, S °रावणहु, A °रावणहँ.

[११] १ लक्ष्मण (१) २ वज्र ३ पर्वतानाम् ४ अपाम् ५ कमलानाम् ६ गद-हूलानाम् (१)
 ७ वायु ८ मेघानाम् ९ रात्रे . १० गृहीताना यथा ऊंकारा मुनी साधू (१).

[१२]

तं णिसुणोवि समरें^१ अभङ्गएण
 'भो रावण किं गलगज्जिएण
 भणु सीय ण देन्तहो कवणु लाहु
 किं जो सो सम्बुकुमार-णासु
 किं जो सो चन्दणही-पवञ्चु
 किं जो सो आसालन्तकालु
 किं जो सो पवरुज्जाण-भङ्गु
 किं जो सो उप्परि दिण्णु पाउ
 किं जो सो एक्को धर-विभेउ

पुणु पुणु वि पवोल्लिउ अङ्गएण ॥ १
 णिप्फलेण परक्कम-वज्जिएण ॥ २
 किं जो सो सज्जण-हियय-डाहु ॥ ३
 किं जो सो पर-गय-सूरहासु ॥ ४
 किं जो सो खर-वल-वलि-विरञ्चु ॥ ५
 किं जो सो विणिहय-कोट्टवालु ॥ ६
 किं जो सो हउ वलु चाउरङ्गु ॥ ७
 किं जो सो मोडिउं घर-णिहाउ ॥ ८
 किं जो सो कल्लए पाण-छेउ' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणोवि रावणु भय-भीसावणु अमरिस-कुद्धउ अङ्गयहो ।
 उद्धूसिय-केसरु णहर-भयङ्करु जिह पञ्चमुहु महगयहो ॥ १०

[१३]

'महु अगएँ भड-चक्केहिं काँइ
 दाहिणें करें कट्टिएँ चन्दहासें
 किं वरुणु पवणु वइसवणु खन्दु
 जं चुक्कइ हरु तं कल्लुणु भाउ
 जं चुक्कइ वंभु महन्त-बुद्धि
 जं चुक्कइ जमु जण-सण्णिवाउ
 जं चुक्कइ ससि सारङ्ग-धरणु
 जं तवइ भाणु ववगय-तमालु

सङ्कन्ति जासु रणे सुर-सयाइ ॥ १
 मइ सरिसु कवणु तिहुअणे असेसे ॥ २
 किं हरि हरु वंभु फणिन्दु चन्दु ॥ ३
 मं गउरिहें होसइ कहि मि घाउ ॥ ४
 तं किर वंभणे मारिएँ ण सुद्धि ॥ ५
 तं को किर एत्तिउ लेइ पाउ ॥ ६
 तं किर रयणिहें उज्जोय-करणु ॥ ७
 तं किर एँहु पञ्चमु लोयपालु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दिट्टएँ रहणन्दणे स-धएँ स-सन्दणे जइ एक वि पउ ओसरमि ।
 तो भय-भीसाणहें(?) धगधगमाणहें(?) हुअवह-पुञ्जे पईमरमि' ॥ ९

12. 1 A समर अहगएण. 2 P S विफलेण. 3 P S A देतहु. 4 A पर°. 5 P °विरंभु, A °विरिंचु 6 P S °रुजाणु भरगु 7 P S वलु हउ, A हयवल°. 8 A मोडिय°. 9 P S उद्धूलिय°. 10 A पंचाउहु 11 P S महागयहो, A महगए

13. 1 P S °वोक्केहि 2 P S कट्टिय°, A कट्टिए 3 A °खंडु 4 P S करणु. 5 P S कहि वि, A कहि मि. 6 P वंभु, S वंभु 7 P S वंभण. 8 P S पचमु एहु 9 P S °भीसाणहि. 10 P हुअवहे, S हुयवहे.

[१२] १ विभीषण-विभेद

[१३] १ कार्तिकेय. २ जनसत्तापकारी अतीव पापी भत्वा. ३ मृगधारक .

[१४]

तियसिन्द-विन्द-कन्दावणेण
 तं इन्दइ-मुहें णीसरिउ वक्कु
 जइ मणें परियच्छेवि पउमणाहु
 5 तो तहों ति-खण्ड महि एक-छत्त
 सामन्त-मन्ति-पाइक-तन्तु
 अन्तेउरु परियणु पिण्डवासु
 कुस-दीउ चीर-वाहणु असेसु
 ववरउलु जवणु सुवण्ण-दीउ

जं सन्धि न इच्छिय रावणेण ॥ १
 'पर सन्धिहें कारणु अत्थि एक्कु ॥ २
 आमेळइ सीयहें तणउ गाहु ॥ ३
 चउरद्ध णिहिउ रयणाइँ सत्त ॥ ४
 रहवर-णरवर-गय-तुरय-वन्तु ॥ ५
 स-कलत्तु स-वन्धउ हउ मि दासु ॥ ६
 वज्जरउ चीणु छोहार-देसु ॥ ७
 वेलन्धरु हंसु सुवेल-दीउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्णइ मि पएसइँ लेउ असेसइँ गिरि वेयहुँ जाम्व धरेंवि ।
 रावणु मन्दोयरि सीय किसोयरि तिण्णिं वि वाहिराइँ करेंवि ॥ ९

[१५]

तं णिसुणेंवि रोस-वसं-गएण
 15 'खल खुह पिणुण पर-णारि-ईह
 जसु तणिय धरिणि तासु जें ण देहि
 जो रक्खइ पर-परिहव-सयाइँ
 जे^४ दिण्ण विहीसण-हरि-वलेहिँ
 सन्देसा ते वज्जरेंवि तासु
 20 'सो रावणु सन्धि ण करइ देव

णिन्भच्छिउ इन्दइ अङ्गएण ॥ १
 सय-खण्ड केव तउ ण गय जीह ॥ २
 राहवें जियन्तें जम्मवि ण लेहि ॥ ३
 सो णियं-कज्जे ओसरइ काइँ ॥ ४
 सुग्गीव-हणुव-भामण्डलेहिँ ॥ ५
 गउ अङ्गउ वल-लक्खणहँ पासु ॥ ६
 सहुँ सरेण अमी-ईयारु जेम्ब ॥ ७

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि कुद्धेहिँ जय-जस-लुद्धेहिँ कइकइ-अपरजिय-सुएहिँ ।
 वेहि मि वे चावइँ अतुल-पयावइँ अप्फालियइँ सँ इं भु एहिँ ॥ ८

❀

14. 1 A सीयह तणउ 2 A सावंतं; missing in S 3 S °असेसतंतु. 4 P °दीवु 5 P S वेयहु 6 A विण्णि.

15. 1 A सियलखंडु 2 P S णियय°. 3 S A कजे 4 P जें, S जि 5 P S °लक्खणहु. 6 A समीईकारु 7 P S विहि कुद्धेहिँ (S °हि) 8 A °अपराजिय 9 S सय, A सह

[१४] १ राम २ समूहम्

[१५] १ कामेन सह 'अमियारु' जिन । अथवा, 'अमी' गन्ध स्वरेण सह यथा ईकार सधि न इच्छते

[५९. एकुणसट्टिमो संधि]

दूआगमणें परोप्परु कुद्धईं जय-सिरि-रामालिङ्गण-लुद्धईं ।
 किय-कलयलईं समुत्तिभय-चिन्धईं रामण-राम-वलईं सण्णद्धईं ॥
 (ध्रुवकम्)

[१]

गएँ अङ्गय-कुमारें उग्गिण्ण-चन्दहासो ।

सईं सण्णहँवि णिग्गओ सरहसो दसासो ॥ १ (हेलादुवईं)

धुरे अङ्गलक्खो समारुद्ध-वयणो धए वंन्धुरो रक्खसो रत्त-णयणो ॥ २
 रहे रावणो दुण्णिवारो असंज्जे कयन्तु व खयकाल-मँच्चूण मँज्जे ॥ ३
 थिर-त्थोर-भुव-पज्जरो वियड-वच्छो सु-भीसावणो भू-लया-भङ्गुरच्छो ॥ ४
 महा-पलय-कालो व कहकहकहन्तो सँमुप्पाय-जलणो व धगधगधगन्तो ॥ ५
 समालोवणे सणि व मुह-विप्फुरन्तो फणिन्दो व फर-फार-फुक्कार देन्तो ॥ ६
 गइन्दो व मुक्कङ्कुसो गुलगुलन्तो मइन्दो व मेहागमे थरहरन्तो ॥ ७
 समुद्धो व पक्खुहणें मज्जाय-चत्तो सुरिन्दो व वहु-रण-रसुत्तिभण्ण-गत्तो ॥ ८
 णहँ असँणि-जलउ व धुद्धुवन्तो महा-विज्जु-पुञ्जो व तडतडतडन्तो ॥ ९
 (मयणावयारो णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

अमर-वरङ्गण-जण-जूरावणें सरहसँ सण्णज्जन्तएँ रावणें ।

किङ्कर-साहणु कहि मि न मन्तउ णिग्गउ पुर-पओलि भेहँन्तउ ॥ १०

[२]

के वि जयँ-जसँ-लुद्ध सण्णद्ध वद्ध-कोहा ।

के वि सुमित्त-पुत्त-सुकलत्त-चत्त-मोहा ॥ १ (हेलादुवईं)

के वि णीसँरन्ति वीर भूधर व तुङ्ग धीर ॥ २

सायर व अप्पमाण कुञ्जर व दिण्ण-दाण ॥ ३

केसरि व उद्ध-केस चत्त-सव-जीवियास ॥ ४

1. 1 A exchanges ध्रुवकं and हेलादुवईं. 2 P S गय. 3 A धुंधुरो. 4 P दुन्निवारे, S दुण्णिवारे 5 A असज्जो 6 A मज्जो. 7 A °मुक्कार. 8 P S असिणिजाल 9 missing in P S 10 P पेहँतउ, S पिहँतउ.

2. 1 A reads हेला, S हेलादुवईं in the beginning. 2 missing in P S 3 A सद्धि° 4 A णीसरंत

[१] १ रावण (१) २ श्रुत्यूनाम् मध्ये ३ विस्तीर्ण ४ कल्पान्ताग्निरिव ५ शनीश्वर .

[२] १ पर्वत इव

के वि सामि-भक्ति-वन्त
के वि आहवे अभङ्ग
के वि सूर साहिमाणि
के वि गीढ-वारुणत्थ
कुञ्ज जुञ्ज-लुञ्ज के वि

मच्छरगि-पज्जलन्त ॥ ५
कङ्कुर्म-प्पसाहियङ्ग ॥ ६
सत्ति-सूल-वक्क-पाणि ॥ ७
तोण-वाण-चाव-हत्थ ॥ ८
गिग्गया सु-सण्णहेवि ॥ ९

(तोमरो^९ णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

को वि^९ पधाइउ हणु-हणु-सद्वे
रण-रसियहो रोमञ्चुन्निभण्णहो

परिहइ कवउ को वि आणन्दे ।

उरे सण्णाहु ण माइउ अण्णहो ॥ १०

[३]

पंभणइ का वि कन्त
मुत्ताहलइ लेवि महु

‘करि-कुम्भे जेतडाइं ।

देज्जे तेत्तडाइं ॥ १ (हेलादुवई)

का वि कन्त चिन्धइ अप्पाहइ

का वि कन्त गिय-कन्तु पेसाहइ ॥ २

का वि कन्त मुह-पत्ति करावइ

का वि कन्त दप्पणु दरिसावइ ॥ ३

का वि कन्त पिय-णयणइ अञ्जइ

का वि कन्त रण-तिलउ पउञ्जइ ॥ ४

का वि कन्त स-वियारउ जम्पइ

का वि कन्त तम्बोलु समप्पइ ॥ ५

का वि कन्त विम्वाहरे लग्गइ

का वि कन्त आलिङ्गणु मग्गइ ॥ ६

का वि कन्त ण गणेइ णिवारिउ

सुरयारम्भु करेइ णिरारिउ ॥ ७

का वि कन्त सिरे वन्धइ फुल्लइ

वत्थइ परिहावेइ अमुल्लइ ॥ ८

का वि कन्त आहरणइ ढोयइ

का वि कन्त पर-मुहु जे पलोयइ ॥ ९

(मत्तमायङ्गो णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

कहे वि अङ्गे रोसो जे^{१४} ण माइउ

पिये-रणवहुयए सहु ईसाइउ ।

‘जइ तुहु तहे अणुराइउ वट्टहि

तो महु णह-वय देवि पर्यट्टहि’ ॥ १०

5 P S मच्छि^९. 6 P S कुकुमप^९. 7 P लुद्धयुद्ध, S लुद्धलुद्ध. 8 P S तोमरणामछंद (S^९ द). 9 P S इ.

3. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning 2 P S मुत्ताहलाइ. 3 P S आणे-ज्जहि. 4 P अप्पाहइ 5 P पसाहइ. 6 P S मुहयति 7 P करावइ. 8 P S विवाहर. 9 P S A वत्थइ. 10 P S अमुल्लइ, A अमोल्लइ. 11 P ढोयइ, A ढोइउ 12 P S परमुहइ पजोयइ, A मुहुं जे 13 P S कह. 14 P S रोसहु. 15 P माइय, S माया 16 A पिउ. 17 P ईसाइय, S ईसाइया, A इसाइउ. 18 P S वट्टइ 19 P S पर्यट्टइ

२ गजारुढ (१)

[३] १ आढवति २ श्रद्धारयति ३ (P' s leading) मुख-कान्तिम् अनुरागादिरम्

[४]

पेभण्ड को वि वीरु 'जइ चवहि एव भज्जे ।

तो वरि ताँहें देमि जा जुत्तु सामि-कज्जे' ॥ १ (हेलादुवई)

को वि भणइ 'गय-गण्ड वलभइँ आणविँ मुत्ताहलइँ धयगइँ' ॥ २

को वि भणइ 'णं वि लेमि पसाहणु जाम ण भज्जमि राहव-साहणु ॥ ३ 5

को वि भणइ 'मुह-पत्ति ण इच्छमि जाम ण सुहड-झडक पडिच्छमि ॥ ४

को वि भणइ 'ण णिहालमि दप्पणु जाम्व ण रणे विणिवाइउ लक्खणु ॥ ५

को वि भणइ 'णउ णयणइँ अज्जमि जाम्व ण सुरवहु-जण-मणु रज्जमि' ॥ ६

को वि भणइ 'मुहँ पणुँ ण लायमि जाम्व ण रुण्ड-णिवहु णच्चावमि' ॥ ७

को वि भणइ 'णउ सुरउ समाणमि जाम्व ण भडहुँ कुल-क्खउ आणमि' ॥ ८ ॥

को वि भणइ 'धणेँ फुल्ल ण वंन्धमि जाम्व ण संरवर-धोरणि सन्धमि' ॥ ९

(रयडा णामँ छन्दो)

॥ घत्ता ॥

को वि भणइ धणेँ¹⁶ 'णउ आलिङ्गमि जाम्व ण¹⁰ दन्ति-दन्तेँ आलग्गमि' ।

को वि करइ णिवित्ति आहरणहोँ जाम्व ण दिण्ण सीय दहवयणहोँ ॥ १० 15

[५]

¹गरुअ-पओहरीएँ अच्चन्त-णेहिणीए ।

रणेँ पइसन्तु को वि सिक्खविउ गेहिणीए ॥ १ (हेलादुवई)

'णाह णाह समरङ्गण-काले तूर-भेरि-दडि-सङ्ख-वमाले ॥ २

उत्थरन्त-वर-वीर-संमुद्दे सीह-णाय-णर-णाय-रउद्दे ॥ ३ 24

भत्त-हत्थि-गलगज्जिय-सद्दे अँविभडिज्ज पर राहवचन्दे' ॥ ४

का वि णारि परिहासइँ एमं 'तेम जुञ्जु णउ लज्जमि 'जेमं' ॥ ५

का वि णारि पडिवोहइँ णाहं 'भग्गमाणेँ पइँ जीवमि णाहं' ॥ ६

का वि णारि पडिचुम्बणु देइ को वि वीरु अवहेरि करेइ ॥ ७

4. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning 2 A भणइ 3 P तहें जे, S तहि जे. 4 P S जुत्तु 5 A 'दंड' 6 P S आणवि, A आणइ 7 P S णउ. 8 P S 'वित्ति. 9 P 'क, S 'च्छडक 10 P S अँक्खिउ 11 A पणु 12 P S वधवि 13 P S रणे सरभोरणि संधवि. 14 Missing in P S 15 A धणे णउ. 16 P S दंति दति आलिँ(सले)गमि, A दते. 17 P S करवि. 18 P S आहारहो.

5. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning 2 P 'पओहरीए, S 'पउहरीए. 3 P S समरणे 4 S 'समुद्देहो. 5 S 'रउद्देहो. 6 A अँविभट्टेजे 7 A एम्ब. 8 S जेव, A जेम्ब. 9 P णारें, S णाहें.

[५] १ ब्रवीति

पउ० च० ३

‘कन्ते कन्ते मँइँ मण्ड लएवी
का वि णाँहें णवकारु करेइ

“अज्ज वि कित्ति-वहुअ चुम्बेवी” ॥ ८

को वि वीरु रँण-दिक्ख लएइ ॥ ९

(परियन्दिअं णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

5 ताम्ब भयङ्करु विफुरियाणणु
णिग्गउ कुम्भयण्णु मणें कुइयउँ

पवर-विमाणु तिसूल-प्पहरणु ।

णहयलें धूमकेउ णं उइयउ ॥ १०

[६]

१णिग्गएँ कुम्भयण्णें माँरीइ-मल्लवन्ता ।

जम्बव-जम्बुमालि-वीभच्छ-वज्जणेत्ता ॥ १ (हेलादुवई)

10 धरँणिद्धर-कुर्वर-वज्जधरा
जय-दुज्जय-दुद्धर-दुद्धरिसा
दुरियाणण-दुस्सर-दुविसहा
सुअसारण-सुन्द-णिसुन्द-गया

खल-खुइ-विन्द-खयकाल-करा ॥ २

दुहउम्मुह-दुम्मुह-दुम्मरिसा ॥ ३

ससि-सूर-मऊर-कुरुर-गहा ॥ ४

करि-कुम्भ-णिसुम्भ-वियम्भ-भया ॥ ५

पिहुआसण-पिञ्जर-पिङ्ग वि हँ ॥ ६

15 कडुआल-कराल-तमाल-तमा
जमणाय-समुगणिणाय-लुली
मयँरङ्क-ससङ्क-मियङ्क-रवी

जमघण्ट-सिही-जमदण्ड-समाँ ॥ ७

हल-हाल-हलाउह-हेल-हुली ॥ ८

फणि-पणँय-णक्कय-सक्क-हवी ॥ ९

(तोट्टको णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

20 सीहणियम्ब-पलम्ब-भुवग्गल
एवमाइ सण्णहँवि विणिग्गय

वीर गहीर-णिणाय महबल ।

पञ्चाणण-रह पञ्चाणण-धय ॥ १०

[७]

१धुन्धुँज्जाम-धूम-धूमक्ख-धूमवेया ।

डिण्डिम-डमर-डिण्डिरँह-चँण्डि-चण्डवेया ॥ १ (हेलादुवई)

25 डवित्थ-वित्थँ-डम्बरा

जमक्ख-डाहडम्बरा ॥ २

सिहण्डि-पिण्डिँ-पण्डवा

वितण्डि-तुण्ड-मण्डवा ॥ ३

10 P S A मह 11 P S कित्तिवहुअ (S °य) रणे (S °णि) परिचुवेवी. 12 P S का वि
णाहि. 13 P S रणे 14 P S कुइउ

6. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 P S मारिच्चि°. 3 P S
धरणीधर°. 4 A °दुद्धर° 5 P S °खयखग्ग°. 6 P S °वियंभ°. 7 A °णिसुभ° 8 P S °पिहु.
9 P °ममा, S °जमा. 10 A मयरक्क° 11 P S °पत्तय°.

7. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 P धुंव°, S धूव°. 3 A
°डिडिहर 4 missing in A.

पचण्ड-कुण्डमण्डली
भयाल-भोल-भुम्भली
कियन्त-ढङ्ग-ढण्डरा
चकोर-चारु-चारणा
पिथेक-णिक-सीहया
सुमालि-मच्चु-भीसणा

कवोल-कर्ण-कुण्डला ॥ ४
विसालचक्खु-कोहला ॥ ५
कवालचूल-सेहरा ॥ ६
सिलिन्धे-गन्धवारणा ॥ ७
णिरीह-विज्जुजीहया ॥ ८
दुरन्त-दुदरीसणा ॥ ९

(णाराड णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

वज्जोयर-वियडोयर-घङ्गल
इय णरवइ सण्णद्ध समुण्णय

असणिणिघोस-हूल-हालाहाल ।
वग्घ-महारह वग्घ-महाधय ॥ १०

[८]

महुमह-अकइत्ति-सदूल-सीहणाया ।

चञ्चल-चडुल-चवल-चल-चोल-भीमकाया ॥ १ (हेलादुवई)

हत्थ-विहत्थ-पहत्थ-महत्था
दारुण-रुह-रउह-णिघोरा
मन्दिर-मन्दर-मेरु-मयत्था
अण्ण-महण्णव-गण्ण-विगण्णा
भीम-भयार्णय-भीमणिणाया
कञ्चण-कोञ्च-विकोञ्च-पवित्ता
माहव-माह-महोअर-मेहा
सीहवियम्भिय-कुञ्जरलीला

सुत्थ-सुहत्थ-सुमत्थ-पसत्था ॥ २
हंस-पहंस-किरीडि-किसोरा ॥ ३
गन्धविमहण-रुच्छ-विहत्था ॥ ४
धोरिय-धीर-धुरन्धर-धण्णा ॥ ५
कहम-कोव-कयम्ब-कसाया ॥ ६
कोमल-कोन्तल-चित्त-विचित्ता ॥ ७
पायव-वायव-वारुण-देहा ॥ ८
विठ्ठम-हंसविलास-सुसीला ॥ ९

(दोद्धकं णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

मल्हण-लडहोल्हास-उल्हावण
एम्ब णराहिव अण्ण वि णिग्गय

पत्त-पर्मत्त-सत्तुसन्तावण ।
हत्थि-महारह हत्थि-महाधय ॥ १०

5 P S 'मण्डवा' 6 A 'वण्ण'. 7 A भुभुला. 8 S reads ववालधूलकेसरा extra after this. 9 P S कवालधूल. 10 P S सिलिम्ब. 11 A मयकनक. 12 A नहीर. 13 P S 'मच्च'.

8. 1 P S the हेलादुवई, A हेला in the beginning 2 This portion is missing in A. 3 P S 'भयच्छा'. 4 P S 'कच्छ' 5 A 'मयच्छा' 6 P S 'भयाण्ण' 7 P S 'कोय'. 8 P S माहव. 9 A 'माससहोभर'. 10 After this P S lead सीयविभीयसु (P'सुं)कुजरलीला extra 11 A 'लडह'. 12 S A 'मपत्त'. 13 P S 'पत्त'.

[९]

मैङ्ग-पसंङ्ग-रत्त-भिण्णञ्जण-प्पहङ्गा ।

पुक्खर-पुप्फचूड-धण्टाउह-प्पिहङ्गा ॥ १ (हेलादुवई)

पुप्फासवाण-पुप्फक्खरा	फुल्लोअर-फुल्लन्धुअ-भमरा ॥ २
5 वम्मह-कुसुमाउह-कुसुमसरा	मयरद्धय-मयरद्धयपसरा ॥ ३
मयणाणल-मयणारसि-तुसमा	वरकांमावत्थ-कामकुसुमा ॥ ४
मयणोदय-मयणोयर-अमया	एए तुरङ्ग-रह तुरय-धया ॥ ५
अवरे वि के वि सिग-सम्बरोहिं	विस-मेस-महिस-खर-सूअरोहिं ॥ ६
ससहर-सल्लकइ-विसहरोहिं	सुंसुअर-मयर-मच्छोहरोहिं ॥ ७
10 अवरे वि के वि गिरि-रुक्ख-धरा	हँवि-त्रारुण-वायव-वज्ज-करा ॥ ८
ताणन्तरँ भड-कडमँदणाहुँ	णीसरियउ दहमुह-णन्दणाहुँ ॥ ९

(पद्धडिया णाम छन्दो)

॥ वत्ता ॥

रहसुच्छलियहुँ रणँ रसियहुँ	रक्खस-धयहुँ विमाणारुढहुँ ।
15 इन्दइ-धणवाहण-सुअ-सौरहुँ	पञ्चँ-अद्ध-कोडीउ कुमारहुँ ॥ १०

[१०]

गँय रण-भूमि जाँ[म] खच्चियइँ वाहणाइँ ।

थिउ वलु वित्थरेविँ पञ्चास-जोयणाइँ ॥ १ (हेलादुवई)

विमाणं विमाणेण छत्तेण छत्तं	धयग्गं धयग्गेण चिन्धेण चिन्धं ॥ २
20 गइन्दो गइन्देण सीहेण सीहो	तुरङ्गो तुरङ्गेण वग्घेण वग्घो ॥ ३
जणाणन्दणो सन्दणो सन्दणेणं	णरिन्दो णरिन्देण जोहेण जोहो ॥ ४
तिसूलं तिसूलेण खग्गेण खग्गं	वल्ले एवमण्णोण-घट्टिज्जमाणे ॥ ५
कहिम्पि प्पएसे विसूरन्ति सूरा	रणङ्के चिरङ्के चिरा वीर-लच्छी ॥ ६
कहिम्पि प्पएसे विमाणेहिँ धन्तं	भडाँ सूरकन्तेहिँ जाणन्ति अण्णं ॥ ७

9. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning 2 P S °रसरव 3 P S संघट्टा (S°सट्टा°)-उह पियगा 4 A °कामावत्त° 5 P A °सल्लकइ. 6 A °कडवदणहु 7 P S °णंदणाहु, A °णंदणहु. 8 P S A °धयहु. 9 P S A °सारहु. 10 P पंचमज्ज°, S पंचमज्ज°. 11 P A °कुमारहु, S कुमारहो

10. 1 P S read हेलादुवई, A हेला in the beginning. 2 P S हुक्क, A जा. 3 P S वित्थरेण, 4 P S जोहा. 5 P S वलं. 6 P S °घट्टिज्जमाणे 7 A कहिप्पि 8 P S भडो, 9 A सूरकोतेहिँ

[९] १ अग्नि २ इंद्रजित् (२)

[१०] १ अन्वकारम्.

कहिम्पि प्पएसे सुपासेइअङ्गा
सहस्साइँ चत्तारि अक्खोहणीहिं

गइन्दाण कण्णेहिं पावन्ति वायं ॥ ८
वले जत्थ तं वण्णिणं कस्स सत्ती ॥ ९
(भुअङ्गप्पयाओ णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

हत्थ-पहत्थ ठवेप्पिणुं अग्गए
णं खय-कालु जगहो आरुसेवि

रावणु देइ दिट्ठि णिय-खग्गए ।
थिउ सङ्गाम-भूमि स इँ भू सेवि ॥ १०

❀

[६०. सट्टिमो संधि]

पर-वल्ले दिट्ठए
अइ-रण-रहसेण

राहववीरु पयट्टउ ।
उरे सण्णाहु विसट्टउ ॥

[१]

'सो' राहवे पहरण-हत्थाए
दीहर-मेहल-गुप्पन्ताए
विच्छोइय-मणहर-कन्ताए
रण-रहसुद्धूसिय-गत्ताए
आवीलिय-तोणा-जुयलाए
कङ्कण-णिवद्ध-कर-कमलाए
कुण्डल-मण्डिय-गण्डयलाए
भासुल-फुलिआहल-वयणाए
जं सेण-सणद्धए दिट्ठाए

दणुवइ-णिद्वलण-समत्थाए ॥ १
चन्दण-कद्धम-खुप्पन्ताए ॥ २
किय-मायासुग्गीवन्ताए ॥ ३
अप्फालिय-वज्जावत्ताए ॥ ४
किङ्किणि-ललन्त-चल-मुहलाए ॥ ५
वित्थिर्णणुणय-वच्छयलाए ॥ ६
चूडामणि-चुम्बिय-भालाए ॥ ७
रत्तुप्पल-सण्णिह-णयणाए ॥ ८
तं लक्खणे वि आलुट्ठाए ॥ ९

(मागधप्रत्यधिका णाम छन्दो) 20

॥ घत्ता ॥

इत्ति पलित्तउ
णाइँ समुट्ठिउ

अणुहरमाणु हुआसहो ।
मत्थासूलु दसासहो ॥ १०

10 A चारित्त 11 P S भुयगप्पयावो, A भुअंगप्रयावो. 12 S ठवेविणु

1. 1 P S रह°. 2 A reads ध्रुवक after this stanza 3 P S सो राहव, A मल्लाहवे.
4 P S °कहमे 5 P S A विच्छिणु°. 6 P S बालुट्ठाए, A यलुट्ठाए 7 A माधवप्रत्यधिका
नाम छंद..

[१] १ सो राधव प्रहरणहस्तौ (स्तो) । मागधिकायामाकारस्यैकारो भवत्यप्येवम् ।

[२]

सो वज्जयण्ण-आणन्दयरु
कल्लाणमाल-दंसण-पसरु
वणमालालिङ्गिय-वच्छयलु
५ अरिदमण-णराहिव-सत्ति-धरु
चन्दणहि-तणय-सिर-णिदलणु
खर-दूसण-तिसिर-सिरन्तयरु
सो लक्खणु पुलय-विसइ-तणु
पुणु रावण-वलु णिञ्जाइयउ

10

जासु किसोअरें
तासु विसालहें

15 तहिं तेहएँ अवसरें ण किउं खेउ
जो रणें माहिन्दि-महिन्द-धरणु
जो आसालियहें विणास-कालु
जो लङ्कासुन्दरि^१-थण-णिहइ
जो णिसियर-साहण-सण्णिवाउ
20 जो तोयदवाहण-वल-विणासु
जो विमुहिय-णिसियर-सामिसालु
जो जस-लेहइ एक्कल-वीरु

25

पुणु पुणु वग्गइ
'अज्जु सइच्छएँ

2. 1 A णिहिइ^० 2 P S सहोयरो. 3 A ^०रोसहु. 4 P जेत्तिभउं, S जेत्तियउ P marginally records a variant for the first half of the Ghattā. जासु किसोयरि जगु जि निरोसहु जित्तउ. 5 P केत्तिभउ, S कित्तियउ

3. 1 A ^०पवहु 2 A किकर 3 P S कियत^० 4 P खइइ खंड^० 5 A रामण^०. 6 P S कियंतहो.

[२] १ सबकुमारस्य २ सूरतक ३ (P' s leading) अजमोदस्य मध्यवीजम्.

[३] १ विर्लघु(वु) २ हनुमत ३ स्तनाभ्या निष्टुष्ट-हृदय ४ दक्ष ५ घणवाहण ६ नागपास .

७ भोजन भाजनं वा

सीहोयर-माण-सरइ-हरु ॥ १
विञ्जाहिव-विक्रम-मलण-करु ॥ २
जियपउम-णाम-पङ्कय-भसलु ॥ ३
कुलभूसण-मुणि-उवसग्ग-हरु ॥ ४
सूरन्तय-सूरहास-हरणु ॥ ५
कोडिसिला-कोडि-णिहइ-उरु ॥ ६
सण्णज्झइ अमरिस-कुइय-मणु ॥ ७
णं सयलु जें दिट्ठिहें माइयउ ॥ ८

(पद्धडिया णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

जगु जि गिरोमउ जेत्तिउं ।
णयणहें तं वलु केत्तिउं ॥ ९

[३]

सण्णज्झइ सरहसु अञ्जणेउ ॥ १
जो स-रिसि-कण्ण-उवसग्ग-हरणु ॥ २
जो वज्जाउह-वणें जलण-जालु ॥ ३
जो णन्दणवण-मदण-पवहु ॥ ४
जो अक्खकुमार-कयन्तराउ ॥ ५
जो खण्ड^१-खण्ड-किय-णागवासु ॥ ६
जो दहमुह-मन्दिर-पलयकालु ॥ ७
सो मारुइ रोमश्विय-सरीरु ॥ ८

(रयडा णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

पेक्खेंवि रावण-साहणु ।
करमि कयन्तहों भौअणु ॥ ९

[४]

एम भणेवि वीर-चूडामणि
तहिं अवसरें सुग्गीउ विरुञ्जइ
सज्जियाइँ चउ हंस-विमाणइँ
'गयँ-रयाइँ णं सिद्धहँ थाणइँ
मन्दर-सेल-सिहर-सच्छायइँ
अलि-मुहलिय-मुत्ताहल-दामइँ
हरि-चलहदहुँ वे' पट्टवियइँ
जिणु जयकारेंवि चडिउ विहीसणु

पँउमँप्पह-विमाणें थिउ पावणि ॥ १
भामण्डलु सरोसु सण्णज्जइ ॥ २
जिणवर-भवणहों अणुहरमाणइँ ॥ ३
भङ्ग-जणँइँ णं कुसुमहों वाणइँ ॥ ४ 5
किङ्किणि-घग्घर-घण्टा-गायइँ ॥ ५
विज्जु-मेह-रवि-ससिपह-णामइँ ॥ ६
वे अप्पाणहों कारणें ठवियइँ ॥ ७
जो भय-भीय-जीर्व-मम्भीसणु ॥ ८
(मत्तमायङ्गो णाम छन्दो) 10

॥ घत्ता ॥

पुरउ परिट्टिय
णं धुर-धोरिय

सेणहों भय-परिहरणहों ।
छे वि' समास वायरणहों ॥ ९

[५]

के वि सण्णद्ध समरङ्गणे दुज्जया
के वि सिरि-सङ्ख-आवरिय-कलस-द्धया
के वि अँलियल्ल-मायङ्ग-सीहद्धया
के वि सस-सरह-सारङ्ग-रिउल्ल-द्धया
के वि सिव-साण-गोमाउ-पैमयँ-द्धया
के वि सुंसुअर-करि-मयर-मच्छ-द्धया
णील-णल-णहुसरँइमन्द-हत्थुव्भवा
पँत्थउप्पित्थ-पत्थार-दप्पुद्धरा

के वि भामण्डलाइच्च-चन्द-द्धया ॥ १ 15
के वि कारणड-करहंस-कोञ्च-द्धया ॥ २
के वि खर-तुरय-विसमेस-महिस-द्धया ॥ ३
के वि अहि-णउल-मय-मोर-गरुडद्धया ॥ ४
के वि घण-विज्जु-तरु-कमल-कुलिसद्धया ॥ ५
के वि णकोहर-ग्गाह-कुम्म-द्धया ॥ ६ 0
जम्बु-जम्बुक-अम्भोहि-जव-जम्बवा ॥ ७
पिहुल-पिहुकाय-भूभङ्ग-उव्भङ्गुरा ॥ ८

(मयणावयारो णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

एए णरवइ
समुह दसासहों

गँय-सन्दणेंहिं पैरिट्टिय ।
णं उवसग्ग सँमुट्टिय ॥ ९

25

4. 1 P S पउमँप्पहे 2 This line is wanting in A, 3 S °जणइ 4 S अत्तणहो, A अत्ताणहो. 5 P S °सीय° 6 P S छट्ठिवह

5. 1 A °आयरिय. 2 P °पमह°, S °पमहय° 3 P S °रहुमदहत्थुव्भवा. 4 P S °जंबवा. 5 P S पत्त°, A पच्छ°. 6 P S परिट्टियइ (S °इ) 7 P परिट्टियइ, S परिट्टियइ,

[४] १ पद्मप्रभविमाने २ हनुवत ३ गतपापानि ४ द्वौ विमानौ विभीषणेन रामलक्ष्मणयो. प्रेषित ५ अव्ययी-द्वंद्व-तत्पुरुष-बहुव्रीहि-कर्मधारय-अलुक्-पद्मकार-समासा

[५] १ चित्रक, व्याघ्र २ शृगाल ३ मर्कट ४ हस्ती(१)-रथ(१)

[६]

कुमुआवत्त-महिन्द-मण्डला
 रइवङ्गण-सङ्गामचञ्चला
 मित्ताणुद्धर-वग्घसूअणा
 5 कुद्ध-दुद्ध-दुप्पेक्ख-रउरवा
 पियविगगह-पञ्चमुह-कडियला
 पुण्णयन्द-चन्दासु-चन्दणा
 तिलय-तरङ्ग-सुसेण-मणहरा
 अङ्गङ्गय-काल-विकाल-सेहरा

सूरसमप्पह-भाणुमण्डला ॥ १
 दिढरह-सवम्पिय-करामला ॥ २
 एए णरवइ वग्घ-मन्दणा ॥ ३
 अप्पडिहाय-समाहि-भइरवा ॥ ४
 विउल-वहल-मयरहर-करंयला ॥ ५
 एए णरवइ सीह-सन्दणा ॥ ६
 विज्जुकण्ण-सम्मेय-मंहिहरा ॥ ७
 तरल-सील-चलि-चल-पओहरा ॥ ८

(उप्पहांसिणी णाम छन्दो)

11

॥ घत्ता ॥

एए णरवइ सयल वि तुरय-महारह ।
 णाई णिसिन्दहो कुद्धा कूर महार्गह ॥ ९

[७]

15

चन्दमरीचि-चन्द-चन्दोअर-चन्दण-अहिअ-अहिमुहा
 गवय-गवक्ख-दुक्ख-दसणावलि-दामुदाम-दहिमुहा ॥ १
 हेडं-हिडिम्भ-चूडं-चूडामणि-चूडावत्त-वत्तणी
 कन्त-वसन्त-कोन्त-कोलाहल-कोमुइवयण-वासणी ॥ २
 कञ्जय-कुमुअ-कुन्द-इन्दाउह-इन्द-पडिन्द-सुन्दरा
 20 सल्ल-विसल्ल-मल्ल-हल्लिर-कल्लोलुल्लोल-कुवरा ॥ ३
 धामिर-धूमलक्खि-धूमावलि-धूमावत्त-धूसरा
 दूसण-चन्दसेण-दूसासण-दूसल-दुरिय-दुकरा ॥ ४
 दुप्पिय-दुम्मरिक्ख-दुज्जोहण-तार-सुतार-तासणा
 हुल्लुर-ललिय-लुच्चल्लूरण-तारावलि-गयासणा ॥ ५
 25 ताराणिलय-तिलय-तिलयावलि-तिलयावत्त-भञ्जणा
 जरविहि-वज्जवाहु-मरुवाहु-सुवाहु-सुरिद्ध-अञ्जणा ॥ ६

(दुवई-कडवयं णाम छन्दो)

॥ घत्ता ॥

एए णरवइ समर-सएहिं णिवूढा ।
 चलिय असेस वि पवर-विमाणारूढा ॥ ७

6 1 P रइवघण°, S रइवघण° 2 P S °कलयला. 3 P S °महीहरा. 4 P ओप्पहांसिणी,
 A उपहणी 5 P S °महारहा. 6 P S °महागहा

7. 1 P S °णदण°. 2 P S हेडि°. 3 P °वेय°, S °वेड°. 4 P °दुमारिक्क°, S °घसमारिक्क°. 5 P S हुल्लर°. 6 P S °लुल्लु°.

[८]

रहवर-गयवरोहिं एकेकेहिं तिहिं तुरएहिं पञ्चहिं पाइकेहिं ॥ १
 बुच्चइ पत्ति सेण तिहिं पत्तिहिं सेणामुहु तिहिं सेणुपत्तिहिं ॥ २
 गुम्मु 'ति-सेणामुह-अहिणाणेहिं वाहिणि तीहिं गुम्म-परिमाणेहिं ॥ ३
 तिहिं वाहिणिहिं अण्ण तिहिं पियणेहिं तं चंमु णामु पर्गासिउ णिउणेहिं ॥ ४
 तिहिं चमूहिं पभणन्ति अणिक्किणि दसहिं अणिक्किणीहिं अक्खोहणि ॥ ५
 एवंऽक्खोहणीहिं वि सहासइ जाइं भुवणे णिय-णाम-पगासइ ॥ ६
 चउ कोडीउ सत्ततीस लक्ख चालीस सहस रह-गयहुं सड्डु ॥ ७
 सत्तासी लक्ख स-मच्छराहुं वल्ले एक्कवीस कोडिउ णराहुं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तेरह कोडिउ वारह लक्ख अहङ्गहुं ।
 वीस सहासइ इउ परिमाणु तुरङ्गहुं* ॥ ९

[९]

संचल्ले राहव-साहणेण रोमञ्चुच्छलिय-पसाहणेण ॥ १
 आलाव हूअ हरिसिय-मणहो गयणङ्गणे सुर-कामिणि-जणहो ॥ २
 एक्कए पवुत्तु 'वल्लु कवणु थिरु जं सामि-कज्जे ण गणेइ सिरु ॥ ३
 कवणहिं वल्ले पवर-विमाणाइं कञ्चणगिरि-अणुहरमाणाइं ॥ ४
 कवणहिं पक्खरिय तुरङ्ग थड कवणहिं मुक्कङ्कुस हत्थि-हड ॥ ५
 कवणहिं सर-धोरणि दुविसह कवणहिं महिहर-सङ्कास-रह ॥ ६
 कवणहिं सारहि सन्दण-कुसल कवणहिं सेणावइ अतुल-वल्ल ॥ ७
 कवणहिं पहरणइं भयङ्करइं कवणहिं चिन्धाइं णिरन्तरइं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कवणु रणङ्गणे वाणहुं साइउ देसइ ।
 रावण-रामहुं जयसिरि कवणु लएसइ' ॥ ९

8. 1 P S तिसेणु णामु अहिहाणेहिं (S°हि) 2 P S पियणहि अण्ण तिहि, A अण्णु तिहिं विअणेहिं 3 A चउ. 4 P S पगासिय. 5 P अणिक्किहि, S अण्णिक्किहि, A अणिक्किहिं 6 P S अणिक्किहिणीहिं (S°हि) 7 P S एव अ°.

9. 1 P कवणए, S कवणइ. 2 P S कवणए 3 P S कवणइ. 4 P S भयकराइं (S° इ). 5 P S णिरंतराइ

[८] * १ हस्ती, १ रथ, ३ असवार, ५ पाइक=एका पत्ति । ३ पत्ति=सेणा । ३ [सेणा]=सेणा मुख । ३ सेनामुखि एकु गुल्मु । ३ गुल्मि एका वाहिणी । ३ वाहिणी एक पृतना । ३ पृतना=१ चम् । ३ चम्=१ अनीका । १० अनीका=एक [अ]क्षोहिणी । एकत्र राम-वल्ले ४ कोडिउ ३७ लख ४० सहस्र गजा रथाथ । २१ कोडि ८७ लख मनुष्या । १३ कोडि १२ लख २० सहस्र अधानि । सर्वसेना एतत् प्रमाणम् । अक्षोहणी-प्रमाणम्-२१८७० गजसयुते, २१८७० रथसयुते, ६५६१० अधसयुते, १०९३५० पाइके=२१८७०० । वही दूजी [अ]क्षोहिणी-(The figures that follow are confused)

[१०]

अण्णेक्कएँ दीहर-णयणियाएँ
 ' हल्ले वेण्णि मि अनुल-महावलाइँ
 वेण्णि मि कुरुडाइँ स-मच्छराइँ
 5 वेण्णि मि सवडम्मुह किय-गमाँइँ
 वेण्णि मि गलगज्जिय-गयघडाइँ
 वेण्णि मि सज्जोत्तिय-सन्दणाइँ
 वेण्णि मि सारहि-दुहरिसणाइँ
 वेण्णि मि छत्तोह-णिरन्तराइँ

पभण्ड पप्फुल्लिय-वयणियाएँ ॥ १
 वेण्णि मि परिवहिय-कलयलाइँ ॥ २
 वेण्णि मि दारुण-पहरण-कराइँ ॥ ३
 वेण्णि मि पक्खरिय-तुरङ्गमाइँ ॥ ४
 वेण्णि मि पवणुद्धुअ-धयवडाइँ ॥ ५
 वेण्णि मि सुर-णयणाणन्दणाइँ ॥ ६
 वेण्णि मि सेणाँवइ-भीसणाइँ ॥ ७
 वेण्णि मि भड-भिडडि-भयङ्कराइँ ॥ ८

10

॥ घत्ता ॥

विण्णि मि सेण्णाइँ
 विजउ ण जाणहुँ

अणुसरिसाइँ महाहवें ।
 किं रावणें किं राहवें ॥ ९

[११]

तं वयणु सुणेंवि बहु-मच्छराएँ
 15 ' जहिँ रण-धुर-धोरिड कुम्भयण्णु
 जहिँ मउ मारीचि सुमालि मालि
 जहिँ अक्ककित्ति महु मेहणाउ
 जहिँ हत्थु पहत्थुँ महत्थु वीरु
 जहिँ सम्भु सयम्भु णिसुम्भु सुम्भु
 20 जहिँ सीहणियम्बु पलम्बवाहु
 जहिँ जमु जमघण्डु जमक्खुँ सीहु

अण्णाएँ णिव्भच्छिय अच्छराएँ ॥ १
 सहुँ भीमें भीमणिणाउ अण्णु ॥ २
 जहिँ तोयदवाहणु जम्बुमालि ॥ ३
 जहिँ मयरु महोयरु भीमकाउ ॥ ४
 जहिँ घुग्घुरुँ घुग्घुज्जाम धीरु ॥ ५
 जहिँ सुन्दुँ णिसुन्दु णिकुम्भु कुम्भु ॥ ६
 जहिँ डिण्डिमु डम्बरु नक्कगाहु ॥ ७
 जहिँ मल्लवन्तु जहिँ विज्जुजीहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जहिँ सुउ सारणु
 तहिँ रावण-वल्ले

वज्जोअरु हालाहलु ।
 कवणु गहणु राहव-वल्लु ॥ ९

10. 1 P variously विस्त्रि वि, वेस्त्रि वि, S consistently विण्णि वि, A variously वेण्णि or विण्णि, मि or वि. 2 P S 'वल्लइ वलाइँ (S वालाइ). 3 A 'रमाइँ 4 P S सेण्णाइँ अइभीसणाइँ (S 'इ) 5 P S अणुसरियाइँ.

11. 1 P S णिव्भच्छिय अच्छर अच्छराएँ 2 P S मारिच्चि. 3 P S महत्थु महत्थ. 4 P S A घुग्घुरुघु. 5 P S सुंडणिसुड 6 P जमहसु 7 P S A जमक्ख.

[१०] १ कूरानि

[१२]

तं गिसुणैवि विष्फुरियाणणाएँ
 'जहिँ राहउ विडसुग्गीव-महणु
 जहिँ लक्खणु खर-दूसण-विणासु
 जहिँ अङ्गउ अङ्गु सुसेणु तारु
 जहिँ अहिमुहु दहिमुहु मइसमुहु
 जहिँ जम्बउ जम्बव-रयणकेसि
 जहिँ मारुइ णन्दणवण-कयन्तु
 जहिँ सुहडु विहीसणु सूल-हत्थु

अण्णेक्कएँ वुत्तु वरङ्गणाएँ ॥ १
 जहिँ गवउ गवक्खु विवक्ख-वहणु ॥ २
 जहिँ भामण्डलु जयसिरि-णिवासु ॥ ३
 जहिँ णीलु णहुसु णलु दुण्णिवारु ॥ ४
 मइकन्तु विराहिउ कुमुउ कुन्दु ॥ ५
 जहिँ कोमुइ-चन्दणु-चन्दरासि ॥ ६
 जहिँ रम्भु महिन्दु विहीस-वन्तु ॥ ७
 सेणावइ सइँ सुग्गीउ जेत्थु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं वैलु हलें सहि
 रावणु पाडेंवि

एत्तिउ एउ करेसइ ।
 लङ्क स इँ भु ज्ञेसइ' ॥ ९

*

[६१ एकसद्विमो संधि]

जस-लुद्धइँ अमरिस-कुद्धइँ हय-तूरइँ किय-कलकलइँ ।
 अविभट्टइँ रहस-विसट्टइँ ताम्बं राम्व-रामण-वलइँ ॥ १५

[१]

वइदेहिँहें कारणें अतुल-वलइँ
 णं जुअ-खएँ महियल-गयणयलइँ
 पडु-पडह-भेरि-गम्भीर-सरइँ
 सिल-पाहण-तरु-गिरि-गहिय-करइँ
 उगामिय-भामिय-भीम-गयइँ
 पडिपेल्लिय-रह-हिंसन्त-हयइँ
 साहीण-पाण-परिचत्त-भयइँ
 समुहेक्कमेक्कं-सञ्जुद्ध-पयइँ

अविभट्टइँ रामण-राम-वलइँ ॥ १
 सविमाणइँ विज्जुल-वेय-चलइँ ॥ २
 अवरोप्परु अहिणव-रोस-भरइँ ॥ ३
 सव्वल-हुँलि-हल-करवाल-धरइँ ॥ ४
 ओरालि-गरुअ-गज्जन्त-गयइँ ॥ ५
 धुअँ-धवल-छत्त-धूवन्त-धयइँ ॥ ६
 पम्मुक्क-घाय-सङ्घाय-सयइँ ॥ ७
 सयवार-चार-उग्घुट्ट-जयइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

स-पयावइँ कड्डिय-चावइँ सर-सन्धन्त-मुअन्ताइँ ।
 णं घडियइँ विण्णि वि भिडियइँ पयइँ सुँवन्त-तिडँन्ताइँ ॥ ९

12. 1 P S कुमउ. 2 A तंबोल.

1. 1 P ताइ राम रामण°, S ताइ राम रावण°. 2 A reads धुवकं ॥ at the end 3 P S डुल. 4 P S ओरालिय°. 5 P S धुव°. 6 P S °मुक्क°. 7 P S उवहु, A उरघुट्ट°. 8 P S A तिडँन्ताइँ.

[१] १ स्यादि-त्यादि के पद.

[२]

तहि तेहएँ समरङ्गणें दारुणें
 को वि वीरु णोसङ्गइ पाणहुँ
 को वि वीरु पडिपहरइ पर-वल्लें
 को वि वीरु असहन्तु रणङ्गणें
 को वि वडरि करें धरेंवि पकडुइ
 को वि सराहउ पडइ विमाणहों
 को वि धरिज्जइ वाणेंहिँ एन्तउ
 को वि दन्ति-दन्तेहिँ आलगइ

कुङ्कुम-केसुअ-अरविन्दारुणें ॥ १
 पुणु पुणु अङ्गु समोडइ वाणहुँ ॥ २
 पुरउ धाइ पउ देइ ण पच्छलें ॥ ३
 अम्प देइ पर-णरवर-सन्दणें ॥ ४
 पहरें पहरें परिओसु पवहुइ ॥ ५
 णावइ विज्जु-पुज्जु णिय-थाणहों ॥ ६
 णं गुरुहिँ णरु णरएँ पडन्तउ ॥ ७
 करणु देवि कों वि उवरि वलगइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गउ मारेंवि कुम्भु वियारेंवि जाई ताई कुन्दुज्जलई ।
 गुणवन्तहें पाहुडु कन्तहें को वि लेइ मुत्ताहलई ॥ ९

[३]

हेमुज्जल-दण्ड-वलग्गाइँ
 ण समिच्छिउ जेण पियहें तणउ
 मुहपत्तिं ण इच्छिय जेण घरें
 चिरु जेण ण इच्छिउ दप्पणउ
 मुहें पणइँ जेण ण लावियइँ
 चिरु जेण ण सुरउ समाणियउ
 णिय-णारि ण इच्छिय आसि जेण
 जो णहइँ ण देन्तँउ णिय-पियाएँ

केण वि तोडियइँ धयग्गाइँ ॥ १
 तें रुंहरिं लइउ पसाहणउ ॥ २
 किय तेण सुहउ भञ्जेवि समरें ॥ ३
 रहें तेण णिहालिउ अर्पणउ ॥ ४
 तें रुण्ड-सयइँ णञ्जावियइँ ॥ ५
 तें रण-वहुअएँ सहुँ माणियउ ॥ ६
 आलिङ्गिय गय-घउ वहुय तेंण ॥ ७
 सो फाडिउ समरङ्गण-तियाएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सम्मा-दाण-रिण-भरियउ अच्छिउ जो झूरँन्तु चिरु ।
 सो रणउहें सुहडु पणञ्चिउ सामिहें अग्गएँ देवि^{१३} सिरु ॥ ९

[४]

कहिंचि^१ घोर-भण्डणं
 णरिन्द-विन्द-दारुणं

सिरोह-देह-खण्डणं ॥ १
 तुरङ्ग-मग्ग-वारणं ॥ २

2. 1 P S णउ सकइ 2 A °साहणे. 3 S पयट्टइ. 4 S पवट्टइ 5 S देंतहे.

3. 1 A तणउ. 2 A ते रुंहरिरे 3 A पसाहणउ. 4 P S मुहयंति ण इच्छिउ. 5 P A अप्पणउ.
 6 P S त. 7 P रणे वहुअउ, 8 रणवहुअउ. 8 P S सइ. 9 A माणियउ. 10 P S देत्तउ, A
 देत्तउ. 11 P झूरंत, A जूरतु. 12 P S पणञ्चिअ (S य)उ. 13 P S ठविवि.

4. 1. P वि. 2 P S °दारुणं. 3 P S °मत्त°.

दिसग-भग-सन्दणं
भिडन्त-वीर-णिब्भरं
विमुक्क-चक्क-सव्वलं
अणेय-घाय-जज्जरं
मुअन्त-हक्क-डक्कयं
लुणन्त-अड्डु-हड्डुयं
पडन्त जोह-विम्भलं
गलन्त-लोहिओहयं
कहिं चि¹⁰ आहया हया
कहिं जि भासुरा सुरा
कहिं चि¹⁰ विद्धया धया

भमन्त-सुण्ण-चारणं ॥ ३
चवन्त-णिट्ठुरं खरं ॥ ४
तिसूल-सत्ति-सड्डुलं ॥ ५
पडन्त-वाहु-पज्जरं ॥ ६
हणन्त-एकमेकयं ॥ ७
कुणन्त-खण्डखण्डयं ॥ ८
ललन्त-अन्त-चुम्भलं ॥ ९
मिलन्त-पक्खि-जूहयं ॥ १०
महीयलं गया गया ॥ ११
पहार-दारुणारुणा ॥ १२
जसोह-भूरिणा धया ॥ १३

॥ वत्ता ॥

तहिं आहवें पढम-भिडन्तउ
दिवें दिवें दुवियड्डुहों माणेंण

राहव-साहणु भग्गु किह ।
पोढ-विलासिणि सुरेंउ जिह ॥ १४

[५]

राहव-चलु रावण-वल्लेण भग्गु
णं कलि-परिणामें परम-धम्मु
वियलिय-पहरणु णिय-मणें विसण्णु
किउ कलयलु कमल-दलक्खिएहि
'हल्ले पेक्खु पेक्खु णासन्तु सिमिरु
सुट्ठु वि सीयालु महन्त-काउ
सुट्ठु वि जोइङ्गणु तेयवन्तु
सुट्ठु वि सुन्दर रासहहों कील

णं दुग्गइ-गमणें सुग्गइ-भग्गु ॥ १
णं घोराचरणें मणुअ-जम्मु ॥ २
भज्जन्तउ पेक्खेवि राम-सेण्णु ॥ ३
सुर-वहुअहिं रावण-पक्खिएहि ॥ ४
णं रवि-यर-णियरहों रयणि-तिमिरु ॥ ५
किं विसहइ केसरि-णहर-घाउ ॥ ६
किं तेण तवणु जिज्जइ तवन्तु ॥ ७
किं पावइ वर-मायङ्ग-लील ॥ ८

॥ वत्ता ॥

सुट्ठु वि भूगोयरु दुज्जउ
सुट्ठु वि वालाहिउ वड्डुउ

किं पुज्जइ विज्जाहरहों ।
किं सरिसउ रयणायरहों ॥ ९

4 P S वाहणं. 5 S सुवत°. 6 P S °दक्कय. 7 P S कणत° 8 P S °हअड्डुअड्डुयं, A अट्ट°
9 A °भेभलं 10 A जि 11 P S रिणा. 12 P S माणिणि, 13 P S हियउ, P marginally
records सुरउ as a variant.

5. 1 This pāda is not found in A 2 P S तिमिर (P रि)णियरु 3 P S पर,
A र. 4 A दुज्जइ

[५] १ सरोवर झीलरा (?)

[६]

ताव तुरङ्गम-रह-गय-वाहणु
 णं उच्छलिउ खय-सायर-जलु
 उब्भिय-कणय-दण्डु धुयं-धयवडु
 ६ जुत्त-तुरङ्गम-वाहिय-सन्दणु
 धाइय णरवर णरवर-विन्दहुं
 रंहियहुं रहिय धयग्ग धयग्गहुं
 धाणुक्कियहुं भिडिय धाणुक्किय
 असिवर-हत्था असिवर-हत्थहुं

११

दुग्घोइ-थइ-सङ्खइण
 अँडुउह अवसरें फिट्टएँ

वलिउ पडीवउ राहव-साहणु ॥ १
 आहय-तूर-णिवहु कियं-कलयलु ॥ २
 उद्ध-सोण्ड-उद्धङ्कुसं-गय-घडु ॥ ३
 जाउ पडीवउ भड-कडमहणु ॥ ४
 सीहहुं सीह गइन्द गइन्दहुं ॥ ५
 रह रहवरहुं तुरङ्ग तुरङ्गहुं ॥ ६
 फारक्कियहुं पवर फारक्किय ॥ ७
 एम्ब हूअ किलिविण्डि समत्थहुं ॥ ८
 ॥ घत्ता ॥

पाडियं-मुह-वड पडिय-गुड ।
 वालालुञ्चि करन्ति भड ॥ ९

[७]

कियं-कुरुंड-भिउडि-भडं-भासुराइँ
 १६ उभय-वलइँ रहिर-जलोल्लियाइँ
 एत्थन्तरें जण-मण-भाविणीउ
 'हलें वासवयत्तें वसन्तलेहें
 हलें कुसुम-मणोहरि हलें अणइँ
 जो दीसइ रणउहें सुहडु एहु
 २० सव्वउ मिलेवि एँहुं मज्झु देहु
 अण्णेक्कएँ हरिसिय-गत्तियाएँ

पहरन्ति परोप्परु णिट्ठराइँ ॥ १
 तंमिच्छ-वणइँ णं फुल्लियाइँ ॥ २
 कलहन्ति गयणें सुर-कामिणीउ ॥ ३
 हलें कामसेणें हलें कामलेहें ॥ ४
 चित्तइँ वरङ्गणें हलें वरइँ ॥ ५
 काणिय-खुरुप्प-क्कप्परिय-देहु ॥ ६
 रणें अण्णु गवेसंवि तुम्हें लेहु ७
 पभणिउं पप्फुल्लिय-वत्तियाएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'जो दन्ति-दन्तें आलग्गेंवि उरुं भिन्दाविउ अप्पणउ ।
 हलें धावहि काँइँ गहिलिएँ एँहु भत्तारु महु त्ठणउ' ॥ ९

6. 1 A ताम. 2 P S किउ, A कय° 3 P S धयधयवडु, A धुयवडु 4 A सोण्ड. 5 P S उदंकुसु 6 P transposes the pādas in this line 7 P S फाडिय. 8 S धाट्टाउह, A अँडाउह. 9 P S अवसरि, A अवसर 10 P S करत.

7. 1 A णिय° 2 P S °कुरुंड°. 3 A °भय°. 4 P S तामिच्छ° 5 P S भामिणीउ. 6 A धासायत्ते. 7 P S सव्वो वि 8 S यहु, A इसु. 9 P S गवेसइ. 10 P A पभणिउ. 11 A रिउ. 12 A अप्पणउं. 13 P S A काइ. 14 P तणउ, A तणउं

[६] १ कन्दलम्, सद्रामम्

[७] १ अगस्तिवृक्षा हडु (?) तरु

जाम्ब वोळ सुर-कामिणि-सत्थहों
भग्गु असेसु वि रावण-साहणु
विहुणियकर-मुहकायर-गरवरु
चत्तच्छत्त-आमेळिय-धयवडु
जं णासन्तु पदीसिउ पर-वलु
'हलें हलें वारवार जं वण्णहि
तं वलु पेक्खु पेक्खु भज्जन्तउ
णं सज्जण-कुडुम्बु खल-सङ्गें

रिउ-हरिण-जूहु हिण्डन्तउ
णासेप्पिणु कहिं जाएसइ

एत्थन्तरेँ वलें मम्भीस देवि
णं पल्लएँ समुट्ठिय चन्द-सूर
णं पलय-हुआसण पवण-चण्ड
णं सीह समुद्धूसिय-सरीर
दुवार-वइरि-सङ्घारणेहिं
अग्गेएँहिं वारुण-त्रायवेहिं
जहिं जहिं भिडन्ति तहिं मणें विसण्णु
विहडप्फडु णासइ पाण लेवि

णं पवर-गइन्दु गइन्दहों
णलु हत्थहों णीलु पहतथहों

णल-हत्थ वे वि रणें ओवडिया
वेण्णि वि अंभङ्ग-मायङ्ग-धया

[८]

ताव वलेण समरें काकुत्थहों ॥ १
वियलिय-पहरणु गलिय-पसाहणु ॥ २
वुण्ण-तुरङ्गमु मोडिय-रहवरु ॥ ३
गरुय-घाय-कडुवाविय-गय-घडु ॥ ४
राहव-पक्खिएहिं किउ कलयलु ॥ ५
जेण समाणु अण्णु णउ मण्णहिं ॥ ६
णं उववणु दुवाएं छित्तउ ॥ ७
णाइँ कुमुणिवर-चित्तु अणङ्गें ॥ ८

॥ वत्ता ॥

पुण्णहिं कहँ व समावडिउ ।
राहव-सीहहों क्रमँ पडिउ' ॥ ९

[९]

वित्थक्का हत्थ-पहतथ वे वि ॥ १
णं राहु-केउ अच्चन्त-कूर ॥ २
णं मत्त महग्गय गिल्ल-गण्ड ॥ ३
णं खय-जलणिहिं गम्भीर धीर ॥ ४
उत्थरियाणेएँहिं पहरणेहिं ॥ ५
सिल-पाहण-पत्रय-पायवेहिं ॥ ६
साहारु ण वन्धइ राम-सेणु ॥ ७
तहिं अवसरें थिय णल-णील वे वि ॥ ८

॥ वत्ता ॥

सीहहों सीहु समावडिउ ।
सरहस-पहरणु अम्भिडिउ ॥ ९

[१०]

वेण्णि वि गय-सन्दणेहिं चडिया ॥ १
वेण्णि वि सुपसिद्ध लद्ध-विजया ॥ २

8. 1 A वण्णहिं 2 P A मण्णहिं 3 P S कहि मि° 4 A णासेइ

9. 1 P ते त्यक्का, S ते थक्का 2 P S A पलय 3 P S सरहसु, A सहरिस°.

10. 1 S reads all the end syllables of the pādas here as short, so also P except in lines 4 to 6, A reads them long except in lines 1, 2, and 8 2 P S अहग

वेणिण वि भिउडी-भङ्गुर-वयणा	वेणिण वि गुञ्जाहल-सम-णयणा ॥ ३
वेणिण वि पचण्ड-कोवण्ड-धरा	वेणिण वि अणवरय-विमुक्क-सरा ॥ ४
वेणिण वि धणु-विण्णाणन्त-गया	वेणिण वि सयवारोच्छिण्ण-धया ॥ ५
वेणिण वि समरङ्गणें दुव्विसहा	वेणिण वि सयवार-हूय-विरहा ॥ ६
वेणिण वि थिय अहिणव-रहवरेहिँ	वेणिण वि पोमाइय सुरवरेहिँ ॥ ७
वेणिण वि णीसन्दण पुणु वि क्रिया	वेणिण वि विमाण-वाहणेंहिँ थिया ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वेणिण वि करन्ति रणें णिक्कँउ पहु-सम्माण-दाण-रिणहों ।
पडिपहरें पहरें णिवडन्तएँ वेणिण वि णाँमु लेन्ति जिणहों ॥ ९

[११]

एत्थन्तरें आयामिय-णलेण	पय-भारकन्त-रसायलेण ॥ १
हय-तूर-पउर-किय-कलयलेण	ओरसिय-सङ्ख-दडि-काहलेण ॥ २
हरिणिन्द-रुन्द-कडि-कडियलेण	सुन्दर-रङ्गोलिर-मेहलेण ॥ ३
दिढ-कडिण-वियड-वच्छत्थलेण	पारोह-सोह-सम-भुअवलेण ॥ ४
छण-चन्द-रुन्द-सुह-मण्डलेण	घोलन्त-कण्ण-मणिकुण्डलेण ॥ ५
तोणीरहों रावण-किङ्करेण	कड्डिउ भड-भिउडि-भयङ्करेण ॥ ६
विउरुवण-सरु रणें दुण्णिवारु	गुण-सन्धिय-मेत्तउ सय-पयारु ॥ ७
आमेळिँज्जन्तु सहास-भेउ	थोवन्तरें णवर अलद्ध-छेउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जलें थलें पायालें णहङ्गणें	वाण-णिवहु सन्दरिसियउ ।
रिउ-जलहरु सर-धाराहरु	णल-कुलपवएँ वरिसियउ ॥ ९

[१२]

तं हत्थहों केरउ वाण-जालु	पूरन्तु असेसु दियन्तरालु ॥ १
आयामेवि णलेण दुदरिसणेण	आकरिसिउ सरेंणाकरिसणेण ॥ २
धारा-तिमिरु व किरणायरेण	मीणत्थें जगु व सणिच्छरेण ॥ ३
दहिमुह-पुरें रिसि-कण्णोवसगें	हणुवेण व सायर-जलु ख-मगें ॥ ४

3 P णिखवडं, S णिखड. 4 P S णाड.

11. 1 A गुणसयमित्तउं गुणसयवयारु. 2 P S ञामि(P 'मे') छिय जतु. 3 P S वरसियउ (P 'उं').

12. 1 P S A दुहरि°. 2 P S A सरिणा°.

[११] १ विलीणं .

अण्णेकें वाणें छिण्णु चिन्धु
विहलङ्गलु महियलें पडिउ हत्थु
एत्तहें वि वे वि रण-भर-समत्थ
वेण्णि वि स-रोस वेण्णि वि पचण्ड

अण्णेकें रिउ वच्छयलें विज्जु ॥ ५
णं दहवयणहों जेवणउ हत्थु ॥ ६
ओवडिय भिडिय णील-प्पहत्थ ॥ ७
वेण्णि वि गज्जोछिय-वाहुदण्ड ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पच्चारिउ णीलु पहत्थेंण
जय-लच्छि देउ आलिङ्गणु

‘पहरु पहरु एकहों जणहों ।
जिम रामहों जिम रामणहों’ ॥ ९

[१३]

एत्थन्तरें णीलें ण किउ खेउ
गुण-धम्मामेल्लिउ चलिउ केम
सो एन्तु पहत्थें कुद्धएण
छंक्खण्डइ किउ छहिं सरवरोहिं
चउवीस णवर णीलेण मुक्क
विहिं करि कप्परिय समोत्थरन्त
रहु एकें एकें कवउ छिण्णु
विहिं वाहु-दण्ड विहिं विलुअ पाय

णाराउ विसज्जिउ चण्ड-वेउ ॥ १
विन्धणउ सहावें पिसुणु जेम्ब ॥ २
करिवर-सन्दणेंण कंरि-द्धएण ॥ ३
णं महियलु आगमें मुणिवरोहिं ॥ ४
एक्केकहों वे वे वाण दुक्क ॥ ५
विहिं सारहि विहिं धय थरहरन्त ॥ ६
धउ एकें एकें हियउ भिण्णु ॥ ७
एवं तहों मरणावत्थ जाय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सिर-कम-करोरुं छक्खण्डइ
लक्खिज्जइ सुहडु पडन्तउ

जाउ सिलीमुंह-कप्परिउ ।
णं भूअहें वलि विक्खिरिउ ॥ ९

[१४]

जं विणिहय हत्थ-पहत्थ वे वि
णं मत्त-महागउ गय-विसाणु
णं णी-ससि-सूरउ गयण-मग्गु
णं मुणिवरु इह-पर-लोय-चुक्कु
थिउ वलु वि^१ णिरुज्जमु गलिय-गा^२उ

थिउ रावणु मुहें कर-कमलु देवि ॥ १
णं वासरें तेय-विहीणु भाणु ॥ २
णं इन्द-पडिन्द-विमुक्कु सग्गु ॥ ३
णं कुकइ-कव्वु लक्खण-विमुक्कु ॥ ४
राहव-वलु परिवद्धिय-पयावु ॥ ५

3 S जीवणउ, A जेवणउ°. 4 A उत्तहे.

13 1 A विंघणउं 2 A कइ°. 3 P महिअले, S महिअले. 4 P S समोरसंत 5 A सिरु कम-
करो. 6 P S सिल्लम्मूह°. 7 S लज्जिज्जइ 8 P S वि(S विव)करिउ.

14. 1 P S करयलु करेवि. 2 A जि णिरुज्जउ. 3 P S °गव्वु 4 P पवद्धिय°, S परिवद्धिय
5 P S °पयम्बु.

[१३] १ विजयादेन गंगासिंधुभ्यां यथा षट्संज्ञा कृता ।

पउ० च० ५

एत्तहँ स-पडह णीसह सङ्ग
 एत्तहँ वलँ हाहाकारु सुहु
 एत्तहँ वि गयणँ अर्थमिउ मित्तु

एत्तहँ अप्फालिय तूर-लकख ॥ ६
 एत्तहँ पुणु जयजय-सहु धुहु ॥ ७
 णं हत्थ-पहत्थहँ तणउ मित्तु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

5 जुञ्जन्तइँ वेणिण वि सेण्णइँ रयणिएँ णाइँ णिवारियइँ ।
 भूएँहिँ स इँ भू अ-सहासइँ रणँ भोयणँ हकारियइँ ॥ ९

*

[६२- बासद्धिमो संधि]

पाडिएँ हत्थँ पहत्थँ
 णाइँ समत्तएँ कज्जँ

वलइँ वे वि परियत्तइँ ।
 मिहुणइँ 'णिसुँठिय-गत्तइँ ॥

10

गएँ रावणँ णिय-मन्दिरँ पइँट्टे
 तहिँ अवसरँ जगँ-वित्थिण्ण-णामु
 तेण वि बहु-रयण-समुज्जलाइँ
 इयरहँ वि मउडु मणि-तेय-भिण्णु
 15 जं वे वि पपुज्जिय राहवेण
 णर दाहिणेण हय उत्तरेण
 विरइयइँ विमाणइँ गयण-मग्गँ
 'देवहुँ मि' अच्छेउ अभेउ वूहु

[१]

हरि-हलहरँ रणँ-वाहिरँ णिविँट्टे ॥ १
 जोक्कारिउ णल-णीलेहिँ रामु ॥ २
 दिण्णइँ णीलहँ मणि-कुण्डलाइँ ॥ ३
 जो रामउरिहिँ जकखेण दिण्णु ॥ ४
 पञ्चङ्गु वूहु किउ जम्बवेण ॥ ५
 गय पुव्वँ रह 'अवरत्तणेण ॥ ६
 थिय हरि-हलहर सीहासणग्गँ ॥ ७
 10 णं थिउ मिलेवि पञ्चमुहु जूहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

20 ताव रणङ्गण-मज्जेँ
 'रामण दुज्जउ रामु'

पुणु पुणु सिव फेक्कारइ ।
 णाइँ समासएँ वारइ ॥ ९

[२]

कत्थ वि सिव का वि कलुणु लवइ
 कत्थ वि सिव का वि समल्लियइ

'रणुँ थोवउ जइ अण्णु वि हवइ' ॥ १
 णं जोअइ 'को मुउ को जियइ' ॥ २

6 A अत्थमिउं. 7 A तगउं

1. 1 P णिसुँठिअ°, S णिसुँठिय°, A सुँठिय°. 2 A reads ध्रुवकं ॥ at the end. 3 P S वाहिरै सइं(S इँ) 4 P S जगे 5 S जकखेहि 6 P अवरत्तरेण, A °वरु उत्तरेण. 7 A transposes the pādas in this line 8 P S देवहु. 9 wanting in s. 10 A कियउ हय-गायरहनरवरसमूहु 11 A राउ. 12 P S समासइ, A समासइं.

2. 1 A रवणु थोउउ. 2 S जीयइ, wanting in A.

[१] १ शिथिल. २ पश्चिमभागे.

कथं वि सिव सुहडहो डीण सिरे
कथं वि सिव चुम्बइ मुह-कमल
कथं वि सिव भडहो लेइ हियउ
कथं ¹⁰वि रणे भूअहुं कलहणउ
अभिडइ अणु अणणेण सहुं
अणो वुच्चइ 'खण्डु वि ण तउ

विवरोक्खएँ अणुएँ भुत्ति करेँ ॥ ३
णं पोढ-विलासिणि अहर-दलु ॥ ४
पुणु मेहँइ 'मरु अणुहेँ हियउ' ॥ ५
'सिरु तुज्जु कवन्धु महु तणउ' ॥ ६
'एउ भडु आवग्गउ देहि महु' ॥ ७
छुडु एकु गासु महु होउ गउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भूअहुं भोअण-लील
सीयहेँ मणे परिओसु

रामहो वयणु समुज्जलु ।
णिसियर-चलहो अमङ्गलु ॥ ९

[३]

जं णिसुणित हत्थु पहत्थु हेउ
तं पलय-कालु ओवत्थियउ
णं पक्खिउलेण विमुक्क रडि
तं णउ घरु जेत्यु ण रुवइ धण
सो णउ भडु जासु ण अङ्गे वणु
सो णउ रहु जो ण वि कप्पियउ
सो ण वि गउ जासु ण असि-पहरु
जणे एम कणन्ते परिट्ठियेँ

णल-णील-सरेहिँ तम्वारु गउ ॥ १
पुरेँ हाहाकारु समुत्थियउ ॥ २
णं णिवडिय महिहर-सिहेँ तडि ॥ ३
उब्भिय-कर धाहाविय-वयण ॥ ४
सो णउ पहु जो णउ विमण-मणु ॥ ५
सो णउ हउ जो णं वि सर-भरिउ ॥ ६
सो ण वि हरि जो अभग्ग-णहरु ॥ ७
दुक्खाउरेँ णिदा-वसिकियेँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अद्धरत्ते पडिवणो
पुरेँ पच्छण-सरीरु

विज्जाहर-परमेसरु ।
भमइ णाई जोगेसरु ॥ ९

[४]

पप्फुल्लिय-कुवलय-दल-णयणु
आहिण्डइ रयणिहिँ घरेँण घरु
पइसइ अच्चन्त-मणोहरइँ

करवाल-भयङ्करु दहवयणु ॥ १
पेक्खहुँ को केहउ चवइ णरु ॥ २
पवरइँ वर-कामिणि-रइहरइँ ॥ ३

3 This line is not found in A 4 P S °कए. 5 S अणुइ 6 P किरि. 7 This pāda is not found in A except the last two letters 8 P S मेहए 9 P अणुए, S अणइ 10 P A ई, S इ. 11 A कलहणउ 12 P तणउ, A तणउ

3. 1 A सुउ 2 P S ण उट्ठियउ 3 पुणु 4 P S समुच्छलित. 5 P S सखउलेहि (S °हि). 6 P S °यत. 7 A ण वि. 8 A ण सरह. 9 A °यइ 10 S कियइ, A कियइ. 11 P S पडिव-णए. 12 A पुणु.

4. 1 P S °दलकोमल°. 2 P S पेक्खहुँ, A पेक्खहं.

[२] १ फिट्ट.

जहिँ सुरयारम्भु णट्ट-सरिसु
 जिह तं तिह भू-भङ्गुर-वयणु
 जिह तं तिह आयड्ढिय-णहरु
 जिह तं तिह गल-गम्भीर-सरु
 5 जिह तं तिह करण-वन्ध-पउरु

जिह तं तिह तिं (?) वड्ढिय-हरिसु ॥ ४
 जिह तं तिह चल-चालिय-णयणु ॥ ५-
 जिह तं तिह उगगामिय-पहरु ॥ ६
 जिह तं तिह दरिसिय-अङ्गहरु ॥ ७
 जिह तं तिह छन्द-सद्-गहिरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पेक्खेवि सुरयारम्भु
 सीय सरेवि दसासु

णट्टहोँ अणुहरमाणउ ।
 परिणिन्दइ अर्पणउ ॥ ९

[५]

10 थोवन्तरु जाव परिब्भमइ
 'सुन्दरि मिग-णयणे मराल-गइ
 तं पेसणु तं ओलगियउ
 तं उच्चासण-मणि-वेयडिउ
 तं मेहलु तं कण्ठाहरणु
 15 तं फुल्लु सहत्थे तम्बोलु
 तं चीरु भारु चामीयरहोँ
 एयहुँ जसु एकु ण आवडइ

सहुँ कन्तएँ को वि वीरु चवइ ॥ १
 तं पहु-पसाउ किं वीसरइ ॥ २
 तं 'जीवियं-दाणु अमगियउ ॥ ३
 तं मत्त-गइन्द-खन्धे चडिउ ॥ ४
 तं चेलिउ तं जेँ समालहणु ॥ ५
 तं असणु सु-परिमल्लु कच्चोलु ॥ ६
 अवर वि पसाय लङ्केसरहोँ ॥ ७
 सो सत्तमेँ णरयण्णवेँ पडइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

20 तहोँ उवगारहोँ कन्तेँ
 लावमि वण्णे-विचित्त

णिक्कउ करमि महाहवेँ ।
 थरहरन्त सर राहवेँ ॥ ९

[६]

तं णिसुणेवि गउ रावणु तेत्तहोँ
 जाल-गवक्खएँ थिउँ एक्कन्तएँ
 'धणेँ विहाणेँ मइँ एउ करेवउ

मन्दोअरि-जणेरु मउ जेत्तहोँ ॥ १
 णिसुउ चवन्तु सो वि सहुँ कन्तएँ ॥ २
 तं वड्ढुँ प्पर-जूउ रमेवउ ॥ ३

3 This pāda is not found in A 4 A अणुहरमाणउ. 5 P A अर्पणउ.

5. 1 This pāda is not found in A 2 P S जीविउ. 3 P 'यउं. 4 S चेलिउं. 5 A S सपरियल्लु 6 P S इ णावडइ. 7 P S उअयारहो. 8 P S णिक्खउ. 9 A लायमि 10 A वण्णिं.

6. 1 P S गउ. 2 P S णिसुणिउ सहु चवन्तु सो कतए 3 P करेवउं, S has here all such forms with च्व 4 P S वड्ढु फरु, A वड्ढुफरु.

[४] १ उभयत्र करणभेद २ स्मरयित्वा.

[५] १ जीवितदानम् २ मणिजडित .

दारुण रण-कडित्तु मण्डेवउ
चाउरङ्ग वलु चउ-धुर देवी
पडिकत्तउ रहवर ताडेवा
खग-लट्टि करेँ कँत्ति करेवी
सुहड-कवन्धु लेक्खु पिण्डेवउ

जीविर 'विसरिसुँ ठेउँलु ठवेवउ ॥ ४
जाणइ खडियाँ-जुँत्ति लेँएवी ॥ ५
हय-गय-जोह-छोह पाडेवा ॥ ६
जयसिरि-लीह दीहँ कहेवी ॥ ७
जीवगाहि रिउ-गहणु लएवउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दण्डासहिउ कियन्तुँ
पर-वलु जिणेंवि^१ असेसु

लुहउ लीह पिसुण-यणहों ।
अप्पेवउ दहवयणहों' ॥ ९

[७]

तं गिसुणेंवि रावणु तुट्ट-मणु
पच्छणु परिट्टिउ पवर-भुउ
'कल्लएँ सोणिय-सम्मज्जणएँ
रह-गय-वट्टिय-गन्धामलएँ
णरवर-विहुरङ्ग-भङ्ग-करणेँ
जयलच्छि-हरिद-विहूसियएँ
परवल-जलोहें मेलाँवियएँ
भूगोयर-रुहिर-तोअ-भरिएँ

सञ्जल्लिउ मारिच्चहों भवणु ॥ १
सहुँ कन्तएँ सो वि चवन्तु सुउ ॥ २
पडसेवउ मइँ रण-मज्जणएँ ॥ ३
वर-असिवर-कङ्गा-थामलएँ ॥ ४
जस-उच्चट्टणेँ वहु-मल-हरणेँ ॥ ५
समरङ्गणेँ कुण्ड-पदीसियएँ ॥ ६
पहरण-दवग्गि-सन्तावियएँ ॥ ७
असिधारा-णिंयरेँ पवित्थरिएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वइसेवि करि-सिर-वीढेँ
जेण ण दुक्कइ कन्तेँ

ण्हामि परएँ णीसङ्कउ ।
जम्मेँ वि अयस-कलङ्कउ' ॥ ९

[८]

१तं गिसुणेंवि वयणु अदयावणु
एक्केँ वुत्तु पुरउ णिय-भज्जहें
भुअण-त्तयहों मब्बेँ विक्खायहें

सुअ-सारणहें घरइँ गउ रावणु ॥ १
'कल्लएँ चडमि कन्तेँ रण-सेज्जहें ॥ २
चाउरङ्ग-साहण-चउपाँयहें ॥ ३

5 A विसरिस 6 A ठवलु 7 P करेवउ, S करेव्वउ, A ठवेउ. 8 A एवी. 9 A खडियाँ.
10 PS °दुत्ति 11 P करेवी, S करेव्वी. 12 S करि, A कर कत्त 13 PS पुणु वि.
14 A कयंतु 15 P लडउ, S लयउ, A जिणिवि.

7. 1 PS थावलए, A कंकच्छामलए 2 PS °चिहुरग° 3 A मेला° 4 PS भूगोयरे 5
8 णिवहे 6 PS णहावि

8. 1 A त गिसुणेविणु दसाणणु. 2 A °पासहे.

[६] १ अद्वितीयम् २ दायम् ३ एकत्रकरणम्

[७] १ कंत्र्या (?) स्थाने २ प्रभाते.

गयवर-गर्त्त-पईहर-गत्तहँ
 हड्डु-रुण्ड-विच्छड्डुत्थरियहँ
 जस-वँडाय-हत्थिणिया-रूढहँ
 अण्णेक्केण वुत्तु 'सुणु सुन्दरि
 ६ रहवर-गयवर-णरँवर-वलयहँ

असि-चोवाण लएवि
 कल्लएँ सुहड-सिरेहिँ

१० दुव्वार-वइरि-विणिवारणहँ
 स-कलत्तहँ गहिय-पसाहणहँ
 थिउ जाल-गवक्खएँ वइसरँवि
 णिय-गन्दणु गलगज्जन्तु सुउ
 'णिय लील कन्ते तउ दक्खवमि
 १५ रिउ-सोणिय-घुसिणें-चच्चियउ
 जसु देमि' विहँज्जेवि सुरवरहँ
 रावण-मण-णयण-सुहावणिय

२१ करि-कुम्भ-त्थलँ-वीढें
 लक्खण-राम-सरैहिँ

तं वयणु सुणेंवि घणवाहणहँ
 गउ रावणु पर-मण-उँदहणु
 तेण वि गलगज्जिउ गेहिणिहँ
 २५ 'सुणु कन्ते कल्लेँ काँइ करमि
 मज्जन्त-मत्त-मयगल-घणेंहिँ

३ P S 'मत्त'. ४ P S 'सुभु'. ५ A 'णरवह लिहे. ६ P S A समरे. ७ A वाहिलियहे.

९. १ P S 'गुहे. २ P S रहसुच्छलिय'. ३ P S रममि. ४ S तिमिरु. ५ P S विहँजमि,
 ६ P S A 'अंजणिया, A 'हँजणिय. ७ P S करे. ८ P S 'त्थले. ९ P S हिदोळउ.

१०. १ P S रामणु २ P S 'उँदहणु. ३ P S A काह.

[८] १ शरीरया २ गंठक इव विरोवष्टंभ, ३ पताक्या.

[९] १ सीता (?).

अन्त-ललन्त-सुम्भ-सञ्जुत्तहँ ॥ ४
 करि-कुम्भोवहाण-वित्थरियहँ ॥ ५
 वारण-मत्तवारणालीढहँ ॥ ६
 गुरु-णियम्ये वियड-उरें किसोअरि ॥ ७
 धय-तोरणहँ समरँ-वाहँलियहँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हणुहणुकारु करेवउ ।
 मइँ झिन्दुएँण रमेवउ' ॥ ९

[९]

तं वयणु सुणेंवि सुअ-सारणहँ ॥ १
 गउ मन्दिरु तोयदवाहणहँ ॥ २
 णं केसरि गिरि-गुँह पइसरँवि ॥ ३
 वयणुवभडु रहसुँत्थिणण-भुउ ॥ ४
 हँ कल्लएँ रण-वसन्तु रवँमि ॥ ५
 सज्जण-चच्चरि-परिअच्चियउ ॥ ६
 जम-वरुण-कुवेर-पुरन्दरहँ ॥ ७
 दावमि दणु-दवणा-'भञ्जणिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

असि वार-त्ती सन्धमि ।
 घणें हिंदोलाँ वन्धमि' ॥ ९

[१०]

दुज्जयहँ अणिट्ठिय-साहणहँ ॥ १
 जहिँ जम्बुमालि पइजारुहणु ॥ २
 सीहेण व अगगएँ सीहिणिहँ ॥ ३
 जिह खय-पाउसु तिह उत्थरमि ॥ ४
 दडि-दहुर-भेरी-वरहिणेंहिँ ॥ ५

वन्दिणोहिं लवन्तोहिं 'वप्पिहोहिं
रहवर-पवरवभाडम्बरोहिं

पहरण-दुव्वाएहिं बहु-विहोहिं ॥ ६
असिवर-विज्जलोहिं भयङ्करोहिं ॥ ७

॥ घत्ता ॥

छत्त-वलाया-पन्ति
वरिसमि सर-धारेहिं

धणु-सुरधणु दरिसन्तउ ।
पर-वल्ले पलउ करन्तउ' ॥ ८

[११]

तं णिसुणोवि गउ लङ्केसु तहिं
तेण वि गलगज्जिउ णिय-भवणो
'हउं कल्लए पलय-हुआसु घणो
पहरण-सिप्पीर-पहेर-पउरें
भुवदण्ड-चण्ड-जांलोलि-धरें
मणहर-कामिणि-लय-वेहहल्ले
हय-गय-वणयर-णाणाविहए
उत्तट्ट-तुरङ्गम-हरिण-हरें

स-कलत्तउ इन्दइ-राउ जहिं ॥ १
णावइ खल-जलहरेण गयणें ॥ २
लग्गेसमि राहव-सेणण-वणें ॥ ३
दुद्धर-णरवर-तरुवर-णियरें ॥ ४
करयल-पल्लव-णह-कुसुम-भरें ॥ ५
छत्त-द्धय-सुक्क-रुक्ख-वहल्ले ॥ ६
रिउ-पाण-समुड्डाविय-विहए ॥ ७
हरि-हलहर-वर-पव्वय-सिहरें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिं हउं पलय-दवगिग
पर-वल-काणणु सव्वु

कल्लए वणें लग्गेसमि ।
छारहो पुंज्जु करेसमि' ॥ ९

[१२]

तं वयणु सुणोवि सञ्चल्लु तहिं
तेण वि पवुत्तु 'हे हंसगइ
दुप्पेक्खु भयङ्करु दुप्पगउ
करिकुम्भ-कुम्भु कोवण्ड-धणु
णरवर-णक्खत्तु गइन्द-गहु
अब्धिभट्ट-जोह-सामन्त-दिणु
साहण-उत्तर-दाहिण-अयणु
दहमुह-विडप्प-आरुट्ट-मणु

भड्डु कुम्भयणु णिय-भवणें जहिं ॥ १
कल्लए रण-णहयल्ले 'भाणुवइ ॥ २
सइ होसमि जोइस-चक्कु हउं ॥ ३
दुव्वार-वार-वारुव्वहणु ॥ ४
भड-रुण्ड-खण्ड-रौसी-णिवहु ॥ ५
सिरिदिट्टु(?) गयासणि-दह्हु-दिणु ॥ ६
अण्णण-महारह-सङ्कमणु ॥ ७
हरि-हलहर-चन्द-सूर-गहणु ॥ ८

4 A °दुव्वारोहिं 5 A °वलाहियवन्ति

11. 2 1 P S °पयर°, A °पहार°. 2 P चंदलालोलि., S चडालोलि°. 3 P S °सुक्ख°.

4 A सिरिगिरिवर°.

12. 1 P दुप्पगउं. 2 P S धाभिट्ट°. 3 P S समदिट्टि° 4 P S A साहणु.

[१०] १ ववीहाभि

[११] १ भस्म-समूहे (?)

[१२] १ भानुमती-नामा तस्यं राज्ञी. २ वाणा.. ३ कुंभमीनादि. ४ अयत्तव (१) द्वे ति (२)

५ संक्रातिविशेष.. ६ राहुणा (?)

॥ घत्ता ॥

रह गर्थ घट्टन्तु हँ पुणु कहि मि ण सण्ठमि ।
सँव्वहँ पलउ करन्तु धूमकेउ जिह उँट्टमि' ॥ ९

[१३]

- ६ भड-वोक्कउ गिसुणँवि दहवयणु हरिसिय-भुउ पप्फुल्लिय-णयणु ॥ १
अप्पउ सिङ्गारँवि णीसरिउ लहु णिय-अन्तेउरँ पइसरिउ ॥ २
णेउर-झङ्कारँ-घोर-सरएँ कञ्ची-कलाव-रङ्गोलिरएँ ॥ ३
मणि-कडय-मउड-चूडाहरणँ सिय-हार-फार-भारुव्वहणँ ॥ ४
कुण्डल-केऊर-विहूसियएँ विवभम-विलास-अहिविलसियएँ ॥ ५
११ ससि-मुहँ मिग-णयणँ हंम-गमणँ णं भसल्लु पइट्टउ भिसिणि-वणँ ॥ ६
चुम्बन्तु वराणण-सयदलइँ कप्पूर-दूरगय-परिमलइँ ॥ ७
उक्कोवण-केसर-णियर-वसु गेणहन्तउ रय-मयरन्द-रसु ॥ ८
पहुँ एमन्तेउरँ परिभमिउ सुविहाणु भाणु ताँ उग्गमिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

- १६ हत्थ-पहत्थहुँ जुज्झँ भड-मडएहिँ ण धाईउ ।
णाई पडीवउ कालु भोयण-कङ्खएँ आइउ ॥ १०

[१४]

- जेहिँ जेहिँ रयणिहिँ गलगज्जिउ जेहिँ जेहिँ णिय-कज्जु विवज्जिउ ॥ १
जेहिँ जेहिँ लङ्काहिउ इच्छिउ जेहिँ जेहिँ रण-भारु पडिच्छिउ ॥ २
२६ ताहँ ताहँ पप्फुल्लिय-वयणँ पेसिय णिय पसाय दहवयणँ ॥ ३
कासु वि कुण्डल-जुअलु णिउत्तउ कहों वि कडउ कण्ठउ कडिसुत्तउ ॥ ४
कहों वि मउडु कासु वि चूडामणि कहों वि माल कासु वि इँन्दाईणि ॥ ५
कहों वि गइन्दु तुरङ्गमु कासु वि थोडँउ कहों वि दिणार-सहासु वि ॥ ६
कहों वि भारु तुल कहों वि सुवण्णहँ अण्णहँ लक्ख कोडि पुणु अण्णहँ ॥ ७
२६ कहों वि फुल्लु तम्बोलु स-हत्थेँ कहों वि पसाहणु सहुँ वर-वत्थेँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जे पट्टविय पसाय ते णरवरँहिँ पचणँडेहिँ ।
णाँमेवि सिर-कमलाइँ लइय स इँ भु अ-दणँडेहिँ ॥ ९

४

5 P S गय हय 6 P घडंतु 7 P S कह मि ण सठवमि. 8 P S A सव्वहु. 9 P S उट्टवमि.

13. 1 P S 'वयणु. 2 P S 'रुव्वोसिरए. 3 A वहुएवं 4 P णहे, S णहि. 5 P S धाइयउ. 6 P S धायउ.

14. 1 wanting in A 2 P S थोडं 3 P S फुल्ल. 4 P णावेवि, S णाविवि. 5 P S सयं.

[६३. तिसट्टिमो संधि]

रवि-उग्गमँ
सण्णद्धइँ

अहिणव-गहिय-पसाहणइँ ।
राम-दसाणण-साहणइँ ॥

[१]

सो णीसरिउ रामणो समउ साहणेणं ।

रहँ-गय-तुरय-जोह-पञ्चमुह-वाहणेणं^४ ॥ १

पडु-पडह-सङ्ग-भेरी-रवेण

कंसाल-ताल-दडि-रउरवेण ॥ २

कोलाहल-काहल-णीसणेण

पञ्चवियँ-मउन्दा-भीसणेण ॥ ३

घुम्मुकं-करड-टिविला-धरेणं

झल्लरि-रुञ्जा-डमरुअ-करेण ॥ ४

पडिढक्क-हुडुक्का-वज्जिरेण

घुम्मन्त-मत्त-गर्यँ-गज्जिरेण ॥ ५

तण्डविय-कण्ण-विहुणिय-सिरेण

गुमुगुमुगुमन्त-इन्दिन्दिरेणं^{१०} ॥ ६

पक्खरिय-तुरय-पवणुअ-भडेण

धूवंत-धवल-धुअँ-धयवडेण ॥ ७

मण-गमणामेळिय-सन्दणेण

जम-वरुण-कुवेर-विमहणेण ॥ ८

वन्दिण-जयकारुग्घोसिरेण

सुरवहुअ-सत्थ-परिओसिरेणं^९ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सहुँ सेण्णेणं

सहइ दसाणणु णीसरिउ ।

छण-चन्दु व

तारा-णियरें परियरिउ ॥ १०

[२]

सण्णज्जन्ति जाहे सण्णद्धए दसासे ।

खुहिय-महोवँहि व्व सुँ-समुट्टिए विणासे ॥ १

सण्णज्जइ सरहसु जम्बुमालि

डिण्डिमु डामरु उड्डुमरु मालि ॥ २

सण्णज्जइ मउ मारीचि अण्णु

इन्दइ घणवाहणु भाणुकण्णु ॥ ३

सण्णज्जइ जरु अहिमाण-खम्भु

पञ्चमुहु णियम्बु सइम्भु सम्भु ॥ ४

सण्णज्जइ चन्दुँदामु अक्कु

धूर्मक्खु जयाणणु मयरु णक्कु ॥ ५

पडिर्वक्खेँ वि सण्णज्जन्ति वीर

अङ्गङ्गय-गवय-गवक्ख धीर ॥ ६

1. 1 P S वे वि राम°. 2 A reads हेला in the beginning 3 P हय corrected as रह°; S हय°. 4 A reads धुवकं at the end 5 P S वट्टीअमुउंदा° 6 A °हासणेण 7 P S घसुकं° 8 P S °रवेण. 9 missing in A 10 P S °इदीवरेण 11 P S °धयधुवडेण 12 P S °परितोसणेण 13 P S सेण्णे.

2. 1 P S read दुवइँ in the beginning 2 A °महोअहि 3 P S समुट्टिए. 4 P S मारिचि 5 P S °दाणु, A °दाम 6 P S घुम्मुकु 7 P पडिपेखेवि, S पडिपेखिरवि.

णल-णील-विराहिय-कुमुअ-कुन्द
तारावइ-तार-तरङ्ग-रभ्रं
अक्कोस-दुरिय-सन्ताव-पहिय

जम्बव-सुसेण-दहिमुह-महिन्द ॥ ७
सोमिति-हणुव अहिमाण-खम्भ ॥ ८
णन्दण-भामण्डल राम-सहिय ॥ ९

॥ घत्ता ॥

5

सण्णद्धइ
आलगइ

एम राम-रावण-वलइ ।
णं खय-काले उवहि-जलइ ॥ १०

[३]

'भिडियइ वे वि सेणइ जाड जुञ्जु घोरो' ।

कुण्डल-कडय-मउड-णिवडन्त-कणय-दोरो ॥ १

10 हणहणहणकारु महारउहु
करकरयरन्त-कोदण्ड-पयरु
खणखणखणन्त-तिकखग्ग-खग्गु
गुलुगुलुगुलन्त-गयवर-विसालु
पुप्फस-वस-णिग्गन्तन्त-मालु
15 झलझलझलन्त-सोणिय-पवाहु
णिवडन्त-सीसु णच्चन्त-रुण्डे
तहिं तेहए रणे रण-भर-समत्थु

छणछणछणन्त-गुण-सिन्ध-सहु ॥ २
थरथरहरन्त-णाराय-णियरु ॥ ३
हिलिहिलिहिलन्त-हय-चञ्चलगु ॥ ४
हणुहणु-भणन्त-णरवर-वमालु ॥ ५
धावन्त-कलेवर-सव-करालु ॥ ६
छिज्जन्त-चलण-तुट्टन्त-वाहु ॥ ७
ओणल्ल-तुरय-धय-छत्त-दण्डु ॥ ८
राहव-किङ्करु वर-चाव-हत्थु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

20

'सीहद्ध
सन्तावणु

धवल-सीह-सन्दणे चडिड ।
सहुं मारिच्चें अब्भिडिड ॥ १०

[४]

वेणिण वि सीह-सन्दणा वे वि सीह-चिन्धा ।

वेणिण वि चाव-करयला वे वि जणे पसिद्धा ॥ १

8 P S °भग 9 P S अक्कोव° 10 wanting in P S A 11 A उवहि°

3. 1 P S read हुवइ in the beginning. 2 P S घोरो 3 A °णिवडंति, P S कडय-दोरो. 4 P S mostly read this and the succeeding onomatopoeic words as ending in °उ 5 P S °पिच्छ°. 6 P S करकरकरंतु 7 P S थरथरथरतु 8 P S A खण-खणखणतु. 9 P S भणंतु. 10 P पोप्फस°, S पप्फस 11 P S °रुंड 12 P S °दड. 13 P S °वारणत्थु. 14 P चवल°, wanting in s. 15 P S सुहु, A सहु.

[३] १ नामा शुभट (सुभट).

वेणिण वि जस-लुद्ध विरुद्ध कुद्ध
 वेणिण वि सुरवहु-आणन्द-जणण
 वेणिण वि रण-धुर-धोरिय महन्त
 वेणिण वि दुज्जय जय-सिरि-णिवास
 वेणिण वि णिसियर-णरवर-वरिट्ठ
 वेणिण वि जुञ्जन्ति सिलीमुहेहिं
 मारिच्चहो भय-भीसावणेण
 तेण वि तहो चिर-पेसिय-सरेहिं

वेणिण वि वंसुज्जल कुल-विसुद्ध ॥ २
 वेणिण वि सत्तुत्तम सत्तु-हणण ॥ ३
 वेणिण वि जिण-सासणो भत्तिवन्त ॥ ४
 वेणिण वि 'पणई-यण-पूरियास ॥ ५
 वेणिण वि रोहव-रावणहं इट्ठ ॥ ६
 णं गिरि अवरोप्परु सरि-मुहेहिं ॥ ७
 धणु छिण्णु णवरं सन्तावणेण ॥ ८
 संसारु व परम-जिणेसरेहिं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

विहिं मि रणे
 सप्पुरिसंहिं

णिय-णिय-चावइ चत्ताइ ।
 णं णिग्गुणइ कलत्ताइ ॥ १०

[५]

घत्तेवि धणुवराइ लइओ गयासणीओ ।

णाइ कयन्त-दाढओ जग-विणासणीओ ॥ १

णं पिसुण-मइउ दप्पुब्भडाउ
 णं कुगइउ भय-भीसावणाउ
 णं दिट्ठिउ काल-सणिच्छराहं
 णं दित्तिउ पलय-दिवायराहं
 तिह लउडिउ भिउडि-भंयङ्कराहं
 रेहन्ति करेहिं रयणुज्जलाउ
 मुच्चन्तिउ सद्धट्ठन्ति केम्व
 णहं अमर-विमाणइ सङ्कियाइ

णं असइउ पर-णर-लम्पडाउ ॥ २
 णं दुम्महिलउ कलहण-मणाउ ॥ ३
 णं कुहिणिउ दूसंवच्छराहं ॥ ४
 णं 'वीचिउ खय-रयणायाराहं ॥ ५
 दासरहि-दसाणण-किङ्कराहं ॥ ६
 णं मेह-णियग्गेहिं विज्जुलाउ ॥ ७
 गह-घट्ठणे गह-पन्तीउ जेम्व ॥ ८
 गय-घाय-दवग्गि-तिडिक्कियाइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

मारिच्चेण
 सञ्चुरेवि

सरहु स-सारहि स-धउ हउ ।
 हेडुहं पोडुलु णवरं कउ ॥ १०

4 1 P S रावणराहवह (S °ह), A °रामणवरिट्ठ 2 A वधति 3 P S धणु जीउ छिण्णु.
 4 P S चत्तइ (S °इ). 5 P S कलत्तइ
 5 1 P S धणुहराइ 2 P °भीसावणउ 3 P S °सणिच्छराहु 4 A कुहिणिउ 5 P दुट्ठसंम-
 च्छराहु, S दुट्ठसमच्छराहु 6 A भिडिउ 7 P S मुचत्तिउ 8 P हय° collected as गय°. 9 P S तडक्कियाइ 10 P सरहुं 11 P S हडुइ 12 P S तेण किउ

[४] १ याचक २ (P' s leading) प्रलचा

[५] १ वेलउ.

[६]

पाडिँ राम-किङ्करें रावण-किङ्करेणं ।

सीहणियम्बु कोक्किओ 'पहिय-णरवरेणं ॥ १

'मरु मरु जिह मणु सड्यहें वञ्छहि तिह रहु वाहि वाहि किं अञ्छहि ॥ २

5 जाणइ-णयणाणन्द-जणेरा
एम भणेवि सरासणि पेसिय
तेण वि सरेंहिँ णिवारिय एन्ती
पुणु आयामेंवि मुक्क महा-सिल
सीहणियम्बुहों लग्ग उर-त्थलें
10 चेयण लहेंवि पडीवउ उट्टिउ
कोव-हुवासण-धगधगमाणे

कुद्ध पाय तउ राहव-केरा' ॥ ३
असइ व सु-पुरिसेण परिसेसिय ॥ ४
णं पर-तिय आलिङ्गणु देन्ती ॥ ५
णं पर-णरहों पाँसेँ गय कु-महिल ॥ ६
णिवडिउ मुच्छा-वियँलु रसायलें ॥ ७
णहयलें धूमकेउ णं दुत्थिउँ ॥ ८
पाहणु जोयणेक्क-परिमाणें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

आमेळिउ
तें घाँण

गँ णिय-वेआऊरियउ ।
पहिउ सरहवरु चूरियउ ॥ १०

15

[७]

पाडिँ पहिय-णरवरे दंणु-विमहणेणं ।

जरु दहवयण-किङ्करो वरिउ णन्दणेणं ॥ १

अभिभट्टु जुञ्जु जर-णन्दणाँहँ
सुरसुन्दरि-णयणाणन्दणाँहँ
20 सामिय-पसाय-सयँ-रिण-मणाँहँ
कामिणि-घण-थण-परिचड्डुणाँहँ
पडिवक्ख-मडप्फर-भञ्जणाँहँ
णिय-सयण-मणोरह-पूरणाँहँ
विज्जाहर-करणेँहिँ वावरेवि
25 चल-चँडुल-पवाहिय-सन्दणेण

अवरोप्परु वाहिय-सन्दणाँहँ ॥ २
विड-भड-थड-किय-कडमहणाँहँ ॥ ३
वन्दियँ-जण-अणिवारिय-धणाँहँ ॥ ४
जयलच्छि-वहुअ-अवरुण्डणाँहँ ॥ ५
जयवन्तहँ अयस-विसँज्जणाँहँ ॥ ६
उग्गामिय-कोन्त-प्पहरणाँहँ ॥ ७
रुहिरारुणु दारुणु रणुँ करेवि ॥ ८
जरु कहँ वि विलेसेँ णन्दणेण ॥ ९

6. 1 P S गञ्छहि (S °हि), A अञ्छहिँ 2 P S पासु 3 P S °विहलु. 4 P S उट्टिउ.
5 A आमेळियउ. 6 P राउ

7. 1 P S धरिउ 2 Instead of °हँ, here and in the following lines, P S
lead °हु 01 °हु 2 P S कडमहणाहु, A °कडवदणाहँ 3 P S °परिणय' S (य°) 4 P S वदिय°.
5 P S °विवज्जणाहु 6 P S जुञ्जु देवि 7 A कहेवि किलेसेहि

[६] १ नामेण रामकिङ्करेण

[७] १ सीहणितवकेन २ रामकिङ्करेण ३ अतिशीघ्रम्.

॥ घत्ता ॥

गीसेसहुँ
विणिवाइउ

सुरहुँ णियन्तहुँ गयण-यल्ले ।
कोन्तेहिं भिन्देविं वच्छ-यल्ले ॥ १०

[८]

पडिए जर-णराहिवे भीम-पहरणाहुँ ।

रणु आलगु घोरु अक्कोस-सारणाहुँ ॥ १

ते रामण राम-भिच्च भिडिय
णं सीह परोप्परु जणिय-कलि
णं आसग्गीव-तिविट्टु णर
णं इन्द-पडिन्द विमुद्ध-मण
अक्कोसें रोसें मुक्कु सरु
मउडगें लगु तहों सारणहों
तेण वि पडिवक्ख-खयङ्करेण
दुवार-वइरि-ओसारणेण

णं मत्त महागय ओवडिय ॥ २
णं भरह-णराहिव-वाहुवलि ॥ ३
णं विडसुग्गीव-राम पवर ॥ ४
णं ते वि पडीवा वे वि जण ॥ ५
णं जिणवरेण भव-गहण-डरु ॥ ६
णं कुम्भे वरङ्कुसु वारणहों ॥ ७
रयणासव-गन्दण-किङ्करेण ॥ ८
धणु आयामेप्पिणु सारणेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अक्कोसहों
सयवत्तु व

परिवडिय-कलयल-मुहल्लु ।
खुडिउ खुरुप्पे सिर-कमल्लु ॥ १०

[९]

जं अक्कोसु पाडिओ जय-सिरी-णिवासो ।

रहु दुरिएण वाहिओ सुव-णराहिवासो ॥ १

ते भिडिय परोप्परु आहयणे
णर-रुण्ड-हड्डु-विच्छड्डु-पहें
हय-हय-भय-तट्टु-णट्टु-गमणे
पडु-पडह-मेरि-गम्भीर-सरे
धणुहर-टङ्कार-फार-चहिरे
ताहिं तेहए आहवे उत्थरिय

दुग्घोट्ट-थट्ट-णिल्लोट्ट-घणे ॥ २
सन्दाणिय-भग्ग-तडत्ति-रहें ॥ ३
दणु-विन्द-वन्दि-वहु-विदेवणे ॥ ४
तिक्खग्ग-खग्ग-उग्गिणण-करे ॥ ५
सुरवर-सुन्दरि-मङ्गल-गहिरे ॥ ६
दुप्पेच्छ अच्छि-मच्छर-भरिय ॥ ७

8 P ज विणि° 9 P भिच्चेवि, S भिणिवि

8. 1 P पाडिय, S पाडिए 2 P S A लग्ग 3 P S परिवडिय° 4 P S °सुहल्ल

9 1 P S प्पडिउ. 2 P S °सिरि° 3 P S °णिवासु, A °णेवासु 4 P S सुअ°. 5 P S णरा-
हिवासु, A णराहिवासु 6 A °विट्ट°. 7 A °विहमणे.

[८] १ रामकिंकर २ रावणकिंकरः

रहु रहहों देवि दुरिएण सुउ
तेण वि खगों चलणेहिँ हउ

सवद्धिउ असि-पँहरेहिँ लउ ॥ ८
णं सन्धि-विसएँ पय-छेउ किउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दुरियाहिउ
दुवाएँण

णिय-रहवरँ ओणछियउ ।
तरु जिह भज्जेवि घछियउ ॥ १०

[१०]

दुरियाहिवें पलोट्टिए वे वि साणुराया ।
रावण-राम-भिच्च उद्दाम-वग्घ-राया ॥ १

वे वि विरुद्ध कुद्ध वज्जाउस
१० आमेछन्ति परोप्परु अत्थइँ
कु-कलत्ता इव चडुल-सहावइँ
दुज्जण-मुह इव विन्धण-सीलइँ
छाइउ णह-यलु पहरण-जालें
आयामेँवि भुव-फलिह-पँइग्घें
१६ वारुण उद्दामेँ आमेछिउ
पुणु उद्दामेँ मुक्कु महीहरु

वेणिण वि उँत्थरन्ति जिह पाउस ॥ २
दुद्धरँ-दणु-णिदलण-समत्थइँ ॥ ३
कामिणि-णह इव चीरण-भावइँ ॥ ४
विस-हल इव मुच्छावण-लीलइँ ॥ ५
णं अबुहत्तणु मोह-तमालें ॥ ६
सरु अग्गेउ विसज्जिउ विग्घें ॥ ७
वायवु विग्घयरेण पँघछिउ ॥ ८
वाणर-वुक्करन्तु सय-कन्दरु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

१० तं विग्घेंण
मुसुमूरेंवि

विग्घु करेप्पिणु समर-मुहें ।
जीविउ छुद्धु कैयन्त-मुहें ॥ १०

२१

[११]

जं दारिय महाहवे वावरन्त सिग्घे^१ ।
हय-सन्ताव-पहिय-अक्कोस-दुरिय-विग्घे^४ ॥ १

तं एवद्धु दुक्खु पेक्खेप्पिणुं
अहवइँ णह-पायवहों विसालहा
२५ उवदिस-रङ्गोलिर-उवसाहहों

रवि अत्थमिउ णाईँ असहेप्पिणु ॥ २
सयल-दियन्तर-दीहर-डालहों ॥ ३
सज्झा-पल्लव-णियर-सणाहहों ॥ ४

८ P S °पहरेण ९ P S A दुरियाहिवो.

१०. १ A °याहवे २ P S रामण°. ३ A °राव ४ P उथरन्ति, A कोत्थरति ५ P S सत्यइँ.
६ P दुद्धम°, S दुद्धम° ७ P पँइग्घें, S पँइवे ८ P परिमेछिउ, S पमेछिउ ९ P S वाणर, A वारुण
१० P S ते ११ P S कियत्°

११. १ P S दारुण. २ P S वावरति. ३ A सिग्घं. ४ A विग्घ. ५ A पेक्खेविणु

[९] १ रामकिकरेण २ रावणकिंकरस्य.

वहुवर्ष (?)-अन्भ-पत्त-सच्छायहा गह-णक्वत्त-कुसुम-सङ्घायहो ॥ ५
 पसरिय-अन्धयार-भमर-उलहो तहो आयास-दुमहो वर-विउलहो ॥ ६
 णिसि-णारिए खुडुवि जस-लुद्धए रवि-फलु गिलिउ णाई णियसद्धए ॥ ७
 वहल-तमाले जगु अन्धारिउ विहि मि वलहं णं जुञ्जु णिवारिउ ॥ ८
 वे वि वलइ वण^०-^१णिसुद्धिय-गत्तइ णिय-णिय-आवासहो परियत्तइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

रावण-घरें
 राहव-वलें

जय-तूरइ अप्फालियइ ।
 मुहइ णाई मसि-मइलियइ ॥ १०

[१२]

पभणिए को वि वीरु 'किं दुम्मणो सि देव ।
 णिसियर-हरिण-जूहें पइसरमि सीहु जेम' ॥ १

को वि महावलु पर-वलु णिन्दइ को वि भणइ 'महु कल्लए इन्दइ' ॥ २
 को वि भणइ 'महु तोयदवाहणु' को वि भणइ 'स-सूउ महु सारणु' ॥ ३
 को वि भणइ 'णउ पइ जयकारमि जाम ण कुम्भयण्णु रणे मारमि' ॥ ४
 को वि भणइ 'हउ मय-मारिच्चहुं भिडमि राहु जिह चन्दाइच्चहुं' ॥ ५
 को वि भणइ 'महु मरइ महोअरु लुहमि कयन्त-वयणे वज्जोअरु' ॥ ६
 को वि भणइ 'करमि तउ पेसणु पेसमि जम्बुमालि जम-सासणु' ॥ ७
 को वि भणइ 'हय-गय-रह-वाहणु महु आवग्गउ रावण-साहणु' ॥ ८
 ताम्व विहाणु भाणु णहें उग्गउ रयणिहें तणउं गव्भु णं णिग्गउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

आहिण्डेवि
 सम्पाइउ

जगु सयरायरु सिग्घ-गइ ।
 णाई सैं इं भु व णाहिवइ ॥ १०

*

6 P S °धव°. 7 A आयासमहोअरविउ 8 P S वलेहि. 9 A वल°

12. 1 P S पभणइ 2 P S करेमि 3 A तणउ भंगु 4 P S सयं.

[६५. चउसट्टिमो संधि]

दणु-दारण-पहरण-हत्थइँ
रण-रस-रोमञ्च-विसट्टइँ

जयसिरि-गहण-समत्थइँ ।
वलइँ वे वि अविभट्टइँ ॥

[१]

१ अविभट्टइँ वे वि स-वाहणाइँ
जिह ताइँ तेस्व हँल-सङ्गहाइँ
जिह ताइँ तेम सन्धिय-सराइँ
जिह ताइँ तेम उँवसगिराइँ
जिह ताइँ तेम पर-लोप्पिराइँ
१० जिह ताइँ तेस्व अँत्थुज्जलाइँ
जिह ताइँ तेस्व णाँसायराइँ
अणणण-सइ-विण्णासिराइँ ॥ ८

वायरण-पयाइँ वँ साहणाइँ ॥ १
'जिह ताइँ तेम किय-विग्गहाइँ ॥ २
जिह ताइँ तेम पच्चय-कराइँ ॥ ३
जिह ताइँ तेस्व जस-मगिराइँ ॥ ४
वहु-एक्क-दु-वयण-पजम्पिराइँ ॥ ५
परियाणिय-सयल-वलावलाइँ ॥ ६
जिह ताइँ तेम बहु-भासिराइँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

जिह ताइँ तेम आयरियइँ
१५ दीहर-समास-अहियरणइँ

वाँइ-णिवायहुँ चरियइँ ।
वलइँ णाँ वायरणइँ ॥ ९

[२]

तहिँ तेहएँ रणँ रयणीयरासु
ते भिडिय चण्ड-कोवण्ड-हत्थ
पउ अग्गएँ देन्ति ण ओसरन्ति
२१ दरिसन्ति मडप्फरु णेय पुट्टि
मेळन्ति वाण ण मुअन्ति धीरु
लग्गइँ णाराउ ण कुल्लेँ कलङ्कु
गुणु छिज्जइँ सीसु ण दुण्णिवारु
ओवुँण-तुरङ्गम-धुर-विसट्टु

सँदूलु वलिउ वज्जोअरासु ॥ १
सुर-समर-पवर-धुर-धर-समत्थ ॥ २
पहरन्ति ण पहरणु वीसरन्ति ॥ ३
जीविउ सिट्ठिलन्ति ण चाव-मुट्ठि ॥ ४
परिहउ रक्खन्ति ण णिय-सरीरु ॥ ५
सरु वङ्कइँ वयणु ण होइ वङ्कु ॥ ६
धउ पडइँ ण हियउ ण पुरिसयारु ॥ ७
रहु भज्जइँ भज्जइँ णउ मरट्टु ॥ ८

1. 1 A reads धुवकेँ at the end 2 P वेणिण वि साहणइ, S विणिण वि साहणाइ, A सवाहणहं. 3 P S A पयाइ. 4 P S साहणइँ, S साहणाइ 5 This pāda is not found in A. 6 P S भाउणिवायह (S °ह) भरियइँ (S °इ).

2. 1 P षग्गि, S षग्गि. 2 P S उस्सरन्ति. 3 P S उच्चुण्ण.

[१] १ पुलकितानि. २ व्याकरणपदानि लांगलम्, द्वि (१) ३ ककारादि-हकारपर्यंतो वर्णसमुदायः
४ पक्षे, समास ५ क्किया-अख्यातपदं, युद्धानुष्ठानं वा. ६ प्र-परादि ७ राज, शब्दार्थ 'चिरा (१).
८ उभयत्र न्यातो. ९ दीर्घतरा सम्यक् निश्चिता या भासा (शा) तया अधिकरणोपायो बलयो. अन्यत्र हा
(१)दा ग तारा इन्द्रानामधिवरण न्याकरण

[२] १ रामन्.

॥ घत्ता ॥

पडिवक्ख-पक्ख-पडिकूलहुँ वज्जोअर-सदूलहुँ ।
विहिँ को गरुआरउ किज्जइ एक्कु^१ वि जिणइ ण जिज्जइ ॥ ९

[३]

एत्तहँ वि भिउडि^१-भङ्गुर-वयण ते^२ वाहुवलिन्द-सीहदमण ॥ १
अब्भिट्ट वे वि वद्धामरिस गिरिमलय-सुवेलसेल-सरिस ॥ २
हँरिदमणें 'पहरु पहरु' भणेंवि सिरें मोगगर-घाएं आहणेंवि ॥ ३
महि-मण्डलें पाडिउ वाहुवलि तोसेण व पँरिवट्टन्त-कलि ॥ ४
पुणु च्चैयण लहँवि भयङ्करेंण आँरुट्टे राहव-किङ्करेंण ॥ ५
पडिवारउ आहँउ मोगगरेंण वच्छत्थलें णं इन्दीवरेंण ॥ ६
तहिँ तेहएँ कालें समावडिय भड विजय-सयम्भु वे वि भिडिय ॥ ७
रणें परिसक्कन्ति भमन्ति किह चल चञ्चल विज्जुल-पुज्ज जिह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

आयामेंवि रावण-भिच्चेंण णिय-कुल-णह-आइच्चेंण ।
जँट्टियएँ विजउ विणिभिणणउँ पँडिउ णाँइ दुमु छिणणउ ॥ ९

[४]

रणें विजउ सयम्भु वि णिहउ जं जें खवियारि-वीर-सङ्कोहँ तं जें ॥ १
अब्भिट्ट परोप्परु पुलइअङ्ग णं खँर-णारायण रणें अभङ्ग ॥ २
णं रावणिन्द विप्फुरिय-तुण्ड णं गन्धहत्थि उहण्ड-सुण्ड ॥ ३
एत्थन्तरें सुरवरहु मि असक्कु सँङ्कोहँ मेळिउ पढमु चक्कु ॥ ४
गयणङ्गणें तं पजलन्तु जाइ अत्थइरिहँ दिणयर-विम्बु णाँइ ॥ ५
खवियारि-णिवहँ वच्छयलें लग्गु जिह णलिणि-पत्तु तिह तहिँ जि भग्गु ॥ ६
तेण वि पडिवक्खहँ चक्कु मुक्कु सँङ्कोहहँ णं जमकरणु दुक्कु ॥ ७
सिरु खुडिउ मरालें जेम कमलु णं^{१२} इन्दिन्दिरु सण्टन्त-मुहलु ॥ ८

4 P S एकइ, A एहु विं.

3. 1 A भिडिउ. 2 A तिह. 3 P S सीहदवण 4 P S परिवट्टन्ति, A परिवट्टन्तु. 5 P S अइ
रुट्टे. 6 P S आयउ. 7 P S रामण°. 8 A जट्टिय. 9 P विणिविणणउ, S विणिविणणउ, A विभिणणउ.

4. 1 P सविआरि, A सवियार 2 P S सखोह 3 P S अहंग 4 P A सुरवरहु. 5 P संखोहे,
S णं खोहिं. 6 P S A पढम. 7 P S णाइ, A नाइ. 8 P खविआरि, A सविआरि. 9 A तहि.
10 P S पडिचक्को. 11 P S संखोहहो. 12 wanting in P S 13 P S सणुरुट्टे.

[३] १ सीहदवणेन.

[४] १ खरदूसण

एत्तं च १९

॥ वृत्ता ॥

सिरु गयउ कवन्धु जें 'भण्डेइ
णिय-सामिहें पंमणु सैरइ

मुहु भड-चोर्के ण छण्डइ ।
१० विउणैउ णं भडु पैहरइ ॥ ९

[५]

६ वल-किङ्करु जें सङ्कोहु हउ
'कहिं गच्छहि अच्छमि जाम हउं
सङ्कोहु जेम घाइउ छलेण
तं वयणु मुणोवि किर ओवडइ
ते विहि-वितावि आरुट्ट-मणा
१० णं पलय-कालें पलयमुहुरी
जिह ते तिह परिचक्कलिय-धणु
जिह ते तिह भीम-णिणाय-करा

धाविउ वितावि तं रणे अजउ ॥ १
रहु वाहें वाहें मवडमुहउ ॥ २
तिह पहरु पहरु णिय-भुव-चलेण' ॥ ३
विहि-राउ ताम्व तहों अडिभडइ ॥ ४
उत्थरिय स-मच्छर वे वि जणा ॥ ५
जिह ते तिह सैर-धारा-वर्यरा ॥ ६
जिह ते तिह विज्जुज्जलिय-तणु ॥ ७
जिह ते तिह सूर-च्छाय-हरा ॥ ८

॥ वृत्ता ॥

विहि-राएं अमरिस-कुद्धएण
१५ पाडिउ वितावि णाराएण

अहिणव-जयसिरि-लुद्धएण ।
गिरि जिह वज्ज-णिहाएण ॥ ९

[६]

जं हउ वितावि तं ण किउ 'खेउ
विहि-रायहों मिडइ ण भिडइ जाम
ते वे वि परोप्यरु अडिभडन्ति
२० एत्थन्तरें 'मममुं ण 'किउ खेउ
ओणल्लिउ महियलें विगय-पाणु
मुग्गीउ पधाइउ विण्फुरन्तु
णं णिसियर-सेण्णहों मइयवट्टु
णं तिहुयण-चक्कहों काल-दण्डु

कोवग्गि-पलित्तु विसालतेउ ॥ १
हक्कारिउ सम्भु-णिवेण ताम्व ॥ २
णं गिरि स-परक्कम ओवडन्ति ॥ ३
उरें सत्तिएँ भिण्णु विसालतेउ ॥ ४
णिय-साहणु पेक्खेवि लोट्टमाणु ॥ ५
'लइ वलहों वलहों' समु उत्थरन्तु ॥ ६
णं केसरि मिग-जूहहों विसट्टु ॥ ७
णं जलहर-विन्दहों पंलय-चण्डु ॥ ८

14 P 8 अरणि निडइ. 15 P A मुहुं. 16 A 'युक्क ण छट्ट. 17 P 8 'सामिय. 18 A अणुसरइ.
19 This pāda is missing in P 20 A विडउणउं. 21 A पहरइ.

5. 1 P 8 संकोहु, A रणे कोहु. 2 P 8 कहे (8 °हे) गच्छहे 3 P 8 ऊवडइ. 4 P 8 तावि.
5 P 8 °वितावि आ(P अ°)पिट्टमण. 6 P 8 °युहर. 7 P 8 °वयर. 8 P 8 °कर. 9 P 8
सुरहो छाय°

6. 1 P सपरिक्कम. 2 P संमें, 8 सं. 3 P किय, 8 कियउ. 4 P 8 सिभिरहो. 5 A °कालहो चक्क°.

२ (P. 8 reading) मणामे

[५] १ नाम. २ मेवा ३ वाणावली, जलधारा च. ४ प्रणुणीकृतम्. ५ विद्या, विद्युद्(ता) वा.

[६] १ मिल्लु, २ प्रलयवायु.

॥ घत्ता ॥

विजाहर-वंस-पईवहों भिडमाणहों सुग्गीवहों ।
थिउ अन्तरें वाहिय-सन्दणु ताम पहञ्जण-गन्दणु ॥ ९

[७]

हणुवन्तें वुच्चइ 'माम माम
हउं एक्कु पहुच्चमि णिसियराहुं
जिह धूमकेउ जगें णरवराहुं
जिह पलय-पहञ्जणु जलहराहुं
वेल्लु णं वणु भञ्जमि रसमसन्तु
रयणीयर-तरुवर णिदलन्तु
सुललिय-करयल-पल्लव लुलन्तु
धय-च्छत्तइं पत्तइं विक्खिरन्तु

तुहुं अच्छहि जहिं सोमिच्चि-राम ॥ १
जिह गरुडु असेसहुं विसहराहुं ॥ २
पलयाणलु जिह जरं-तरुवराहुं ॥ ३
सुर-कुलिस-दण्डु जिह गिरिवराहुं ॥ ४
वंसुज्जल-मूल-तरुक्खणन्तु ॥ ५
भुव-दण्डं-चण्ड-डालाहणन्तु ॥ ६
णक्खावलि-कुसुम समुच्छलन्तु ॥ ७
णरवर-सिर-फल-संहसइं खुडन्तु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गलगविज्जे अञ्जण-गन्दणु स-कवउ स-गउ स-सन्दणु ।
पर-वल्ले पइसरइ महवल्लु विज्जे जेम दावाणलु ॥ ९

[८]

पढम-भिडन्तें तेण वाइणा
हयवरेण णवराहओ हओ
रहवरेण खय-सूरहो रहो
णरवरेण वयणुवभडो भडो
करयलेण सु-भयङ्करो करो
दारुणं कयं एव सञ्जुयं
सुहड-सुहड-सन्दाणवन्तयं
जत्थ तत्थ अत्थमिय-सूरयं

वासुएव-धल-पक्खवाइणा ॥ १
गयवरेण जो आगओ गओ ॥ २
धयवडेण जस-लुद्धओ धओ^४ ॥ ३
पर-तिरेण पर-संसिरं^६ सिरं ॥ ४
भड-कमेण स-परंक्रमो कमो ॥ ५
हडु-रुण्ड-विच्छडु-सञ्जुयं ॥ ६
धीर-मारि-सन्दाणवन्तयं ॥ ७
णिसि-णहं व अत्थमिय-सूरयं ॥ ८

7. 1 A has °हं (°ह) everywhere 2 P S जरु. 3 P S वंसुज्जलु मूल 4 P S °चहु.
5 A पलया°. 6 P °साहइ. 7 P S सकउ 8 P S सहसंदणु

8. 1 P S पइसरतेण. 2 P ° वलएव°, S °वलयेव° 3 S जमलुद्धवो 4 wanting in S 5
The portion beginning from this and ending with °क्को in line 5 is
wanting in S. 6 P अवर सिर. 7 A सुयरक्खमो. 8 P °विच्छडु°, S °संकयल्लयं. 9 P S
°वत्तइं.

[७] १ प्रलयकाल-वात २ बलमेव नन्दनवनम् ३ हनूमंत .

[८] १ हनूमंतें. २ प्रलयकालसूर्य ३ सप्रामं ४ सयुक्तं ५ सुभटा, सद्घटाश्च रथाश्च.
६ 'संदा' रथाश्च, 'आणा' घोटकाश्च ७ रौद्रमार्यां सदानं रोधनं विद्यते यत्र .

छिण्ण-वाहु-णिभिर्भणं-वच्छयं
'णिरसि पाणि णीविक्रमं थियं

काणणं व ओणल्ल-वच्छयं ॥ ९
खीर-जलहि-सलिलं व मन्थियं ॥ १०

॥ घत्ता ॥

जं हणुवहोँ वलु आलगउ
सवडंमुहु वज्जिय-सङ्कउ

लीलएँ जिम्ब ११तिम्ब भग्गउ ।
एक्कु मालि पर थक्कउ ॥ ११

[९]

थक्कन्तेँ कोक्किउ पवण-पुत्तु
वलु वलु सामीरणि देहि जुञ्जु
तुहुँ रामहोँ हउँ रामणहोँ दासु
१० छुडु एँक्कु मै मइलउ 'णियय-वंसु
तं णिसुणेँवि उववण-मद्दणेण
'तुहुँ कवणु गहणु मँइँ दुज्जएण
किं ण सुअउ खउ वज्जाउहासु
अक्खहोँ कयन्तु पट्टणहोँ केउ

'किं कायरेहिँ सँहुँ भिडेँवि जुत्तु ॥ १
मँइँ मुएँवि मल्लु को अण्णु तुज्जु ॥ २
जिह तुहुँ तिह हउ मि महि-प्पगासु ॥ ३
जसु रुँच्चइ जय-सिरि होउँ तासु' ॥ ४
दोच्छिउ पवणञ्जय-णन्दणेण ॥ ५
हणुवन्त-कयन्तेँ कुद्धएण ॥ ६
उज्जाँण-भङ्गु किङ्कर-विणासु ॥ ७
हउँ सो जेँ पडीवउ अज्जणेउ ॥ ८

१५

॥ घत्ता ॥

रहु वाहि वाहि सवडंमुहु
हउँ पँइँ घाएण जि मारमि

पहरु पहरु' लइ आउहु ।
पहिलउ तेण ण पहरमि' ॥ ९

[१०]

तं णिसुणेँवि मालिँ ण किउ खेउ
२० णं सुअणु अणेएँहिँ दुज्जणेहिँ
हणुवेण वि सर अट्ट-उण मुक्क
आयासेँ ण मन्ति ण धरणि-वीढेँ
अगल्लेँ पच्छल्लेँ अ-परिप्पमाण
ओसरिउ मालि णिविसन्तरेण
२५ हक्कारिउ अहिमुहु पवण-जाउ
एत्तडेण जि तुज्जु मरड्डु जाउ

सर-जालेँ छाइउ अज्जणेउ ॥ १
णं पाउसेँ दिणयरु णव-घणेहिँ ॥ २
पसरन्त हणन्तेँ दियन्त दुक्क ॥ ३
ण धयग्गेँ ण रहवरेँ हँय-पँगीढेँ ॥ ४
जउ जउ जेँ दिट्ठि तउ तउ जि वाण ॥ ५
रहुँ दिण्णु ताम्ब वज्जोअरेण ॥ ६
'कहिँ जाहि पाव खय-कालु आउ ॥ ७
जं भग्गु भिडन्तेँ मालि-राउ ॥ ८

10 P S °णिच्छिण्ण°. 11 P जेँ तेँ, S ज तेँ. 12 P A सवडंमुहुं, S सवडंमुहु.

9. 1 P S ससु 2 P महिहे प°, S महिहि प°. 3 A एक. 4 P S ण. 5 A रुचउ 6 P होइ.
7 P S A मइ. 8 P S उज्जाणु भग्गु, A उज्जाणं गुभं. 9 P पहरि पहरि, S पहरे पहरे.

10. 1 P S मालेँ 2 P S दियं (P अँ) त हणंत. 3 A भय°. 4 P एगीढे. 5 P S ण्णु.

८ अतिरहितं हस्वम् ९ निर्गतविक्रमम्

[९] १ निजवंशं यथा.

॥ घत्ता ॥

हउं वज्जोयरु भड-महणु तुहुं पवणञ्जय-गन्दणु ।
अब्भिडहुं वे वि भय-भासुर रणु पेक्खन्तु सुरासुर' ॥ ९

[११]

ते विणिण वि गलगज्जन्त एम्व	मुक्कङ्कुस मत्त-गहंन्द जेम्ब ॥ १	5
अब्भिड महाहवें अतुल-मल्ल	पडिवक्ख-पक्ख-णिक्खन्त-सल्ल ॥ २	
अहिमाण-अणुब्भड सुद्ध-वंस	सङ्गाम-सएँहिं लद्ध-प्पसंस ॥ ३	
तो णवर समीरण-गन्दणेण	खंर-सूर-समप्पह-सन्दणेण ॥ ४	
विहिं सरोहिं सरासणु छिण्णु तासु	णं हियउ खुडिउ वज्जोयरासु ॥ ५	
किर अवरु चाउ करे चडइ जाम्व	सय-खण्ड-खण्डु रहु कियउ ताम्व ॥ ६	11
जामर्णण-महारहे चडइ वीरु	धणुहरु वि ताँवे किउ हय-सरीरु ॥ ७	
तईयउ कोवण्डु ण लेइ जाम	वीओ' वि महारहु छिण्णु ताम ॥ ८	

॥ घत्ता ॥

तो वि णिसियंरु जुञ्ज-पियारउ वि-रहु कियउ वे-वारउ ।
पुणु पँच्छलें वाणेहिं सल्लिउ महिहरु जिह ओणल्लिउ ॥ ९

[१२]

जं हउ वज्जोअरु भग्गु मालि	तं स-रहसु धाइउ जम्बुमालि ॥ १	
मन्दोअरि-गन्दणु दणु-विणासु	सउ सीहहुं रेहें संजुत्तु तासु ॥ २	
ते वियंड-दाढ ओरालि-वयण	उज्जुसिय-केस णिडुरिय-णयण ॥ ३	
कन्धर-वल्लग-लङ्गूल-दण्ड	णह-णियर-भयङ्कर चलण-चण्ड ॥ ४	21
आएँहिं करि-कुम्भ-वियारणेहिं	जसु उज्जइ रहु पञ्चाणणेहिं ॥ ५	
सो जम्बुमालि मरु-गन्दणासु	गिच्चारवण-वण-महणासु ॥ ६	
आलगु सु-करयलें करेवि चाउ	सु-कलत्तु जेम्ब जं सु-प्पणाउ ॥ ७	
तं आयामेवि वहु-मच्छरेण	णाराउ विसज्जिउ णिसियरेण ॥ ८	

6 P S °कडमहणु 7 P अब्भिडहुं, S अब्भिडह.

11. 1 P गइहु, S °गयहु. 2 A अहिमाणि 3 P खर° corrected as खय°, S खय. 4 P S जा अणु°, A जामरु°, 5 S भावं किउ, A ताव किउ. 6 P तइअउं. 7 P S वीयउ 8 P S णिसायरु. 9 S °पियरउ. 10 P पच्छलिं, S पच्छलें.

12. 1 P S सहु, A सय. 2 A संजुत्त. 3 P विट्टिय°, S भिट्टिय°. 4 P ओरालिय°, S उरालिय°.

[११] १ आरोपित-सल्ल २ प्रमाणसहित (१) ३ धनुष्यस्य विशेषणमेतद् (१).

॥ घत्ता ॥

जण-जयणाणन्द-जणेरउ धउ हणुवन्तहों केरउ ।
विन्धेप्पिणु महियलें पाडिउ गह-सिरि-हारु व तोडिउ ॥ ९

[१३]

६ जं छिणु महद्धउ दुद्धरेण तं पवण-सुएण धणुद्धरेण ॥ १
दो दीहर वर-गाराय मुक्क रिउ-रहवर-वीढासणण दुक्क ॥ २
एक्केण कवउ एक्केण चाउ विद्धंसिउ णाईं जिणेण पाउ ॥ ३
सण्णाहु अणुणु परिहेंवि भडेण धणुहरु वि' लेवि विहडप्फडेण ॥ ४
हणुवन्तु विद्धु दीहर-सरेहें णं कोमल-दल-इन्दीवरेहें ॥ ५
१० हणुवेण वि मेल्लिउ अद्धयन्दु अइ-दीहरु णाईं समास-दण्डु ॥ ६
उज्जोत्तिय तेण समत्थ सीह मत्तेभं-कुम्भ-मुत्ताहलीह ॥ ७
जगडन्त पहिण्डिय वलु असेसु ओहाइय हय-गय-णरवरेसु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उद्धुयं-लङ्गूल-पईहोंहि वलु खज्जन्तउ सीहोंहि ।
१५ णासइ भय-वेविर-गत्तउ अवरोप्परु लोद्धन्तउ ॥ ९

[१४]

वलु सयलु वि किउ भय-विहलु जाम्व हणुवन्तु दसाणणें भिडिउ ताम ॥ १
पञ्चाणण-सन्दणु पंमय-चिन्धु थिउ उद्धेवि रण-भर-धुरहें खन्धु ॥ २
सो जुज्झमाणु जं दिद्धु तेण सण्णाहु लइउ लङ्काहिवेण ॥ ३
२० रंण-रहसुच्छलियहों उरें ण माइ सुहि-संझमें गरुअ-सणेहु णाईं ॥ ४
पुणु दुक्खु दुक्खु आइद्धु अङ्गें सीसक्कु करेप्पिणु उत्तमङ्गें ॥ ५
आयामिउ धणुहरु लइउ वाणु पारद्धु समरु हणुवें समाणु ॥ ६
तहिं तेहए कालें धणुद्धरेण रहु अन्तरें दिणुणु महोअरेण ॥ ७
हक्कारिउ मारुइ 'थाहि थाहि' सबडम्मुहु रहवरु वाहि वाहि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

२५ तं सुणेंवि महोअरु जेत्तहें रहवरु वाहिउ तेत्तहें ।
उत्थरिय वे वि समरङ्गणें णं खय-मेह णहङ्गणें ॥ ९

5 P S हणुवन्तउ.

13. 1 A वलेवि. 2 P S जगु. 3 P S उद्धुयं, A उद्धुणंत°. 4 P S °णंगूल°. 5 S वहु.

14. 1 P A दसाणणि 2 A रणे 3 P S °च्छलियउ 4 A °संभवे. 5 P S गुरु वि. 6 P S A णाह. 7 P सुणिवि, S णिसुणि, A निसुणेवि.

[१३] १ हस्ती. २ मुक्ताफलेच्छा.

[१४] १ वानर.

[१५]

हणुवन्ते महोअरु भिडिउ जाम
सञ्जोत्तेवि रहवरें सयल सीह
सहुं तेण पराइउ मलवन्तु
हालाहलु विज्जुलं विज्जुजीहु
जमहण्डु जमाणु कालदण्डु
कुसुमाउहु अक्कु मयक्कु सकु
सुउ सारणु मउ मारिच्चि-राउ
आएहिं लक्काहिव-किङ्करेहिं

सो जम्बुमालि सम्पत्तु ताम्ब ॥ १
उहण्ड चण्ड लङ्गूल-दीह ॥ २
धुन्धुरु धूमक्खुं कयन्तदन्तु ॥ ३
भिण्णञ्जणुं पहु भुअ-फलिह-दीह ॥ ४
विहि डिण्डिमु उम्वरुं डमरु चण्डु ॥ ५
खवियारि सम्भुं करि मयरणक्कु ॥ ६
वीभच्छुं महोअरु भीमकाउ ॥ ७
वेढिउ हणुवन्तु भयङ्करेहिं ॥ ८

॥ वत्ता ॥

जें सव्वेहिं लइउ अखत्तेण
आयामिय सँमरें पचण्डेहिं

हणुवें हरिसिय-गत्तेण ।
वइरि सँ इं भु व-दण्डेहिं ॥ ९

*

[६५. पंचसट्टिमो संधि]

हणुवन्तु रणे
णं गयणयलें

परिवेढिज्जइ णिसियरेंहिं ।
वाल-दिवायरु जलहरेंहिं ॥

[१]

पर-वल्लु अणन्तु हणुवन्तु एकु
आरोक्कइ कोक्कइ संसुहु थाइं
गय-घड भड-धड भञ्जन्तु जाइ
एक्कु रहु महाहवें रस-विसट्टु
सो ण वि भडु जासु ण मलिउ माणु
'सो ण वि पहु जासु ण कवउ छिण्णु
सो ण वि तुरङ्कु जसु गुडु ण तुडु
सो ण वि भडु जासु ण छिण्णु गत्तु

गय-जूहवें णाई मइन्दु थक्कु ॥ १
जहिं जहिं जें थट्टु तहिं तहिं जें धाइ ॥ २
वंसत्थलें लगु दवग्गि णाई ॥ ३
परिभमइ णाई वलें मइयवट्टु ॥ ४
'सो ण वि धउ जासु ण लगु वाणु ॥ ५
सो ण वि गउ जासु ण कुम्भु भिण्णु ॥ ६
सो ण वि रहु जसु ण रहङ्कु फुट्टु ॥ ७
तं ण वि विमाणु जं सरु ण पत्तु ॥ ८

15. 1 P S हणुवंतमहोयर भिडिय जाव. 2 P S णंगूल°. 3 P S धुसुवत्तकियंत° 4 P S विज्जुल,
A लु 5 A भिञ्जणपहु 6 P जमदंडु, 8 जमदंडू 7 P S डामरु डमर. 8 A संतु. 9 P S मारिच्च.
10 A भीमच्छु. 11 P अखत्तेहिं. 12 P S समर. 13 P S सय.

1. 1 A reads धुवकं at the end 2 P A ससुहु 3 A थाइं. 4 This pāda is
wanting in A. 5 P तक्कवि. 6 P S जहि.

जगडन्तु वलु
सङ्गाम-महि

५ जं जिणेंवि ण सक्किउ वर-भडेहिं
गिरि-सिहर-गहिर-कुम्भत्थलेहिं
छप्पय-झङ्कार-मणोहरेहिं
तण्डविय-कण्ण-उद्धुअ-करेहिं
जं वेढिउ रणं-मुहें पवण-जाउ
१० जहिं जम्वउ णीलु सुखेणु हंसु
सन्तासु विराहिउ सूरजोत्ति
चन्दप्पहु चन्दमरीचि रम्भु

११ आणेंहिं भडेंहिं
णं णिय-गुणेंहिं

रण-रसिणेंहिं वेहाविद्धएहिं
णासइ विहडप्फडु गलिय-खग्गु
भज्जन्तउ पेक्खेंवि णियय-सेण्णु
२१ धाइउ भय-भीसणु भीम-काउ
परिसक्कइ रण-भूमिहें ण माइ
जउ जउ जें स-मच्छरु देइ दिट्ठि
कों वि वाणं कों वि भिउडिणें पणहु
कों वि कहं वि कडच्छणें णिरुं 'णिलुक्कु

२२

सुग्गीव-वल्लें
णं अण्णहरें

॥ वत्ता ॥

मारुइ ह्णिण्डइ जहिं जें जहिं ।
रुण्ड-णिरन्तर तहिं जें तहिं ॥ ९

[२]

वेढाविउ मारुइ गय-घडेहिं ॥ १
अणवरय-गलिय-गण्डत्थलेहिं ॥ २
घण्टा-टङ्कार-भयङ्करेहिं ॥ ३
मुक्कहुसेहिं मय-णिच्चभरेहिं ॥ ४
तं धाइउ कइधय-भड-णिहाउ ॥ ५
गउ गवउ गवक्खु विसुद्ध-वंसु ॥ ६
पीइङ्करु किङ्करु लच्छिभुत्ति ॥ ७
सद्दलु विउलु कुलपवणथम्भु ॥ ८

॥ वत्ता ॥

मारुइ उवेहावियउ ।
जीउ व भंव मेहावियउ ॥ ९

[३]

पेल्लिउ पडिक्खु कइद्धएहिं ॥ १
चूरन्तु परोप्परु चलण-मग्गु ॥ २
रावणु जयकारेंवि कुम्भयण्णु ॥ ३
णं राम-चलहें खय-कालु आउ ॥ ४
गिरि मन्दरु थाणहें चलिउ णाइँ ॥ ५
तउ तउ जें पडइ णं पलय-विट्ठिं ॥ ६
कों वि ठिउ अवटम्भेवि धरणि-वट्ठुं ॥ ७
कों वि दूरहें जें पाणेंहिं विमुक्कु ॥ ८

॥ वत्ता ॥

गरुअउ हुअउ हल्लप्फलउ ।
हत्थि पइइउ राउलउ ॥ ९

7 P हिडे.

2, 1 A कण्णउ. 2 P S उवें. 3 A रणउहे. 4 P S धाउ कहइयं. 5 P S पीयकरु 6 P S चंदु. 7 P मलहं, 8 मलह.

3, 1 P S A णाह. 2 A विहि. 3 P S वीट्ट. 4 A कहो. 5 P S णरु, A निरु. 6 wanting in P S 7 P S मुक्कु 8 P S हल्लोहल्लउ; P marginally gives हल्लप्फलउ. 9 S अण्णरे.

[३] १ दिहकिन (२)

[४]

उब्बेढाविउ हणुवन्तु जेहिं
परिचिन्तिउ 'लई आइउ विणासु
तहिं अवसरें धाइउ अमियविन्दु
रइवद्धणु णन्दणु कुमुउ कुन्दु
कोलाहलु तरलु तरङ्गु तारु
सम्मेषु सेउ ससिमण्डलो वि
पिहुमइ वसन्तु वेलन्धरो वि
आयामेवि वइरिहि तणउ सेणु

णउ सक्किउ वयणु वि^१ णिएवि तेहिं ॥ १
कियं(?) वलु जें करेसइ एकु गासु ॥ २
दहिमुहु माहिन्दु महिन्दु इन्दु ॥ ३
मइकन्तु महोवहि मइसमुहु ॥ ४
सुंगीउ अङ्गु अङ्गयकुमारु ॥ ५
चन्दाहु कन्दु भामण्डलो वि ॥ ६
वेलच्छु सुवेलु जयन्धरो वि ॥ ७
समकण्डिउ सव्वेहिं कुम्भयणु ॥ ८

॥ वत्ता ॥

एकल्लएण
वलु तासियंउ

तो वि चलन्ते सम्मुहेण ।
गय-जूहु व पञ्चाणणेण ॥ ९

[५]

जं खत्तु मुएवि कइद्धएहिं
तहिं कइकसि-णयणाणन्दणेण
दारुणु थम्भण-मोहण-समत्थु
सोवाविउ साहणु सयलु तेण
को वि घुम्मइ को वि सरीरु वलइ
घुरुहुइ को वि णिहाए भुत्तु
एत्थन्तरे किक्किन्धाहिवेण
उम्मोहिउ उट्टिउ वलु तुरन्तु

समकण्डिउ वेहाविद्धएहिं ॥ १
रुसेवि रयणासव-णन्दणेण ॥ २
पम्मुक्कु 'दंसणावरण-अत्थु ॥ ३
णं जगु अत्थन्ते दिणयरेण ॥ ४
कासु वि किवाणु करयलहो गलइ ॥ ५
को वि गब्भन्तरे णरु णाई सुत्तु ॥ ६
पडिवोहणत्थु पम्मुक्कु तेण ॥ ७
'काहिं कुम्भयणु वलु वल्लु' भणन्तु ॥ ८

॥ वत्ता ॥

सवडम्मुहउ
णं उवहि-जलु

पुणु वि पडीवउ धावियउ ।
महि रेळन्तु पराइयउ ॥ ९

4. 1 wanting in P S. 2 A सइ 3 S किं. 4 P तालु. 5 A सुग्गउ. 6 P S कुन्दु. 7 P S सवेलु. 8 P S आएहि (S °यहि) आयामेवि वइरिसेणु. 9 P णासिउ, S णासिउ.

5. 1 P S °णदणेहि (S °हि). 2 P पमुक्क, S पम्मुक्क, A पमुक्क. 3 P S घुरुहुइ. 4 A भत्तु. 5 P S को (डकु)इ गब्भन्तरे णाइ. 6 A सत्तु. 7 P आसुक्क, S आसुक्क. 8 A वणुणु. 9 P S सवडम्मुहु, A सवडम्मुहउ.

[६]

पर-वलु णिएवि रणें उत्थरन्तु
करें कट्टिउ णिम्लु चन्दहासु
रिउ-साहणें भिडई ण भिडइ जासँ
६ इन्दइ-घणवाहण-वज्जणक
'अम्हेहिं जीवन्तेहिं किङ्करेहिं
सामिउ सम्माणेंवि वड-कोह
चण्डोअर-तणयहो वज्जणकु
इन्दइ सुगगीवहो समुहु वलिउ

लङ्काहिवेण थरथरहरन्तु ॥ १
उग्गमिउ णाँइँ दिणयर-सहासु ॥ २
सोण्डीर वीर णर तिण्णि ताम्व ॥ ३
सिर-णामिय-कियञ्जलि-हत्थ थक ॥ ४
तुहुँ आपणु पहरहि 'किं करेहिं' ॥ ५
तिण्णि मि समरङ्गणें भिडिय जोह ॥ ६
घणवाहणु भामण्डलहो थकुँ ॥ ७
णं मेरु महोअहि 'मँहहुँ चलिउ ॥ ८

११

णरु णरवरहो
रहु रहवरहो

॥ वत्ता ॥

तुरयहो तुरउ समावडिउ ।
गयहो महग्गउ अन्भिडिउ ॥ ९

[७]

सँज्जुँ जय-लच्छि-पसाहणेण
१५ हँकारिउ सुरवइ-महणेण
'खल खुइ पिसुण कइ-केउँ राय
जिह रावणु मेहँवि थरिउ रामु
तं णिसुणेंवि किङ्किन्धेसरेण
णिबभच्छिउ इन्दइ 'अरें कु-मल्ल
२० दोच्छन्त परोप्परु भिडिय वे वि
दीहर-गाराएँहिं उत्थरन्त

'तिहुअणकण्टय-गय-वाहणेण ॥ १
सुगगीउ दसाणण-णन्दणेण ॥ २
लङ्काहिव-केरा कुन्ड पाय ॥ ३
तिह पहरु पहरु तउ लुहमि णामु' ॥ ४
विज्जाहर-णर-परमेसरेण ॥ ५
को तुहुँ को रावणु कवणु(?)वोल्ल' ॥ ६
सु-पणामइँ चावइँ करेहिं लेवि ॥ ७
णं पलय-जलय णव-जलुँ मुअन्त ॥ ८

॥ वत्ता ॥

विहिं^६ मि जणेंहिं
णव-गन्भिणेंहिं

छाइउ गयणु महासरेंहिं ।
पाउस-कालें व जलहरेंहिं ॥ ९

6. 1 P S समुत्थरतु. 2 P S थरहरथरतु, A थग्थरहंतु. 3 P S णाह, A नाह. 4 A भिडउ न भिडउ. 5 P जावं. 6 P तार्थ. 7 A पहरणु. 8 A वज्जणुणु. 9 P S घणुवाहणु. 10 A अणु. 11 S A सहहु. 12 A महागउ.

7. 1 A तहिं अवस सिर णट्टणेण कोट्टिउ सुरवइसुठ महणेण. 2 P रामणु. 3 P S सुपणामइ, A सुपणावइ. 4 A °जल. 5 P वेहिं, 6 वेहि

[६] १ क्रि दृष्टौ . २ मयने.

[७] १ संघाये. २ त्रिभुवनमंडलौ नाम रावणस्य दृष्टी संवाहनो यस्य. ३ पताका. ४ विख्यात (?).

[८]

दुहम-दणुवइ-दारण-समत्थु
अत्थक्कएँ सुर-धणु पायडन्तु
अणवरउ णीर-धारउ मुअन्तु
तं पेक्खेवि तारावइ पलित्तु
वायव-सरु सुग्गीवेण मुक्कु
वाओलि धूलि पाहण मुअन्तु
दुग्घोदु-थदु लोदुन्तु सव्व
दुव्वाउ आउ जं वल्लं-विणासु

सुग्गीउ रणे
वलवन्तएण

इन्दइणामेह्लिउ वारुणत्थु ॥ १
गज्जन्त-जलउ तँडि-तडयडन्तु ॥ २
अहिणव-कलाव-केक्कार-देन्तु ॥ ३
धूमद्धउ णं मारुएण छित्तु ॥ ४
णं पलय-कालु पर-वल्लहो दुक्कु ॥ ५
धय-छत्तदण्ड-दण्डुंद्दुवन्तु ॥ ६
मोडन्तु महारह अतुल-गव्व ॥ ७
तेण वि आमेह्लिउ णाग-वासु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वेढिउ पवर-सरेण किह ।
णाणावरणे जीउ जिह ॥ ९

[९]

किक्किन्ध-णराहिउ धरिउ जाम
अब्भिदु परोप्परु जुञ्जु घोरु
छिज्जन्त-महग्गय-गरुअ-गत्तु
लोदुन्त-महारह-हय-रहङ्कु
फुदुन्त-कवउ तुदुन्त-खग्गु
आयामेवि रणे रोसिय-मणेण
आमेह्लिउ आइउ धगधगन्तु
वारुणुं विमुक्कु भामण्डलेण
उल्लाविउ जलणु जलेण जं जे

पुप्फवइ-सुउ
परिवेढियउ

घणवाहण-भामण्डलहँ ताम ॥ १
'सरि-सोत्तं-सउत्तरे-पहर-थोरु ॥ २
णिवडन्त-समुद्दुय-धवल-छत्तु ॥ ३
घुम्मन्त-पडन्त-महातुरदु ॥ ४
णच्चन्त-कवन्धय-असि-करग्गु ॥ ५
अग्गेउ मुक्कु घणवाहणेण ॥ ६
अङ्गार-वरिसु णहँ दक्खवन्तु ॥ ७
णं गिरिहँ वज्जु आखण्डलेण ॥ ८
सरु णाग-पासु पम्मुक्कु तं जे ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दीहर-पवर-महासरेंहिं ।
मलयधरेन्दुं व विसहरेंहिं ॥ १०

8. 1 P S वाउलि 2 P S °दहु. 3 A °दुदवतु 4 P S वले.

9. 1 P S A अब्भिदु 2 A सरसुत्त° 3 P S °सउत्तरे. 4 A गरुयत्त. 5 A °छत्त Similarly up to line 5, A has foims ending in °अ. 6 A °तुरग 7 S तुदुत्त°. 8 A वारुणो. 9 P मलयदु, S मलयगदुदु.

[८] १ मेघ-वाण. २ विद्युत् ३ सुप्रीव . ४ पवन.

[९] १ नदीप्रवाह यथाग्नेऽग्नेऽतीवबस्त्रोत्तरोत्तर (१) २ भामडल

जं जिउ तारावइ पवर-भुउ
 तं भग्गु असेसु वि राम-वल्लु
 एत्तहें वि^१ तारुं समावडिय
 ५ पहरंन्तहुं वइरि-विचारणइ
 पुणु 'वाहाउञ्जें लग्ग किह
 हणुवन्तु लइउ रयणीयरेंण
 चैरणोहिं धरेंवि उच्चाइयउ
 पुणु लङ्का-णयरिहिं उच्चलिउ

10

धुत्तत्तणेण
 णीसङ्गु जिह

जं किउ 'विवत्थु रणे रयणियरु
 15 रावेण-अन्तेउरु लज्जियउ
 सैन्थवइ जाम्व णिय-परिहणउ
 तहिं अवसरें भड-भङ्गण-मणेण
 'मइ देव भिडन्तउ पेक्खु रणे
 जइ मइलमि वयणु ण पर-वलहों
 20 गलगजेवि एम 'णिसायरेंण
 सण्णाहु लइउ रहवरें चडिउ
 हकारइ पहरइ णिन्दइ वि
 'तुहुं अम्हहें वन्दण-जोग्गु किह

25

जो जणण-समु
 किर कवणु जसु

[१०]

'अणु वि भामण्डलु जणय-सुउ ॥ १
 णं पवण-गलत्थिउ उवहि-जल्लु ॥ २
 मरुणन्दण-कुम्भयण्ण^१ भिडिय ॥ ३
 'णिट्टियइ अणेयइ पहरणइ ॥ ४
 उदण्ड-सोण्ड 'वेयण्ड जिह ॥ ५
 णं मेरु-महागिरि 'जिणवरेंण ॥ ६
 णं गिरि-सिहरेण चडावियउ ॥ ७
 'तारा-तणएण ताम खलिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

समर-सएहिं अहङ्गएण ।
 रिउ विवत्थु किउ अङ्गएण ॥ ९

[११]

तं लग्गु हसेवए सुर-णियरु ॥ १
 थिउ वङ्क-वयणु दिहि-वज्जियउ ॥ २
 मारुइ विमाणु गउ अप्पणउ ॥ ३
 जयकारिउ रांमु विहीसणेण ॥ ४
 जिह जलणु जलन्तउ सुक्क-वणे ॥ ५
 तो पइसमि धूमज्जे सलहों ॥ ६
 किउ करें कोवण्डु अ-कायरेण ॥ ७
 रावण-णन्दणहों गम्पि भिडिउ ॥ ८
 पर्णवइ घणवाहणु इन्दइ वि ॥ ९
 तिहिं सज्झहिं परम-जिणिन्दु जिह ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तहों किं पावें चिन्तिएण ।
 जुज्झन्तहुं सहुं पित्तिएण ॥ ११

10. 1 wanting in A. 2 P S ताव तामसि चडिय. 3 A मरुणन्दणु कुम्भयण्णु. 4 P S पहरतहु, A पहरतउ. 5 P S 'वियारणाइ. 6 P णिट्टिविय अणेयइ पहरणाइ, 8 णिट्टिविया अणेयइ पहरणाइ. 7 A मुह. 8 P S चलणेहिं (S^०हि). 9 A सवर^०.

11. 1 A रावणु. 2 P S थिय. 3 P 'पहरणउ, 8 'पहरणउ, A 'परिणउ. 4 P A अप्पणउ. 5 A राउ. 6 A धूमज्जय. 7 A घणगइ.

[१०] १ वाहुयुद्धेन. २ हस्तीव. ३ श्रीवर्धमानेन मेरु कंभे नीतः. ४ अगदेन.

[११] १ नम. २ घभाति. ३ पञ्जम् ४ विभक्षणेन.

[१२]

रणु पित्तिण सहुँ परिहरेंवि
एकें भामण्डलु धरेंवि णिउ
कुढें लगेंवि को वि ण सकियउ
तहिँ अवसरें आसैंकिय-मणेंण
'जइ विण्णि वि णिय णरवइ पवर
ण वि हय ण वि गय रहवरेंहिँ सहुँ
तं णिसुणेंवि वूढ-महाहवेंण
उवसग-हरणें विण्णि मि जण्णाहें

विण्णि वि कुमार गय ओसरेंवि ॥ १
अण्णेकें 'तारा-पाणपिउ ॥ २
अम्वरें अमरेंहिँ कलयलु कियउ ॥ ३
बुच्चइ वलएउ विहीसणेण ॥ ४
तो ण वि हउँ ण वि तुहुँ ण वि इयर ॥ ५
जं जाणहि तं चिन्तवहि लहु' ॥ ६
'मह्लोयणु चिन्तिउ राहवेण ॥ ७
कुलभूसण-देसविहूसण्णाहें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

परितुट्टएण
जं (?) दिण्णियउ

विज्जउं जिह वर-गेहिणिउं ।
गरुड-मिगाहिव-वाहिणिउं ॥ ९

[१३]

सो गरुडु देउ झाडउ मणेंण
किर अवहि पउञ्जेंवि सङ्कियउ
पुणु चिन्तेंवि देउ समुट्टियउ
'हरिवाहणि सत्त-सएँहिँ सहिय
वे छत्तइँ ससि-सूर-प्पहँइँ
गय विज्ज पत्त णारायणहों
चिन्तिय-मेत्तइँ सम्पाइयइँ
'तहें गरुड-विज्जहें दंसणेंण

थरहरिउ णवर सहुँ आसणेंण ॥ १
'लइ बुज्जिउ रामें चिन्तियउ' ॥ २
लहु विज्जउ 'लेप्पिणु पट्टविउ ॥ ३
गरुडु ताहें वि ति-सएँहिँ अहिय ॥ ४
रयणाइँ तिण्णि रणें दूसहँइँ ॥ ५
हल-मुसलइँ सीर-प्पहरणहों ॥ ६
मुक्कइँ पर-वलहों पधाइयइँ ॥ ७
गय णाग-पास णासेंवि खणेंण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भामण्डलेंण
जोक्कारियउ

सुग्गीवेण वि गम्पि वलु ।
लाएँवि सिरें स इँ भु व-जुवलु ॥ ९

*

12. 1 P S A सहु 2 P S धरिवि, A धरवि. 3 A ओसंकिय^० 4 A मुह्लोयणु 5 A ^०हरण.
6 A जणेहिँ. 7 A ^०सणेहि 8 S विजउ, A विजिउ 9 P णेहि णिउ with marginally
noted ने^० for णे^०, S णेहि णिउ, A नेहिणिउं 10 A ^०वाहिणिउ.

13. 1 P S लेविणु. 2 P S हरिवाहिणि 3 A सिंहासणी. 4 P S ^०पहाइ. 5 P S दूसहाइँ
(S^० इ-). 6 A तहिँ.

[१२] १ सुग्रीव २ दृढतरसग्रामेण ३ वितरवेवम् ४ (P's reading) जेहयुक्त. ५ सिंहवाहनी.

[१३] १ विद्ये द्वे गृहीत्वा प्रेक्षि(पि)त. २ सिंहवाहनी ३ रामस्य.

[६६. छासट्टिमो संधि]

जुज्झण-मणइँ अरुणुग्गमै किय-कलयलइँ ।
अब्भिट्ठाइँ पुणु वि रास-राक्खण-वलयँ ॥

[१]

६ गयवर-तुरय-जोह-रहँ-सीह-विमाण-पवाहँगाइँ ।
रण-तूरइँ हयाइँ किउ कलयलु भिडियइँ साहणाइँ^० ॥ १
जाउ महाहवु वेहाविज्जहुँ वलँहुँ णिसायर-वाणर-चिन्धहुँ ॥ २
दणु-विणिवारण-पहरण-हत्थहुँ अमर-वरङ्गण-गहण-समत्थहुँ ॥ ३
परिओसाविय-सुरवर-सत्थहुँ वँडिय-जयसिरि-विकम-पन्थहुँ ॥ ४
१० गलगज्जन्त-मत्त-मायङ्गहुँ पवण-गमण-पक्खरिय-तुरङ्गहुँ ॥ ५
दप्पुब्भडहुँ समुण्णय-माणहुँ घण्टा-घण-टङ्कार-विमाणहुँ ॥ ६
सगुड-सँणाहहुँ सन्दण-वीढहुँ पुव्व-वइर-मच्छर-परिगीढहुँ ॥ ७
उँडुव-धवल-छत्त-धय-दण्डहुँ पवर-करप्फालिय-कोवण्डहुँ ॥ ८
मेल्लिय-एकमेक-सर-जालहुँ तिकखुग्गामिय-कर-करवालहुँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

१५ 'भिडे'^{१२} पढमयरँ रँउ चलणाहउ लइय-छलु ।
णं उत्थियरँ सुअण-मुँहइँ मइलन्तु खलु ॥ १०

[२]

२० खुर-खर-छँज्जमाणु णं णासइ भइयएँ हयवराँहुं ।
णं^१ आइउ णिवारओ^१ णं हकारउ सुरवराहुं ॥ १
णं पाय-पहारहँ ओसरँवि धाइउ णिय-परिहउँ सम्भरँवि ॥ २
णं दुज्जणु सीस-वलग्गु किउ णं उत्तमुँ सव्वहुँ उअरि थिउ ॥ ३
सो ण वि रहु जेत्यु ण पइसरिउ सो ण वि गउ जो ण वि धूसरिउ ॥ ४

1. 1 P S अब्भिट्ठइँ. 2 P S °रामण°. 3 A °र°. 4 P S °वाहणाइँ (S °इ). 5 P S रणे. 6 A reads घुवक at the end, while P S lead हुवइँ in the beginning of this stanza 7 missing in A. 8 A परिओ° 9 P S वडिय° 10 P S सणाउह. 11 P S उद्धय°. 12 P भेडे, S भिडि. 13 P S उत्थियउ. 14 P °सुहइ

2. 1 P खुज्जमाणु, S सुज्जमाणु 2 A नरवराइँ 3 P S णं ण 4 P S णिवारउ. 5 P S गउ. 6 A सुराह. 7 P S A °पहारहु. 8 P S परिभउ, A °परिहउ. 9 P S दुज्जण. 10 P S उत्तम.

[१] १ सप्रामे २ धूली. ३ चरणचप्पणमेव छल.

[२] १ (P' S leading) खन्यमान

सो ण वि हउ जो ण वि मँइलियउ सो ण वि धउ जो ण वि कँवलियउ ॥ ५
जउ रमइ दिट्ठि तउ रय-णियरु णउ णावइ मणुसु ण रँयणियरु ॥ ६
तेत्तहँ वि के वि धावन्ति भउ जेत्तहँ गलगज्जइ हत्थि-हडँ ॥ ७
जेत्तहँ सन्दण दणु-मीसियइ सुव्वन्ति तुरङ्गम-हिंसियइ ॥ ८
जेत्तहँ धणुहर गुण-गहिय-सर जेत्तहँ हुँङ्कार मुँअन्ति णर ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तेहएँ समरँ सूरँह मि भज्जन्ति मँइ ।
गय-गिरिवरँहिँ ताम समुट्ठिय रुहिर-णइ ॥ १०

[३]

गयवरँ-गण्ड-सेल-सिहँग्ग-विणिग्गय णइ तुरँन्ति ।
उच्चुवँ-धवल-छत्तँडिण्डीरुप्पीलँ-समुव्वहँन्ति ॥ १

पवरोज्जर-सोणिय-जल-पवाह करि-मयर-तुरङ्गम-णक्क-गाँह ॥ २
चक्कोहर-सन्दण-सुंसुमार करवाल-मच्छ-परिहच्छ-वारँ ॥ ३
मत्तेभ-कुम्भ-भीसण-सिलोहँ सिय-चमर-वलाँया-पन्ति-सोह ॥ ४
तं णइ तरेवि कँ वि वावरन्ति वुँडुन्ति के वि कँ वि उव्वरँन्ति ॥ ५
के वि रय-धूसर कँ वि रुहिर-लित्त कँ वि हत्थि-हडँ विहुणेवि घित्त ॥ ६
कँ वि लग पडीवा दन्त-मुसलँ णं धुत्त विलासिणि-सिहिणँ-जुअलँ ॥ ७
कँ वि णियय-विमाणहँ झम्प देन्ति णहँ णिवडँवि वइरिहिँ सिरइँ लेन्ति ॥ ८
तहिँ तेहएँ रणँ सोणिय-जलेण रउ णासिडँ सज्जणु जिह खलेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

रावण-वलँण किउ विवराँमुहु राम-वलु ।
पडिपेहियडँ णं दुव्वाएँ उवहि-जलु ॥ १०

11 P S मालिअ (S य°) उ. 12 P महल्लिअउ, A कहलियउ. 13 P S °हडा, A °जड.
14 A सं. 15 P S हुँकार. 16 P मुअन्ति, A मुयंत 17 P सूरहँ, S सूरह, A सूरहँ 18 P A
महँ. 19 P A णहँ.

3. 1 P S read दुवहँ in the beginning. 2 A °रुग्ग°. 3 P A तुरतिया, S तरँति.
4 A अदुअ° 5 °प्पीलँ wanting in P S. 6 P marginally corrects as समुव्व-
हँतिया, A समुव्वहँतिया. 7 S °ग्गाहु, A °ह. 8 A चक्कोरसदण. 9 P °चार 10 S °वलीया°,
A °वलाय°. 11 S A कि वि. 12 A उडुत्ति. 13 A उव्वहति. 14 S कि वि. 15 A अहर°. 16 P
S सोसिउ. 17 P A विवरासुहुँ. 18 A पडिपेहियओ.

१ (P. reading) व्याप्त ३ रज (जो) नि कर. ४ न ज्ञायते. ५ राक्षस. ६ मति. ७ गज एव पर्वता.
[३] १ गजा एव गन्धसेला लघुपर्वताः. २ फेनु.

[४]

णिसियर-पवर-पहर-पडिपेलिँ वलें मम्भीम देवि ।
हृथ-पहृथ-सत्तु सेणावहृ थिय णल-णील वे वि ॥ १

समालग मण्णे ^१	धयं-च्छत्तं-वण्णे ॥ २
जयासावग्गुहे	विमाणेहि वृहे ॥ ३
चलच्चामरोहे	पहुँकन्त-जोहे ^७ ॥ ४
कमुग्गिण्ण-सीहे ^८	णहुँप्पील-दीहे ^९ ॥ ५
महाहृथि-सण्डे	समुदण्ड-सुण्डे ॥ ६
नुरद्धोहे-सोहे	वणे सन्दणोहे ॥ ७
तहिं हुक्कमाणे	वले अप्पमाणे ॥ ८
कइन्दच्चएहिं	भिडन्तेहिं तेहिं ॥ ९
दसासस्स सेण्णं	कयं वाण-छण्णं ॥ १०
ण सो छत्त-दण्डो	अच्छिण्णो अखण्डो ॥ ११
ण तं सत्तु-चिन्धं ^{१२}	रणे जण्ण विद्धं ॥ १२
ण मो मत्त-हृथी	वणो जस्म णथी ॥ १३
ण तं हृथि-गंत्तं	खयं जण्णं पत्तं ॥ १४

॥ घत्ता ॥

सो णथि भडु जो हुक्कइ सवडस्सुहड ।
१२ सो रहु जें ण वि जो रणे ण^{१३} किउ परस्सुहड ॥ १५

[५]

१ वलें मम्भीम देवि रहु वाहिउ तां व दसाणणेणं ।
अहिणव-लच्छि-वहुव-पिण्डत्थणं-परिच्छुण-मणेणं ॥ १
अग्गि व तरुवराहं सीहो वं कुद्धराहं ।
भिडइ ण भिडइ जाम्म णल-णील-णरवराहं ॥ २
ताम्म विहीसणेण रहु दिण्णु अन्तराले ।
गलगज्जन्त हुक्क मेह व्व वरिसयाले ॥ ३

4. 1 P सण्णे. 2 S धया. 3 A चत्ते. 4 P S °विरुहे. 5 P S विमाणहिरुहे. 6 In A this pāda is given after line 5 7 P °जोहो, S जोत्ते. 8 A °सोहे. 9 A वेहे. 10 P S °मोहे. 11 P S °गोदु, A °गोव°. 12 P S °च्छिण्णं, A °च्छण्णे. 13 A विधं. 14 A मत्ते. 15 A तं न. 16 P सवडस्सुहडं, S सवडस्सुहड, A सवडस्सुहडं. 17 P सो णवि रहु. 18 P S किउ ण. 19 A परस्सुहडं.

5. P S read वृयहं, in the beginning. 2 A ता. 3 P S °खणि. 4 P S °. 5 P णरवराहं, S णरवराह.

भीसण विसहर व्व सहूल-वग्घ-चण्डा ।
 ओरालन्त मत्त हथि व्व गिल्ल-गण्डा ॥ ४
 वर-णङ्गूल-दीह सीहं व णिवद्ध-रोसां ।
 अचल महीहर व्व जल्लहि व्व गरुअ-घोसा ॥ ५
 वेण्णि वि पवर-संन्दणा वे वि चाव-हत्था ।
 वेण्णि वि रक्खस-द्धया समर-भर-समत्था ॥ ६
 वेण्णि वि महिहर व्व ण कयावि चल-सहावा ।
 वेण्णि वि सुद्ध-वंस वेण्णि वि महाणुभावा ॥ ७
 वेण्णि वि धीर वीर विज्जु व्व वेय-चवला ।
 वेण्णि वि वाल-कमल-सोमाल-चलण-जुवला ॥ ८
 वेण्णि वि वियड-वच्छ थिर-थोर-वाहु-दण्डा ।
 वेण्णि वि चत्त-जीवियासांहेवे पचण्डा ॥ ९

॥ वत्ता ॥

तहिँ एक्कु पर एत्तिउ दोसु दसाणणहोँ ।
 जं जणय-मुअ खणु वि ण फिट्ठइ णिय-मणहोँ ॥ १०

[६]

अंमरिस-कुद्धएण अमर-वरङ्गण-जूरावणेणं ।
 णिब्भच्छिउ विहीसणो पढम-भिडन्तेँ रावणेणं ॥ १

‘अँ खल दुव्वियंहु कुल-फंसण मइँ लङ्गाहिउ मुएँवि विहीसण ॥ २
 चङ्गउ सामिसालु ओलग्गिउ महि-गोअरु वराउ एक्कङ्गिउ ॥ ३
 उद्धुव-पुच्छ-दण्डु णह-दीहरु केसरि मुएँवि पसंसिउ मिगवरु ॥ ४
 सब्वङ्गिउ चामियर-पसाहणु मेरु मुएँवि पसंसिउ पाहणु ॥ ५
 तेय-रासि णहसिरि-आलिङ्गणु भाणु मुएँवि धरिउ जोइङ्गणु ॥ ६
 जलयर-जलकल्लोल-भयङ्करु जलहि मुएँवि पसंसिउ सरवरु ॥ ७
 णरउ धरेंवि सिव-सासउ वञ्चिउ जिणु परिहरेंवि कु-देवउ अञ्चिउ ॥ ८

6 P S °चड. 7 P S °गंठ 8 Wanting in A 9 P S व्व णिव्वद्धरोस. 10 P S
 जलहर. 11 The portion from °र न्दणा up to वेण्णि वि in line 6 not
 found in A 12 This pāda is not found in A 13 P S °सा आहवे

6. 1 P S read दुवइँ in the beginning 2 P सेमरगणे जगे, स ज समरगणे जगे.
 3 S रावणेण, 4 P S दुव्वियंहु, 5 A अ वराउ 6 P S A °पुच्छ 7 The portion from here
 up to पसंसिउ in line 7 is wanting in A 8 The portion from here up to
 the end of this Kadavaka is wanting in A.

जासु ण केण वि णावइ णाँउं

सो पँइँ गहिउ विहीसण 'राँउं' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वइरिहिँ मिलेवि¹²¹³ जिह उग्गामिउ खम्भु महु ।

तिह आहयणें

परिसर 'साइउ देहि ¹⁴ लहु' ॥ १०

6

[७]

'तं णिसुणेंवि सोण्डीर-वीर(?) -सन्तावणेण ।

णिब्भच्छिउ दसाणणो कुइय-मणेण विहीसणेणं ॥ १

'सच्चउ जें आसि तुँहुँ देव-देव

एँवहिँ लहुआरउ कु-मुणि जेव ॥ २

सच्चउ जि आसि तुँहुँ वर-मइन्दु

एवहिँ बुण्णाणणु हरिण-विन्दु ॥ ३

11 सच्चउ जें आसि तुँहुँ मेरु चण्डु

एँवहिँ णिग्गुणु पाहाण-खण्डु ॥ ४

सच्चउ जि आसि रवि तेयवन्तु

एवहिँ जोइङ्गणु जिगिजिगन्तु ॥ ५

सच्चउ जि आसि जलणिहि पहाणु

एँवहिँ वट्टहि गोप्पय-समाणु ॥ ६

सच्चउ जि आसि सरु सारविन्दु

एँवहिँ पुणु तोय-तुसार-विन्दु ॥ ७

सच्चउ जि आसि तुँहुँ गन्ध-हत्थि

एवहिँ तउ सरिसउ खरु वि णत्थि ॥ ८

11 गिरि-समु खण्डिउ चारित्तु जेण

किं कीरइ जीवन्तेण तेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सच्चउ जें मँइँ

तइउँ खम्भुँ उप्पाडियउ ।

लइ एँवहिँ मिँ

केत्तहँ जाहि अ-पाडियउ' ॥ १०

[८]

28

'तं णिसुणेवि वयणु दहवयणें अमरिस-कुद्धएँणं ।

मेह्लिउ अद्धयन्दु समरङ्गणें जय-जस-लुद्धएँणं ॥ १

9 s णाउ. 10 P s पइ. 11 s राउ 12 P s मिलिवि. 13 P marginally reads a variant जिह उग्गामिउ रणउडे तइयहु खंभु महु. 14 P लहु.

7. 1 The portion from the beginning up to एँव in line 5 is wanting in A. P s read दुवइँ in the beginning. 2 The first pāda is corrupt, as it is defective by four moras. 3 P s तुहु. 4 P s एवहि 5 P s A एवहि. -6 P सच्चउ. 7 P s तइयहु (s °हु) 8 P s खंभुप्पाडिअ (s °य) उ. 9 wanting in P s.

8. 1 P s read दुर्वह in the beginning, A °वच्चम्भुउ. 2 P s A °ण.

[६] १ राम २ अकमाला.

[७] १ म्हासरोवर .

मुणिवरिन्दो व्व सरु मोक्ख-पय-कङ्खओ^४ ।

तरु विसोसु व्व अइ-तिक्ख-पय-सञ्जुओ^४ ॥ २

कव्व-वन्धो व्व बहु-वण्ण-वण्णब्भुओ^४ ।

कुलवहू-चित्त-मग्गो व्व सुट्ठुञ्जुओ^४ ॥ ३

मुच्चमाणेण कह कह वि णउ भिण्णओ ।

तेण तस्स वि धओ णवर उच्छिण्णओ ॥ ४

रावणेण वि धणुं^९ समरं दोहाइयं ।

ताम्व तं दन्दं-जुञ्जं समोहाइयं ॥ ५

भिडिय मन्दोयरी-तणय-णारायणा ।

कुम्भयण्णाणिली राम-घणवाहणा ॥ ६

णील-सीहयंदि-दुद्धरिस-वियडोअरा ।

केउ-भामण्डला कांमं-दिठरह वरा ॥ ७

कालि-वन्दणहरीं कन्द-भिण्णञ्जणा ।

सम्भु-णंल विघ-चन्दोयराणन्दणा ॥ ८

जम्बुमालिन्द धूमक्ख-कुन्दाहिवा ।

भासुरङ्गा मयङ्गय-महोयर णिवा ॥ ९

कुमुअ-महकाय सहल-जमघण्टया ।

रम्भ-विहि मालि-सुग्गीव अन्भिट्टया ॥ १०

तारं^{१३}-मारिच्च सारंण-सुसेणाहिवा ।

सुअ-पचण्डालि सञ्जच्छ-दहिमुह णिवा ॥ ११

॥ घत्ता ॥

अण्णेक^{१६} मि

भुअंणेकेक-पहाणाहुं ।

के^{१८} सकियउ

गणं गणेप्पिणु राणाहुं ॥ १२

[९]

केण वि को वि दोच्छिओ 'मरु सवडंमुहु थाहि थाहि' ।

केण वि को वि वुत्तु समरङ्गणे 'रहवरु वाहि वाहि' ॥ १

3 This and the next line are wanting in A. 4 P S °उ. 5 P S मुक्खवाणेण
6 P S रावणेण वि धणु 7 P दंड°, S दट्टद°, A दवजुञ्जत 8 P S °सीहयरी 9 S दुद्धरिस°.
10 P S कोम°. 11 P S कलियचंदण° 12 P S °णर 13 A तार° 14 P साहण°. 15 A °हुं.
16 P S भवणे°. 17 P S A °पहाणाहु 18 P S किं, A के 19 P S णउ.

9. 1 P S lead दुवइ in the beginning 2 P S दोच्छउ. 3 P S सवडंमुहु 4 S थाहु थाहु, A थाहि

केण वि को वि महा-सर-जालें छाइउ जिह सु-काँलु दुकालें ॥ २
 केण वि को वि भिण्णु वच्छ-त्थलें पडिउ घुलेवि^१ को वि^२ महि-मण्डलें ॥ ३
 केण वि कहों वि सरासणु ताडिउ णं हेट्ठा-मुँहु हियवउ पाडिउ ॥ ४
 केण वि कहों वि कवउ णी^३द्विउ वलि जिह दस-दिसेहि^४ आवट्टिउ ॥ ५
 5 केण वि कहों वि महहउ पाडिउ णं मउ^५ माणु मडप्फरु साडिउ ॥ ६
 12 केण वि दन्ति-दन्तु उप्पाडिउ णावइ जसु अपणउ भमाडिउ ॥ ७
 केण वि झम्प दिण्ण^६ रिउ-रहवरें गरुडें जिह भुअङ्ग-भुवणन्तरे ॥ ८
 केण वि^७ कहों वि सीसु अच्छोडिउ णं अवराह-रुक्ख^७-फलु तोडिउ ॥ ९
 ॥ घत्ता ॥

10 केण वि समरें दिण्णु विवक्खहों हियउ धिरु ।
 जीविउ जेमहों पहरहों उरु सामियहों^{१०} सिरु ॥ १०

[१०]

^१केण वि कहों वि मुक्क पण्णत्ती णरवर-पुज्जणिज्जा ।

केण वि गुलगुलन्ति भायङ्गी केण वि सीह-विज्जा ॥ १

15 केण वि मेल्लिउ अग्गेउ वाणु केण वि वारुणु गलगज्जमाणु ॥ २
 केण वि वायउ झडझडझडन्तु केण वि कुल-पव्वउ धुद्धुवन्तु ॥ ३
 केण वि भय-भीसणु कुलिस-दण्डु किउ महिहरत्थु सय-खण्ड-खण्डु ॥ ४
 केण वि आसीविसु णाग-वासु केण वि गारुडु पण्णय-विणासु ॥ ५
 तहिं तेहएँ रणें कमलेक्खणासु इन्दइणाऽमेल्लिउ लक्खणासु ॥ ६
 20 दुहरिसणु भीसणु रयणि-अत्थु सोण्डीर-वीर-मोहण-समत्थु ॥ ७
 कङ्काल-करालु तमाल-वहलु णच्चन्त-पेय-वेयाल-मुहलु ॥ ८
 लक्खणेण पमेल्लिउ दिणयरत्थु णिसि-तिमिर-पडल-णासण-समत्थु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दहमुह-सुएँण

णाग-वासुं पुणु पेसियउ ।

25 सों वि लक्खणेंण

गारुड-विज्जएँ तासियउ ॥ १०

[११]

^१विरहु करेवि धरिउ दहमुह-णन्दणु णारायणेण ।

तोयदवाहणो वि वलएवें विप्फुरियाणणेण ॥ १

5 P S सुकालु 6 P भिन्नु, A दिण्णु 7 P S घुलुतु. 8 P णवरि, S णवर 9 PA हेट्ठामुहु 10 P णिन्वट्टिउ, S णिन्वट्टिउ 11 A अहिमाण° 12 Lines 7 - 9 are wanting in A 13 P S दिण्णु 14 P S कहि 15 P S °रुक्खु 16 A जम्महो. 17 P S उरु पहरहों सा(S भा)मियह.

10. 1 P S हुवई in the beginning 2 P S °खडु खंडु, A °खंडु खडु. 3 A कालपासु 4 P S वि मेल्लिउ 5 A णागपासु.

11. 1 P S read हुवई in the beginning

एत्तहें वि हणुउ बहु-मच्छरेण
ताणन्तरें रामें सरहिं छिण्णु
पेक्खन्तहों तहों रावण-वलासु
अवरो वि को वि जो भिडिउ जासु
एत्तहें वि ताव भय-भीसणेण
परियल्लिँ-चावें सिय-माणणेण
सरवरेंहिं तं पि अक्खित्तुं केम
रोसिउ दहगीउ वि लइय सत्ति

किर आयामिज्जइ णिसियरेण ॥ २
जिउ कह वि किलेसैं कुम्भयण्णु ॥ ३
वन्धेवि अप्पिउ भामण्डलासु ॥ ४
परमप्पउ व्व सो सिद्धु तासु ॥ ५
रावण-धणु छिण्णु विहीसणेण ॥ ६
आमेळिउ सूळु दसाणणेण ॥ ७
वलि भुक्खिएहिं भूएहिं जेम ॥ ८
णावइ दरिसावइ णियय सत्ति ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दाहिणएँ करें
सम्पाइय (?)

रेहइ कइकसि-णन्दणहों ।
णाँइ भवित्ति जणदणहों ॥ १०

[१२]

१जा गज्जन्त-मत्त-मायङ्ग-कुम्भ-णिहलण-सीला ।

दुद्धर-णरवरिन्द-दणुइन्द-विन्द-विद्ववण-लीला ॥ १

जा वइरि-णारि-रोवावणियं
जा विज्जु जेम्ब भीसावणियं
जा दिण्णी वालि-तव-च्चरणें
सा सत्ति सत्तु-सन्तासणहों
तावहिं खर-दूसण-मदणेंण
'अरें खल जीवन्तु ण जाहि महु
तं णिसुणेंवि रयणासव-सुएँण
विन्धन्तहुं णल-णीलङ्गयहुं

रह-तुरय-थट्ट-लोट्टावणियं ॥ २
जम-लोय-पन्थ-दरिसावणियं ॥ ३
धरणेन्दें कविलासुद्धरणें ॥ ४
किर मुअइ ण मुअइ विहीसणहों ॥ ५
रहु अन्तरें दिण्णु जणदणेण ॥ ६
जइ सत्ति सत्ति तो मेळि लहु' ॥ ७
आमेळिय गज्जोल्लिय-भुएँण ॥ ८
अवरहु मि असेसहुं कइधयहुं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तो लक्खणहों
दिहि रावणहों

पडिय उर-त्थलें सत्ति किह ।
रामहों दुक्खुप्पत्ति जिह ॥ १०

2 P S रामण° 3 S °सुवासु 4 S A परियलिय 5 A तिं. 6 P S उक्खित्तु 7 P भुक्खिएहि
भूएहि, 8 भुक्खियेहि भुक्खेहि, A भुक्खिएहि. 8 A भाइ णाट

12. 1 P S read दुवई in the beginning 2 °दणुइंदविइ° is not found in A
3 P S °रोवावणिया and similarly the next three pādas end in °या 4 P S
कइलासु° 5 P S असेस°, A असेसहु 6 P कइदयहु, S कइदयहु, A कइवयहुं 7 A तो वि
8 A रामणहो.

[१३]

'जं पाडिउ कुमारु महिमण्डले तं नीमरियं-णामु ।

जिह कुञ्जैरं मण्डनु तिह समरे सरहमु भिडिउ गमु ॥ १

रामण-राम-जुञ्जु^१ अन्भिडउ
 ६ अन्लर-जण-मण-गयणाणन्दु^२
 सन्धिय-सर-वन्धिय-सिद्धारहुं^३
 वाणासणि-सञ्जाइय-गयणहुं^४
 तो एत्थन्तरं गय-सय-थामं
 पहिलउ रहवरु रासह-वाहणु
 १० तदयउ तुल्ल-तुरङ्गम-चञ्चल
 पद्धमु वर-महल-णिलत्तउ

सरहमु णिचभर-पुलय-विमट्टउ ॥ २
 अफालिय-मुर-दुन्दुहि-सदुहुं ॥ ३
 वारवार-जिण-णामुचौरहुं ॥ ४
 पहरं पहरं पप्फुल्लिय-वयणहुं ॥ ५
 किउ रिउ विरह्छ-चारउ रामं ॥ ६
 वीयउ सरहमु 'मग्ग-पवाहणु ॥ ७
 चउथउ घोरोरालिय-मयगलु ॥ ८
 छट्टउ केसरि-सय-मञ्जुत्तउ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

किङ्किणि-मुहल
 दुपुत्त जिह

चल-वाहण धुव-धवल-धय ।
 छ वि रईवर णिफल गय (?) ॥ १०

[१४]

रंह छह छह धणुणि छं छत्तं^१ वि^२ छिण्णं^३ हलहरेण ।

तो वि^४ ण दिण्ण पुट्टि विजाहर-मुर-परमेसरेण ॥ १

वेणिण वि अवरोप्परु सामरिस
 वेणिण वि मुर-समर-मण्हिं थिर
 २० वेणिण वि पद्दु कइ-णिसियर-धयहुं
 जिणइ ण जिजइ पफो वि जणु
 विणिचारिउ रावणु राहवेण
 ण वि तुहुं महु ण वि हउं तुञ्जु अरि लइ णिय-णिय-णिलयहुं जाहुं धैरि' ॥ ७

वेणिण वि पडरुसें माहंसें सरिस ॥ २
 वेणिण वि जिण-णामं णमिय-मिर ॥ ३
 जिह दिम-गय सेस-महग्गयहुं ॥ ४
 गउ ताम दिवायरु अत्थवणु ॥ ५
 'अन्धारंणं काइं महाहवेण ॥ ६
 'अन्धारंणं काइं महाहवेण ॥ ६
 'अन्धारंणं काइं महाहवेण ॥ ६

13. 1 P S read हुवइ in the beginning. 2 A नीमरिउ नामु. 3 P S कुञ्जुरि, A कुञ्जुर. 4 P S जुञ्ज. 5 P S A °दु. 6 P S °मरु. 7 P विनिय°, S वंधिय°. 8 P S °निगारहु, A °दिगारउ. 9 P S °चारु, A °वारउ. 10 P S °गयणहु, A °गयणउं. 11 P °वयणहु, S °वयणहुं, A वयणउं. 12 P धुय°, A धुअ°. 13 P S दुपुत्त. 14 P S रहवरुवर, A रहधणु.

14. 1 P S read हुवइ in the beginning. 2 A छ उ. 3 Wanting in P S. 4 P S A छत्त. 5 Wanting in S A. 6 Wanting in A. 7 P S ह. 8 P S पोरिस. मत्त°. 9 P S 10 P S अंवारं. 11 P S उवरि.

[१३] १ अष्टापदः.

१२ तें वयणें रणु उवसद्धरेंवि
सीराउहो वि परियत्तु तहिं

गड लङ्काहिउ कलयलु करेंवि ॥ ८
सत्तिंणं विणिभिण्णं कुमारु जहिं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं णिंणं वि वलु
णिवडिउ महिं

सुरकरि-कर-पवरुद्धुं णिं ॥
सिरु पहणन्तु सैं इं भु णिं ॥ १०

✽

[६७. सत्तसट्टिमो संधि]

लंक्खणें सत्तिंणं विणिभिण्णं लङ्क पड्डुं दहवयणें ।
णिय-सेण्णहो मुहं णियन्तउ रूअइ स-दुक्खउ रामु रणें ॥

[१]

भिण्णु कुमारु दसाणण-सत्तिंणं
कुक्कइ व सुक्कइ-क्ख-सम्पत्तिंणं
सुअणो इव खल-वयण-पडत्तिंणं
जिण-मगो इव केवल-भुत्तिंणं
सद्धो इव सव्वां षड्दत्तिंणं
सेलु व वज्जासणिंणं पडन्तिंणं
मेहो इव विज्जुलंणं लवन्तिंणं
ताम समर-दंसणु अलहन्तिंणं

१ परं-गन्धु व गमयत्तण-सत्तिंणं ॥ १
कुपुरिस-कण्णो इव पर-तत्तिंणं ॥ २
पर-समउ व्व जिणागम-जुत्तिंणं ॥ ३
विसयासत्तु मुणि व्व ति-गुत्तिंणं ॥ ४
छन्दो इव मणहर-गार्थत्तिंणं ॥ ५
विज्जो इव रेवां व्वहन्तिंणं ॥ ६
जलणिहि व्व गङ्गां मिळन्तिंणं ॥ ७
णां दिवसु ओसारिउ रत्तिंणं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दहमुह-सिरछेउ ण दिट्ठउ
सोमित्ति-सोय-सन्तत्तउ

रूहुवइ-णन्दणें विजउ ण वि ।
णं अत्थवणहो दुक्कु रवि ॥ ९

12 P S त. 13 P विणिभिन्नु, S विनिभिण्णु. 14 P S A जहि. 15 P °भुएहि, S °भुयेहि, °
धुएहि. 16 S सयं.

1. 1 A लक्खणेण 2 A सिरु पहणतु सह भुएहि. 3 A परमपंथु गवयत्तण°. 4 A सव्वो. 5 A
षड्दत्तिंणं. 6 P S °गाइत्तिंणं

[१] १ पररचितशास्त्रमिव गमकन्वशक्त्या. २ कर्ण इव. ३ रामचन्द्रे.

[२]

दिणयरे णह-कुसुमे व्व गलीणए
सञ्जा रक्खसि(?)व्व अलीणए
कञ्चुव(?)सयणे व्व सोआउणए
५ गए रावणे रण-रहसुब्भिणणए
णिसियर-जणवए दिहि-सम्पणणए
लक्खणे सत्तिए हए १पडिवणणए
अलिउल-कज्जल-कुवल्लय-वणणए
कइधय-साहणे चिन्तावणणए

१दिणे णिसि-वइरिए व्व बोलीणए ॥ १
२तमे मसि-सञ्चए व्व विक्खिणणए ॥ २
३चक्क-जुवल्ले मिहुणे व्व परुणणए ॥ ३
४किर्ये-कल्लये जय-तूर-पदिणणए ॥ ४
५धरे धरे पुणु सोहलए रवणणए ॥ ५
६थिए णिञ्चेयणे धरणि-पवणणए ॥ ६
७सुह-लखणे गुण-गण-सम्पणणए ॥ ७
८हरिण-उले व्व सुट्ठु आदणणए ॥ ८

10

सोमिति-सोय-परिणामेण
जल-चन्दण-चमरुक्खेवेहि

॥ घत्ता ॥

रहुवइ-णन्दणु मुच्छियउ ।
दुक्खु दुक्खु उम्मुच्छियउ ॥ ९

[३]

१हा लक्खण कुमार एक्कोअर
१५ हा माहव महुमह महुसूअण
हा केसव अणन्त लच्छीहर
हा गम्भीर-महाणइ-रुम्भण
हा हा वज्जयण-मम्भीसण
हा हा रुद्धभुत्ति-विणिवारण
२० १हा हा कविल-मरट्ट-विमदण
हा अरिदमण-मडप्पर-भञ्जण
हा महरिसि-उवसग्ग-विणासण
हा करवाल-रयण-उद्दालण
हा खर-दूसण-चमु-मुसुमूरण
२६ हा हा कोडिसिला-सञ्चालण

हा भदिय उविन्द दामोअर ॥ १
हा हरि कण्ह विण्हु णारायण ॥ २
हा गोविन्द जणहण महिहर ॥ ३
हा सीहोयर-दप्प-णिसुम्भण ॥ ४
हा कल्लाणमाल-आसासण ॥ ५
हा हा वालिखिल-साहारण ॥ ६
हा वणमाला-णयणाणन्दण ॥ ७
हा जियपोम-सोम-मणरञ्जण ॥ ८
हा आरण-हत्थि-सन्तावण ॥ ९
सम्भुक्कुमार-विणास-णिहालण ॥ १०
हा सुग्गीव-मणोहर-पूरण ॥ ११
१हा मयरहरावत्तप्फालण ॥ १२

2. 1 P S दिणयर 2 P S A व. 3 P S दिण, A विणि 4 P S रक्खसे व. 5 P S मलीणए,
A अलियणए 6 P S णहे मसिवणण पुंश्च विक्खिणणए 7 A किट्टुव. 8 A र 9 S A गय. 10 P
किए. 11 A जि 12 S संपणणए.

3. 1 A ०डंभण 2 Lines 7 to 9 are not found in A 3 This pāda is not
found in A 4 P S 'विलास' 5 P S 'वल'. 6 P S हा हा मयरहरो उच्चारण.

[२] १ स्वीकृते २ मृगकुल इव
[३] १ हे भ्रात .

॥ घत्ता ॥

कहिं तुहुं कहिं हउं कहिं पिययम कहिं जणेरि कहिं जणणु गउ ।
हय-विहि विच्छोउ करेप्पिणु कवण मणोरह पुण्ण तउ' ॥ १३

[४]

हरि-गुण सम्भरन्तु विद्वाणउ	रुवइ स-दुक्खउ राहव-राणउ ॥ १	5
'वरि पहरिउ पर-णरवर-चक्कएँ	वरि खय-कालु दुक्कु अत्थक्कएँ ॥ २	
वरि तं कालंकूडु विसु भक्खिउ	वरि जम-सासणु णयणकडक्खिउ ॥ ३	
वरि असि-पञ्जरें थिउ थोवन्तरु	वरि सेविउ कयन्त-दन्तन्तरु ॥ ४	
झम्प दिण्ण वरि जलणें जलन्तएँ	वरि वगलामुहें भमिउ भमन्तएँ ॥ ५	
वरि वज्जासणि सिरेण पडिच्छिय	वरि दुक्कन्ति भवित्ति समिच्छिय ॥ ६	10
वरि विसहिउ जम-महिस-झडक्किउ	भीसण-कालदिट्ठि-अहि-डड्किउ ॥ ७	
वरि विसहिउ केसरि-णह-पञ्जरु	वरि जोइउ कलि-कालु सणिच्छरु ॥ ८	

॥ घत्ता ॥

वरि दन्ति-दन्त-मुसलगेहिं विणिभिन्दाविउ अप्पणउ ।
वरि णरय-दुक्खु आर्यामिउ णउ विओउ भाइहें तणउ' ॥ ९

[५]

पक्कन्दन्तें राहवचन्दें	मुक्क धाह सुग्गीव-णरिन्दें ॥ १	
मुक्क धाह भामण्डल-राएँ	मुक्क धाह पवणञ्जय-जाएँ ॥ २	
मुक्क धाह चन्दोयर-पुत्तें	अण्णु विहीसणेण दुक्कवत्तें ॥ ३	
मुक्क धाह अङ्गुल्लय-वीरेंहिं	तार-सुसेणहिं रणउहें धीरेंहिं ॥ ४	20
मुक्क धाह गयं-गवय-गवक्खेंहिं	णन्दण-दुरियविगघ-वेळक्खेंहिं ॥ ५	
मुक्क धाह णल-णील-णरिन्देंहिं	जम्बव-रम्भ-कुमुय-कुन्देन्देंहिं ॥ ६	
मुक्क धाह माहिन्द-महिन्देंहिं	दहिमुह-दढरह-सेउ-समुदेंहिं ॥ ७	
पिहुमइ-मइसायर-मइकन्तेंहिं	मुक्क धाह सच्चेंहिं सामन्तेंहिं ॥ ८	

॥ घत्ता ॥

रणें रामें कलणु रुअन्तएँण सन्दीविउ सन्ताव-हवि ।
सो णत्थि कइद्धय-साहणें जेण ण मुक्की धाह णवि ॥ ९

4. 1 A विद्वाणउं 2 P A °राणउ 3 P पहरिउ 4 P S कालकुडु 5 P S कियंत° 6 P S A जलण 7 This pāda is not found in A 8 P marginally records a variant वलया°. 9 P विसहिउउ 10 P °झडक्किउ, A °झडप्पिउ 11 A °डकिउं 12 A अप्पणउं. 13 P आर्यामियउ 14 A तणउ

5. 1 P, आकट्टें, S आकट्टतिं. 2 P A दुक्कवत्तें. 3 P S गव° 4 P A °देंदहिं, S देंदहि 5 P S सेय° 6 P स्र्अतिं, S स्र्यातिं.

[६]

एहावत्थ जाम्ब 'हलहेइहें
 'दाणें महाहयणोंहि परिछेइहें
 उर-णियम्ब-गरुअहें किस-देहिहें
 5 'सीएँ सीएँ लइ अच्छइ काइं
 सीएँ सीएँ अञ्जहि णयणंणइं
 सीएँ सीएँ करेँ वद्धावाणउ
 लइ दप्पणु जोवहि अप्पाणउ

दुहम-दाणविन्द-वल-खेइहें ॥ १
 केण वि कहिउ ताम्ब वइदेहिहें ॥ २
 रामयन्द-मुह-दंसण-णेहिहें ॥ ३
 सीएँ सीएँ लइ आहरणाइं ॥ ४
 सीएँ सीएँ चउ पिय-वयणंणइं ॥ ५
 वलु लोटाविउ^३ सुग्गीवाणउ ॥ ६
 मुहु परिचुम्बहि दहवयणंणउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

10 रावण-सत्तिएँ विणिभिण्णंउ
 पैरिहव-अहिमाण-विहूणउ

दुक्करु जिअइं कुमारु रणें ।
 लइ रामु वि मुअउं जे^{१०} गणें ॥ ८

[७]

तं गिसुणेंवि वइदेहि पमुच्छिय
 चैयण लहेंवि रुवन्ति समुट्ठिय
 15 लक्खणु मरइ दसाणणु छुइइ
 छिण्ण-सीस हा दइव दुहावह
 हा कयन्त तउ कवण सुहच्छी
 हा लक्खण पेसणहों णिउंत्ती
 हा लक्खण पइं विणु महि सुण्णी
 20 हा लक्खण कल्लएँ पवराहवु

हरियन्दणेंण सित्त उम्मुच्छिय ॥ १
 'हा खल खुह पिसुण विहि दुत्थिय ॥ २
 हियउ केम तउ उट्ठु ण फुइइ ॥ ३
 कवण तुज्ज किर पुण्ण मणोरह ॥ ४
 जं रण्डत्तणु पाविय लच्छी ॥ ५
 कहों छड्डिय जयं-सिरि कुल-उत्ति ॥ ६
 धाह मुएँवि सरासइ रुण्णी ॥ ७
 कहों एकल्लउ मेळिउ राहउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णिय-वन्धव-सयण-विहूणिय
 मइं जेही दुक्खहं भायण

दुह-भायण परिचत्त-सिय ।
 तिहुअणें कां वि म होज्ज तिय' ॥ ९

6. 1 P °हेयहे, S °हेयहो. 2 P S महाइयणेहि, A महाहयणे 3 P S °मुहइं (S °यं°)
 दसणेहिहे (S °हि) 4 P S लइ अंजहि. 5 P णयणउ 6 P S जपहि 7 P °वयणइं, S °वयणइ
 8 P वद्धावणउ, S वद्धावणउ, A वद्धावाणउ 9 A °वाणउं 10 P A अप्पाणउं 11 P A °णउ
 12 A °भिण्णउं 13 P S जीवइ 14 A °विहणउं, T विहूणउ. 15 P मुअउ 16 P जे, S A जि.

7. 1 P S तुज्ज 2 P S पूर 3 P S कियंत 4 P S पेसणह 5 A तिवित्ति. 6 S जसिरि 7
 P S करेवि 8 S वराहउ, A अवराहउ, B अपराहउ 9 P S एकल्लउ 10 P S होउ म का वि तिय.

[६] १ रामस्य, हलायुधस्य २ दानसन्मानरहिताया, वा दाने युद्धे परान् जयति यस्तस्य
 ३ सुप्रीवस्य बल पातित ४ T परिभवाभिमानां न जानाति स निकृष्ट. अनु दीनत्व.

[८]

तहिँ अवसरें सुर-मिग-सन्तावणु
को मुउ को जीवइ को पडियउ
को मायङ्ग-दन्त-विणिभिण्णउ
को णाराय-घाय-जज्जरियउ
केण वि वुत्तु 'भडारा रावण
अज्ज वि कुम्भयण्णु णउ आवइ
वत्त ण सुव्वइ इन्दइ-रायहों
जम्बुमालि जमघण्णु ण दीसइ

णिय-सामन्त गवेसइ रावणु ॥ १
को सङ्गामें कासु अन्भिडियउ ॥ २
को करवाल-पहर-परिच्छिण्णउ ॥ ३
को कणिय-खुरुप्प-कप्परियउ ॥ ४
पवण-कुवेर-वरुण-जूरावण ॥ ५
तोयदवाहणु सो वि चिरावइ ॥ ६
सीहणियम्बहों णउ महकायहों ॥ ७
एक्कु^१ वि णाहिँ सेण्णें 'किं' सीसइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लइ जेहिँ जेहिँ वग्मन्तउ
थिउ एवहिँ सूडिय-यक्खँउ

ते ते विणिवाइँय समरें ।
जं जाणहि तं देव करें ॥ ९

[९]

तं णिसुणेवि दसाणणु हँल्लिउ
थिउ हेट्टामुहु रावण-राणउ
रुवइ स-दुक्खउ गगगर-वयणउ
'हा हा कुम्भयण्ण एक्कोअर
हा इन्दइ हा तोयदवाहण
हा केसरिणियम्ब दणु-दारण
दुक्खु दुक्खु पुणु मणु^३ णिवारिउ
'तिक्ख-गहहों लङ्गूल-पईहहों

णं वच्छ-त्थलें सुलें सल्लिउं ॥ १
हिम-हँउ सयवत्तु व विदारणउ ॥ २
वाह-भरन्त-णिरन्तर-णयणउ ॥ ३
हा हा मय मारिच्च मँहोयर ॥ ४
हा जमहण्ट अँणिट्टिय-साहण ॥ ५
जम्बुमालि हा सुअ हा^{१२} सारण ॥ ६
सोय-समुद्धहों अप्पउ तारिउ ॥ ७
किर केत्तिय सहाय वणें सीहहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अच्छउ अच्छउ जो अच्छइ
किह वुच्चमि हँउ एक्कँल्लउ

तो वि ण अप्पमि जणय-सुअ ।
जासु सहेज्जा वीसँ भुअ ॥ ९

8. 1 wanting in A 2 A रणि भिण्णउ, B रिणिभिण्णउ. 3 A परिच्छिण्णउ
4 P °कापरियउ, A °क्करियउ 5 P जमहँउ (marginally °व°), S जमहाइ. 6 P S
एक्कोइ 7 S किँ, A को 8 S विणिवारिय 9 P °वक्खहि, S °वक्खहि

9. 1 P हँल्लिउ 2 P सल्लिउं 3 P S रावणु 4 A °राणउ 5 P S °हय 6 A विदारणउ.
7 A °वयणउ 8 P S °भरंतु. 9 P S °वयणउ, A °नयणउ. 10 SA सहोयर 11 A अहिणिय°.
12 A साहरण, B साहारण 13 P S मणु वि 14 P S णगूल° 15 S एक्केल्लउ 16 P S वे वि.

[१०]

जो तहिँ सारु कइञ्जय-साहणें
 एवहिँ एक्कु वहेवँउ राहउ
 कलएँ तहों वि महु वि जाणिज्जइ
 5 कलएँ तहों वि महु वि एकन्तरु
 कलएँ वद्धावणँउ तहेकहें
 कलएँ जिम्व मन्दोअरि रोवइ
 कलएँ णच्चउ गहिय-पसाहणु
 कलएँ हुअवह-धगधगमाणहों

सो मइँ मत्तिँएँ भिण्णु रणङ्गणें ॥ १
 कलएँ तहों वि महु वि पवराँहउ ॥ २
 एकमेक-णारायहिँ भिज्जइ ॥ ३
 जिम्व तहों जिम्व महु भग्गु मडप्फरु ॥ ४
 जिम्व उज्झा-णयरिँहें जिम्व लङ्कहें ॥ ५
 जिम्व जाणइ अप्पाणँउ सोवइ ॥ ६
 जिम्व महु जिम्व तहों केरउ साहणु ॥ ७
 जिम्व सो जिम्व हँउ दुँकु मसाणहों ॥ ८
 ॥ घत्ता ॥

10

जिम मइँ जिम्व तेण णिहाँलिउ
 जिम मइँ जिम्व तेणालिङ्गिय

खर-दूसण-सम्बुक्क-पहु ।
 कलएँ रणें जयलच्छि-वहु ॥ ९

[११]

तो एत्थन्तरें राहव-वीरें^१
 15 धीरिउ किक्किन्धाहिव-राणँउ
 धीरिउ रावण-उववण-मदणु
 धीरिउ णलु^५ णीलु वि भामण्डलु
 धीरिउ रयणकेसि रइवद्धणु
 धीरिउ चन्दरासि भामण्डलु
 20 धीरिउ दहिमुहु कलुण-रसाहिउ
 धीरिउ तरलु तारु तारामुहु

धीरिउ अप्पउ चरम-सँरीरें ॥ १
 धीरिउ जम्बवन्तु वहु-जाणँउ ॥ २
 सुहडु पहङ्गण-अङ्गण-णन्दणु ॥ ३
 दिढरँहु कुमुउ कन्दुँ ससिमण्डलु ॥ ४
 अङ्गउ अङ्गु तरङ्गु विहीसणु ॥ ५
 हंसु वसन्तु सेउ वेलन्धरु ॥ ६
 गवउ गवक्खु सुसेणु विराहिउ ॥ ७
 कुन्दु महिन्दु इन्दु इन्दाउहु ॥ ८
 ॥ घत्ता ॥

अण्णु^८ वि जो^९ कोइ रुवन्तउ
 पर एक्कु^{१०} दसासहों उप्परि

सो साहारेंवि सक्कियउ ।
 रोसु^{१२} ण धीरेंवि सक्कियउ ॥ ९

[१२]

विरहाणल-जालोलि-पलित्तें
 किय पइज्ज रणें राहवचन्दें

अण्णु वि कोव-पहङ्गण-छित्तें ॥ १
 'रिउ रक्खिज्जइ जइ वि सुरिन्दें ॥ २

10. 1 P S एवहि, A एव्वहि. 2 S वहिह्वउ. 3 P °हउ, A °हउ. 4 P S °णउ. 5 P S जेम
 अउङ्गं 6 A °णउ 7 A हुक्क 8 S °लियउ.

11. 1 A °वीरे 2 A °सरीरे 3 A °राणउ. 4 P S °जाणउं 5 P S सणलु णीलु भामंडलु.
 6 A दढ°. 7 S A कुँदु 8 P S अण्ण इ. 9 जो कोइ wanting in A. 10 A एक्क

11 P S उप्परे 12 P S रोसु घरेवि ण.

12. 1 A विरहाजलणं 2 The portion from जण to जइ वि in line 3 is
 wanting in S

जइ वि जणहणेण^३ 'महि-माणे
जइ वि जमेण कियन्ते धणएं
जइ वि पहञ्जणेण जइ वरुणे
पइसइ जइ वि सरणु कलि-कालहो
पइसइ जइ वि विवरें गिरि-कन्दरें
पेसमि सत्तु तो इ सइ हत्थें

जइ वि तिलोयणेण वम्हाणे ॥ ३
खन्दें जइ वि तियक्खहो तणएं ॥ ४
जइ वि मियङ्कें अक्कें अरुणे ॥ ५
ल्लिक्कइ गहें जलें थलें पायालहो ॥ ६
सप्प-कियन्तमित्त-दन्तन्तरें ॥ ७
तहो मायासुग्गीवहो पन्थें ॥ ८

॥ वत्ता ॥

कल्लएँ कुमारें अत्थन्तएँ
तो अप्पउ डहमि वलन्तएँ

णिविसु वि रावणु जिअइ जइ ।
हुववहें 'किक्किन्धाहिवइ' ॥ ९

[१३]

पइजारुढे रामे कुल-दीवे
माया-वल्लु वि^१ विउच्चिउ तक्खणे^२
हय-गय-रह-पाइक्क-भयङ्करु
उप्परि पवर-विमाणेहिं छण्णउ^४
सत्त पवर-पायाराहिट्टिउ
सट्टि सहास मत्त-मायङ्गहें^५
रहवरें रहवरें तुङ्ग-तुरङ्गहें
विरइउ एम वूहु णिच्छिइउ

विरइउ वलय-वूहु सुग्गीवे ॥ १
थिउ परिरक्ख करेविणु लक्खणे^२ ॥ २
३णं जमकरणु सुट्टु अइ-दुद्धरु ॥ ३
अव्भन्तरें मणि-रयण-रवण्णउ ॥ ४
णं अहिणव-समसरणु परिट्टिउ ॥ ५
गयवरें गयवरें पवर-रहङ्गहें ॥ ६
तुरएँ तुरएँ णरवरहें अभङ्गहें ॥ ७
णं सु-कइन्द-कव्वु घण-सइउ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

भयगारउ दुप्पइसारउ
णं हियवउ सीयहें केरउ

दुण्णिरिक्खु सव्वहो जणहो ।
अचलु अभेउ दसाणणहो ॥ ९

[१४]

पुव्व-दिसाएँ विजउ जस-लुद्धउ
वीयएँ मारुइ तइयएँ दुम्मुहु
छट्टुएँ मन्दहत्थु सत्तमे गउ

पहिलएँ वारें सरहु सरहद्धउ ॥ १
कुन्दु चउत्थएँ पच्चमे दहिमुहु ॥ २
उत्तर-वारें पहिलएँ अङ्गउ ॥ ३

३ A जणहणे अहिमाणे, 4 P S वरुणे, 5 P S A सइ 6 A अप्पउ

13. 1 P S विउच्चिउ, A वि विउच्चिउ 2 P S A B ०णि 3 P marginally notes the following variant for this pāda उच्चिभय धवल च्छत्त च्छायवरु । 4 S च्छिण्णउ, 5 P S A ०रवण्णउ 6 P S A ०हु

14. 1 A विजय 2 P S सरहुद्धउ, A रहद्धउ

[१२] १ पृथिव्या पूज्य २ कार्तिकेय, ३ कार्तिकेयुना ३ हे सुग्रीव [१३] १ ३रथागानि

वीयँ अङ्गदु तइअँ णन्दँणु
छट्टँ चन्दँसेणु फुरियाणणु
पच्छिम-वारँ पहिलँ ससिमुहु
तइअँ गवउ गवक्खु चउत्थँ

चउत्थँ(?)कुमुउ पञ्चमँ रइवद्धणु ॥ ४
सत्तमँ चन्दँरासि दणु-दारणु ॥ ५
वीयँ सुहडु परिट्टिउ दिहरहु ॥ ६
पञ्चमँ तारु विराहिउ छट्टँ ॥ ७

६

॥ घत्ता ॥

जो सव्वहुँ बुद्धिए वड्डुउ
सो जम्बउ तरुवर-पहरणु

जासु भयङ्करु रिच्छु धँए ।
वारँ परिट्टिउ सत्तमँ ॥ ८

[१५]

दाहिण-दिसँ परिट्टिउ दुद्धरु
१० वीयँ णलु वर-लउडि-भयङ्करु
तइअँ वारँ विहीसणु थक्कउ
चउत्थँ वारँ कुमुउ जमु जेहउ
पञ्चमँ वारँ सुसेणु समत्थउ
छट्टँ गिरि-किक्किन्ध-पुरेसरु
१५ सत्तमँ भामण्डलु असि लिन्तँउ
एम कियँ रणँ दुप्पइसारँ

१ वारँ पहिलँ णीलु धणुद्धरु ॥ १
कुलिस-विहत्थउ णाँइँ पुरन्दरु ॥ २
सूल-पाणि परिवज्जिय-सङ्गउ ॥ ३
तोणा-जुअलावीलिय-देहँउ ॥ ४
विप्फुरियाहरु कोन्त-विहत्थउ ॥ ५
भीसण-भिण्डिमाल-पहरण-करु ॥ ६
णावइ पलय-दवग्गि पलित्तउ ॥ ७
बूहहँ अट्टावीस इ वारँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिँ तेहँ कालँ पडीवउँ
पवरेहिँ स इँ भु व-दण्डेहिँ

रुवइ स-दुक्खँउ दासरहि ।
पुणु पुणु अण्णालन्तु महि ॥ ९

*

२९

[६८. अट्टसट्टिमो संधि]

भाइ-विओएँ कल्लण-सरु
णं ऊसासु जणदणहँ

रणँ राहवु रोवइ जावँहिँ ।
पडिचन्दु पराइउ तावँहिँ ॥

३ P S णदउ ४ P चउत्थए, S चउत्थइ ५ P S चदुसेणु, A B चदुसेणु ६ A चंदससि.
७ P चउत्थए, S चउत्थइ ८ P S ळउ, A ळए.

१५. १ P S A B वारि. २ P S A B णाइ. ३ P °देहउ ४ P A B °किक्किउ, S °किक्किउ.
५ A भीसण° ६ A लेत्तउ. ७ P S A तहि. ८ A B °उ ९ P S A सयं १० P S अण्णालनु.

१. १ P S A B कल्लण

[१]

आवीलिय-दिढ-तोणा-जुअलु
मण्डलिय-चण्ड-कोवण्ड-धरु
परियद्धिय-रण-भर-पवर-धुरु
वेयण्ड-सोण्ड-भुवदण्ड-थिरु
गउ तेत्तहें जेत्तहें जणय-सुउ
'अहों अहों भामण्डल भड-तिलय
विजा-परमेसर भणमि पइ
जइ दरिसावहि रहु-गन्दणहों
तं वयणु सुणेंवि असहन्तएण

वहु-रणङ्गणन्त-किङ्किणि-मुहलु ॥ १
पाणहर-पईहर-गहिय-सरु ॥ २
वर-वइरि-पहर-कप्परिय-उरु ॥ ३
मोरईङ्ग-छत्त-अणुसरिस-सिरु ॥ ४
थिउ वूह-वारें करवाल-भुउ ॥ ५
सम्माण-दाण-गुण-गण-णिलय ॥ ६
तिहुँ मासहुँ अवसरु लद्धु मइँ ॥ ७
तो जीविउ देमि जणहणहों' ॥ ८
णिउँ रामहों पासु तुरन्तएण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

‘जोईहिं वुच्चइ ससिमुहिहें
जीवइ लक्खणु दासरहि

वरहिण-कलाव-धम्मेल्लहें ।
पर ण्हवण-जलेण विसल्लहें ॥ १०

[२]

सुणु देव देवसङ्गीय-पुरें
ससिमण्डलु अत्थि णराहिवइ
पडिचन्दु तासु उप्पणु सुउ
स-कलत्तउ केण वि कारणेण
मेहुणियहिं तणउ वइरु सरेंवि
स-कसाय वे वि णहें अब्भिडिय
तें आयामेप्पिणु 'अभव-भव
विणिभिन्देवि' पाडिउ ताएँ रणें
णिवडन्तउ भरहें लक्खियउ

वहु-रिद्धि-विद्धि-जण-धण-पउरें ॥ १
सुप्पह-महएवि मराल-गइ ॥ २
सो हउँ रोमञ्चुविभणण-भुउ ॥ ३
किर लीलएँ जामि णहङ्गणें ॥ ४
तो सहसविजउ थिउ उत्थरेंवि ॥ ५
णं दिस-दुग्घोट्ट समावडिय ॥ ६
महु सत्ति विसज्जिय चण्ड-रव ॥ ७
उज्जहें वाहिरें उजाण-वणें ॥ ८
गन्धोवणु 'अब्भोक्खियउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तें अब्भोक्खण-वाणिएँण
जाउ विसल्लु पुण्णवउ

वलमणुअप्पाइउ मेरउ ।
णं णेहु विलासिणि-केरउ ॥ १०

2 P S A B °रणङ्गणंतु 3 P S °चंहु° 4 A मोरग° 5 P S णिय 6 A जोहिं.
2. 1 P A तणउं 2 P S A B °भिदिवि, 3 P S A °हि. 4 P S वल्लु 5 P S A B पुणु°.

[१] १ आरोपितमाकर्षित वा २ प्रतिपक्ष (१) ३ हस्ती ४ कालक्षेपमङ्गुर्वता ५ भो राम
[२] १ मोक्षजन्मरामणि (१) २ सिंचित ३ स(म)चित्तो जात .

[३]

पुणु पुच्छिउ भरह-गरिन्दु मइँ
तेण वि महु गुञ्जु ण रक्खियँउ
“स-विसयहों अउञ्जा-पट्टणहों
५ उर-घाउ अरोचँउ दाहु जरु
‘सिरेँ सुलु कवाल-रोउ पवरु
तेहएँ कालेँ तहिँ एक्कु जणु
स-धँउ स-वलु स-णयरु स-परियणु
जिह सुरवइ सव्व-वाहि-रहिउ

10

तेण विसल्लहें तणँउ जलु
पट्टणु पञ्चुजीवियउ

जं पञ्चुजीविउ सयलु जणु
15 “अहों माम एउ कहिँ लद्धु जलु
पर-कञ्जु जेम जं सीयलउ
जिण-वयण जेम जं वाहि-हरु
तं गिसुणेंवि दोणु णराहिवइ
“मम दुहियहें अमर-मणोहरिहें
28 विणु भन्तिएँ अमियहों अणुहरइ
तं गिसुणेंवि भरहें पुज्जियउ

25

अप्पणु गउ तं जिण-भवणु
णावइ सगहों उच्छलेंवि

तहिँ सिद्ध-कूडेँ सुर-साराहों
तइलोक-चँक-परमेसरहों

3. 1 P इउ, S यउ. 2 S A गंधु 3 A °यउं 4 P अरोचउ, S अरोद्धउ. 5 P S A सिरि
6 A B उप्प°. 7 P S A तहि 8 P सचउ, A सद्धउ. 9 A B सउत्तउ 10 A तणउं

4. 1 A °कणु. 2 P S गिम्मलउं 3 P महु. 4 A °रिए 5 A विसज्जिउ.

5. 1 P S °एक्क. 2 P गिहत्तिट्ट°, S गिहत्तिट्टा°

[३] १ जेष्ठेन २ स एव स्वस्थो जियति ३ द्रोणमेघेन

[५] १ (P' S leading) तृष्णानि कातो अधरो यस्य, अथ निद्रा तृष्णा वा हरिता येन वा

“एउं गन्ध-सलिलु कहिँ लद्धु पइँ” ॥ १
सत्तुहण-वँरिहें अक्खियउ ॥ २
उप्पणु वाहि सव्वहों जणहों ॥ ३
कल-सण्णिवाउ गहु छदि-करु ॥ ४
सँपडिसउ (?) खासु सासु अवरु ॥ ५
स-कलत्तु स-पुत्तु स-वन्धुजणु ॥ ६
परिजियइ सँइत्तउ दोणघणु ॥ ७
सिरि-सम्पय-रिद्धि-विद्धि सहिउ ॥ ८
॥ घत्ता ॥

आणेप्पिणु उप्परि घित्तउ ।
स-पउरु णं अभिएँ सित्तउ” ॥ ९

[४]

तं भरहें पुच्छिउ दोणघणु ॥ १
णाणाविह-गन्ध-रिद्धि-वहुलु ॥ २
जिण-सुक्क-ज्ञाणु जिह गिम्मलउ ॥ ३
सुहि-दंसणु जिह आणन्द-यरु” ॥ ४
पप्फुल्लिय-वयण-कमलु चवइ ॥ ५
इउ णवणु विसल्ला-सुन्दरिहें ॥ ६
जसु लग्गइ तासु वाहि हरइ” ॥ ७
णिय-णयरहों दोणु विसँज्जियउ ॥ ८
॥ घत्ता ॥

जं सासय-सोक्ख-णिहाणु ।
महि-मण्डलें पडिउ विमाणु ॥ ९

[५]

किय थुइ अरहन्त-भडाराहों ॥ १
अ-कसायहों णिहत्तिट्टाहरहों ॥ २

सु-परिद्विय-धिर-सीहासणहों
धूवन्त-धवल-छत्त-त्तयहों
भामण्डल-मण्डिय-पच्छलहों
तइलोक-लच्छि-लच्छिय-उरहों
मोहन्धासुर-विणिभिन्दणहों
संसार-महद्दुम-पाडणहों
इन्दिय-उद्दहण-णिवन्धणहों

'आवन्धुरं-चामर-वासणहों ॥ ३
किय-चउविह-कम्म-कुल-क्खयहों ॥ ४
पहरण-रहियहों 'जय-वच्छलहों ॥ ५
परिपालिय-अजरामर-पुरहों ॥ ६
उप्पत्ति-वेळि-परिच्छिन्दणहों ॥ ७
कन्दप्प-मडप्फर-साडणहों ॥ ८
णिदद्दु-दुकिय-कम्मेन्धणहों ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहों सुरवर-परमेसरहों
गिरि-कइलासें समोसरणें

किय वन्दण भरह-गरिन्दें ।
णं पढम-जिणिन्दहों इन्दें ॥ १०

[६]

जिणु वन्देवि वन्दितं परम-रिसि
जो दूसह-परिसह-भर-सहणु
जो तव-गुण-सञ्जम-णियम-धरु
जो तिहिं सल्लेहिं ण सल्लियउ
जो संसारोवहि-णिम्महणु
जो किडिकिडिजन्त-पुडिय-णयणु
जो उण्हालएँ अत्तावणिउं
जो वसइ मसाणेंहिं भीसणेंहिं
जो मेरु-गिरि व धीरत्तणेंण

जें दरिसिय-दसविह-धम्म-दिसि ॥ १
जो पञ्च-महव्वय-णिव्वहणु ॥ २
तिहिं गुत्तिहिं गुत्तउ खंन्ति-यरु ॥ ३
जो सयल-कसायहिं मेल्लियउ ॥ ४
जो रुक्ख-मूलेँ पाउस-सहणु ॥ ५
जो सिसिर-कालें वाहिरें-सयणु ॥ ६
जो चन्दायणिउ अतोरणिउ ॥ ७
वीरासणें-उकुँडुआसणेंहिं ॥ ८
जो जलहि व गम्भीरत्तणेंण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सो मुणिवरु चउ-गाण-धरु
“ काइँ विसल्लएँ तउ कियउ

पणवेप्पिणु भरहें वुच्चइ ।
जें माणुसु वाहिणें मुच्चइ ” ॥ १०

[७]

तं वयणु सुणेप्पिणु भणइ रिसि
“ सुणु पुव्व-विदेहेँ रिद्धि-पउरु

'णिय खयहों जेण अण्णाण-णिसि ॥ १
णामेण पुण्डरिङ्किणि-णयरु ॥ २

3 P marginally notes a variant आपडुर° 4 A जिय° 5 A °वेत्ति° 6 P S °मडप्फर°, A B °मडप्फ° 7 P S °उडुदहण°

6 1 SA वंदिय 2 P S खत्ति° 3 A °णिउ 4 P S °सणु, A B °सणे 5 A °उच्चुडु°.

7 1 P S सुणेविणु 2 P °विदेहे, S °विदेहि, A °विवेहि 3 P पुंडरिगिरि°, S पुडरिगिरि°

२ T मनोज्ञा ३ विशेषण आसन क्षेपन ४ जगत ५ (P' s reading) उडु = मन, T उद्दहणो मर्कट

[७] १ नीता

पउ० च० ११

तिहुअण-आणन्दु तित्थु णिवइ
तहो सुय णामेणाणङ्गसरं
सोहग्ग-रासि लायण्ण-णिहि
णं सुललिय सरय-मियङ्क-पह
५ णं मणहर चन्दण-रुक्ख-लय
णिरुवम-तणु अइसएण सहइ

भउह-चाव-लोयण-गुणेहिं
तं माणुसु घुम्भावियउ

१० तहिं अत्रसरें महियलें पसरिय-जसु
मणि-विमाणें धूवन्त-धयग्गए
णिवडिय दिट्ठि ताव तहो तेत्तहें
'मुद्धयन्द-मुह मुद्धड वाली
सहइ परिट्ठिय मन्दिरें मणहरें
१५ मालइ-माला-मउय-कैरालें
विणु चावें विणु विरइय-थाणें
विणु पहरणेंहिं तो वि जज्जरियउ

लोयण-सर-पहराहएण

२० पेक्खन्तहो सव्वहो जणहो

जं अहिणव-कोमल-कमल-करा
स-विमाणु पवण-मण-गमण-गउ
तं चक्काहिवइ-लद्ध-पसरा
२५ कोवग्गि-पलित्त-फुरिय-वयणा

4 P A °सरा 5 P S °वरा 6 A °धाणुहिय 7 A °गुणेण.

8. 1 P S A तहि 2 P पुणुव्वसु, S पुणुव्वसु 3 A जणेहि 4 P S °करायए. 5 A विड.
6 P °सराए, S °सरायए. 7 P S A B करवाल.

9. 1 P S A B देवहुं

२ उन्नतौ ऊर्ध्वभूर्ता ३ सानंद

[८] १ पौर्णमास्यामुदयकाले यो भासुरश्वन्द्रस्तन समानमुखः. २ अकुटिला, प्राजला
३ हस्तानि (?)

लीला-परमेसरु चक्कवइ ॥ ३
'उम्मिल-पओहर कण्ण वरं ॥ ४
णं 'सरहम छण-जण-भयण-दिहि ॥ ५
णं विव्वभम-कारिणि काम-कह ॥ ६
गव्वेसरि रूव्हो पारु गय ॥ ७
वम्मह-धारुणुक्किय-लील वइइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जसु दिट्ठि-सरासणि लावइ ।
दुक्करु णिय-जीविउ पावइ ॥ ९

[८]

विज्जाहरु णामें पुण्णव्वंसु ॥ १
तहिं आरुहेंवि आउ ओलगगए ॥ २
वसइ अणङ्गवाण सा जेत्तहें ॥ ३
अहिणव-रम्भ-गव्वम-सोमाली ॥ ४
लच्छि व कमल-वणहो अब्भन्तरे ॥ ५
णयणहि विट्ठु^१ अणङ्गसरालें ॥ ६
विणु गुणेहिं विणु सर-सन्धानें ॥ ७
ण गणइ किं पि पुणव्वसु जरियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

करवालुं भयङ्करु दावेंवि ।

णिय कण्ण विमाणें चडावेंवि ॥ ९

[९]

वल्लिमण्डए लेवि अणङ्गसरा ॥ १
देवहुं दाणवहु मि रणें अजउ ॥ २
विज्जाहर पहरण-गहिय-करा ॥ ३
दड्डाहर भू-भङ्गुर-णयणा ॥ ४

गज्जन्त पधाइय तक्खणेण
 “खल खुद्द पाव दक्खवहि मुहु
 तं णिसुणोवि कोवाणल-जल्लिउ
 तें पढम-भिडन्ते भग्गु वलु

णं स-जल जलय गयणङ्गणेण ॥ ५
 कहिँ कण्ण लएविणु जाइ तुहुँ” ॥ ६
 णं सीहु गइन्द-थइँ-वल्लिउ ॥ ७
 णावइ अवसइँ कव्व-दलु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कहँ वि परोप्परु सन्धवेवि स-धयग्गु स-हेइ स-वाहणु ।
 गिरिवरें जलहर-विन्दु जिह उत्थरिउ पडीवउ साहणु ॥ ९

[१०]

कड्हिय-धणुहर-मेळिय-सरोहिँ
 सव्वेहिँ णिप्पसरु गिरत्थु किउ
 णासद्धिउ जं अरिवर-णिवहु
 घत्तिय धरणियलें अणङ्गसरा
 सु पणहु पुणव्वसु गीढ-भउ
 अलहन्त वत्त कण्णेहें तणिय
 अन्तेउरु लक्खिउ विमण-मणु
 अत्थाणु वि सोह ण देइ किह

तिहुअणआणन्दहोँ किङ्करेहिँ ॥ १
 पाडिउ विमाणु परिच्छिण्णु धउ ॥ २
 तं विज्ज सरोप्पिणु पण्णलहु ॥ ३
 णं सरय-मियङ्कें जोणह वरा ॥ ४
 णं हरिणु सरासणि-तासु गउ ॥ ५
 किङ्कर वि पत्त पुरि अप्पणिय ॥ ६
 णं तुहिण-च्छित्तुँ सयवत्त-वणु ॥ ७
 जोव्वणु विणु काम-कहाएँ जिह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कहिउ णरिन्दहोँ किङ्करेहिँ “जलें थलें गयणयलें गविट्ठी ।
 सिद्धि जेम णाणेण विणु तिह अम्हैहिँ कण्ण ण दिट्ठी” ॥ ९

[११]

एत्थन्तरें छण-मियङ्क-मुहिय
 पण्णलहुअ-विज्जएँ धित्त तहिँ
 जहिँ दारिय-करि-कुम्भ-त्थलइँ
 दुप्पेक्ख-तिक्ख-णक्खङ्कियइँ

तिहुअणआणन्द-राय-दुहिय ॥ १
 सुण्णासणु भीसणु रण्णु जहिँ ॥ २
 उच्छलिय-धवल-मुत्ताहलइँ ॥ ३
 दीसन्ति सीह-परिसक्कियइँ ॥ ४

2 P काहे वि, S कहि वि

10. 1 S कण्णहो, A कण्णहिँ 2 P S किंकरे. 3 P S विमणु°. 4 S च्छिण्णु. 5 P अम्हहं.

[९] १ सामग्री

[१०] १ चक्रवर्ते २ व्रसित ३ तुसारेण कमल .

[११] १ ऊर्ध्वसंस्थानं-स्वरूपविशेषणमिदं यथा शुक्रं शंखं पश्येति ।

जहिँ दन्ति-दन्त-मुमलाहयैँ
जहिँ विसम-तलडँ महियलँ भयैँ
गुव्वन्ति जेतथु कड-वुक्कियैँ
वणवसह-जूह-गुह-ढेक्कियैँ

दीमन्ति भग्ग पायव-सयैँ ॥ ५
वणमहिस-मिद्ध-जुवत्तुक्कियैँ ॥ ६
एकल-कोल-आक्कियैँ ॥ ७
वायस-रठियैँ सिव-फेक्कियैँ ॥ ८

॥ वना ॥

तहिँ तेहणँ वणें कामसर
वळ्ळ-वँलय-विठभम-गुणेंहिँ

जल-वाहिणि विउल विहावट् ।
मरि पोढ-विलासिणि गावट् ॥ ९

[१२]

तहिँ जँलवाहिणि-तँडँ वडसरेवि
१ “ हा ताय ताय मडँ मँन्थवहि
हा भाइ भाइ मम्भीस करँ
हा विहि हा काँ कियन्त किउ
हा काँ कियैँ मडँ दुक्कियैँ
एवँहिँ आइउ एँत्तँहँ मरणु
१५ जँ भव-मँसारहँ उत्तरमि
सा एम भणँवि सण्णासँ थिय

धाहाविउ कुलहरु सम्भरँवि ॥ १
हा माणँ माणँ सिरँ करु थवहि ॥ २
गय वग्घ सिद्ध हुक्कन्त धरँ ॥ ३
एउ वसणु काँ महु दक्कविउ ॥ ४
जँ णिहि दाँवेवि गयणँ हियैँ ॥ ५
तो वरि मुइयँहँ जिगवरु सरणु ॥ ६
अजरामर-पुरवरु पड्मरमि” ॥ ७
हत्थ-सयँहँ उवरि णिवित्ति किय ॥ ८

॥ वत्ता ॥

वरिसहुँ सट्ठि सहास थियँ
णव-मयल-ञ्जण-लेह जिह

तव-चरणें परिट्ठिय जावँहिँ ।
सउदासे दीसइ तावँहिँ ॥ ९

20

छुडु छुडु तहिँ पवर-भुअङ्गमँण
वोल्लिज्जइ तो विज्जाहरँण
परमेसरि पभणइ सब्व-सँह
अक्खेँज्जहिँ तायहँ एहँ विहि
२६ तव-चरणु णिरोसहु उज्जविउँ

[१३]

देहन्हु गिलिउ उर-जङ्गमँण ॥ १
“किं हम्मउ अजगरु असिवरँण” ॥ २
“किं तवँसिहिँ जुत्ती पाण-वह ॥ ३
तुहँ दुहियँ रक्खिय सील-णिहि ॥ ४
अजयरहँ सरीरु समल्लविउ” ॥ ५

11. 1 P °वाइ, S °याइ. 2 S °याइ, B °लक्कियइ. 3 P Aडेक्कियइ, S डेक्कियाइ. 4 S °वयण.°

12 1 P अक्कहि 2 P एत्तडउ, S. wanting 3 P सडँ, S सह.

13. 1 P S वोल्लिज्जइ, A वोल्लिजाइ. 2 P S A B °सहा 3 S तवसहु 1 S अक्खेँज्जहिँ, A अक्कियज्जहिँ 5 P S एम. 6 P A तुहु. 7 P S °मिउ

२ धर्यं गतानि.

[१२] १ नदी २ आखामय, सजोधय. ३ विद्याधरेण.

[१३] १ मोहइ. २ T अजगरस्य स्वगरीर ममर्षित

सउदासैं जं तहिं लक्खियउ
तिहुअणआणन्डु पधाइयउ
सयणहुँ उप्पाइउ दाहु पर
णिय जेण सो वि तउ करेवि मुउ

तं सयलु णरिन्दहोँ अक्खियउ ॥ ६
कलुणइ (?) कन्दन्तु पराइयउ ॥ ७
जिणु जय भणन्ति मुअऽणङ्गसर ॥ ८
दसरहहोँ पुत्तु 'सोमिच्छि हुउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एह वि मरेवि अणङ्गसर ^१उप्पण विसल्ला-सुन्दरि ।
'वल तहेँ तणेण जलेण पर स इँ भु व धुणन्तु उट्टुइँ हरि' ॥ १०

*

[६९. एकृणसत्तरीमो संधि]

[१]

विज्जाहर-वयण-रसायणेण
'णहेँ पडिवा-यन्देँ दिट्ठेण
सरहसेण परज्जिय-आहवेण
'किं कहेँ वि अत्थि मणु सइय-अङ्गे
जो जणइ मणोरह महु मणासु
तं वयणु सुणेवि मरु-णन्दणेण
'महु अत्थि देव मणु सइय-अङ्गे
हउँ जणमि मणोरह तुह मणासु
'तारा-तणण वि बुत्तु एव
भामण्डलु पभणइ 'सुणु सुसामि

आसासिउ वलहहु किह ।
कहि मि ण माइउ उवहि जिह ॥
सामन्त पैजोइय राहवेण ॥ १
जो एइ अणुट्ठन्तएँ पयङ्गे ॥ २
जो जीविउ देइ जणहणासु' ॥ ३
बुच्चइ रावण-वण-महणेण ॥ ४
हउँ ऐमि अणुट्ठन्तएँ पयङ्गे ॥ ५
हउँ जीविउ देमि जणहणासु' ॥ ६
'हउँ हणुवहोँ होमि सहाउ देव' ॥ ७
हउँ विहिँ उत्तर-सक्खिणउ जामि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ते जणय-पवण-सुगीव-सुय रामहोँ चलणेहिँ पडिय किह ।
कल्लाण-कालेँ तित्थङ्करहोँ तिण्णि वि तिहुवण-इन्द जिह ॥ ९

8 S तहि मिलहि वि सुरत्तु विसल्लासुंदरि हुय 9 P S A B उट्टेइ.

1. 1 P S °वाणरसाहणे 2 P S A णहि 3 P S पवडिय° 4 P मणु corrected as सुण 5 P S सइवि 6 S पट्टंतए 7 P S चलणिहि, A वलणिहिं.

३ मयणसर ४ लक्ष्मण ५ T राम

[१] १ चद्रेण. २ जितसप्राभेण ३ T दृष्ट ४ सूर्योदये ५ सूर्योदयेण विना आगच्छामि ६ अगदेन

[२]

आरूढ विमाणेहिँ सुन्दरेहिँ
 चुस्वणेहिँ व णाणाविह-सरेहिँ
 कामिणि-मुहेहिँ व वण्णुज्जलेहिँ
 5 महकइ-कव्वेहिँ व सुघडिएहिँ
 थेरासणेहिँ व अलि-मुहलिएहिँ
 णव-जोव्वणेहिँ व णह-गोयरेहिँ
 वयणेहिँ व हँणुव-पसङ्गएहिँ
 थिय तेहिँ विमाणेहिँ मणिमएहिँ

अमरेहि व सव्व-सुहङ्गरेहिँ ॥ १
 सिव-पर्यहिँ व मुत्तावलि-धरेहिँ ॥ २
 छिञ्छइ-चित्तेहिँ व चच्चलेहिँ ॥ ३
 सुपुरिस-वरिएहिँ व पयडिएहिँ ॥ ४
 सइ-चारित्तेहिँ व अखलिएहिँ ॥ ५
 जिण-सिरेहिँ व भामण्डल-धरेहिँ ॥ ६
 पाहुणेहिँ व गमण-सणँङ्गएहिँ ॥ ७
 णं वर-फुल्लन्धुय पङ्कएहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

10 मण-गमणेहिँ गयणे पर्यट्टएहिँ
 महि-मडयहोँ णहयल-रक्खसेण

लक्खिउ लवण-समुहु किह ।
 फाडिउ जठर-पएसु जिह ॥ ९

[३]

दीसइ रयणायरु रयण-वाहु
 15 अत्थाहु सुँहि व हत्थि व कैरालु
 सूहव-पुरिसो व्व सलोण-सीलु
 जिण-सुव-चक्कवइ व किय-वसेलु
 तवसि व परिपालिय-समय-सारु
 णिद्धण-आलावु व अप्पमाणु
 20 मह-कव्व-णिवन्धु व सइ-गहिरु
 तं जलणिहि उल्लङ्घन्तएहिँ
 णीसीहवडइँ लंभिय-हलाइँ

विञ्जु व रा-वारि छन्दु व सँ-गाहु ॥ १
 भण्डारिउ व्व बहु-रयण-पालु ॥ २
 सुग्गीवु व पयडिय-इन्दणीलु ॥ ३
 मज्झँणु व उप्परेँ चडिय-वेलु ॥ ४
 दुज्जण-पुरिसो व्व सहाव-खारु ॥ ५
 जोइसु व मीण-कक्कडय-थाणु ॥ ६
 चामीयर-चसय व पीय-मइरु ॥ ७
 वोहित्थइँ दिट्ठइँ जन्तएहिँ ॥ ८
 महरिसि-चित्ताइँ व अविचलाइँ ॥ ९

2. 1 A अवरेहि. 2 only in T P S A मि 3 P S A °पयहि. 4 wanting in P S 5 P °मणंगमेहि, S °मणंगमेहि 6 P S A गयणि. 7 P पयट्टेहि, S पयट्टिवि, A पयट्टइहि.

3. 1 P S °इँदलीलु. 2 P S मज्झाणु. 3 A °णिवण्णु. 4 P S वसइ य, A वसइ व. 5 P S A °मयर, only T मइरु. 6 A भ.

[२] १ देवसदसै २ मोक्षपदमिव । सिद्धपरंपरा मुत्तावलीव ३ पुंश्रली (T 's reading) थिय-चित्तहि व्व = स्त्रीचित्त इव ४ व्रह्मणः कमलैरिव ५ नरौर्विदारितैराकाशगामिभिश्च. ६ T जिनश्री इव भामंडलेन सह यथा ७ पक्षे चिवुक्स्थान = थोदी (Hindi ठोड़ी) ८ भ्रमरा.

[३] १ हस्तिबंधन-गर्ता-युक्त, सजलक्ष २ T गाथतो नाम छंदो जलचराश्च ३ स्वजन-दृश्य इव. ४ दस्तो वोहित्थ-विशेषश्च (?). ५ उभयत्र भ्रिगं लाति गृह्णाति शी(श्री)ल ६ T मध्यात्तमिव. ७ सुवर्ण-चषकवत् । चषको मद्य-भाजनं ८ T पीता मदिरा मयं यस्मिन् चषके (i e. चषके), अन्यत्र पीताः स्त्रीकृता मदिरा येन । पूर्व-मथन-काले निर्गता सा ९ सेवड-रहितानि (?) १० नागरितानि

॥ घत्ता ॥

अणु वि थोवन्तरु जन्तएँहैं
जो लवलि-वलहों चन्दण-सरहों

तिहि मि णिहालिउ गिरि मलउ ।
दाहिण-पवणहों थामलउ ॥ १०

[४]

जहिं जुवई-पऊरु-परज्जियाई
कामिणि-गई-छाया-भंसियाई
कर-करयल-ओहामिय-मणाई
जहिं वयण-णयण-पह-घल्लियाई
जहिं महु-वाणि अवहस्थियाई
भउहावलि-छाया-वड्ढियाई
जहिं चिहुर-भार-ओहामियाई
तं मलउ मुएँवि विहरन्ति जाव

रत्तुप्पल-कयलि-वणई थियाई ॥ १ 5
जहि हंस-उलई आवासियाई ॥ २
जहिं मालइ कङ्कली-वणाई ॥ ३
कमलिन्दीवरई समल्लियाई ॥ ४
कोइल-कुलाई कसणई थियाई ॥ ५
जहिं णिम्व-दलई कंडुयई कियाई ॥ ६ 10
वरहिण-कुलाई रोवावियाई ॥ ७
दाहिण-महुरएँ आसण ताव ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किक्किन्ध-महागिरि लक्खियउ
छुडु 10 रमियहें पुहइ-विलासिणिहें

तुङ्ग-सिहरु कोड्ढावणउ ।
उर-पएसु सोहावणउ ॥ ९ 15

[५]

जहिं इन्दणील-कर-भिज्जमाणु
जहिं पउमराय-कर-तेय-पिण्डु
जहिं मरगय-खाणि वि विप्फुरन्ति
तं मेल्लेवि रहसुच्छलिय-गत्त
जा लइय विहँज्जेवि णरवरोहिं
सामिय-आणा इव किङ्करेहिं
सिव-सासय-मोत्ति व हेउएहिं
पुणु दिट्ठ महाणइ तुङ्गभइ

ससि थाइ जुण्ण-दप्पण-समाणु ॥ १
रत्तुप्पल-सण्णिहु होइ चण्डु ॥ २
ससि-विम्बु भिसिणि-पत्तु व करन्ति ॥ ३
णिविसद्धेँ सरि कावेरि पत्त ॥ ४ 20
महकव्व-कहा इव कइवरोहिं ॥ ५
तित्थङ्कर-वाणि व गणहरोहिं ॥ ६
वर-सहुप्पत्ति व धाउँएहिं ॥ ७
करि-मयर-मच्छ-ओहँर-रउह ॥ ८

4. 1 P जुवई°, 2 P S °पउरु°, A °एऊरु° 3 A °गय°. 4 P S °वलइ 5 P S A जहि 6 P S कमणइ, wanting in A 7 P S A °दलइ 8 P. कङ्कअइ, S कङ्कयइ, A कंडुयई 9 P कोडावणउ, A कोड्ढावणउ. 10 P रमिअहे, S रमियहि, A रमिअहिं 11 P ण सव्वणउ, S णं सव्वणउ, A सोहावणउ.

5. 1 P S °कोवेरी 2 P S A विहजिवि 3 P S वाउएहिं (S °हि) 4 P S °कच्छय°, A °उहर°.

[४] १ T पाटोरुभ्या क्रमेण निर्जितानि २ गतिगोभया ३ T उच्छन्न कर्नाटदेशे व्यवहारोऽय(य)

[५] १ (P' s reading) हेतुवादुभि

॥ घत्ता ॥

असहन्ते वणदंव-पवण-झडं
णं सज्जे सुट्ठु तिसाइएण

दूसह-किरण-दिवायरहो ।
जीह पसारिय सायरहो ॥ ९

[६]

5 पुणु दिट्ठु पवाहिणि किण्हवण
पुणु इन्दणील-कण्ठिय-धरेण
पुणु सरि भीमरहि जलोह-फार
पुणु गोला-णइ मन्थर-पवाह
पुणु वेणिण-पण्हिहउ वाहिणीउ
10 पुणु तावि महाणइ सुप्पवाह
थोवन्तराले पुणु विञ्जु थाइ
पुणु रेवा-णइ हणुवङ्गएहिं
'किं विञ्जुहो पासिउ उवहि चारु
तं णिसुणेवि सीय-सहोयरेण

किविणरथ-पउत्ति व महि-णिसण्ण ॥ १
दक्खविय समुद्धो आयरेण ॥ २
जा सेउण-देसहो अमिय-धार ॥ ३
सज्जेण पसारिय णाई वाह ॥ ४
णं कुडिल-सहावउ कामिणीउ ॥ ५
सज्जण-मेत्ति व्व अलद्ध-थाह ॥ ६
सीमन्तउ पिहिमिहो तणउ णाइ ॥ ७
सा णिन्दिय रोस-वसङ्गएहिं ॥ ८
जो स-विसु 'किविणु अच्चन्त-खारु ॥ ९
णिव्वभच्छिय णहयल-गोयरेण ॥ १०

15

॥ घत्ता ॥

जं विञ्जु मुएवि गय सायरहो
णिलोणु मुअइ सलोणु सरइ

मा रूसहो रेवा-णइहो ।
णिय-सहाउ एउ तियमइहो ॥ ११

[७]

सा णम्मय दूरन्तरेण चत्त
20 जहिं जणवउ स-धणु महा-घणो व्व
गुणवन्तउ धणुहर-सङ्गहो व्व
स वि दुम्महिल व उज्जेणिं मुक्क
जो धण्णालङ्किउ णरवइ व्व
तं मेल्लेवि जउणा-णइ पवण्ण

पुणु उज्जर्यणि णिविसेण पत्त ॥ १
रामोवरि वच्छलु लक्खणो व्व ॥ २
अमुणिय-कर-सिर-तणु वम्महो व्व ॥ ३
पुणु पारियत्तु मालवउ दुक्क ॥ ४
उच्छुहणु कुंसुमसरु रइवइ व्व ॥ ५
जा अलय-जलय-नावलालि-वण्ण ॥ ६

5 A °हल. 6 A संजे 7 P S तिसाणुण

6. 1 P S कण्हवण्ण 2 A °वरेण. 3 P S भीमरइ. 4 P S A सज्जेण 5 P S पण्हिहउ, A यउण्हि 6 P S रूसहि.

7. 1 P S दूरवरेण, A दूरन्तरिण 2 P S उज्जर्यणे, A उज्जोयणे 3 P S महाघणो 4 P S धणुवरं. 5 P S सा विडमहिल 6 A उज्जोणि. 7 P S पारियत्त, A परियत्त. 8 P मालवु, A मालव 9 S दुक्कु 10 A रइवहु.

२ द्वात्रि

[६] १ पर्वतेन २ सीमात ३ T समुद्रो स विपोत्पत्तिस्थान प्रसिद्धमिद ४ T अध प्रस्थापितसर्वस्व

[७] १ कृत्वा २ पुण्याधिक-जनश्च सस्यालकृत्नश्च ३ इक्षुवन द्वे (?) इक्षुरेव व (?) न द्रव्य च ४ पुष्पमाला ५ काम ६ प्राप्ता.

जा कसिण भुअङ्गि व विसहो भरिय कज्जल-रेह व णं धरएँ धरिय ॥ ७
थोवन्तरेँ जल-णिम्मल-तरङ्ग ससि-सङ्ग-समप्पह दिट्ठ गङ्ग ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अम्हहँ विहिं गरुवउ कवणु जएँ जुञ्जेँवि आएँ मच्छरेँण ।
हिमवन्तहोँ णं अवहरेंवि णिय धय-वडाय रयणायरेंण ॥ ९

8

[८]

थोवन्तरेँ तिहि मि अउज्ज दिट्ठ पुणुँ सिद्धिपुँगिहिँ सिद्धि व पइट्ठ ॥ १
जहिँ मिहुणइँ आरम्भिय-रयाँइँ पन्थिय इव उच्चाइय-पयाँइँ ॥ २
पाहुण इव अवरुण्डण-मणाँइँ गिरिवर-गत्ता इव सव्वणाँइँ ॥ ३
अविचल-रज्जा इव सु-कर्णाँइँ रिसिउल इव भाव-परायणाँइँ ॥ ४
धणुहर इव गुण-मेळिय-सराँइँ अहरत्ता इव पहराउराँइँ ॥ ५
पुणु णरवइ मंदिरेँ गय तुरन्त मुणि-सुव्वय-जिण-मङ्गलइँ गंन्त ॥ ६
सग्गावयारेँ जम्माभिसेएँ णिकखवणेँ णाणेँ णिँव्वाणच्छएँ ॥ ७
तित्थयर-परम-देवाहँ जाइँ पच्च वि कल्लाणइँ होन्ति ताँइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

10

18

‘महि मन्दरु सायरु जाव णहु
तउ होन्तुँ ताव जिण-केराँइँ

जाव दिसउ महणइ-जलइँ ।
पुण्ण-पवित्तइँ मङ्गलइँ’ ॥ ९

[९]

तेँ¹ मङ्गल-सहें पहु विउज्जु णं छण-मयलज्जणु अज्ज-अज्जु ॥ १
णं उअय-महीहरेँ तरुण-मित्तु णं माणस-सरु रवि-किरण-छित्तु ॥ २
णं वाल-लीलु केसरि-किसोरु लक्खियँइँ विमाणइँ खञ्चियाँइँ ॥ ४
उट्टन्तेँ बहु-मणि-गर्ण-चियाँइँ सज्जण-वयणाँइँ व पहसियाँइँ ॥ ५
णं णहयल-कर्मलइँ विहसियाँइँ सु-कलत्तइँ णाँइँ समल्लियाँइँ ॥ ६
णिक्कारणेँ जाँइँ पप्फुल्लियाँइँ सव्वाहरणालङ्किय-सरीर ॥ ७
णिदिट्ठ विमाणेँहिँ तेहिँ^२ वीर किं मायापुरिस पढुक्क एत्थु ॥ ८
परिपुच्छिय ‘तुम्हेँ पयइ केत्थु

28

25

11 P धरणिण

8. 1 s ण. 2 wanting in A 3 s A जहि 4 s A °रयाइ 5 s A सुररणाइ 6 s दँत.
7 s सग्गभयारे जम्माहिसेव, A °जम्माहिसए 8 s णिँव्वाणि एव. 9 s होति, A होतु.

9. 1 s तं, A ते. 2 A सुट्ट सुट्ट. 3 A °गय° 4 s A लक्खियइ 5 s A कमलइ. 6 s A °याइ. 7 s समुल्लियाइ. 8 s सव्व

पउ० च० १२

॥ घत्ता ॥

हेमन्त-गिम्ह-पाउस-समय
किं तिणिण वि हरि-हर-चउवयण

किं अवयवैहिं अलङ्करिय ।
आएं वेसें अवयरिय' ॥ ९

[१०]

८ वयणेण तेण भरहहों तणेण
'हउं भामण्डलु हणुवन्तु एहु
तिणिण वि आइय कज्जेण जेण
सीयहें कारणें रोसिय-मणाहें
लक्खणु सत्तिं विणिभिण्णु तेत्थुं
१० तं वयणु सुणेंवि परिपालिएलु
णं चवण-कालें सग्गहों सुरिन्दु
दुक्खाउरु धाहावणहिं लग्गु

वोल्लिज्जइ जणयहों णन्दणेण ॥ १
उहु अङ्गउ रहसुच्छलिय-देहु ॥ २
सुणु अक्खमि किं बहु-वित्थरेण ॥ ३
रणु चट्टइ राहव-रावणाहें ॥ ४
दुक्करु जीवइ तें आय एत्थु' ॥ ५
णं कुलिस-समाहउ पडिउ सेलु ॥ ६
उम्मुच्छिउ कह वि कह वि णरिन्दु ॥ ७
पुण्ण-क्खएँ हरि व मुअन्तु सग्गु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'हा पँइँ सोमिन्ति मरन्तएँण
११ भत्तार-विह्णिय णारि जिह

मरइ णिरुत्तउ दासरहि ।
अज्जु अणाहीह्वय महि ॥ ९

[११]

हा भायर एक्कसि देहि वाय
हा भायर महु सिरें पडिउ गयणु
हा भायर वरहिणं-महुर-वाणि
२० हा किं समुद्धें जल-णिवहु खुट्टु
हा किह सुरवइ लच्छिं विमुक्कु
हा किह दिणयरु कर-णियर-चत्तु
हा चञ्चलिह्वअउ केम मेरु

हा पँइँ विणु जय-सिरि विहव जाय ॥ १
हा हियउ फुट्टु दक्खवहि वयणु ॥ २
महु णिवडिओऽसि दाहिणउ पाणि ॥ ३
हा किह दिट्ठु कुम्म-कडाहु फुट्टु ॥ ४
हा किह जमरायहों मरणु दुक्कु ॥ ५
हा किह अणज्जु दोहग्गु पत्तु ॥ ६
हा केम जाउ णिद्धणु कुवेरु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

२५ हा णिव्विसु किह धरणिन्दु थिउ
टलटलिह्वई केम महि

णिप्पहु ससि सिहि सीयलउ ।
केम समीरणु णिच्चलउ ॥ ८

10. 1 s A तित्थु. 2 s °वणह. 3 s A पइ.

11. 1 s महुर°.

[१२]

लब्भइ रयणायें रयण-खाणि
लब्भइ चन्दणु गिरि^१-मलय-सिङ्गें
लब्भइ धणु धणएँ धरा-पवणुणु
लब्भइ पेसणें सामिय-पसाउ
लब्भइ सज्जणें गुण-दाण-कित्ति
लब्भइ वसियरणें कलत्त-रयणु
लब्भइ उवयार-मईएँ सु-मित्तु
लब्भइ पर-तीरें^५ महग्घु भण्डु

लब्भइ कोइल-कुलें महुर-वाणि ॥ १
लब्भइ सुहवत्तणु जुवइ-अङ्गें ॥ २
लब्भइ कञ्चण-पावएँ सुवणुणु ॥ ३
लब्भइ किएँ विणएँ जणाणुराउ ॥ ४ ५
सिय असिवरें गुरु-कुलें परम तित्ति ॥ ५
महकव्व सुहासिउ सुकइ-वयणु ॥ ६
मद्दवेहिँ विलासिणि-चारु-चित्तु ॥ ७
वर-वेळुँ-मूलें वेडुज्ज-खण्डु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

10

गएँ मोत्तिउं सिद्धल-दीवें मणि
आयइँ सब्बइँ लब्भन्ति जएँ

वइरारगरहों वज्जु पउरु ।
णवर ण लब्भइ भाइ-वरुँ ॥ ९

[१३]

रोवन्तेँ दसरह-णन्दणेण
दुक्खाउरु रोवइ सयलु लोउ
रोवइ भिच्चयणु समुद्द-हत्थु
रोवइ अन्तेउरु सोय-पुणुणु
रोवइ अवराइव राम-जणणि
रोवइ सुप्पह विच्छाय जाय
'हा पुत्त पुत्त केत्तहि गओऽसि
हा पुत्त मरन्तु ण जोइओऽसि

धाहाविउ सब्बें परियणेण ॥ १
णं चप्पेँवि चप्पेँवि भरिउ सोउ ॥ २ 15
णं कमल-सण्डु हिम-पवण-घत्थु ॥ ३
णं छिज्जमाणु सद्द-उलु वुणुणु ॥ ४
केकय दाइय-तरु-मूल-खणणि ॥ ५
रोवइ सुमित्त सोमित्ति-माय ॥ ६
किह सत्तिएँ वच्छ-त्थलें हओऽसि ॥ ७ 20
दइवेण केण विच्छोइओऽसि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

रोवन्तिएँ लक्खण-मायरिँ
कारुणएँ कव्व-कहाएँ जिह

सयलु लोउ रोवावियउ ।
को वँ ण अंसु मुआवियउ ॥ ९

[१४]

25

परिहरेंवि सोउ भरहेसरेण

करवालु लइउ दाहिण-करेण ॥ १

12. 1 S सिरि°. 2 A कित्ति. 3 S °मइहि. 4 S महवेहि, A मद्दवाह. 5 S °तीरि, A °ती.
6 S °वेणु°. 7 S वेळुज्ज°, A वेडु°. 8 A मोत्तिउ. 9 A वइरारगरहि

13. 1 S रोवत्ते, A रोवत्तहें. 2 S A चप्पिवि. 3 A वि. Before the figure 13
ending the last Kadavaka's adds marginally the following passage

रण-भेरि समाहय दिण्ण सङ्ग
रह जोत्तिय किय करि सारि-सज्ज
सरहसु सण्णज्जइ भरहु जाव
'पइँ गएण वि सिज्जइ णाहिँ कज्ज
जइ दिण्णु विसल्लहेँ तणोउ णवणु
तं वयणु सुणेपिणु भणइ राउ
पट्टविय महल्ला गय तुरन्त

विण्णविउ णवेपिणु दोणघणु
१४ णीसरउ सत्ति वच्छत्थल्लेँहोँ

एत्तडिय वोळ पडिवण्ण जाव
पणवेपिणु भायरु वुत्तु तीएँ
जीवउ लक्खणु हम्मउ दसासु
१५ आणन्दु पवट्टउ जाणईहेँ
अण्णु वि विसल्ल तहोँ पुव्व-दिण्ण
तं वयणु सुणेवि परित्तुहु दोणु
पट्टविय विसल्ल-खणन्तरेण
गय जयकारंप्पिणु दोणुमेहु

२०

हणुवङ्गय-भामण्डल-भरहु
णं मङ्गल-पदेसेँ पइँट्टियएँ

पुणु सोमित्तिय संवरिवि सोउ
पुणु भणिय हलाउउ-जणणि तेण
सुत्तु माइग (?) तुय लक्खणु सुधण्णु
जिणि पाण समप्पिय पट्टहिँ कज्जि
वल सहु भासिज्जहिँ हणुव पव
अणुचर-वट्टत्तणु हवठ पट्टु
तुहु जुज्जहिँ अरि घण-पल्लयवाहु
रहु-जणणि भणइ सुव काइँ किण्णु
किँ उचरिउ वण्णउ रहु-समाणु
वत्तु (?) वंज्जतनू जरि तण अहंग
णउ पुत्तु कुपुत्तुउ वणु (?) कोक्खि

14. 1 A तणउ 2 A अरुयुवि. 3 S A सइ 4 S °यलहो

15. 1 A °तिण्ण. 2 S A टोणु° 3 °वगगय°. 4 S देसे, A पदेसि

साहणु सण्णज्जु अलज्ज सङ्ग ॥ २
पक्खरिय तुरङ्गम जय-जसज्ज ॥ ३
भामण्डलेण विण्णत्तु तावँ ॥ ४
तं करि हरि जीवइ जेण अज्जु ॥ ५
तो अक्खहिँ पेसणु ण किउ कवणु' ॥ ६
'किं सल्लिलेँ सँइ जेँ विसल्ल जाउ' ॥ ७
कउतिकमङ्गलु णिविसेण पत्त ॥ ८

॥ वत्ता ॥

'जीविउ देव देहि हरिहेँ ।
जलेँण विसल्लासुन्दरिहेँ' ॥ ९

[१५]

केक्कइ सम्पाविय तहिँ जि ताव ॥ १
'करेँ गमणु विसल्ला-सुन्दरिएँ ॥ २
पूरन्तु मणोरह राहवासु ॥ ३
तणु तारउ दुक्ख-महाणईहेँ ॥ ४
लगउ करयलेँ सबभाव-भिण्ण' ॥ ५
'उट्टउ णारायणु अखय-तोणु' ॥ ६
सहुँ कण्ण-सहासेँ उत्तरेण ॥ ७
केक्कइय पराइय णियय-गेहु ॥ ८

॥ वत्ता ॥

दिट्टु विसल्ला-सुन्दरिएँ ।
चउ मयरहर वसुन्धरिएँ ॥ ९

रोवतु णिवारिवि सयलु लोउ ॥
वीरवहिँ अप्पु सामिणि मणेण ॥
जा सम महियलि अवर ण उवण्णु ॥
अरि उवरि परक्कमु अतुलु स जि ॥
ट्टु चि (?) भण धरिज्जइ देवदेव ॥
पट्टु-कज्जि समप्पइ णियय-ट्टेहु ॥
जिम होइ सत्तु जिणि सीयलाहु ॥
तिय-कारणि लक्खणु गत्ति-भिन्नु ॥
किउ वंधव-सरणु असहताण ॥
जोवण मरट्ट रुवेँ सडग ॥
अप्पउ पोसवइ कुलवड्ढि सोक्खि ॥

[१६]

स वि गयणकडक्खिय दुज्जएहिँ
 तें^१ पुलइय गव-णीलुप्पलच्छि
 पुणु पोमाइउ लक्खणु कुमारु
 जइ जीविउ केव वि कह वि पत्तु
 भामण्डलेण कोक्कावियाउं
 तिण्णि वि संचल्ल णहङ्गणेण
 जिह जिह कण्णउ दुक्कन्ति ताउ
 रामेण वुत्त 'जम्बव विहाणु

सिय गावइ चउहु मि दिस-गएहिँ ॥ १
 ववसाउ करन्तहों कहों ण लच्छि ॥ २
 'संसारहों लइ एत्तउउ सारु ॥ ३
 तो धण्णउ जसु एहउ कलत्तु' ॥ ४
 लहु णियय-विमाणें चडावियाउ ॥ ५
 गय लङ्क पराइय तक्खणेण ॥ ६
 तिह तिह विमलीहूयउ दिसाउ ॥ ७
 लइ अप्पउ दहमि हारें समाणु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

धीरिउ राहवु रिच्छद्धएण
 किं कहमि भडारा दासरहि

'जणिय विसल्लए विमल दिसि ।
 तिहिँ^५ पहरेंहिँ सम्भवइ णिसि ॥ ९

[१७]

ण विहाणु ण भाणु मणोहरीहें
 वल-जम्बव वे वि चवन्ति जाव
 पुण्णालि गाइँ पर-णरवराँउ
 णं सह-माल वर कडवराँउ
 एत्थन्तरें अम्बरें धगधगन्ति
 णं वेस वियडुँ णरवरेण
 पचविय वेवन्ति अमोह-सत्ति
 णउ दुडु-सवत्तिहें समुहु थामि

उहु तेउ विसल्ला-सुन्दरीहें' ॥ १
 णीसरिय सरीरहों सत्ति ताव ॥ २
 णं णम्मय विञ्ज-महीहराउँ ॥ ३
 णं दिव्व वाणि तित्थङ्कराउ ॥ ४
 पवणञ्जय-तणएं धरिय जन्ति ॥ ५
 णं पवर महाणइ सायरेण ॥ ६
 'मं^५ धरें मं धरें मुएँ मुएँ दवत्ति ॥ ७
 एँह अच्छउ हँउँ णिय-णिलउ जामि ॥ ८ २१

॥ घत्ता ॥

असहँन्तिहें हियय-विणिग्गयहें कवणु एत्थु अब्भुद्धरणु ।

सव्वहें भत्तारें धत्तियहें कुल-वहुअहें कुलहरु सरणु ॥ ९

16. 1 S ते, A ति. 2 S A °याउ. 3 A ज्जाउ. 4 A धारिउ. 5 S A तिहि.

17. 1 S °हरिहि, A °हरीहि. 2 S A °सुंदरीहि. 3 S A णाइ. 4 S °रहो. 5 S मा धरे मा धरि, A धरि मं धरि 6 S असहत्तिहि, A असहँत्तिह. 7 S घल्लियहि.

[१८]

- किं ण मुणिय पेइँ महु तणिय थत्ति हउँ सा णामेणामोह-सत्ति ॥ १
 कइलासुद्धरणे भयावणासु धरणिन्दे दिण्णी रावणासु ॥ २
 सङ्गाम-काले लक्खणहो मुक्क हरि-आणएँ विज्जु व गिरिहेँ दुक्क ॥ ३
 ६ असहन्ति विसल्लहेँ तणउ तेउ णासमि लग्गी किं करहि खेउ ॥ ४
 आयएँ अवलम्बेवि परम-धीरु अण्णाहिँ जम्मन्तरेँ घोर-वीरु ॥ ५
 तव-चरणु णिरोसहु चिण्णु तावँ गय वरिसहुँ सट्ठि सहास जावँ ॥ ६
 हणुएण वुत्तु 'जइ सच्चु देहि तो मुँयमि पडीवी जइ ण एहि' ॥ ७
 विज्जेँ पभणिउ 'लइ दिण्णु दिण्णु णउ भिण्णमि जिह एँवहिँ विभिण्णु' ॥ ८
 ११ तं णिसुणेँवि पवण-सुएण मुक्क विहडप्फड गय णिय-णिलउ दुक्क ॥ ९
 एत्तेँ वि ताव सरहस पइइ स-वलेण वलेण विसल्ल दिइ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सिउ सन्ति करन्ति हरन्ति दुहु सीयहेँ रामहोँ लक्खणहोँ ।
 अत्थक्कएँ दुक्क भवित्ति जिह लङ्कहेँ रज्जहोँ रावणहोँ ॥ ११

[१९]

- सव्वङ्गिउ हरि परमेसरीएँ परिमट्ठु विसल्ला-सुन्दरीएँ ॥ १
 समलङ्घु सुअन्धेँ चन्दणेण रामहोँ वि समप्पिउं तक्खणेण ॥ २
 तेण वि पट्ठविउ कइद्धयाहँ जम्बव-सुग्गीवङ्गङ्गयाहँ ॥ ३
 भामण्डल-हणुव-विराहियाहँ णल-णीलहँ हरिस-पसाहियाहँ ॥ ४
 २६ गय-गवय-गवक्खाणुद्धराहँ कुन्देन्दु-मइन्द-वसुन्धराहँ ॥ ५
 अवरह मि चिन्ध-उवलक्खियाहँ सामन्तहँ रावण-पक्खियाहँ ॥ ६
 केसरिणियम्भ-सुय-सारणाहँ रविकण्णेन्दइ-घणवाहणाहँ ॥ ७
 जमघण्ट-जमाण [ण]-जममुहाहँ धूमक्ख-दुराणण-दुम्मुहाहँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

- २६ अवरह मि असेसहुँ णरवइहुँ दिण्णु विहञ्जेँवि गन्ध-जलु ।
 अत्थक्कएँ जाउ पुणणवउ सयलु वि रामहोँ तर्णउ वलु ॥ ९

18. 1 P S पइ. 2 S A वरिसहु 3 S सुयधिं, A सुयमि. 4 S विज्जइ, A विजाइ. 5 A B एवहि. 6 S अथक्क पडुक्क

19. 1 S तेँ राम समप्पिउ. 2 S A विराहिवाहं. 3 S A सामंतह. 4 S जमहंटह जममुहस-ण्णिहाहं, A जमाण 5 A तणउं.

[२०]

जं राम-सेणु गिम्मल-जलेण
तं वीरेंहि वीर-रसाहिएहि
वज्जन्तेहि पडहेहि मद्दलेहि
णच्चन्तेहि खुज्जय-वामणेहि
गायन्तेहि अहिणव-गायणेहि
सव्वेहि उण्णिदाविउ अणन्तु
विहसेप्पिणु उच्चइ हलहरेण
ता दुद्दम-दणु-णिहलण-दप्प
जममुहहो जाए णीसारिओऽसि

संजीविउ संजीवणि-वलेण ॥ १
वग्गन्तेहि पुलय-पसाहिएहि ॥ २
गिज्जन्तेहि धवल्लेहि मङ्गलेहि ॥ ३
जजु-रियउ पढन्तेहि वम्मणेहि ॥ ४
वायन्तेहि वीणा-वायणेहि ॥ ५

उट्ठिउ 'केत्तहे रावणु' भणन्तु ॥ ६
'किं खल्लेण गविट्ठे णिसियरेण ॥ ७
उव वयणु विसल्लहे तणउ वप्प ॥ ८
लङ्कहे विणासु पडसारिओऽसि' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेवि जोइय लक्खणेण तक्खण-मयणाअल्लियउ ।
णं एक्कए सत्तिए परिहरिउ पुणु अण्णेक्कए सल्लियउ ॥ १०

[२१]

सा कण्ण णिएवि हरिसिय-मणासु
'किं चलण-तलग्गइ कोमलाइ
किं ऊरु परोप्परु भिण्णं-तेय
किं कणय-दोरु घोळइ विसालु
किं तिवलिउ जढरे पधावियाउ
किं रोमावलि घण कसण एह
किं णव-थण णं णं कणय-कलस
किं आयम्भिर कर-यल चलन्ति
किं आणणु णं णं चन्द-विम्बु
किं दसणावलिउ स-मुत्तियाउ
किं गण्डवास णं दन्ति-दाण
किं भउह इमाउ परिट्ठियाउ
किं कण्ण कुण्डलाहरण एय
किं भालउ णं णं ससहरद्धु

उप्पण्ण भन्ति णारायणासु ॥ १
णं णं अहिणव-रत्तुप्पलाइ ॥ २
णं णं णव-रम्भा-खम्भ एय ॥ ३
णं णं अहि रयण-णिहाण-पालु ॥ ४
णं णं कामउरिहे खाइयाउ ॥ ५
णं णं मयणाणल-धूम-लेह ॥ ६
किं कर णं णं पारोह-सरिस ॥ ७
णं णं असोय-पल्लव ललन्ति ॥ ८
किं अहरउ णं णं पक्क-विम्बु ॥ ९
णं णं मल्लिय-कलियउ इमाउ ॥ १०
किं लोयण णं णं काम-वाण ॥ ११
णं णं वम्मह-धणुलट्ठियाउ ॥ १२
णं णं रवि-ससि विप्फुरिय-तेय ॥ १३
किं सिरु णं णं अलि-उल-णिवद्धु' ॥ १४

20. 1 S °वावणेहि 2 S जजुरियउ, A जजुरिद्धु. 3 S गायतहि, A गायतहि. 4 A तणउ.
5 S A लंकिहि 6 S °हल्लियउ

21. 1 S A °त्तुप्पलाइ 2 A भिण्णु 3 S A खाडलाउ 4 A भउहउ.

॥ घत्ता ॥

जाणेपिणु सञ्जेहिँ राणएहिँ रूवासत्तउ महुमहणु ।
विण्णत्तु कियञ्जलि-हत्थएहिँ 'करें कुमार पाणि-ग्गहणु' ॥ १५

[२२]

६ ता जंम्बवन्ते पभणिउ कुमारु 'फग्गुण-पञ्चमि तहिँ सुक्क-वारु ॥ १
उत्तर-आसाढउ सिद्धि-जोग्गु अण्णु वि वट्टइ थिरु कुम्भ-लग्गु ॥ २
एयारसमउ गह-चक्कु अञ्जु स-मणोहरु सयल्लु विवाह-कञ्जु ॥ ३
आरोग्गिउ सम्पय रिद्धि विद्धि अइरेण होइ सङ्गाम-सिद्धि ॥ ४
आयएँ अवसरें परिणेवि देव रिञ्जहु सुरवर-मिहुणाइँ जेव' ॥ ५
१० तं सुणेवि सुमित्तिहेँ णन्दणेण किउ पाणि-ग्गहणु जणहणेण ॥ ६
दहि-अक्खय-कलसहिँ दप्पणेहिँ हवि-मण्डव-वेइय-मक्खणेहिँ ॥ ७
रङ्गावलि-हरियन्दण-छडेहिँ कत्थइ स-विप्प-वन्दिण-णडेहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उच्छाहेहिँ धवल्लेहिँ मङ्गलेहिँ सङ्गेहिँ तूरेंहिँ अइहवेहिँ ।
११ स इँ भू सेवि साहुकारियँउ णरवइ-सएहिँ(?) किय-उच्छवेहिँ ॥ ९

*

[७०. सत्तरिमो संधि]

उज्जीवियएँ कुमारें किएँ पाणि-ग्गहणें भयावणु ।
तूरहँ सहु सुणेवि सूलेण व भिण्णु दसाणणु ॥

[१]

१० ॥ दुवई ॥ चन्द-विहङ्गमे समुड्ढावियए (गयँ-) अन्धारँ-महुयरे ।
तारा-कुसुम-णियरें परियँलिएँ मोडिए रयणि-तरुवरे ॥ १
परिभमंते पञ्चूस-महग्गएँ तरुण-दिवाथर-मेट्ट-वल्लग्गएँ ॥ २
ताव परज्जिय-सुर-सङ्गायहों केण वि कहिउ दसाणण-रायहों ॥ ३

5 S A सन्वेहि

22. 1 S जंभव चवंति, A ता जंभवन्ति. 2 S एयारहमउ, एयारसमह. 3 S अञ्जु, A अणु. 4 S आरेपिउ. 5 S °तक्खणेहि. 6 S साहुकारिओ, A साहुकारिउ 7 Metre requires सय for 'सएहि.

1. 1 S A किय 2 S A तूरह 3 S गयँ, A गयँ. Metrically redundant 4 S अंधारए 5 S परियहिए, परिअलिए. 6 The portion from here up to the end of the next line is wanting in s. 7 A परिभमंति.

‘अहों अहों देव देव जग-केसरि
ताएँ जणहणु पञ्चुज्जीविउ
तं णिसुणेंवि कल-कोइल-वाणी
‘अज्ज वि बुद्धि ण थाइ अयाणहों
एम विर्यपेँ अमरोहावणु
‘जे मुआ वि जीवन्ति खणं खणें

आइय का वि विसल्ला-सुन्दरि ॥ ४
णं धिय-धारहिँ सिहि संदीविउँ ॥ ५
चिन्ताविय मन्दोयरि राणी ॥ ६
केवलि-भासिउ ढुकु पमाणहों ॥ ७
पुणु सच्चभावेँ पभणिउ रावणु ॥ ८
दुज्जय हरि-वल होन्ति रणङ्गणें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

देहि दसाणण सीय
तोयदवाहण-वंसु

अज्ज वि लङ्काउरि रिज्जउ ।
मं राम-दवग्गिएँ डज्जउ ॥ १०

[२]

॥ दुवई ॥ इन्दइ भाणुकणु घणवाहणु वन्धाविय अकज्जेणं ।

सयण-विहूणएण किं किज्जइ एवहिँ राय रज्जेणं ॥ १

किं उड्डिउ णिप्पक्खु विहङ्गमु
किं वा तवउ णितेउ दिवायरु
गय-विसाणु किं गज्जउ कुञ्जरु
किं विप्फुरिउ चन्दु गह-गहियउ
किं छज्जउ तरु पाडिय-डालउ
किं करेहि तुहुँ सुहु वि भलउ
तो वरि बुद्धि महारी किज्जउ
उँव्वेहेवि जन्तु हरि-राहव

किं णिव्विसु संडसउ भुअङ्गमु ॥ २
किं णिज्जलु उच्छल्लउ सायरु ॥ ३
किं करेउ हरि हय-णह-पञ्जरु ॥ ४
किं पज्जलउ जलणु जल-सहियउ ॥ ५
किं सिज्जउ रिसि वयई अ-पाँलउ ॥ ६
वन्धव-सयण-हीणु एकेल्लउ ॥ ७
अज्ज वि एह णारि अप्पिज्जउ ॥ ८
मेल्लिज्जन्तु तुहारा वन्धव ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अज्ज वि एउ जें रज्जु
ते जें सहोयर सव्व

रह-हय-गय-धय-दरिसावणु ।
तुहुँ सो जें पडीवउ रावणु ॥ १०

[३]

॥ दुवई ॥ मन्दोवरि-विणिग्गयालाव पसंसिय सयल-मन्तिहिँ ।

केयइ-कुसुम-गन्ध परिचुम्भिय णावइ भमर-पन्तिहिँ ॥ १

वाल-जुवाण-बुद्ध-सामन्तेहिँ

सव्वेहिँ ‘जय जय देवि’ भणन्तेहिँ ॥ २

किय-कर-मउलि-णमिय-सिर-कमलेंहिँ

पुज्जिउ तं जि वयणु मइ-विमलेंहिँ ॥ ३

8 A संदीविउं. 9 S A विमपे 10 A खणे.

2, 1 S A एवहि. 2 S विप्फुरिउ. 3 A अप्पालउ. 4 S उवेहेवि, A उवेदेवि.
पउ० च० १३

‘चङ्गुँ माँ माँ पईं बुत्तउ
अकुसल कुसलेहि ण जुञ्जेवउ
पर-वलु पवरु णिँएवि वञ्जेवउ
समु साहणु सरिसउ जि समप्पउ
६ तें कज्जे जाणेवउ अवसरु
करेवि पयत्तु तन्तु’ रक्खेव्वउ

अर्थसत्थेँ एउ वि सु-णिरुत्तउ ॥ ४
राएँ रज्जे-कज्जु वुञ्जेवउ ॥ ५
अहवइ थोडउ तो जुञ्जेवउ ॥ ६
अवरु पवरु पर-चक्किउ चप्पइ ॥ ७
सुइणए वि सङ्गामु असुन्दरु ॥ ८
मण्डलं-कज्जु एउ लक्खेव्वउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जं उव्वरियउ किं पि
ताव समप्पहि सीय

तं सेणु जाव णावट्टइ ।
एँहु सन्धिहेँ अवसरु वट्टइ’ ॥ १०

॥

[४]

॥ दुवई ॥ तं परमत्थ-वयणु णिसुणेप्पिणु दहवयणेण चिन्तियं ।
‘वेरि मेहलि ण-इण्ण’ णउ पुज्जिउ मन्तिहिँ तणँउ मन्तियं ॥ १
पच्चासणें परिट्टिँए पर-वलें अवरोप्परु आयणिय-कलयलें ॥ २
कवणु एत्थु किर सन्धिहेँ अवसरु उत्तिम-पुरिसहों मरणु जें सुन्दरु ॥ ३
१६ सम्बु-कुमार-णिहँणें खर-आहवें चन्दणहिँहेँ कूवार-पराहवें ॥ ४
आसाली-विणासेँ वण-महणें किङ्कर-अक्ख-रक्ख-कडमहणें ॥ ५
मन्दिर-भङ्गेँ विहीसण-णिगगमें अङ्गएँ दूएँ उहय-वल-सङ्गमें ॥ ६
हत्थ-पहत्थ-णील-णल-विग्गहें इन्दइ-भाणुकण्ण-वन्दिग्गहें ॥ ७
तहिँ जि कालें जं ण किउ णिवारिउ तं किं एवहिँ थाइ णिराँरिउ ॥ ८
१७ तो इ तुहारी इच्छ ण भञ्जमि माणिणि’ एह सन्धि पडिवज्जमि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जइ उव्वेढइ रामु
पईं मईं सीयाएवि

णिहि-रयणइँ रज्जु लएँप्पिणु ।
तिणिण वि वाहिरइँ करेप्पिणु’ ॥ १०

३. 1 A चगउं. 2 S अत्थे सत्थेँ एउ णिरुत्तउ, A अत्थि अत्थि. 3 S कुसलेहि, A कुसुमेहि न.
4 S राय, A रज्जु 5 A सन्धिहु.

4. 1 A वर. 2 A तणउं. 3 S A सन्धिहिं. 4 S °णिहणि. 5 S चंदणदेहि, A चंदणिहेहि.
6 S A मंदिरे 7 S अंगमे 8 S A °भाणुकण्ण. 9 S A तहि 10 A विवारिउ. 11 S A °रयणइ 12 S सुयेप्पिणु.

[३] १ T कटका २ T पृथ्वी

[४] १ T न दत्ता. २ T वनरक्षका - ३ T हे त्री.

[५]

॥ दुवई ॥ तं णिसुणेवि वयणु दहवयणहों णरवइ के वि जम्पिया ।

‘एक्कए महिलीए किं को वि ण इच्छइ महि समप्पिया’ ॥ १

के वि चवन्ति मन्ति परमत्थे ‘सप्परिहवेंण काइँ किर अत्थे ॥ २
छलु जें एक्कु पाइक्कहों मण्डणु पुत्तु कलत्तु मित्तु ओमण्डणु’ ॥ ३ 5
पभणइ मन्दोवरि ‘को जाणइ जइ महि लेइ समप्पइ जाणइ ॥ ४
ता सामन्तउ दूउ विसज्जहि सयलु वि देइ सन्धि पडिवज्जहि ॥ ५
जइ रामणु जें मरइ सहुँ सयणोंहिँ तो किर काइँ तेहिँ णिहि-रयणोंहिँ ६
एम भणोंवि पेसिउ सामन्तउ जो सो परिमियत्थ-गुणवन्तउ ॥ ७
षडिउ महारहें हय कस-ताडिय महि खुप्पन्तेहिँ चक्केहिँ फाडिय ॥ ८ 10
णिय-णिसियर-वलेण परियरियउ वीयउ रावणु णं णीसरियउ ॥ ९
॥ घत्ता ॥

दूआगमणु णिएवि
किण्ण पडीवउ आउँ

थिउ कइ-वलु उक्खय-पहरणु ।
सरहसु सण्णहेंवि दसाणणु ॥ १०

[६]

॥ दुवई ॥ जम्पइ जम्बवन्तु ‘णउ रावणु रावण-दूउ दीसए’ ।

ए आलाव जाव ताणन्तरें सो जें तहिँ पईसए ॥ १

तहिँ पइसन्ते दहमुह-दूएँ दिट्ठु सेण्णु आसण्णीहूएँ ॥ २
किक्कर-कर-अप्फालिय-तूरउ ‘गोसायासु व उत्थिय-सूरउ ॥ ३
महरिसि-विन्दु व धम्म-परायणु पङ्कय-वणु व ‘सिलीमुह-भायणु ॥ ४ 20
कामिणि-वयणु व फालिय-णेत्तउ महकइ-कव्वु व लक्खण-वन्तउ ॥ ५
मीण-उल्लु व दहवयणासङ्किउ णव-कन्दुट्ठु व णील-णलङ्किउ ॥ ६
णन्दण-वणु व कुन्द-वद्धारउ णिसि-णहयलु व स-इन्दु स-तारउ ॥ ७
पुणु अत्थाणु दिट्ठु उव्वयणंउ सायर-महणु व पयडिय-रयणंउ ॥ ८
खय-रवि-विम्बु व वड्ढिय-तेयउ सइ-चित्तु व पर-णर-दुब्भेयउ ॥ ९ 25
॥ घत्ता ॥

लक्खिय लक्खण-राम
सगहों इन्द-पडिन्द

सव्वाहरणालङ्करियाँ ।

वे वि णाइँ तहिँ अवयरिया ॥ १०

5. 1 A एक्कए 2 S महिलियए 3 Wanting in S, A मित्तु 4 A मंडणु 5 S सयणहि, A सयणहिँ 6 S A तेहि 7 A कित्तु 8 S आयउ 9 S सण्णहिवि, A सणहिवि

6. 1 S A दीसइ 2 A °वत्तउ. 3 A उव्वयणउं 4 A °रयणउ 5 S A °रिय

[६] १ T प्रभाताकाशम् २ T वीर आदित्यश्च ३ T धम्मों धनुर्धर्म एव च ४ T भ्रमरा वाणाश्च.

५ T रावणो ब्रह्मुख च ६ T ऊर्ध्वमुखम् ७ T दन्ता रत्नानि च.

[७]

॥ दुवई ॥ तेहि^१ वि वासुएव-वलएवहिं^२ पहरिसिएहिं तक्खणे ।

हक्कारेवि पासु सम्माणेवि वइसारिउ वरासणे ॥ १

किय-विणएण कियत्थीहएं सामु पउज्जिउ दहमुह-दूएं ॥ २

५ 'अहों अहों राम राम रामा-पिय सुरवर-समर-सएहिं अक्खमिय ॥ ३

अहों अहों मयल-पिहिमि-परिपालण मायासुग्गीवन्त-णिहालण ॥ ४

अहों अहों दुहम-दणु-विदावण वडरि-वरङ्गण-जण-जूरावण ॥ ५

अहों अहों वजावत्त-धणुद्धर वाणर-विजाहर-परमेसर ॥ ६

सन्धि दसाणणेण सहुं किज्जउ इन्दइ-कुम्भयणु मेळ्ळिज्जउ ॥ ७

१० लङ्क दु-भाय ति-खण्ड वसुन्धर छत्तइ पीढइ हय-गय-णरवर ॥ ८

णिहि-रयणइ अद्धु लइज्जउ सीयहें तणिय तत्ति छड्ढिज्जउ^३ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पभणइ राहवचन्दु
सव्वइ सो ज्जे लएउ

'णिहि-रयणइ हय-गय-रज्जू
अम्हहें पर सीयएँ कज्जू' ॥ १०

१५

[८]

॥ दुवई ॥ तं णिसुणेवि वयणु काकुत्थहों ईसीसि वि ण कम्पिओ ।

तिण-समु गणेवि सयलु अत्थाणु दसाणण-डूउ जम्पिओ ॥ १

'अहों वलएव देव मा वोळ्ळहि कन्तहें तणिय वत्त आमेळ्ळहि ॥ २

लङ्काहिउ 'हेमन्तु जें वीयउ जो णिविसु वि णउ होइ णिसीयउ ॥ ३

२० जो रत्तिहिउ 'परिकअणप्पणें दीसइ सुविणएँ असिवर-दप्पणें ॥ ४

जेण धणउ कियन्तु किउ णिप्पहु सहसकिरणु णलकुव्वरु सुरं-पहु ॥ ५

जेण वरुणु समरङ्गणें धरियउ अट्टावउ पावउ उद्धरियउ ॥ ६

तेण समउ जइ सन्धि ण इच्छहि तो अवज्झ जीवन्तु ण पेच्छहि' ॥ ७

तं णिसुणेवि कुइउ भामण्डलु णं उट्ठिउ स-खग्गु आखण्डलु ॥ ८

२५ 'अरें खल खुह स-मउडु स-कुण्डलु पाडमि सीसु जेम तालहों फलु ॥ ९

को तुहुं कहों केरउ सो रावणु जं मुहुमुहु जम्पहि अ-सुहावणु' ॥ १०

7. 1 s तेहि, A तहि

8. 1 s A कंपिउ. 2 s A जपिउ. 3 s A कंतहि. 4 A सुरवहुं. 5 A समउं. 6 A आहंळु.

[८] १ T द्वितीय हिमवत (१) २ T शत्रुवले खमादिषु (१) दइयते रावण . ३ T वारवारम्-

॥ घत्ता ॥

लक्खणु घोसइ एम

‘तउ रामहों केरी आणा ।

सिसु-पसु-तवसि-तियाहुँ

किं उत्तिमु गेण्हइ पाणा ॥ ११

[९]

॥ दुवई ॥ दुहँ दुम्मुहेण दुवियहँ दूसीलें अयाणेंणं ।

सहँहों वाहिवन्त-पंडिसद्-पंडिय-पूसय-समाणेंणं ॥ १

एण हएण कवणु सुहडत्तणु

अयस-भारु केवलु कुल-लञ्छणु’ ॥ २

तं णिसुणेंवि पसमिउ कोवाणलु

णिय-आसणें णिविडु भामण्डलु ॥ ३

तेहएँ कालें विलक्खीहूएँ

पभणिउ राहवु रामण-दूएँ ॥ ४

‘चइउ भिच्चु देव पइँ लद्धउ

जिह सु-कव्वे अवसहु णिवद्धउ ॥ ५

सिर-विहीणु णउ लगइ कण्णहुँ

तिह अवियडु वियडुहुँ अण्णहुँ ॥ ६

आएँ होहि तुहु मि लहुयारउ

लवण-रसेण समुहु व खारउ ॥ ७

अहवइ कल्ले जि आवइ पाविय

रणउ जेम सव्व रोवाविय ॥ ८

एवहिँ गज्जहों काइँ अकारणें

वलु बुज्जेसउ सइँ जें महारणें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जो एकएँ सत्तीएँ

एही अवत्थ दरिसावइ ।

सो पहरण-लक्खेहिँ

कइँ विहय जेव उडुवाइ ॥ १०

[१०]

॥ दुवई ॥ तुम्ह सिरुप्पलाइँ तोडेप्पिणु पीडु रएवि तत्थेंणं ।

इन्दइ-भाणुकण्ण-वणवाहण मेल्लेसइ स-हत्थेंणं ॥ १

णिहएँ वासुएव-वलएवें

लेसइ सइँ जें सीय अवलेवें ॥ २

अहवइ जइ वि आउ तहों झिज्जइ

तुम्हारिसिँहिँ तो वि णउ जिज्जइ ॥ ३

किं जोइज्जइ सीहु कुरङ्गेहिँ

किं वसिकिज्जइ गरुडु भुयङ्गेहिँ ॥ ४

7 S आण, A अ 8 S A पाण

9. 1 S A दुहँ 2 A सग्गह 3 S °पडिसहुट्टिय° 4 S तं णिसुणिवि, A तणिसुणिवि.

5 S भासण, A आसणि 6 S एयहो. 7 S A सत्तिए. 8 S पुहावत्थ

10. 1 S तुम्हइ. 2 S A सइ. 3 S तुम्हारिसहि, A तुम्हारिसिँहिँ

[९] १ T (P's reading) प्रतिशब्दोत्थितं शुरुसदशम् २ T मस्तकपीडाकारी य काव्ये ग्रथितोऽ-

पशब्दो विचक्षणाना कर्णेषु न लगति, न प्रतिभासते तथा दुर्विचक्षणोऽपि. ३ T मर्कटा सुग्रीवादय..

४ T पक्षिणो यथा

किं खजोएँहि किउ रवि णिप्पहु
 किं सरि-सोत्तेहि फुट्टइ सायरु
 किं चालिज्जइ विञ्जु पुलिन्देहि
 तं णिसुणेवि भडेहिँ गलधल्लिउ
 ६ गउ स-पराहवु लङ्क पराइउ

दुज्जय लक्खण-राम
 जं जाणहि तं चिन्ते

किं वण-तिणेहिँ धरिज्जइ हुयवहु ॥ ५
 किं 'करेहिँ छाइज्जइ ससहरु ॥ ६
 हासउ तहोँ तुम्हेहिँ कु-णरिन्देहिँ ॥ ७
 टक्कर-पण्हिय-घाएँहिँ घल्लिउ ॥ ८
 कहिउ 'देव हउँ कह वि ण घाइउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

ण करन्ति सन्धि णउ वुत्तउ ।
 आयउ खय-कालु णिरुत्तउ ॥ १०

[११]

१० ॥ दुवई ॥ सम्भु-कुमारु जेहिँ विणिवाइउ घाइउ खरु वि दूसणो ।

जेहिँ महण्णवो समुल्लङ्घिउ णक्क-ग्गाह-भीसणो ॥ १

हत्थ-पहत्थ जेहिँ संघाइय
 आणिय जेहिँ विसल्ला-सुन्दरि
 तेहिँ समाणु णउ सोहइ विग्गहु
 ११ तं णिसुणेवि णरवइ चिन्ताविउ
 'होसइ केम कज्जु णउ जाणमि
 किं पाडमि समसुत्ती पर-वल्ले
 जइ वि स-साहणु स-मुहु समप्पमि
 अत्थु उवाउ एक्कु जेँ साहमि

इन्दइ-कुम्भयण्ण विणिवाइय ॥ २
 मुउ जीवाविउ लक्खण-केसरि ॥ ३
 लहु वइदेहि देहि 'मुएँ सङ्गहु' ॥ ४
 महणावत्थ समुहु व पाविउ ॥ ५
 किं उक्खन्धेँ वन्धेवि आणमि ॥ ६
 किं सर-धोरणि लायमि हरि-वल्ले ॥ ७
 तो वि ण रामहोँ गेहिणि अप्पमि ॥ ८
 वहुरुविणिय विज्ज आराहमि ॥ ९

३१

॥ घत्ता ॥

पट्टणेँ घोसण देमि
 अच्छमि झाणारूढु

'जीव अट्ट दिवस' मम्भीसमि ।
 'वट्टइ सन्तिहरु पईसमि' ॥ १०

[१२]

११ ॥ दुवई ॥ एम भणेवि तेण छुडु' जेँ च्छुडु माहहोँ तणएँ णिग्गमे ।
 घोसिय पुरेँ अमारि अहिणव-फग्गुण-णन्दीसरागमे ॥ १

4 A हासउं 5 S A भडेहि 6 S A घाएहि 7 A वुत्तउं

11, 1 S देवि 2 S अट्ट दिवस जीव, A जीअ अट्ट दिवस. 3 S मभीसिवि. 4 A वट्टइ.

5 S सतिहरे पइसरमि

12 1 A च्छुडु माहहो.

[१०] १ T हस्तै

[११] १ T reads मुएँ समुहु=अभिमुखं त्यज २ T जीवान् ३ T प्रस्तावं वर्तते.

अद्द दिवस जिणवरु जयकारहों अद्द दिवस महिमउ णीसारहों ॥ २
 'अद्द दिवस जिणं-भवणइँ 'सारहों अद्द दिवस जीवाइँ म मारहों ॥ ३
 अद्द दिवस समरङ्गणु छडुहों अद्द दिवस इन्दिय-दणु दण्डहों ॥ ४
 अद्द दिवस उववास करेजहों अद्द दिवस मह-दाणइँ देजहों ॥ ५
 अद्द दिवस अप्पाणउँ भावहों एयारह गुण-थाणइँ दावहों ॥ ६
 अद्द दिवस गुण-वयँइँ पउँजहों 'सेज्जहों जज्जहों अणुहुजेज्जहों ॥ ७
 'अद्द दिवस पिय-वयँणइँ भासहों 'अणुवय-सिक्खावयँइँ पगासहों ॥ ८
 अद्द दिवस आमेल्लहों मच्छरु जाम्व एहु फग्गुण-गन्दीसरु ॥ ९

॥ वत्ता ॥

पच्चक्खाणु लएहु
 तोडेवि तामरसाइँ

पडिकवणु सुँणहों मणु खच्चहों ।
 स इँ भु एँहि भडारउ अँच्चहों ॥ १०

*

[७१. एकहत्तरिमो संधि]

हरि-हलहर-गुण-गहणेँहिँ दूअहों वयणेँहिँ पहु पहरेव्वउ परिहरइ ।
 विज्जहें कारणेँ रावणु जग-जगडावणु सन्ति-जिणालुँउ पइसरइ ॥

[१]

गन्दीसर-पइसारएँ 'सारएँ 'माहव-मासु णाँइँ हकारएँ ॥ १
 सासय-सुहु संपावणेँ 'पावणेँ 'दरिसाविय-पुप्फ-ग्गुणेँ फग्गुणेँ ॥ २
 णव-फल-परिपक्काणणेँ काणणेँ कुसुमिँ साहारएँ साहारएँ ॥ ३
 'रिद्धि-नायहें कोक्कणयहें कणयहें हंसंभंसिँएँ कुवलएँ कुवलएँ ॥ ४
 महुअरेँ महु-मज्जन्तएँ जन्तएँ कोविल-कुँलेँ वासन्तएँ सँन्तएँ ॥ ५

2 s A णीसारहु 3 This pāda is wanting in s. 4 A जिणु. 5 s इदियइ दमेज्जहो.
 6 A अप्पाणउँ 7 s A °वयइ 8 Wanting in A 9 This pāda is wanting
 in A. 10 s °वयणइ. 11 A has only पयासहो for the whole pāda 12 s
 °वयइ. 13 s A आमेल्लहु. 14 s A सुणहु, A सुणेह 15 s A खचहु. 16 s भडारा, A
 भडारउ 17 s अँचहु, A अँचहुँ

1. 1 s गणेहि 2 s °जुरावणु. 3 s °जिणालु 4 Wanting in A 5 This pāda is
 Wanting in A 6 s णाइ 7 s °सिव. 8 s °पिक्का° 9 s रिद्धिगय कोक्कणयहि कणयहो, A
 कोक्कणयहे. 10 A °भूसिँए 11 Wanting in s, A कुल. 12 s वासतए.

[१२] १ T स्थापयथ

[१] १ T प्रवेशे. २ T उत्तमे. ३ T संप्रापके ४ T पवित्रे ५ T दर्शितपुष्पगुणे फात्तुनमासे.

कीर-चन्दे उद्वन्तएँ ठन्तएँ
 महुअरि पडिमल्लावएँ लावएँ
 णाउ ण णावइ किं सुएँ किंसुएँ
 तणु परितप्पइँ सीयँहो सीयहो ॥ ९

मलयाणिले आवन्तएँ चन्तएँ ॥ ६
 जाहिं ण वि तित्ति रँयहोँ तित्तिरँयहोँ ॥ ७
 जाहिं वसेण गयणाहहोँ णांहहोँ ॥ ८

5

॥ घत्ता ॥

अच्छउ किं¹⁰ सावणं केण वि अण्णं जहि अइमुत्तउ रइ करइ ।
 तं जण-[मण-]मज्जावणु सव्व-सुहावणु को महु-मामु ण सम्भरइ ॥ १०

[२]

कथइ अङ्गारय-सङ्कासउ
¹⁰ णं दावाणलु आउ गवेसउ
 कथवि माहवियएँ णिय-मन्दिरु
 'ओसरु ओसरु तुँहुँ अपवित्तउ
 कथइ चूअ-कुपुम-मज्जरियउ
 कथइ पवण-हयइँ पुण्णायइँ
¹⁵ कथइ अहिणवाइँ भमर-उलइँ
 फणसइँ अबुह-मुहा इव जडुइँ

रेहइ तम्भिरु फुल्लु पलासउ ॥ १
 को मइँ दहुँ ण दहुँ पएसउ ॥ २
 एन्तु णिवारिउ तं^३ इन्दिन्दिरु ॥ ३
 अण्णएँ णव-पुप्फवइँ छित्तउ' ॥ ४
 णाँइ वसन्त वडायउ धरियउ ॥ ५
 णं जगेँ उच्छलियइँ पुण्णायइँ ॥ ६
 थियइँ वसन्त-सिरिहोँ णं कुरलइँ ॥ ७
 सिरिहलाँइँ सिरि-हल इव वडुइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तेहएँ कालेँ मणोहरेँ ¹⁰ णव-णन्दीसेँ लङ्क पुरन्दर-पुरि व थिय ।
 रयणियरेँहि गुरु-अत्तिएँ(?) अविचल-भत्तिएँ जिणहरेँ जिणहरेँ¹¹ पुज्ज कियँ ॥ ९

20

[३]

घरेँ घरेँ सहिमउ णीसारियउ
 घरेँ घरेँ तूरइँ अप्फालियँइँ
 घरेँ घरेँ रवि-किरण-णिवारणँइँ
²⁵ घरेँ घरेँ मालउ गन्धुकडउ
 घरेँ घरेँ मोत्तिय-रङ्गावलिउ
 घरेँ घरेँ अहिणव-पुप्फच्चणिय

घरेँ घरेँ पडिमउ अहिसारियँउ ॥ १
 णं सीह-उलइँ ओरालियँइँ ॥ २
 उन्भियइँ विताणइँ तोरणँइँ ॥ ३
 घरेँ घरेँ णिवडिय चन्दण-छडउ ॥ ४
 घरेँ घरेँ दवणुलउ णव-फँलिउ ॥ ५
 घरेँ घरेँ चच्चरि कोडुवाणिय ॥ ६

13 s महुवरी 14 A रयहे 15 s तहि तणु तप्पइ 16 Wanting in s.

2. 1 A दहु पएसउ 2 s माहविय, A माहवियए 3 A ण 4 s A तुहु 5 A अण्णपवण°.
 6 s भूय 7 A च्छायउ 8 s A °सिरिहि 9 s A °लाइ. 10-11 The portion between
 10 and 11 is wanting in A 12 A पुज्जिय.

3. 1 A °याउ. 2 A °भाउ 3 s °यइ, A °याइ. 4 s °याहं, A °णाहं. 5 s तोरणइ, A
 तोरणाइ 6 A हलिउ. 7 s फुल्ल°.

घरें घरें मिहुणइँ परिओसियइँ
घरें घरें भोयण-सामग्गि किय

घरें घरें मह-दाणइँ घोसियइँ ॥ ७
घरें घरें सिरि-देवय णाईँ थिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

करेंवि महोच्छउ पट्टणें
अट्टावय-कम्पावणु

दणु-दलवट्टणें
सरहसु रावणु

सम्परिवारु णिराउहउ ।
गउ सन्तिहरहों सम्मुहउ ॥ ९

[४]

कुसुमाउह-आउह-सम-णयणें
मणहरणाहरणालङ्करिँ
दप्पहरण-पहरण-वज्जियँ
जय-मङ्गलें मङ्गलें घोसियँ
जणु णिग्गउ णिग्गउ णित्तुरउ
दप्प-रहिय पर-हिय के वि णर
दइँ(य)-महियँ महियँ का वि तिय
क वि राम राम-उल्लावयरि

णीसरियँ सरियँ दहवयणें ॥ १
स-पसाहण-साहण-परियरिँ ॥ २
तूराउलें राउलें गज्जियँ ॥ ३
रयणियर-णियरें परिओसियँ ॥ ४
महिरक्खहों रक्खहों थिउ पुरउ ॥ ५
उववासिय वासिय धम्म-पर ॥ ६
कंजय-करि जय-करि णाईँ सिय ॥ ७
कँ वि वत्ती वत्ती दीवयरि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वाल-मइन्दालोएं
णह-सरवर-आवासे

णायर-लोएं
ससहर-हंसें

सन्ति-जिणालउ दिट्ठु किह ।
खुँट्टेवि घत्तिउ कमलु जिह ॥ ९

[५]

विमलं रवि-रासि-हरं सिंहं
बुद्धत्तण-जम्म-रणं मरणं
वीसमइ व रंभ-वणे भवणे
भणइ व अलिमा भमरे भमरे
तोडेइ व णह-यलयं अलयं
मइलेइ व उज्जलयं जलयं

लक्खिज्जइ सन्ति-हरं तिहरं ॥ १
वारेइ व कम्पवणं पवणं ॥ २
पडुरइ व कुसुम-वडं अवडं ॥ ३
वट्टेइ व (?) सिसि-समयं स-मयं ॥ ४
आरुहइ व अकं-रहे कर-हे ॥ ५
परिहेइ व दिव्वलयं वलयं ॥ ६

4. 1 A रयणियरे 2 S दइण हिअणु हिय. 3 S वलि. 4 S पत्ती. 5 S गुट्टिवि, A खुँटेवि

5. 1 A जसुम° 2 S कहइ.

[५] Glosses in T — १ जन्मसग्रामम् २ जानिजरा मरणत्रयहरणम् ३ कम्पकारिण वायुम् ४ कटलीवनम् ५ गृहे ६ पुष्पवटम् ७ न विद्यतेऽन्यत्र बृहद् यस्माद् वटात्, ८ असत्यम् ९ भ्रमरे हिण्डनशीले । अन्योऽपि हिण्डनशीलोऽसत्यो भवति १० चन्द्र-समानकं निजमतम् ११ ममय ममय' इति पाठे, ससिं किविदिष्टे १२ अमृतं, मा लक्ष्मीस्तन्मयं च ११ नभस्तलम् १२ अलमल्यर्थम् १३ आदित्यरथे १४ करं किरणैर्भाति करमस्तस्मिन् १५ मेघा . १६ दिशा वलयं समूहम् १७ ऋणम्

छडेइ व अँवणिलयं^४ णिलयं
जोएइ व सँव्व-सुहं^५ वसुहं

हसइ व परिमुक्क-मलं कमलं ॥ ७
धरइ व अँहिठाणं^६ अहि-ठाणं ॥ ८

॥ वत्ता ॥

पुण्ण-पविच्चु विसालउ
५ णवरेक्कहँ वय-भङ्गहँ

सन्ति-जिणालउ
पर-तिर्य-सङ्गहँ

सव्वहँ लोअहँ सन्ति-करु ।
लङ्काहिवहँ असन्ति-करु ॥ ९

[६]

दसाणणो स'मालयं
तओ कओ महोच्छवो
'विसारिया चरू वली
१० समुब्भिया महद्धया
जिणाहिसेय-तूरयं
मउन्द-णन्दि-सद्दला
सरुद्ध-भेरि-झलरी
स-दहुरा-रवुक्कडा
१५ डउण्ड-डक्क-टँट्टरी
ववीस-वंस-कंसिया
पवीण वीण^{१०} पाविया
पसँण्डि-दण्ड-डम्बरा
सुराण जं णिवन्धणं
२० जमस्स^{१२} सव्व-रक्खणं
कयं अ-रेणु-मेत्तयं
वणो^{१३}सईहिँ अच्चियं
सरस्सईएँ माइयं

पइट्टओ जिणालयं ॥ १
वित्ताण-वीण-मण्डवो ॥ २
णिवद्ध तोरणावली^३ ॥ ३
सियायवत्त चिन्धया ॥ ४
समाहयं गहीरयं ॥ ५
हुडुक्क-ढक्क-काहलं ॥ ६
दडिक्क-पाणिकत्तरी ॥ ७
'स-ताल-सङ्ग-संघडा ॥ ८
झुणुक्क-भम्भ-झिङ्गिरी ॥ ९
तिहा सरी समासिया ॥ १०
पडू झुणी सुहाविया ॥ ११
अणेय सेय चामरा ॥ १२
कयं च तेहिँ पेसणं ॥ १३
पहङ्गणेण पङ्गणं ॥ १४
महाघणेहिँ सित्तयं ॥ १५
वरङ्गणाहिँ णच्चियं ॥ १६
पउज्जिएहिँ वाइयं ॥ १७

॥ वत्ता ॥

२५ णरवइ भामरि देप्पिणु
रावणहत्थउ वाएँवि

णाहु णवेप्पिणु
मङ्गलु गाएँवि

एकु खणन्तरु ए कुमणु ।
पुणु पारंभइ जिण-ण्हवणु १८

३ S अवणियलं णियल ४ A अहिट्टाणु अहिट्टाणु. ५ A °हिय°

६. १ A °मंडलो २ S चरं वली. ३ S °वली ४ This pāda is missing in S ५ S ढक्करी ६ S झुणुक्क° ७ S झेकरी ८ A तिटा ९ S सयासिया १० S पावयाविया ११ A पसुडि°. १२ A जगस्स. १३ S वणस्सईहिँ, A वणासइहि १४ A सरस्सईहि, S सरसइए १५ S माइय १६ A आरभइ.

१८ अवनिं भूमिं लाति अवनिलक्कम्, णिलयं स्थाम । अथवा 'अवणियलं' भूमितलम्, 'णियल' निर्गलम्
१९ सर्वत्रमुक्कमल कमलं शुभ्रपद्मम् २० सर्वानि सुखानि यस्या . २१ भूमिम् २२ पातालं सर्पस्थानम्
[६] १ T उपशमस्थानम् २ T प्रस्तार्थ वृत्ता . ३ T ओदन-सालणादि-नैवेद्यम् ४ T खाद्यादय

[७]

आढत्तु सत्तु-सन्तावणेण
पहिलउ जि भूमि-पक्खालणेण
भुवणिन्द-विन्द-पडिवोहणेण
वर-मेरु-पीढ-पक्खालणेण
कडयड्डुलि-सेहर-वन्धणेण
महि-संसण-कलस-णिरोहणेण
अग्घेण ^१अमर-आवाहणेण
जय-मङ्गळ-कलसुक्खिप्पणेण

अहिसेउ जिणिन्दहोँ रावणेण ॥ १
पुणु मङ्गळग्गि-पज्जालणेण ॥ २
अमिणुण ^१वसुन्धर-सोहणेण ॥ ३
जण्णोवईए रिव-चालणेण (?) ॥ ४
^४कुसुमञ्जलि-पडिमा-^३थावणेण ॥ ५
पुणरवि-पुप्फञ्जलि-घत्तणेण ॥ ६
णाणाविहेण अवयारणेण ॥ ७
जलधारोवरि-परिधिप्पणेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अइरावय-मय-रिद्धेँ भस^१लाइद्धेँ किङ्कर-पवर-पराणिण्ण ॥
अहिसिञ्चिउ सुर-सारउ सन्ति-भडारउ पुण्ण-पवित्तेँ पाणिण्ण ॥ ९

[८]

करि-मयर-करगप्फालिणुण
महुअरि-उवगीय-वमालिणुण
अह पर-दुक्खेण व सीयलेण
मलय-रुह-वणेण व सुरहिणुण
अहिसिञ्चिउ तेणामल-जलेण
पुणु सङ्ग-कुन्द-जस-पण्डुरेण
हिमंगिरि-सिहरेण व साडिणुण
मोत्तिय-हारेण व तुट्टणुण
खीरेण तेण सु-मणोहरेण
अविणय-पुरिसेण व थट्टणुण
पुणु पडिमुव्वत्तण-धोवणेण

भिङ्गार-फार-संचालिणुण ॥ १
अलि-बलय-मुहल-सम-लालिणुण ॥ २
सज्जण-वयणेण व उज्जलेण ॥ ३
सइ-चित्तेण व मल-विरहिणुण ॥ ४
पुणु णव-घएण महु-पिङ्गलेण ॥ ५
गङ्गा-तरङ्ग-उव्भडुरेण ॥ ६
ससहर-विम्बेण व पाडिणुण ॥ ७
सरय^१व्भ-उरेण व^१ फुट्टणुण ॥ ८
पुणु सिसिर-पवाहें मन्थरेण ॥ ९
णव-दुमैण व साहा-वद्धणुण ॥ १०
चुण्णेण^१ जलेण गन्धोवणुण ॥ ११

॥ घत्ता ॥

कप्पूरायरु-वासिउँ धुसिणुम्मीसिउ तं गन्ध-जलुँ स-णेउरहोँ ॥
दिण्णु विहज्जेँवि राएँ णं अणुराएँ हियउ सव्वु अन्तेउरहोँ ॥ १२

7. 1 A °इंद° 2 S अण्णोचइय. 3 A °वद्धणेण. 4 This pāda is missing in A. 5 A °णिरावणेण 6 A अग्गेण अगर्° 7 S भसलसमिद्धेँ. 8 A रामवेण

8. 1 A °करगु°. 2 A हिमहरि° 3 A मयगन्धउडेण 4 S फुट्टणुण 5 S चुण्णण
6 A °वासियउ, A °वामिउँ 7 A °यलु

[७] १ T भूमिशोधनेन २ T स्थापनम् ३ T आहानम्

[९]

दिव्चेण अणुलेवणेण सुअन्धेण
 दिव्वेहिं णाणा-पयारेहिं पुप्फेहिं
 अइउत्तयासोय-पुण्णाय-णाएहिं
 5 कणियार-करवीर-मन्दार-कुन्देहिं
 सिन्दूर-वन्धुक्क-कोरण्ट-कुज्जेहिं
 एवं च मालाहिं अणणण-रूत्राहिं
 आहीरियाहिं व वायाल-भसलाहिं
 सोरट्टियाहिं व सव्वङ्ग-मरुआहिं
 10 मरहट्टियाहिं व उदाम-वायाहिं

सिरिखण्ड-कप्पूर-कुङ्कुम-समिद्धेण ॥ १
 रत्तुप्पलिन्दीवरम्भोय-नुप्फेहिं ॥ २
 सयवत्तिया-मालई-पारिजाएहिं ॥ ३
 विअइल्ल-वरतिलय-वजलेहिं मन्देहिं ॥ ४
 दमणेण मरुएण पिका-तिसञ्जेहिं ॥ ५
 कण्णाडियाहिं व सर-सार-भूआहिं ॥ ६
 वर-लाडियाहिं व मुह-वण्ण-कुसलाहिं ॥ ७
 मालविणियाहिं व मञ्जार-छडआहिं ॥ ८
 गेय-झुणिहिं व अणणण-छायाहिं ॥ ९

॥ वत्ता ॥

णाणाविह-मणिमइयाहिं किरणवभइयाहिं चन्द-सूर-सारिच्छएहिं ।
 अच्चण किय जग-णाहहो १२केवल-चाहहो पुण्ण-सएहिं व अक्खएहिं ॥ १०

[१०]

15 पच्छा चरुएण मणोहरेण
 मुत्ता-णियरेण व पण्डुरेण
 वर-अमिय-रसेण व सुरहिएण
 तित्थयर-वरेण व सिद्धएण
 पुणु दीवएहिं णाणाविहेहिं
 20 सुहडेहिं व वणिएहिं वलियएहिं
 धूवेण विविह-गन्धड्डएण
 पुणु फल-णिवहेण सुसोहिएण

गङ्गा-वाहेण व दीहरेण ॥ १
 सु-कलत्त-मुहेण व सु-महुरेण ॥ २
 सुअणेण व सुट्ठु सणेहिएण ॥ ३
 सुरएण व तिम्मण-रिद्धएण ॥ ४
 वरहिणेहिं व अइदीहर-सिहेहिं ॥ ५
 टिण्ठाउत्तेहिं व जलियएहिं ॥ ६
 मयणेण व जिणवर-दड्डएण ॥ ७
 कव्वेण व सव्व-रसाहिएण ॥ ८

9. 1 s सुवंधेण 2 s A °पयारेहि 3 s A °लदीवर°. 4 s °पुप्फेहि, A °पुप्फेहि 5 A एलत°. 6 s °पारिजाएहि, A °पारियाएहि 7 s कणिया°, wanting in A 8 A °वग°. 9 s °वंधुक°. 10 s °आहि व्व, A °आहिं व 11 s °झुणीहि व्व, A झुणीहि व. 12 This pāda wanting in A.

10 1 A सुमहुरेण 2 s वरहिणिहि, A वयणेहि 3 s °सिहेहि, A °सिरेहि. 4 s A °हि. 5 s जलुड्डिएहि.

[९] १ T स्मर-साराभि, उवमाला-साराभिश्च २ T वाचाला विटास्त एव भसला अन्यत्र वाचाला मयला भ्रमरा यासु ३ T मुखरा गोऽन्यत्रापि पुष्पाणि मुखे(?) ४ T उच्चैर्वचोभिरन्यत्र 'वाया'='वाका' 'वन्कला' इत्यर्थेऽथवा 'वाया'='वाता' समूहा इत्यर्थः. ५ T सदृशं

[१०] १ T व्यञ्जनानि स्त्रीमनश्च २ T वनिताभि व्रणरोहकैश्च

साहारेण व अइ-पक्कएण
पहु-अच्चण एम्व करेइ जाम

तक्केण व साहा-मुक्कएण ॥ ९
गयणङ्गणें सुर वोळन्ति ताम्व ॥ १०

॥ घत्ता ॥

‘जइ वि सन्ति एहु घोसइ
इन्दिय वसि ण करन्तहुँ

कल्लएँ होसइ तो वि राम-लक्खणहुँ जउ ।
सीय ण देन्तहुँ सिय-मङ्गलु कल्लाणु कउ’ ॥ ११ १

[११]

लग्गु ^१थुणेहुँ पयत्थ-^२विचित्तं^३
मोक्खपुरी-परिपालियं-गत्तं
सोम-सुहं^४ परिपुण्ण-पवित्तं
सिद्धि-वहुँ-मुह-दंसण-पत्तं
भावलयामर-चामर-छत्तं
जस्स ^५भवाहि-उल्लेसु ^६खगत्तं
^७चन्द-दिवायर-सण्णिह-छत्तं
दण्डिय जेण मण्णिन्दिय-छत्तं^८

‘णाय-णराण सुराण विचित्तं^१ ॥ १
सन्ति-जिणं ससि-णिम्मल-वत्तं ॥ २
जस्स चिरं चरियं सु-पवित्तं ॥ ३
सील-गुणव्वय-सज्जम-पत्तं ॥ ४
दुन्दुहि-दिव्व-झुणी-पह-वत्तं ॥ ५
अट्ट-सयं चिय लक्खण-गत्तं ॥ ६
चारु-असोय-महद्दुम-छत्तं ॥ ७
णोमि^८ जिणोत्तममञ्जुज-णेत्तं ॥ ८

(दोधकं)

परं परमपारं^१
जरा-मरण-णासं
णिराहरण-सोहं
‘अयाणिय-पमाणं
महा-कलुणं-भावं
णिराउह-करगं
हरं हुयवहं वा
ससिं दिणयरं वा

सिवं सयल-सारं ॥ ९
जय-सिसरि-णिवासं ॥ १०
सुरासुर-विवोहं^{१०} ॥ ११
गुरुं ^{११}णिरुवमाणं ॥ १२
^{१२}दिसायंड-सहावं ॥ १३
विणासिय-कुमगं ॥ १४
हरिं चउमुहं वा ॥ १५
पुरन्दर-वरं वा ॥ १६

6 s °हु, A °ह.

11. 1 s A थुणेहु 2 A °विचित्तं 3 A विचित्ते 4 A °परिभाणियच्छत्त 5 A °सुहपरिपुण्ण-
पवित्ते 6 s °वहुय° 7 This pāda is wanting in s 8 s णउमि. 9 A °सार.
10 °विमोह 11 A णिभव° 12 s °करुण° 13 A दिसायर°

३ T उत्तमात्रफल पक्वमेव सहकार भण्यते

[११] १ T स्तोत्रम् २ T विविष्टचित्त यस्मात् श्रिय जगति (?) ३ T ससारोत्तमकुले ४ T
(reading सुहयत्त) सुभगत्व ५ T चन्द्रादित्यवत् प्रकाशका गणवरदेवादयश्छात्रा यस्य तम् ६ T
मनथेन्द्रियाणि च मनश्चन्द्रियपद् दण्डिता येन ७ T त भट्टारकम् ८ T न ज्ञात प्रमाणं यस्य ९ T
उपमारहितम् १० T गगन वातो वा

११ महापावि-भीरुं पि एकल्ल-वीरं

१३ कला-भार्य-हीणं पि मेरूहि धीरं ॥ १७

१२ विमुत्तं पि मुत्तावली-सणिकासं

१४ विणिगगन्ध-मग्गं पि गन्धावयासं ॥ १८

महा-वीयरार्यं पि सीहासणत्थं

अ-भूभजुरत्थं पि णट्ठीरि-सत्थं ॥ १९

१३ समाणङ्गधम्मं पि देवाहिदेवं

१५ जिईसा-विहीणं पि सव्वूढ-सेवं ॥ २०

१४ अणायिप्पमाणं पि सव्व-प्पसिद्धं

१६ अणन्तं पि सन्तं अणोयत्तं-विद्धं ॥ २१

१० मल्लुल्लित्त-गत्तं पि णिच्चाहिसेयं

१७ अजडुं पि लोए णिराणोय-णोयं ॥ २२

११ मुरा-णाम-णासं पि णाणा-सुरेसं

१८ जडा-जूड-धारं पि दूरत्थ-केसं ॥ २३

१० अमाया-विरुवं पि विक्खिण्ण-सीसं

१९ सया-आगमिहं पि णिच्चं अदीसं ॥ २४

(भुजंगप्रयातं)

14 A °भाष°. 15 B A एकल्ल°. 16 A °यारार्य°. 17 B मेरावधीरं, A मेरूहि धीरं. 18 A सव्वूढ°. 19 B अणोय°, A अणाअ°. 20 A अणोयंतसिद्धं. 21 A सुराणम°.

११ ' अतीर य' पापभीरुभवति स कथं एकल्लवीरो भवतीति । एकल्लवीरस्य भीरुशब्देनात्र विरोधोऽन्यत्र महापापभीरुशब्दानीरं च देयं. १२ ' गला स्तोत्रं मातृगलास्वरूपभागतो यो हीन स कथं मेरुभ्योऽपि धीरोन्यत्र कलाभाग' शरीरभागस्तेन रहितं मेरुधीरं च १३ ' यो गुक्ताफलरहितो भवति स कथं मुक्तावली द्वारावलीसदृशो भवति । अथवा मुक्तावलीनां सम्यक् निष्कासो निर्गमो यस्मादिति विरोधोऽन्यत्र विमुत्तं शरीरादिपरिग्रहरहितं मुक्तावली सिद्धावली तथा सदृशम्. १४ ' यो विशेषेण ग्रन्थमार्गात्रिकाऽन्तो दृष्टिति स कथं ग्रन्थस्य द्रव्यस्यावकाशं स्थानगिति विरोधोऽन्यत्रातीत-निर्गन्थ[मार्ग] मोक्षमार्गम् । ग्रन्थावकाशं भागमस्थानम् । गुणं द्वयम्. १५ ' कर्ममगुहः. १६ ' यमान सदृशो लोष्टकारोऽङ्गधर्मं शरीरसंस्थानं यस्य स कथं देवाधिदेवोऽन्यत्र समानाङ्गधर्मं चक्षुषा तुल्यचक्षु कर्णेन तुल्यकर्णं ध्रुवा भू. नासिक्तापुटेन नासिके-त्यादि', १७ यो जिगीवारहितस्तेन कथं सर्वलोकेषु कृता सेवाऽन्यत्र जिगीवारहितं सर्वलोकेषु कृता सेवा यस्य तम् १८ ' न ज्ञातं प्रमाणं यस्य स कथं सर्वप्रसिद्धम्(१) अथवा न्यायो नीति प्रगीयते जायते येनेतीत्यु(२)-पमानं ज्ञानं, न विद्यते न्यायप्रमाणो यस्य स कथं सर्वं प्रसिद्धमस्येति सर्वप्रसिद्धोऽन्यत्र [न]जातं लोकं प्रमाणं ज्ञानं यस्य तमज्ञातप्रमाणं, सर्वं प्रसिद्धं यस्य सर्वेषु वा प्रसिद्धं १९ ' योऽनन्त सर्वव्यापी भवति स कथमज्ञेयत्वविद्ध किं तर्हि सर्वैरपि ज्ञातो भवत्यन्यत्रानन्तरं(१) गरणहीनं सन्त ज्ञानिनगनेऽन्तालिङ्गि, तं च. २० ' यो नित्यज्ञान. स कथं गलो [प] लिङ्गशरीरोऽन्यत्र मलो मलनकं सुगन्धचूर्णगिति यावत्, तेनो- [प] लिङ्गं मात्रं निरन्तरं यस्य तत्तथाभूतं कृतमपन च. २१ ' आनीयते परिच्छिद्यते येन तदानेय ज्ञानं, नीयते परिच्छिद्य(२) ते यत्तत्तत् वस्तु । आनेयनेयाभ्यां निष्कान्तो निराणयेनेय इति । यो अजाज्योऽपि विद्वान् स कथं निराणयेनेयो ज्ञानज्ञेयाभ्यां निष्कान्तो भवत्यन्यत्राजाज्यमतीव वर्मलघुत्वं यस्य तत्तथा निश्चिते ज्ञानज्ञेये यस्य तं निराणयेनेयम् २२ ' यो मयस्य नामापि नाशयति स कथं नानामयानाभिषो-ऽन्यत्र मयविनाशकं, दूषकं नानादेवानामीशं च तं २३ ' यो जटाजूटधारी स कथं दूरस्थकेऽन्यत्र जटाजूटधारिणं कथं तीर्थहराणांकेऽ एव चालोत्पाटो भवति । तत् स्वयं जटा भवति । क = व्रजा, अ = विष्णु, ईश = शङ्करो, दूरस्थो(१) स्था) केतो(१) केजा) यस्य तं देवम् २४ ' य किल मागया विरुपो भवति नानारूप स दूतगतो विक्षितमस्तमे [कथं] भवति । अन्यत्र माया वचना विरुपं नष्टरूपं न विद्यते येना(१) मायाविरुपे यस्य तममायाविरुपम् । सर्वत्र विक्षिता गणधरादयः शिष्या येन तम्. २५ ' सर्वकालमगमनं समीपमगं विद्यते यस्य स कथं नित्यमदृश्योऽन्यत्र शोभनमगमं सिद्धान्तं विद्यते यस्य । नित्यं विनाशहीनं, जी एतस्येण वादृश्यम्

२५ महा-गुरुं पि णिभरं
 २६ परं पि सव्व-वच्छलं
 २७ पहुं पि णिप्परिग्गहं
 २८ सुहिं पि सुहु-दूरयं
 गिरक्खरं पि बुद्धयं
 २९ महेसरं पि णिद्धणं
 अरुवियं पि सुन्दरं
 ३० अ-सारियं पि वित्थयं

२५ अणिट्ठियं पि दुम्मरं ॥ २५
 २६ वरं पि णिच्च-केवलं ॥ २६
 २७ हरं^{२७} पि दुहु-णिग्गहं ॥ २७
 २८ अ-विग्गहं पि सूरयं ॥ २८
 २९ अमच्छरं पि कुद्धयं ॥ २९
 ३० गयं पि मुक्क-वन्धणं ॥ ३०
 ३१ अ-वट्ठियं पि दीहरं ॥ ३१
 ३२ थिरं पि णिच्च-पत्थयं^{३२} ॥ ३२
 (गाराचं^{२४})

॥ घत्ता ॥

अग्गंए थुणेंवि जिणिन्दहो भुवणाणन्दहो महियल्ले^{३०} जणुं-जोत्तु करेवि ।
 णासग्गाणिय-लोअणुं अणिमिस-जोअणुं थिय मणं अचल्लु ज्ञाणु धरेवि ॥ ३३

[१२]

वहुरुविणि-विज्जासत्त-मणु
 तो जाय वोह्ल वल्ले राहवहो

१ नियमत्थु सुणेप्पिणु दहवयणु ॥ १
 सुग्गीवहो हणुवहो जम्भवहो ॥ २

22 A हरिं 23 S °पथय. 24 Wanting in A 25 S A अग्गह् 26 This pāda is
 wanting in A 27 S जणुञ्जत्त. 28 S A °लोयणु 29 S °लोयणु 30 S अचले

२६ T अतिगुरुतो य स कथ निर्भरो लघुरन्यत्र महता गुरुमाराध्य, निर्भरमपरिग्रहम् २७ T योऽनि-
 ष्टितो मरणरहित स कथं दुःखमरणोऽन्यत्रानिष्टितं चल-समवसरणगामिन दूरमरण च २८ T य पर
 शत्रु म कथं सर्वेषा वत्सलोऽन्यत्र पर स्वामिन सर्ववत्सलं करुणासहितम् । २९ T यो वर परिणीतो स
 वधुयुक्तो भवति, त्रय केवल एकाकीत्यन्यत्र वर प्रगन्त, निल्यकेवलज्ञानिन च ३० प्रभु स कथ परिग्रह-
 रहितोऽन्यत्र प्रभु समर्थ लक्ष्मणपरिग्रह च ३१ T यो हर शत्रु स कथ दुष्टनिग्रहो भवति । दुष्टेभ्यो
 निग्रहो यस्येति । फिल हरोऽन्येषा निग्रह करोत्यन्यत्र हर ससारहर दुष्टनिग्रह कर्महन्तार च ३२ T य
 सुहृन्मित्र स कथमतीव हृदय-द्रस्थोऽन्यत्र सुखिन दूरगं मोक्षस्थ च ३३ T यो अविग्रह शरीररहित
 स कथ शूरश्वार(र)भटोऽन्यत्राविग्रह वैररहित, अनन्तविज्ञानवीर्यसौख्यदर्शनेषु शर्म ३४ T योऽमच्छर
 स कथ क्रुद्धोऽन्यत्रामत्सर, कु प्रथिवी तस्या वज्रो भूत च ३५ T महा + ईश्वरम् ३६ T यो गज स
 कथं वन्धरहितोऽत्र गज इति ग्रामगजस्य ग्रहण, 'नारण्यस्यान्यत्यर्थ' आदिपाठात् गत ज्ञानिनं कर्मवन्ध-
 नहीन च ३७ T यो न वृद्धिं गत स कथ दीघोऽन्यत्र नखकेशादिदृष्टिरहित, दीर्घ = न कुञ्जं वामनं च
 ३८ T योऽसारितोऽचलितो स कथ उद्धो(१)ऽयवा सार बल सारमस्य सजात सारितो, न सारितोऽसा-
 रितस्तमसारितमपि विज्ञेपस्थितमन्यत्र अ = आत्मा, स एव सार = असार, असारोऽस्य सजातो =
 असारित तं, विज्ञेपेण समवसरणे स्थितं च ३९ T य स्थिरोऽचल स कथ निल्य प्रस्थितश्चलितोऽन्यत्र
 स्थित गमनेच्छारहितं स च निल्य प्रार्थनीय वा, अथवा सर्वे निल्य प्रस्थिता आगन्तुका यस्य, हे सुजना
 एव, तदेव ज्ञातं मया श्रीचन्द्रमुनिनेति ४० T अष्टाङ्गं नमस्कार कृत्वा

[१२] १ T नियमसहित

सोमिच्छिहँ अङ्गहँ अङ्गयहँ
 तारहँ रम्भहँ भामण्डलहँ
 अवरहु मि असेसहुँ किङ्करहुँ
 अट्टाहिँ आहउ परिहरँवि
 5 आराहइ लगइ एक-मणु
 तं सुणैवि विहीसणु विण्णवइ
 तो ण वि हउँ ण वि तुहुँ ण वि य हरि वरि एहएँ अवसरँ णिहउ अरि ॥ ९

स-गवक्खहँ तह गवयहँ गयहँ ॥ ३
 कुमुयहँ कुन्दहँ णीलहँ णलहँ ॥ ४
 एक्केण वुत्तु 'लइ किं करहुँ ॥ ५
 थिउ सन्ति-जिणालैउ पइसरँवि ॥ ६
 'रावण-अक्खोहणि दहवयणु' ॥ ७
 'साहिय बहुरुविणि-विज्ज जइ ॥ ८
 'रावण-अक्खोहणि दहवयणु' ॥ ७
 'साहिय बहुरुविणि-विज्ज जइ ॥ ८
 'रावण-अक्खोहणि दहवयणु' ॥ ७
 'साहिय बहुरुविणि-विज्ज जइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

चोर-जार-अहि-वइरहुँ हुअवह-डमरहुँ जो अवहेरि करेइ णरु ।
 10 सो अइरेण विणासइ वसणु पयासइ मूल-तलुक्खउ जेम तरु ॥ १० ॥

[१३]

सक्केण वि किय अवहेरि चिरु
 तं खउ अण्णहँ आणियउ
 तं णिसुणैवि सीराउहु भगइ
 15 सो खत्तिय-कुल्ले कलङ्कु करइ
 तहँ किं पुच्छिज्जइ चारहडि^१
 जेत्तिउ दणु दुज्जउ संभवइ
 तं णिसुणैवि कण्टइयङ्गएँहि
 'तो खोहँ जाम ज्ञाण दँलिउ'

जं वड्ढाविउ वीसद्ध-सिरु ॥ १
 णित्तिहँ अहियारुं ण जाणियउ' ॥ २
 'जो रिउ पणमन्तउ आहणइ ॥ ३
 जो घइ पुणु तवसि ण परिहरइ ॥ ४
 वरि भिन्दइ णिय-सिरँ 'छार-हडि ॥ ५
 तेत्तिउ पहरन्तहुँ जसु भमइ' ॥ ६
 रहु-तणउ वुत्तु अङ्गङ्गएँहि ॥ ७
 मणु हरँवि कुमार-सेणु चलिउ ॥ ८

20

॥ घत्ता ॥

तं स-विमाणु स-वाहणु उक्खय-पहरणु णिँवि कुमारहँ तणउ वलु ।
 णिसियर-णयरु पडोल्लिउ थिउ पच्चोल्लिउ महण-काले णं उवहि-जलु ॥ ९

[१४]

जमकरण-लील-दरिसन्तएँहि^१ णयरब्भन्तरँ पइसन्तएँहि ॥ १
 25 कच्चण-क्वाउ-फोडन्तएँहि सिय-तार-हार-तोडन्तएँहि ॥ २

12 1 s तहं अंगगयहो. 2 s अट्टाहिण्हि 3 s °जिणालि 4 s रामण°. 5 A णिसुणेवि,
 s सुणिवि 6 s A अवसरि 7 A चारि 8 s अवरह 9 A सवणु 10 s जह व

13. 1 s वड्ढाविउ 2 A अहियाउ 3 After this Pāda marginally adds तहो
 लीह वि तिहुवणि को धरइ 4 A परि 5 s हणु 6 s पहरतहु, A पहरतह 7 s सु 8 s A °इअं°. 9 s खोहहं, A खोहउ 10 A चलिउ. 11 s कुमार

14. 1 s A °हि

२ T रावणरुपाणामेऽओहिणी

[१३] १ T छारहडिका २ T तावत् लोभयामि यावद् ध्यानाचलति (A's reading)

मणि-कोट्टिम-खोणि-खणन्तएँहिं
 अप्परिहूअउ सव्वु जणु
 तहिँ अवसँरे मम्भीसन्तु मउ
 थिउ अडेँवि साहणु अप्पणउ
 ८मन्दोअरि अन्तरेँ ताम थिय
 १०जं भावइ तं करन्तु १अणउ

‘अरेँ रावण ‘रक्खु’ भणन्तएँहिं ॥ ३
 साहारु ण वन्धइ तट्टु-मणु ॥ ४
 सण्णहेँवि दसासहेँ पासु गउ ॥ ५
 कियं-कालहेँ फेडिउं जम्पणउ ॥ ६
 ‘किं रावण-धोसण ण वि सुइय ॥ ७
 णन्दीसरु जाम ताम अभउ’ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

तं गिसुणेँवि दूमिय-मणु आँमेळिय-रणु मउ पर्यँडु अप्पणउ घरु ।
 पवियम्भिय अङ्गङ्गय मत्त महागय १४ १णाँ पइट्टा पउम-सरु ॥ ९

[१७]

णवर पवियम्भमाणेँहिं १ दोहिँ पि सुग्गीव-पुत्तेहिँ
 अण्णाय-वन्तेहिँ उगिण्ण-खग्गेहिँ रेक्कारिओ रावणो ॥ १
 तह वि अमणो २ ण खोहं गओ सव्व-रायाहिरायस्स
 णिक्कम्पमाणस्स तइलोकं-चक्केक्कवीरस्स संकारिणो ॥ २
 मलयगिरि-विञ्झ-सज्झत्थ-केलास-किक्किन्ध-सम्मये-
 हेमिन्दकीलञ्जणुज्जेन्त-मेरुहिँ धीरत्तणं धारिणो ॥ ३
 पवल-वहुरुविणी-दिव्वविज्जा-महाऊरिस-ज्झाणं-दावगि-
 जालावली-जाय-जज्जलमाणङ्ग-चम्मत्थिणो ॥ ४
 असुर-सुर-वन्दि १०-मुक्कञ्जणुम्मिस्सं-थोरंसु-धारा-
 पुसिज्जन्त-णीलीकय-च्छत्त-चिन्ध-प्पडायालिणो १२ ॥ ५
 धणय-जम-यन्दं-सूरगि-खन्देन्द-देवाइ-चूडामणिन्दु-
 प्पहा-वारि-धारा-समुद्धूय-पायारविन्दस्स से १४ ॥ ६

2 s रक्ख 3 s A अवसरि 4 A अप्पणउं, 5 s किं 6 s फेडमि. 7 A जंपणउ 8 This line is missing in s 9 A अतरि 10 This pāda is missing in s 11 A अणउ. 12 s A आमिं 13 s पइट्टु 14 This pāda is missing in A 15 s A णाइ
 15 1 s A ०हिं 2 s रेक्कारिउ, A रेकारिउ 3 s अमणे णहो 4 s ०तेल्लोक्कं 5 s हेमतकी-
 लंजणु जेत्तमेरुं 6 s धीरत्तणु, A धीरत्तणु 7 A द्वोरिणो 8 s A ०ज्झाणुं 9 A ०वम्मच्छिणो
 10 s ०वटिणु कुट्टं. 11 s A ०मिस्सं 12 s ०पडायालिणो 13 s ०इट्टं. 14 Missing in s

[१४] १ T राक्षम (s's reading) २ अनय
 [१५] १ T उंङ्गत्रो
 पउ० च० १५

गरुय-उवसग-विग्घे समारम्भिए [ए?]समुग्गिण्ण-
णाणाउहं रुद्ध-दट्टाहरं जक्ख-सेण्णं समुद्धाइयं ॥ ७
फरुस-वयणाहिं हक्कार-डक्कार-फेक्कार-हुद्धार-
भीसावणं पिच्छिऊणं पणट्टा कइन्दच्चया (?) ॥ ८

5

॥ वत्ता ॥

भग्गु कुमारहुं साहणु गलिय-पसाहणु पच्छलें लग्गउ जक्ख-वलु ।
(णं) णव-पाउसें अइ-मन्दहों तारा-चन्दहों मेह-समूहु णाँइँ स-जलु ॥ ९

[१६]

तहिँ अवसरें^१ जणिय महाहवेंण जं अद्धिउं पुज्जिउ राहवेंण ॥ १
१० तं जक्ख-सेण्णु सेण्णहों पवरु थिउ अग्गएँ खग्गुग्गिण्ण-करु ॥ २
'अरें जक्खहों 'रक्खहों किङ्करहों जिह सक्कहों तिह रणेँ उत्थरहों ॥ ३
वलु वुज्जहों जुज्जहों आहयणेँ पेक्खन्तु सुरासुर थियं^३ गयणेँ ॥ ४
ता^४ अच्छहुं रामण-रामहु मि समरङ्गणु अम्हहें तुम्हहुं मि' ॥ ५
तं णिसुणेँवि दहमुह-वक्खिएँहिं दोच्छिय सन्तिहरारक्खिएँहिं ॥ ६
१५ 'दुम्मणुसहों दुट्टहों दुम्मुहहों जं किय 'दोहाँइँ दहमुहहों ॥ ७
तं सो जिँ भणेसँइँ सच्चहु मि तुम्हहें हरि-वल-सुग्गीवहु मि' ॥ ८

॥ वत्ता ॥

तं णिसुणेँवि आसङ्किय माण-कलङ्किय जक्ख परिट्ठिय मुएँवि छलु ।
पुणु वि समुण्णय-खग्गा पच्छलें लग्गा जाव पत्त रिउ राम-वलु ॥ ९

20

[१७]

वलु 'गरहिउ रक्ख-पहाणएँहिं बहु-भूय-भविस्सय-जाणएँहिं ॥ १
'अहों णर-परमेसर दासरहि जइ तुहु मि 'अणित्ति एम करहि ॥ २
तो होसइ कहों परिहास पुणु णियमँत्थु हणन्तहुं कवणु गुणु' ॥ ३
तं सुणेँवि वुत्तु णारायणेण 'एँउ वोळ्ळिउ कवणेँ कारणेण ॥ ४
२५ अहों अहों जक्खहों 'दुच्चारियहों दुट्टहों चोरहों परयारियहों ॥ ५

15 S राख्व° 16 A °समुहु 17 S A णाइ

16. 1 S A तहिँ अवसरि 2 S अग्गिए, A अँधिउ 3 S गयणयणे 4 S तो अच्छहु 5 S °ह.

6 S °दोहाय 7 S ज, A जि 8 T has भलेसइ glossed with ज्ञास्यति

17. 1 S अणित्तिए ववहरहि 2 S °मत्तू, A °मत्थ 3 A चारहो

[१६] १ T रे रावणमृत्त्वा २ T द्रोह्यानि

[१७] १ T निदित . २ T दुश्चारित्रस्य (१).

साहेज्जउ देन्तहुँ कवणु गुणु
तं गरहिउ देवहुँ चित्तें थिउ
सच्चउ विरुयारउ दहवयणु

किं मइँ आरुहुँ सन्ति पुणु ॥ ६
'सच्चउ अम्हेहिँ अजुत्तु किउ ॥ ७
ण समप्पइ पर-कलत्त-रयणु' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एम भणेंवि स-विलक्खेंहिँ
अण्ण वार जइ आवहुँ

वुच्चइ जक्खेंहिँ 'हरि अवराहु एकु खमहि । 5
मुहु दरिसावहुँ तो स इँ^० भु एहिँ सच्च दमहिँ ॥९

*

[७२. दुसत्तरिमो संधि]

पुण वि पडीवएँहिँ
लङ्कहिँ गमणु किउ

जिणु जयकारेंवि विक्रम-सारेंहिँ ।
अङ्गङ्गय-पमुहे[हिँ] कुमारेंहिँ ॥

[१]

वेहाइछेंहिँ
पवर-विमाणेंहिँ
पढम-विसन्तेंहिँ
णाँइ विलासिणि

उक्खय-खगेंहिँ ।
धवल-धयगेंहिँ ॥ १
लङ्क णिहालिय ।
कुसुमोमालिय ॥ २ (जम्भेद्रिया)

जा णं वि लङ्गिज्जइ रवि-हएहिँ
जहिँ^० मत्त-महागय-मलहरेहिँ
जहिँ^० पहरें पहरें ओसरइ दूरु
जहिँ रामाणण-चन्देहिँ^० चन्दु
जहिँ उणहु ण णावइ अहिणवेण
जहिँ^० पाउसु करि-कर-सीयरेहिँ
मणि-अवणिहें तुरय-खुरेहिँ पंसु
मोत्तिय-छलेण णक्खत्त-चन्दु

'दहवत्त-तुरङ्गम-भय-गएहिँ ॥ ३
गज्जेवउ छण्डिउ जलहरेहिँ^० ॥ ४
वहु-सूरहुँ उवरि ण जाइ सूरु ॥ ५
पीडिज्जइ किज्जइ तेय-मन्दु ॥ ६
वहु-पुण्डरीय-किय-मण्डवेण ॥ ७
उट्टन्ति नइउ दाणोज्जरेहिँ ॥ ८
वोल्लइ रविकन्त-पहाएँ हंसु ॥ ९
वहु-चन्दकन्ति-कन्तीएँ चन्दु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

किं रवि रिक्खें ससि
णिप्पह वहु-पिसुण

अण्णं वि जे जियन्ति 'वावारें ।
अवसें जन्ति सयण-उत्तारें ॥ ११

4 S देवहु, A देवह 5 S A चित्ति 6 S सइ भुयंहि, A सइ भुएहि 7 S दमहो

1. 1 S जयकारिउ, A जयकारिवि 2 S लकह 3 S °पमुह, A °पमुह 4 S A णाइ 5 S
जभिद्रिया, A जम्भेद्रिया 6 S णउ 7 S दहवण्णतुरगयवरधएहि. 8 S A °हि 9 A सूरु 10 S
वोल्लइ 11 A °चदु 12 S °रक्खसेहि. 13 S सयल 14 S उच्छारें, A उच्छारे

[१] १ T गजिभि २ T यत्र ऋरि-सुंडा-दडेन नया जल गृहीत्वा सीत्कारे (१) पाउपो (SIC)
वर्षाकाल (SIC) वर्तते ३ T यत्र लकाया प्रविगति स मूर्धकान्त-प्रभया कृत्वा हन आदित्य ४ T
गतिरागति(१)व्यापारेण ५ T उच्छत्तारेण (१)

[२]

दिहु स-मोत्तिउ

णाइँ स-तारउ

वहु-मणि-कुड्डिमु

णाइँ विसदुँउ

चिन्ताविय 'केत्तहँ पयइँ देहुँ'

किर चन्दण-छड-मगेण जन्ति

किर फलिह-पहेण समुच्चलन्ति

मरगय-विहुम-मेइणि णिएवि

१० पेक्खेवि^० आलेक्खिम-सप्प-सयइँ

पँहँ लग्ग णीलमणि-सार-भूएँ

पुणु गय ससिकन्त-मणि-प्पहेण

गय सूरकन्ति-कुड्डिम-पहेण

रावण-पङ्गणु ।

सरय-णहङ्गणु ॥ १

वहु-रयणुज्जल ।

रयणायर-जल ॥ २

मण-खोहु दसासहँ किह करेहुँ ॥ ३

कदम-भइयएँ ण पईसरन्ति ॥ ४

आयासासङ्गएँ पुणु वलन्ति ॥ ५

पउ देन्ति ण 'किरणावलि' भणेवि ॥ ६

'खज्जेसहुँ' भणेवि ण दिन्ति पयइँ ॥ ७

चिन्तविउ 'पडेसहुँ अन्धकूएँ' ॥ ८

ओसरिय 'विलेसहुँ' किं दहेण ॥ ९

सङ्किय 'उज्जेसहुँ हुअवहेण' ॥ १०

॥ घत्ता ॥

दुक्ख-पइडु तहिँ

णाइँ^{१०} विरुद्ध-मण

'ससिकर-हणुवँङ्गय-तारा ।

जम-सणि-राहु-केउ-अङ्गारा ॥ ११

[३]

हंसइ व रिउ-घरु

विहुमयाहरु

छिवइ व मत्थएँ

'तुज्जु वि मज्जु वि

जं चन्दकन्त-सलिलाहिसित्तु

जं विहुम-मरगय-कन्तियाहिँ

जं इन्दणील-माला-मसीएँ

मुँह-वय-वन्धुरु ।

मोत्तिय-दन्तुरु ॥ १

मेरु-महीहरु ।

कवणु पईहरु ॥ २

अहिसेय-पणालु व फुसिय-चित्तु ॥ ३

थिउ गयणु व सुरधणु-पन्तियाहिँ ॥ ४

आलिहइ व दिस-भित्तीएँ तीएँ ॥ ५

२ १ S A णाइ. २ A समारउ ३ A विसदुउ ४ S A °हु ५ S कीरा° ६ S पेक्खवि, A पेक्खवि ७ S A पहि ८ A दुक्खे ९ S A °हणुवँ° १० S णाय, A णाइ
३. १ S उवहसइ सङ्गाराउ २ S सुहवँधुरु, A °वधुरु ३ S मत्थउ

[२] १ T द्रविष्या (प्या)मि विल्यामीत्यर्थ (१) २ T चद्रकिरणनामा वालिपुत्र.

[३] १ T मनोज्ञ .

जहिं पोमराय-मणि^१-गणु विहाइ
जहिं सूरकन्ति-खेइज्जमाणु
जहिं चन्दकन्ति-मणि-चन्दियाउ
'अच्चरिउ' कुमार चवन्ति एव
पेक्खेप्पिणु मुत्ताहल-णिहाय

तं दहवयण-घरु
वर-वायरणु जिह

पइंठ कइच्चय
णं पञ्चाणण
पवर-महाणइ-
रवि-किरणा इव

धावन्ति के वि ण करन्ति खेउ
वहु-फलह-सिला-भित्तिहिं भिडेवि
के वि इन्दणील-णीलेहिं जाय
जच्चन्ध-लील के वि दक्खवन्ति
के वि सूरकन्त-कन्तीहिं भिण्णं
के वि चन्दकन्त-कन्तोहिं जाय
के वि पउमराय-कर-णियर-तम्ब
के वि आलेक्खिम-कुञ्जरहो तट्ट

णिग्गय तहो घरहो
उअय-महीहरहो

थिउ अहिणव-सञ्जा-राउ णाँइ ॥ ६
गउ उत्तरएसहो णाँइ भाणु ॥ ७
णव-यन्द-बभासें वन्दियाउ ॥ ८
'वहु-चन्दीहयउ गयणु केम ॥ ९
'गिरि-णिञ्जर' भणेवि धुवन्ति पाय ॥ १० 5

॥ घत्ता ॥

ते कुमार मणि-तोरण-दारोहिं^{१०} ।
अ-बुह पइट्टा^१ पच्चाहारोहिं ॥ ११

[४]

भवणब्भन्तरे ।

गिरिवर-कन्दरे ॥ १

णिवह व सायरे ।

अत्थ-महीहरे ॥ २

खम्भेहिं घिडन्ति 'मेल्लन्ति वेउ ॥ ३

सरुहिर-सिर परियत्तन्ति के वि ॥ ४

'केहि मि थिय तुम्हइ एत्थु आय ॥ ५

उट्टन्ति पडन्ति सिलोहिं भिडन्ति ॥ ६

वहु सूरए मेलेवि^१ पुरे^२वइण्ण ॥ ७

मुह-यन्दहो उप्परि णाँइ आय ॥ ८

णं अहिणव-रण-लीलावलम्ब ॥ ९

के वि सीहहुं के वि पण्णयहुं णट्ट ॥ १०

॥ घत्ता ॥

पुणु वि पडीवा तेहिं जि वारोहिं ।

रवि-यर णाँइ अणेयागारोहिं ॥ ११

4 S जहि, A जेहि 5 S °पह तणु 6 S A णाइ. 7 A वदियाउ. 8 S चदियाउ. 9 S अच्चरिउ.
10 S दारि वि 11 A पच्चारोहि.

4. 1 S A पइट्ट 2 S इ. 3 S किह विबुह तुम्ह एत्थु हि जि आय 4 A तुम्हइ 5 S भिण्णु
6 S सूर व 7 S मिलेवि, A मिलिबि. 8 S °वइण्णु 9 S A णाइ, 10 S तट्ट.

२ T वदियाउ (A's reading) खडानि (१) ३ आभासें = प्रतिभासेन

[४] १ वेगेन मिलित (१) २ रुधिरयुक्त ३ धारका.,

[१]

मुणैवि विमालड ।
 सन्ति-जिणालड ॥ १
 विद्म स-णउरु ।
 उट्टन्तेउरु ॥ २
 कुरुल्लेहिं उन्दिन्दिर-धिव्वु णाट्टं ॥ ३
 णयणाहिं गीलुपल-काणणं व ॥ ४
 कल-वाणिहिं कल-कोट्टल-कुलं व ॥ ५
 पाणिहिं रत्तुप्पल-मरवरं व ॥ ६
 सिद्धिणैहिं सुवण्ण-घट्ट-मण्डलं व ॥ ७
 रोमावलि-णाट्टणि-परियणं व ॥ ८
 गुज्जेहिं मयण-मज्जण-हरं व ॥ ९
 चलणग्गेहिं पट्टव-काणणं व ॥ १०

॥ वचा ॥

कुञ्जर-जृह्ण व वर-लीलाहिं ।
 लण-ससि-विम्बु व सयल-कल्याहिं ॥ ११

[६]

वय-सय-चिण्णहो ।
 ज्ञाणुत्तिण्णहो ॥ १
 एव भणन्तु व ।
 हियेणं गुणन्तु व ॥ २
 पिय-वन्धणु फुट्ट-णिवन्धणेण ॥ ३
 लोअण-वियारु दप्पण-न्वणेण ॥ ४
 परिउम्बणु वंसाऊरणेण ॥ ५
 पिय-कण्ठ-ग्गहणु सुहावणेण ॥ ६

ते दहमुह-धरु
 गये परिभोमं
 तहिं पट्टन्तेहिं
 रामण-केरउ

चिहरेहिं सिद्धणित्त-ओलम्बु भाट्ट
 भउहेहिं अणङ्ग-धणुंहरु-लय व्व
 गुह-विम्बेहिं मयलउल्लण-वलं व
 कोमल-वाहेहिं लयाहरं व
 १० णक्खेहिं केअट्ट-सुट्टे-थलं व
 मोहग्गे वम्मह-साहणं व
 तिवलिहिं अणङ्ग-पुरि-ग्वाट्टयं व
 ऊरुहिं तरुण-केली-त्राणं व

हंस-उल्लु व गट्ट(ए)हिं
 चाव-वल्लु व गुणेहिं

‘अवि य णरिन्दहो
 काट्टं करेमहं
 वरि ‘अवभासहं’
 थिय रयणिहिं गिय-

सिर-णमणु जिणाहिंवे-वन्दणेण
 भउहा-विक्खेवणु’ णच्चणेण
 णासउड-फुरणु फुल्लणेण
 २० अहरणु ‘वीडी-ग्गणणेण

5. 1 P ५ गट्ट. 2 P ५ A °हि. 3 P ५ ‘उल्लु 4 P ५ A णाट्ट. 5 P ५ धणुल्लहवलं व. 6 A °पुर. 7 P ५ उट्टणहिं 8 P ५ °लीलाहिं. 9 P °कल्याहिं, 8 °कलेहिं, A यल्लारि.

6. 1 P ५ °चित्तहो, A °चिण्णहो 2 A °हियड. 3 A ण णरालिं व वणणेण 4 P ५ A °विकरो-वणे. 5 P ५ वीडा. 6 B सुहावणेण.

[६] १ रात्रणम्यान्त.पुरमिति जत्पट्टेउपूजानुरुक्तं स्थितम् 'A' प्रभो'र्यानादुत्थितस्य सुरतगुण-निकायं किं करिष्यामीति यत् तत्, कृत्यं तद् गुणधेयं जिनपूजायां स्थितवान् पुरम् > 'A' सुरते फिल राम(व)णस्य क्षिप्तोत्तमं कर्तव्यं तन्निप्रणामेन गुणितमित्यादि.

अहिसेय-कलस-कण्ठ-गाहेण
पिय-फाडणु छेवाकहणेण
कर-घायणु झिन्दुर्व-घायणेण

अवरुण्डणु थम्मभालिङ्गणेण ॥ ७
कुरुमालणु वीणा-वायणेण ॥ ८
सिकारु कुसुम-आखच्चणेण ॥ ९
कम-घाय असोय-प्परहणेण ॥ १०

कुङ्कुम-चन्दणइ
किं पुणु कुण्डलइ

॥ घत्ता ॥

सेअ-फुडिङ्ग वि गरुआ भौरा ।
कडय-मउड-कडिसुत्ता हौरा ॥ ११

[७]

काउ वि देविउ
दिन्ति सु-पेसणु
हल्ले ललियङ्गिए
जाइ जिणिन्दहो
हल्ले दालिमीए दालिमइ देहि
वहुफलिए सुअन्धइ बहुफलाइ
इन्दीवरीए इन्दीवराइ
कुसुमिए कुसुमेहि अच्चण करेहि
कप्पूरिए डहे कप्पूर-दालि
मुत्तावलि लहु मुत्तावलीउ
मरगए मरगय-वेइहे चडेवि
हल्ले लवलिए चन्दण-छडउ देहि
कुङ्कुमलेहिए लइ घुसिण-सिप्पि
किण्णरिए तुरिउ किण्णरउ लेहि
आयए लीलए अच्चन्ति जाव

काह वि णारिहिं ।
पेसणयारिहिं ॥ १
लइ णारङ्गइ ।
अच्चण-जोगइ ॥ २
विज्जउरिए विज्जउराइ लेहि ॥ ३
रत्तुप्पलीए रत्तुपलाइ ॥ ४
सयवत्तिए सयवत्तइ वराइ ॥ ५
मणिदीविए मणि-दीवउ धरेहि ॥ ६
विट्ठुमिए चडावहि विट्ठुमालि ॥ ७
संचूरवि छुहु रङ्गावलीउ ॥ ८
सम्मज्जणु करे कमलाइ लेवि ॥ ९
गन्धावलि गन्धु लएवि एहि ॥ १०
आलावणि आलावेहि किं पि ॥ ११
तिलयावलि तिलय-पयाइ देहि ॥ १२
आसण्णीहअ कुमार तावे ॥ १३

॥ घत्ता ॥

रावण-जुवइ-यणु
णं करि-करिणि-थइ

अङ्गङ्गय णिएवि आसङ्किउ ।
सीहालोयणे माण-कलङ्किउ ॥ १४

7 P झिंदुय, A रदुव° 8 P S A असोयप° 9 P omits, S सह 10 P S गरुअ 11 A भारड. 12 P हरा, A हारह

7. 1 P S A °हि 2 P S रत्तुप्पलाए 3 P S सयवत्तिय, A missing 4 P S °विहि
5 P S A °जुवइ° 6 P S °यउ 7 P S °थइ.

३ T छेद वल्लविपये न तु अन्यत्र ४ T कडुवण वीणाविपये ५ T करघातं गिदुकेन T पादप्रहार
अशोक्रवृक्षस्य न तु अन्यत्र ७ T या(१)किल कुङ्कुमचदनादिविलेपनभार न सहते तस्य कुण्डलमटकादिना
कि प्रयोजनम्

[८]

सन्ति-जिनालए
सन्ति-जिणेन्दहो
पासु दसासहो
गाँइ मइन्दहो

भामरि देप्पिणु ।
णवण करेप्पिणु ॥ १
ढुक कइद्धय
मत्त महागय ॥ २

उद्दालेवि हत्थहो अक्ख-सुत्तु
‘एहु काँइ राय आढत्तु डम्भु
तउ कवणु धीरु को वाऽहिमाणु
उप्पाइय लोयहुँ काँइ भन्ति
किं भाणुकण-इन्दइ-दुहेण
किं लक्खण-रामहुँ ओसरेवि
णिब्भच्छेवि एम कइद्धएहिं
आढत्तुँ वन्धहुँ धरहुँ लेहुँ

दससिरु सुग्गीव-सुएण वुत्तु ॥ ३
थिउ णिच्चलु णं पाहाण-खम्भु ॥ ४
सा कवण विज्ज इउ कवणु ज्ञाणु ॥ ५
पर-णारि लयन्तहो^३ कवण सन्ति ॥ ६
णउ वोळहि एक्केण वि मुहेण ॥ ७
थिउ सन्तिहँ भवणु पईसरेवि^४ ॥ ८
महएविउ वेहाविद्धएहिं ॥ ९
विच्छारहुँ^५ दारहुँ^५ हणहुँ^६ णेहुँ^६ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तहो अन्तेउरहो
णं णलिणी-वणहो

भउ उप्पणु भडेहिं भिडन्तेहिं ।
मत्त-गइन्देहिं सरु पइसन्तेहिं ॥ ११

[९]

का वि वरङ्गण
कुसुम-लया इव
सामल-देहिय
स-वलायावलि

कड्डिय थाणहो ।
वर^१-उज्जाणहो ॥ १
हार-पयासिरि ।
णं पाउस-सिरि ॥ २

कं वि कड्डिय णेउर-चलवलन्ति
क वि कड्डिय रसणा-दाम लेवि
क वि कड्डिय तिवलिउ दक्खवन्ति
क वि कड्डिय भज्जण-भयहो जन्ति
क वि कड्डिय थण-यलसुव्वहन्ति
क वि कड्डिय कर-कमलइँ धुणन्ति

सरवर-लच्छि व कमल-क्खलन्ति ॥ ३
सु-णिहि व्व भुअङ्गमु वसिकरेवि ॥ ४
कामाउरि-परिहउ पायडन्ति ॥ ५
किस-रोमावलि-खम्भुद्धरन्ति ॥ ६
लायण-वारि-पूरें व तरन्ति ॥ ७
छप्पय-रिञ्छोलि वँ मुच्छलन्ति(?) ॥ ८

८. 1 P S A णाइ 2 P S का वि 3 S °हु, A °हुं 4 P आढत्तहुँ, S आढत्तहु 5 P S °हु, A हो 6 P S णेहु, A लेहु 7 P A वणेहि, S वणेहि.

9 1 P S लय° 2 P S के 3 P S A कमलइ. 4 P उ, S यउ

[९] १ T वलाकापड्ढि २ सुनिधीव (? धिरिव). ३ T खातिका ४ T उद्वहन्ती

क वि कड्विय सव्वहुँ सरणु जन्ति
क वि कड्विय 'हा रावण' भणन्ति

मुत्तावल्लिं पि कण्ठएँ धरन्ति ॥ ९
दीहर-भुव-पञ्जरें पइसरन्ति ॥ १०

॥ वत्ता ॥

जाहँ गइन्द-ससि
ताहँ विवक्खियहुँ

वरहिण-हरिण-हंसं-सैयणिज्जा ।
अवसें सूर ण होन्ति सहेज्जा ॥ ११

[१०]

का वि णियम्बिणि
केस-विसन्थुल
उन्निभय-करयल
दइयहोँ अगगएँ

सिद्धिल-णियंसण ।
पगलिय-लोयण ॥ १
मुह-विच्छाइय ।
रुअइ वराइय ॥ २

'अहोँ दुहम-दाणव-दप्प-दलण
जम-महिस-सिद्ध-णिवली-णिहट्ट
परमेसर किं ओहट्ट-थामु
किं अण्णेँ साहिउ चन्दहासु
किं अण्णेँ वसिकिउ उद्ध-सोण्डु
किं अण्णेँ भग्गु कियन्त-राउ
किं अण्णेँ गिरि कइलासु देव
किं अण्णेँ णिज्जिउ सहसकिरणु

सुर-मउड-सिहामणि-लिहिय-चलण ॥ ३
सुरकरि-विसाण-मूरण-पहट्ट ॥ ४
किं रामणु अण्णहोँ कहोँ वि णामु ॥ ५
किं अण्णेँ धणयहोँ किउ विणासु ॥ ६
वण-हत्थि तिजगभूसणु पचण्डु ॥ ७
किं अण्णहोँ वसेँ सुग्गीउ जाउ ॥ ८
हेलएँ जेँ तुलिउ झिन्दुवउ जेव ॥ ९
फेडिउ णलकुच्चर-सक्क-फुरणु ॥ १०

॥ वत्ता ॥

किं अण्णहोँ जि भुव
जइ तुहुँ दहवयणु

वरुण-णराहिव-धरण-समत्था ।
तो किं अम्हहुँ एह अवत्था' ॥ ११

[११]

तो वि ण ज्ञाणहोँ
अचलुँ णिरारिउ
जोगि^४ व सिद्धिहोँ
तिह तग्गय-मणु

टालिउ राणउ ।
मेरु-समाणउ ॥ १
रामु व भज्जहोँ ।
थिउ पहु विज्जहोँ ॥ २

5 P °वल्लिं, S °वल्लिं 6 P सगइंद°, S सगयद°. 7 'हरिण°' wanting in A 8 P S H

10. 1 S अइव 2 A °चभवण. 3 S अण्णहो. 4 P S A °भूसण 5 A किदुवउ

11. 1 A राणउ. 2 A अतुल 3 A °समाणउ. 4 P जोगि

५ वान्धवा ६ विवेकिनो यथा राम(व)णे नामृत सहाय

[१०] १ आघात . २ बलम्
पउ० च० १६

संखुहिउ ण लङ्गाहिवहोँ चित्तु
मन्दोयरि कड्डिय मच्छरेण
हरिणि व सीहेण विरुद्धएण
उरगिन्दि व गरुड-विहङ्गमेण
5 परमेसरि तो वि ण भयहोँ जाइ
'रे रे जं किउ महु केस-गाहु
तं पाव फलेसइ परएँ पावु
तं णिसुणोँवि किय-कडमदणेण

तं अङ्गउ हुअवहु जिह पलित्तु ॥ ३
कप्पहुम-साह व कुञ्जरेण ॥ ४
ससि-पडिम व राहुं कुद्धएण ॥ ५
लोगाणि व पवर-जिणागमेण ॥ ६
णिकम्प परिड्डिय धरणि णाई ॥ ७
अण्णु वि महएविहुँ हियय-डाहु ॥ ८
दहगीउ गिलेसइ वलु जेँ सावु' ॥ ९
णिव्वभच्छिय तारा-णन्दणेण ॥ १०

॥ घत्ता ॥

10 'काइँ^० विहाणएँण
सहुँ अन्तेउर्रेण

अज्जु जि पिक्खन्तहोँ दहगीवहोँ ।
पइँ महएवि करमि सुगगीवहोँ' ॥ ११

[१२]

एम भणेप्पिणु
'रक्खु दसाणण
15 हउँ सो अङ्गउ
एँह मन्दोयरि

रिउ रेकारिउ ।
मइँ पच्चारिउ ॥ १
तुहुँ लङ्केसरु ।
एँहु सो अवसरु' ॥ २

जं एव वि खोहहोँ ण गउ राउ
आइय अन्धारउ जउ करन्ति
थिय अग्गएँ सिद्धहोँ सिद्धि जेवँ
20 'किं दिज्जउ वसुमइ वसिकरेवि
किं दिज्जउ फणि-मणि-रयणु लेवि
किं दिज्जउ सुरणँन्दिणि दुहेवि
किं दिज्जउ वन्धेवि अमर-राउ
किं दिज्जउ धणयहोँ तणिय रिद्धि

तं विज्जहोँ आसण-कम्पु जाउ ॥ ३
वहुरुविणि वहु-रूवँइँ धरन्ति ॥ ४
'किं पेसणु पहु' पभणन्ति एवँ ॥ ५
किं दिज्जउ दिस-करि-थडु(?) धरेवि ॥ ६
किं दिज्जउ मन्दरु दरमलेवि ॥ ७
किं दिज्जउ जमु णियलेँहिँ छुहेवि ॥ ८
किं कुसुमसराउहु रइ-सहाउ ॥ ९
किं दिज्जउ 'सव्वोवाय-सिद्धि ॥ १०

25

॥ घत्ता ॥

सहुँ देवासुरेँहिँ
णवर णराहिवइ

किं तइलोकु वि सेव करावमि ।
एक्कहोँ चक्कवइँहोँ ण पहावमि' ॥ ११

5 P marginally records ज खुहिउ

6 P S A काइ

12 1 P S A मह 2 P S A °रुवइ 3 P S °करे, A °रि 4 P S °णंदणु, A °णिदिणि.

[११] १ सर्व्वम् २ प्रभाते.

[१२] १ सर्व्वोपायसिद्धि . २ चक्कवतिस्स न प्रभवामीति.

[१३]

तं गिसुणेप्पिणु
पुण्ण-मणोरहु
जा सन्तिहरहो
मुक्क कुमारें
अङ्गङ्गय णट्ट पइट्ट सेणें
'परमेसर सुर-सन्तावणासु
उप्पण्ण विज्ज गिण्वूहु धीरुं
णउ जाणहुं होसइ एउ केव
तं वयणु सुणेवि कुमारु कुइउ
'णासहो णासहो जइ णाहि सत्ति
कहो तणिय विज्ज कहो तणिय सत्ति
मई दसरह-णन्दणें कियं-पइज्जे

सुर-सन्तावणु ।
उट्ठिउ रावणु ॥ १
देइ ति-भामरि ।
सा मन्दोवरि ॥ २
सम्पत्त वत्त 'काकुत्थ-कण्णें ॥ ३
परिपुण्ण मणोरह रामणासु ॥ ४
एवहिं गिचिन्तु तियसहु मि चीरुं ॥ ५
लइ सीयहें छण्डहि तत्ति देव' ॥ ६
खय-कालें दिवायरु णाई उइउ ॥ ७
हउं लक्खणु एक्कु करेमि तत्ति ॥ ८
कल्लए पेक्खेसहो तहो असन्ति ॥ ९
वित्थिहें अत्थाहें अलङ्घणिज्जे ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तोणा-जुयल-जलें
बुड्डेवउ खलेंण

धणु-वेला-कल्लोल-रउदे ।
महु केरए णाराय-समुदे ॥ ११

[१४]

ताव गिसायर-
णं स-कलत्तउ
पेक्खइ दुम्मणु
णियं-अन्तेउरु
तहो मज्जे महा-सिरि-माणणेण
छुडु छुडु आमेल्लिय अङ्गएण
णं कुत्तवसि-वाणि जिणागमेण
णं दिणयर-सोह वराहवेण
णं ससहर-पडिम महग्गहेण

णाहु स-विज्जउ ।
सुरवइ विज्जउ ॥ १
तोडिय-हारउ ।
णहु व अ-तारउ ॥ २
मन्दोयरि दिट्ट दसाणणेण ॥ ३
णं कमलिणि मत्त-महागएण ॥ ४
णं णाइणि गरुड-विहङ्गमेण ॥ ५
णं पवर-महाडइ हुअवहेण ॥ ६
मम्भीसिय विज्जा-सङ्गहेण ॥ ७

13. 1 P S A णिक्खुडु°. 2 P S °वीरु 3 P णिचित्तु 4 P S A तियसहु 5 S वीरु. 6 P S छड्डु सीयहे (S° हि) 7 A सति 8 P S A मइ 9 P S A किए 10 A वित्थहि 11 P corrects marginally as अच्चाहे, S अच्चाहे, A अत्थाहि 12 P जुअलु, A °जयलु 13 P S °रउदे 14 P S °समुदे

14. 1 P A तोडिउ. 2 P S A णिअ°.

[१३] १ रामचंद्रबले कर्णेन वा.

‘एक्रेलउ जेहउ केण सहिउ
किउ जेहि^३ गियम्बिणि एउ कम्मु
जइ मणुस होन्ति तो^४ काई एत्थु

अणु वि बहुरुविणि-विज्ज-सहिउ ॥ ८
लइ वट्टइ तहों एत्तउउ जम्मु ॥ ९
दुक्कन्ति परिट्टिउ गियमें जेत्यु ॥ १०
॥ वत्ता ॥

5 जेण मरट्टिँण
कल्लएँ तासु धणें

सीसैं तुहारएँ लाइय हत्थाँ ।
पेक्खु काई दक्खवमि अवत्था’ ॥ ११
[१५]

एम भणेप्पिणु
जय-जय-सदें
10 चलिउ सउण्णउ
णं रयणायरु

दणु-विदावणु ।
सरहसु रावणु ॥ १
उट्टिय-कलयलु ।
परिवट्टिय-जलु ॥ २

णवर पहुणो चलन्तस्स दिण्णा महाणन्द-भेरी सउन्दा दडी दहुरा ।
पडह टिविला य^२ ढड्डहरी झल्लरी भम्भ भम्मीस कंसाल-कोलाहला ॥ ३
सुरव तिरिडिक्किया काहला ढड्डिया^४ सङ्ख धुम्मुक ढका हुडुका वरा ।
15 तुणव पणवेक्कपाणि त्तिँ एवं च सिज्जेवि (?) सेसा उणा(?) केण ते बुज्झिया
कहि मि चलियं चलन्तेण अन्तेउरं थोर-मुत्तावली-हार-केऊर-कञ्ची-कलावेहिँ
गुप्पन्तयं ।

वहल-सिरिखण्ड-कप्पूर कत्थूरिया-कुङ्कुमुप्पील-कालागरुम्मिस्स-चिक्खिल-
पन्थेसु खुप्पन्तयं ॥ ५

20 धवल-धय-तोरण-च्छत्त-चिन्ध-प्पडायवली-मण्डवन्धन्तरालिन्द -णीलन्धयारे
विसूरन्तयं ।

मुहल-चल-णेउरुग्घाय-झङ्कार-वाहित्त^{१०}-मज्जाणुलगन्त-हंसेहिँ चुक्कन्त-हेलागई-
णिग्गमं ॥ ६

फलिह-मणि-कुट्टिमे भूमि-भाए वियट्टेहिँ^{११} छाया-छलेणं^{१२} (?) चुम्बिज्जमाणाणणं
25 णवँर पिसुणो जणो तं च मा पेच्छहीमीएँ^{१४} सङ्गाएँ पायम्बुएहिँ व छायन्तयं
गलिय-मणि-मेहला-दाम-सङ्घायमणोण्ण-लँज्जाहिमाणेण मुच्चन्तयं ।
कसण-मणि-खोणि-छायाहिँ रञ्जिज्जमाणं^{१०} व दट्टुण वेवन्तयं । ८

3 P S A जेहि 4 A ते 5 P A हत्थ. 6 P A अवत्थ

15. 1 P S उट्टिउ 2 P S पट्टट्टरी. 3 P S तिडिक्किया 4 P S A ढड्डिया 5 S त्त, A omits 6 P S सिज्जेवि 7 P S A °मप्पील°, Svayambhūchchandas °मुप्पील°. 8 P S A °रुम्मिस्स°, Svay. oh °रुम्मीस°. 9 P S अंकार, A °झंकार° 10 P S °वाहित्तयं. 11 P S A °हि°. 12 The text here is metrically defective by one mora 13 A णवरि. 14 P S ए संका पायगहि वं च्छायत्तयं 15 P S °भज्जा°. 16 Wanting in P S

कहि मि णव-पाडली-पुप्फ-गन्धेण आयद्धिया छप्पया ।
 णवर मुह-पाणि-पायग-रत्तुप्पलामोय-मोहं गया ॥ ९
 तहि मि चल-चामरुच्छोह-विच्छेव-छिप्पन्त-मुच्छाविया ।
 सुरहि-सुहं-गन्धवाएण मन्दाणुसीएण संजीविया ॥ १०

॥ घत्ता ॥

एम पइहु घरु जय-जय-सहें इन्द-विमद्दणु ।
 वसुमइ वसिकरेंवि णाँइ स यं भु व णाहिव-णन्दणु ॥ ११

✽

[७३. तिसत्तरिमो संधि]

तिहुवण-डामर-वीरु मयरद्धय-सर-सण्णिह-णयणु ।
 मङ्गल-तूर-रवेण मज्जाणउ पइसइ दहवयणु ॥

[१]

पइसेवि भवणु भिच्चं अवयज्जिय णिय-णिय-णिलयहो तुरियं विसज्जिय ॥ १
 कइवय-सेवाहिं सहिउं दहम्मुहु गउ मज्जण-भवणहो सवडम्मुहु ॥ २
 ओसारियइ असेसाहरणइ दुद्धिणे दिणयरेण णं किरणइ ॥ ३
 लइय पोत्ति रिसहेण दया इव गुञ्जावरणसील माया इव ॥ ४
 सण्ह-सुत्त वायरण-कहा इव पल्लव-गहियं महा-वणराइ व ॥ ५
 वर-चारङ्गणेहिं सव्वङ्गिउ विविहाभङ्गणेहिं अब्भङ्गिउ ॥ ६
 गउ आयाम-भूमि रहसाहिउ तणु-संवाहणेहिं संवाहिउ ॥ ७
 ताव विमदिउ जाव पँहगउ सव्वङ्गिउ पासेउ वल्लगउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

छुडु उगयइं सरीरें पासेय-पुडिङ्गइं णिम्लइं ।
 णं तुडेण संमेण कहेवि दिण्णइं मुत्ताहलइं ॥ ९

17 P S A °चमरु°. 18 P A °सुह°, wanting in S 19 P S A णाह

1 I P S मज्जण. 2 A पइ 3 P S भिच्चु 4 A तुरय. 5 P S सहियउ दहसुहु 6 P S हुं
 7 P उसारियइ, marginally collected as उत्ता°, S उवारियइ, A उसारियइं. 8 P S
 °गहिर

[१] १ अवलोकिता २ मेघावृते दिने ३ T यथा रिषमेण दया गृहीता. ४ T गुह्य हृदयस्थकार्यं
 जघन च, आवरण तस्याच्छादनशीलाम् ५ माता ६ प्रमातो भवित ७ समुद्रेण.

[२]

पुणु वारङ्गणेहिँ उव्वट्टिउ
 गउ चामियर-दोणि परमेसरु
 वारिहेँ मज्जेँ पइट्टु व कुञ्जरु
 5 सरसिहेँ मज्जेँ व पडिमा-ससहरु
 गन्धामलएँहिँ चिहुर पसाहिय
 पुणु गउ णवण-वीट्टु आणन्देँ
 फलिह-सिला-मणियहेँ (?) थिउ छज्जइ
 पण्डु-सिलहेँ व काम-करि-केसरि

णं करि करिणि-करेहिँ¹ विहट्टिउ ॥ १
 णं कणियारि-कुसुम-²थलि महुअरु ॥ २
 दप्पण-सिरिहेँ व छया-णरवरु ॥ ३
 पुव्व-दिसहेँ व तरुण-दिवायरु ॥ ४
 वइरि व भञ्जेवि वन्धेवि साहिय ॥ ५
 णड-कइ-वन्दिण-जय-जय-सहेँ ॥ ६
 हिम-सिहरोल्लिँ णं घणु गज्जइ ॥ ७
 वहुल-पक्खु^७ पुण्णिवहेँ व उप्परि ॥ ८

10

॥ वत्ता ॥

मङ्गल-कलस-कराउ दुक्कउ णारिउ लङ्केसरहेँ ।
 णावइ सयल-दिसाउ उण्णय-मेहाउ महीहरहेँ ॥ ९

[३]

णवर पहुणोऽहिसेयस्स पारम्भए हेम-कुम्भेहिँ उक्खित्त-सारम्भए ॥ १
 15 पवर-अहिसेय-तूरं समुप्फालियं वद्ध-कच्छेहिँ मल्लेँहिँ ओरालियं ॥ २
 कहि मि सु-सरेहिँ गायणेँहिँ झङ्कारियं मङ्गलं वन्दि-लोएण उच्चारियं ॥ ३
 कहि मि वर-वंस-त्रीणा-पवीणा णरा गन्ति गन्धव्व विज्जाहरा किण्णरा ॥ ४
 कहि मि ^१कलहोय-माणिक-सिप्पी-विहत्येण

संकुन्दिओ(?)फन्देँ(?)-वन्देण आलिन्देँओ ॥ ५

20 कहि मि सिरिखण्ड-क^५पूर-कत्थूरिया-कुङ्कुमुप्पङ्क-पङ्केण एकेकमो आँहओ ॥ ६
 कहि मि अहिसेय-सिङ्गम्बु^{१०}-धारा-णिवाय-प्पवाहेण दूराहिँ एकेकमो ^{१२}सिञ्चिओ७
 कहि मि णड-छत्त-फम्फाव-वन्देहिँ सोहग-सूराणं^{१३} णामावलि से^{१४} समुच्चारिया ८

2. 1 P S A °हि 2 P S A चामीयर°. 3 S णरेसरु 4 P मणइहे, S मणइहि, A मणियहि
 5 P S °सिलहि, A सिलाह काम° 6 P °पक्ख, S °पक्खे. 7 A °कलसु वराउ

3. 1 P S पहुणे. 2 A विकारियं 3 P S संकुन्दिउ, A सकुद्धिउ, Svayambhūchandas
 संकुद्धिओ 4 P फेद्विदेण, S फेद्वेदेण, Svay ch वेद्विन्देण. 5 P S षाणदउ, A
 षाणदिउ. 6 P सिरिखड°, S सिरिखड° connected to सिरिखड°. 7 Wanting in P S.
 8 P S याउ, A याहउ. 9 P S सिगवु, A सुसुगंध° 10 Wanting in A. 11 P S वाहेण.
 12 P S A सिञ्चिउ. 13 P S, Svay ch °सूराइ. 14 P S सेस.

[२] १ कटिनी. २ सरोवरमध्ये, T सरोवरनद्यादिभिः. ३ सर्वज्ञः.

[३] १ सुवर्णम्.

॥ घत्ता ॥

एवं जणुल्लोवेण पल्हत्थिय कलस णरेसरहो ।
सुर-जय-जय-सद्देण अहिसेय-समएँ जिह जिणवरहो ॥ ९

[४]

क वि^१ अहिसिञ्चइ कञ्चण-कुम्भे लच्छि पुरन्दरं व विमलम्भे ॥ १ 5
क वि रुप्पिम-कलसें जल-गाहें पुण्णिवं सँसिमिर्वं जोण्हा-वाहें ॥ २
क वि मरगय-कलसेण उर-त्थलु णलिणि व णलिण-उडेण महीयलु ॥ ३
क वि कुङ्कुम-कलसेणायम्बे सञ्ज व दिवसु दिवायर-विम्बे ॥ ४
आयएँ लीलएँ जयसिरि-माणणु जय-जय-सदेँ ण्हाउ दसाणणु ॥ ५
विमल-सरीरु जाउ चक्केसरु णं उप्पण्ण-णाणु तित्थङ्करु ॥ ६ 10
दिण्णइँ तणु-लुहणाइँ सु-सण्हइँ खल-कुट्टणि-वयणा इव लण्हइँ ॥ ७
मेळिय पोत्ति जिणेण व दुग्गइँ मोआविय केसाइँ जलुग्गइँ ॥ ८
लेप्पिणु सेयम्बरु वि^{११} सहावइ (?) वेढिउ सीसु वइरि-पुरु णावइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सोहइ धवल-चडेण आवेढिउँ दससिर-सिरु पवरु ।
णं सुर-सरि-वाहेण कइलासहो तणउ तुङ्ग-सिहरु ॥ १० 18

[५]

गम्पिणु देव-भवणु जिणु वन्देवि वार-वार अप्पाणउँ णिन्देवि ॥ १
भोयण-भूमि पइट्टु पहाणउँ कञ्चण-वीढेँ परिट्टिउँ राणउँ ॥ २
जवणि भमाडिय असइ व धुत्तेहिँ अवुह-मइ व वायरणहो सुत्तेहिँ ॥ ३ 20
गङ्ग व सयर-सुएँहिँ गिय-णासेहिँ महकइ-कित्ति व सीस-सहासेहिँ ॥ ४
दिण्णइँ रुप्पिम-कञ्चण-थालइँ णं सुपुरिस-चित्तइँ व विसालइँ ॥ ५
वित्थारिउ परियलु पहु केरउ जैरढाइच्चु व कन्ति-जणेरउ ॥ ६
सरवरो व्व सयवत्त-विसट्टउ पट्टण-पइसारु व बहु-वट्टउ ॥ ७
उवहि व सिप्पि-सङ्ग-सन्दोहउ वर-जुवइ-यणु व कञ्ची-सोहउ ॥ ८ 25

15 P S °णुण्हावेण पण्हत्थिय

4. 1 S हि. 2 P A पुरदरव्व, S पुरदरे व 3 P पुण्णिम°, wanting in S 4 S ससिर्वि. 5 P वित्त, S वत्त 6 P S A णलिणित्ठेण 7 P S A विमलु 8 P S A उप्पण्णु 9 A णाउ. 10 P S दुग्गइ, A दुयइ 11 P S स विहावइ 12 P आवेढिउ. 13 A तणउं.

5. 1 A उं. 2 A गंयु तसरसुएँहिँ. 3 P °मासेहि 4 A कती°

२ T आनन्द-राले(१)ण

[५] १ जिवणार (T जे°) मंदिरे (२) २ T तारुण्यादिले(१३)व धीरिजनेक (१) .

॥ घत्ता ॥

दिज्जइ अमियाहारु बहु-खण्ड-पयारु सुहावणउ ।
गावइ भरहु विसालु अण्णण-महारस-दावणउ ॥ ९

[६]

५ धूमवत्ति परिपिण्वि पहाणउ भुज्जेवि अण्ण-चासें थिउ राणउ ॥ १
मलयरुहेण पसाहिउ अप्पउ गन्धु लयन्तु गाइ थिउ छप्पउ ॥ २
पुणु तम्बोलु दिण्णु चउरङ्गउ गड-वेक्खणउ णाइ बहु-रङ्गउ ॥ ३
पुणु दिण्णइ^७ अम्बरइ^८ अमोलइ^९ जिण-वयणाइ^{१०} व अम्बरहुलइ^{११} ॥ ४
वेङ्गि^{१२}-विसय-मिहुणइ^{१३} व सुअन्धइ^{१४} अहोरत्ताइ^{१५} व घडिया-वन्धइ^{१६} ॥ ५
१० मुद्धङ्गण-चित्ताइ^{१७} व मउअइ^{१८} दुट्ठकुर-दाणाइ^{१९} व छउअइ^{२०} ॥ ६
दीहइ^{२१} दुज्जण-दुव्वयणाइ^{२२} व पिहुलइ^{२३} गङ्गा-णइ-पुलिणाइ^{२४} व ॥ ७
विरहियइ^{२५} व बहु-कामावत्थइ^{२६} वन्दिण-जण-वन्दइ^{२७} व णियत्थइ^{२८} ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लइयइ आहरणाइ^{२९} विप्फुरिय-समुज्जल-मणि-गणइ^{३०} ।
१५ कसण-सरीरे थियाइ^{३१} णं बहुल-पक्खे तारायणइ^{३२} ॥ ९

[७]

तओ तिलोयभूसणो सुरिन्द-दन्ति-दूसणो ॥ १
पसाहो^{३३} गइन्दओ^{३४} णिवा^{३५}रियालि-विन्दओ^{३६} ॥ २
पलम्ब-घण्ट-जोत्तओ^{३७} वहन्त-दाण-सोत्तओ^{३८} ॥ ३
२० पसण-कण्ण-चामरो णिमीलियच्छि-उकरो ॥ ४
मणोज्ज-गेज्ज-कण्ठओ^{३९} भिसी-णिहट्ट-पट्टओ^{४०} ॥ ५

5 A सुटावणउ 6 P A °दावणउ.

6 1 P हाणउं, A पहाणउं. 2 P राणउं. 3 A अप्पउ 4 P S लणु 5 P °उ 6 P S A
णाह 7 P S A °इ. 8 P आसरहुलइं, S आभरहुलइं, A अम्बरहुलइं. 9 P S विंनि°, A वेणि°
10 P S A वि. 11 P मुद्धइं गण, S मुद्धइ गण, A सु° 12 P S दुट्ठकुर°. 13 P °दाणइ, S
°दाणइ, A °दाणाइ. 14 S °विंदइ.

7. 1 P S A °उ. 2 P गइंदउं, S गयंदओ, A गइंदउ. 3 P S णिवालि°. 4 P S °उ, A °उ.
5 P S °कठउ. A °घंटउ.

[६] १ कर्पूरगदमिश्रितं पानीय पीत्वा. २ उभयत्र श्लाघ्यानि ३ T नानाहंसशिखाद्युपयुक्तानि,
प्रनिद्रगम्यत्र ४ परिधानानि द्रव्यरहितानि च

[७] १ त्रिजगद्गणे गते(?) २ T निर्मूलिनाक्षिसमूह

विसाल-उद्ध-चिन्धओ^१
गिरि व्व तुङ्ग-गतओ^१
घणो व्व भूरि-णीसणो
मणो व्व लोल-वेयओ^१

पहु व्व पट्ट-वन्धओ ॥ ६
महण्णउ व्व मत्तओ^१ ॥ ७
जमो व्व सुट्ठु भीसणो ॥ ८
रवि व्व उग्ग-तेयओ^१ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सच्चाहरणु णरिन्दु
उण्णाय-मेह-णिसण्णु

तहिँ कसण-महग्गएँ चडिउ किह ।
लक्खिज्जइ विज्जु-विलासु जिह ॥ १०

[८]

जय-जय-सद्धेँ सत्तु-खयाणणु
वहुरुविणि-रूवइँ^१ भावन्तउ
खणें चन्दिमँ खणें मेहन्धारउ
खणें णिहाय-तडि-वडण-वमालिउँ
खणें पाउसु हेमन्तु उण्णालउँ
खणें महि-कम्पु महीहर-हल्लिउ
तं तेहउ णिएवि ससि-मुहियएँ
'एउ महन्तु काइँ अच्चरियँउ

सीयहें पासु पयट्ठु दसाणणु ॥ १
खणें वासरु खणें णिसि दावन्तउ ॥ २
खणें वाओलि-धूलि-जलधारउ ॥ ३
खणें गय-वग्घ-सिद्ध-ओरालिउ ॥ ४
खणें गयण-यलु सयलुँ सम-जालउ ॥ ५
खणें रयणायर-सलिलुच्छल्लिउ ॥ ६
तियउ पपुच्छिय जणयहों दुहियँएँ ॥ ७
किं केण वि जगु उवसद्धरियउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पभणइ तियडाएवि
आवइ लगउ एहुँ

'वहुरुविणि-रूवाविद्ध-तणु ।
तउ वयणु णिहालउ दहवयणु' ॥ ९

[९]

तं णिसुणेवि महासइ कम्पिय
'माएँ ण जाणहुँ काइँ करेसइ
ताव सुरिन्द-विन्द-कन्दावणु
सीयहें पासु पट्टुक्किउ सरहसु
णावइ दीह-समासु विहत्तिहें
वोळ्ळाविय 'वोळ्ळहि परमेसरि

वाहु भरन्ति चक्खु दँर जम्पिय ॥ १
सीलु महारउ किं मइलेसइ' ॥ २
कण्ठाहरण-विविह-कं-दावणु ॥ ३
णावइ वम्महसरहें पुणव्वसु ॥ ४
णावइ छन्दु देव-गाइत्तिहें ॥ ५
होमि ण होमि दसाणण-केसरि ॥ ६

8, 1 P S A °इ. 2 P S चडिणे 3 A °उं. 4 P °उ 5 P S सयल. 6 P S °कट्टु. 7 P S A °अए 8 P अच्छदिउं, S अच्छरियउ. 9 A पहु

9. 1 A चक्खुं. 2 A मइं लेसइ. 3 P S °कपावणु 4 A °णु. 5 P °गायंनिहे, A जेव गायं-तिहे.

[९] १ ईपत २ दग्ग-मस्तक-दर्शक ३ अनगसराया चक्खवर्ति पुनर्वसु.
पउ० च० १७

सुअउ ण सुअउ महारउ ढड्सु
एवहिं^० किं करन्ति ते हरि-वल

दिहु ण दिहु विउव्वण-साहसु ॥ ७
णल-सुग्गीव-णील-भामण्डल ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्ण वि^० जे जे दुहु
एवहिं^० कहिं^० णासन्ति

ते ते महु सव्व समावडिय ।
सारङ्ग व सीहहोँ कम्म^{१०} पडिय ॥ ९

[१०]

सीमन्तिणि मयरहरुत्तिण्णहोँ
रामु तुहारउ जस-पहोँ लायमि
जो विसल्लु किउ कह वि विसल्लएँ
10 जीवियाँस तहुँ केरी-छण्डहि
स-रयण स-णिहि पिहिमि परिपालहि
पेक्खु समुद्दी व सरि सरवर
अह एत्तडउ कालु जं चुक्की
जइ वि तिलोत्तिम रम्भाएवी
15 वार-वार तें तइँ अब्भत्थमि
तुहुँ जें एक महएविय बुच्चहि

लुहमि लीहं कइद्धय-सेण्णहोँ ॥ १
इन्दइ कुम्भकण्णु मेल्लावमि ॥ २
सो वि भिडन्तु ण चुक्कइ कल्लएँ ॥ ३
चडु विमाणेँ अप्पाणउँ मण्डहि ॥ ४
जाहुँ मेरु जिणहरइँ^० णिहालहि ॥ ५
णन्दण-वणइँ मह-हुम महिहर ॥ ६
तं महु वय-चारहडि गुरुक्की ॥ ७
जा ण समिच्छइ सा ण लएवी ॥ ८
दय करि अन्तेउरु अवहत्थमि ॥ ९
चामर-गाहिणीहिँ मा मुच्चहि ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सुरवर सेव करन्तु
लक्खण-रामहुँ तत्ति

घण छडउ दिन्तु पुरेँ पइसरहि ।
दुव्वुद्धि व दूरें परिहरहि' ॥ ११

[११]

जाणेँवि^१ दुहु-कम्म पारम्भिउ
चिन्तिउ दसरह-णन्दण-पत्तिएँ
जासु इम इ एवहुँइँ^२ चिन्धइँ
अण्ण इँ सुरवर सेव करावियँ
25 सो किं मइँ ण लेइ पिउ ण हणइ'
'दहमुह भुवण-विणिग्गय-णामेँ
जेत्थु पईवु तेत्थु सिहँ णज्जइ
जेत्थु सणेहु तेत्थु पणयञ्जलि

वहुरुविणि-वहु-रुव-वियम्भिउ ॥ १
'लक्खण-राम जिणइ विणु भन्तिएँ ॥ २
वहुरुविणि-वहु-रुवइँ सिद्धइँ ॥ ३
वन्दि-विन्द कलुणइँ कन्दाविय ॥ ४
आसङ्केवि देवि पुणु पभणइ ॥ ५
खणु मि ण जियमि मरन्तेँ रामेँ ॥ ६
जेत्थु अणहु तेत्थु रइ जुज्जइ ॥ ७
जेत्थु पयहु तेत्थु किरणावलि ॥ ८

6 P S A °हि 7 P S अण्णे. 8 A त्ति 9 P S A कम्मि

10. 1 P S लइ लीह लुहहि. 2 A लीह स. 3 P S A °पहि. 4 P S A °आ°. 5 A °उ.
6 P S A °इ

11. 1 P S A जाणिवि. 2 P S A °इ. 3 P A इ. 4 P S A कराइय. 5 P S A सिहि.

॥ घत्ता ॥

जहिं ससहर तहिं^० जोण्ह
जहिं^० राहवु तहिं^० सीय'

जहिं^० परम-धम्मु तहिं^० जीव-दय ।
सा एम भणेप्पिणु मुच्छ गय ॥ ९

[१२]

मुच्छ णिएप्पिणु रहवइ घरिणिहें
'धिद्धिगत्यु परयारु असारउ
मइ पावेण काइं किउ एहउ
को वि ण मइं सरिसउ विरुवारंउ
दुज्जणु दुइहु दुरासु दुलक्खणु
दुण्णयवन्तु विणय-परिवज्जिउ
णिहउ पर-कलत्त-सन्तावउ
वरि पसु वरि विहहु किमिं^० कीडउ

करि ओसरिउ व पासहों करिणिहें ॥ १ 5
दुग्गइ-गमणु सुग्गइ-विणिवारउ ॥ २
जे विच्छोइउ मिहुणु स-णेहउं ॥ ३
दूहउ दुम्मुहु दुक्किय-गारउ ॥ ४
कु-पुरिसु मन्द-भग्गु अ-विद्यक्खणु ॥ ५
दुच्चारित्तु कु-सीलु अ-लज्जिउ ॥ ६ 10
वरि जलयरु थलयरु वण-सावउ ॥ ७
णउ अम्हारिसु जग-परिपीडउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वरि तिणु वरि पाहाणु
णउ णिग्गुणु वय-हीणु

वरि लोह-पिण्डु वरि सुक्क-तरु ।
माणुसु उप्पणु महीहें^० भरु ॥ ९ 15

[१३]

अहों अहों 'दारा परिभव-गारा
चालणि व्व केवल-मल-गाहिणि
पाउस-कुहिणि व दूसञ्चारिणि
कमलिणि व्व पंड्ढेण ण मुच्चइ
वणिय वणेइ सरीरु समंतउ
दइयहों 'दइउ लेइ तें दइया
धणिय धणेइ अप्पु अवयारें

कयलि व सव्वज्जिउ णीसारा ॥ १
सरि व कुडिल हेड्डामुह-चाहिणि ॥ २
कुंमुइणि व्व गहवइ-उवगारिणि ॥ ३
मणु दारेइ दार तें वुच्चइ ॥ ४ 20
गणिय गणेइ असेसु विटत्तउ ॥ ५
परु तिविहेण तेण तियमइया ॥ ६
जार्य जाइं 'णीजन्ती जारें ॥ ७

6 P S A °हि

12. 1 P मिहुण, S मयण. 2 A °उ. 3 P °भारउ, S °यारउ. 4 P A अविध°, S अविल°. 5 P S A °कलत्तु. 6 P S किम 7 P S A पाहणु. 8 P S A °हि.

13. 1 P S °कारा. 2 P S समंतउ, 3 S विहत्तउ. 4 A अध्णणइ अप्पवियारे. 5 A जाइ. 6 P जाय, S जाइय.

[१३] १ परस्त्री. २ T चालणीव ३ T कुसुदिनीव चद्र । गृहपति स्वगृहपतिर्विभ्रवाहनो-
दिकमन्यस्यापि प्राचूर्णकादेरुपभोग्यं भवति । नैव स्त्री । ४ T कर्दमेण ५ T वनितयां(१) घायइ(२)
६ गणयति. ७ शुभाशुभं कर्म. ८ वैरिणी. ९ प्रीणयति पीडयति वा १० T जारेण नीयते

कु वसुन्धरि तहिँ^१ मारि कुँमारी^२ गीं^३ गहँ तासु अरिचँ^४ पीारी ॥ ८

॥ वत्ता ॥

वट्टइ^१ सुरवइ जेम वन्धेप्पिणु लक्खणु रामु रणँ ।
देसि विहाणएँ सीय सच्चउ परिसुज्झमि जेमँ जणँ^२ ॥ ९

[१४]

५ एम भणेप्पिणु गउ णिय-गेहहँ
रायहंसु णं हंसी-जूहहँ
णं 'मयलज्जणु तारा-वन्दहँ
पणइणीउ पणएँ पणवन्तउ
१० रसणा-दामएहिँ वज्जन्तउ
एव परिट्टिउ णिसि-सम्भोगँ
सीय वि णिय-जीवियहँ अणिट्टिय
ताव णिहाय पडिय महि कम्पिय

अन्तेउरहँ पवट्टिय-गेहहँ ॥ १
णं गयवरु गणियारि-समूहहँ ॥ २
णं धुवगाउ णलिणि-मयरन्दहँ ॥ ३
माणिणीउ सइँ सम्माणन्तउ ॥ ४
लीला-कमलँहिँ ताडिज्जन्तउ ॥ ५
सिङ्गारेण विविह-विणिउग्गँ ॥ ६
णं दससिरहँ 'सिरत्ति समुट्टिय ॥ ७
'णट्ट लङ्क' णहँ देव पजम्पिय ॥ ८

॥ वत्ता ॥

१५ 'दहमुह मूढउ काइँ पर-णारि रमन्तहँ^४ कवणु सुहु ।
णँच्छहिँ सुरवइ जेव णिय-रज्जु स इं भु ज्जन्तु तुहँ^२ ॥ ९

*

[७४. चउसत्तरिमो संधि]

दिवसयरेँ विउट्टेँ^१ विउट्टाईँ रण-रसियँइँ अमरिस-कुट्टाईँ ।
स-रहँसइँ पवट्टिय-कलयलँइँ भिडियँइँ राहव-रामण-वलँइँ ॥

7 P S तहि, A तहे 8 P णं 9 P णिर corrected as णिरइ, S रह. 10 S अरिचँ, A अरिचँ 11 A कलइ 12 S जेण

14. 1 P S 'वंतिउ. 2 S A 'णंतिउ. 3 S उग्गँ, A णिउग्गो. 4 P S A 'हु. 5 P णेच्छहि, S A णं अच्छइ.

1. 1 A विउट्टे विउट्टाई. 2 P 'रहसियइँ, S 'रहसियइ.

११ कुत्सिता मारि. १२ (P leading) तस्य नार्या स्मरणेन रतिर्भवति । अथ तस्य चानुरक्ते रतिविषये वा न तृप्तिर्भवति

[१४] १ चन्द्र. २ समूहस्य. ३ अमर. ४ तिरोक्तिः.

[१]

जाव रावणु जाइ णिय-भोहु ।

अन्तेउरुं पइसरइ करइ रयणि सइं भोगें आयरु ।

ता ताडिय चउ-पहरि उअर्य-सिहरें उट्टिउं दिवायरु ॥

(मत्ता-छन्दु)

केसरि व्व णह-भासुर-कर-पसरन्तउ ।

पहरें पहरें णिसि-नाय-घड ओसारन्तउं ॥ १

तहिँ अवसरें पक्खालिय-णयणु

अत्थाणें परिट्टिउं दहवयणु ॥ २

सामरिस-णिसायर-परियरिउ

णं जमु जमकरणाळङ्करिउ ॥ ३

णं केसरि णहरारुण-गहिउ

णं गहवइ तारायण-सहिउ ॥ ४

णं दिणयरु पसरिय-कर-णियरु

णं विष्फालिय-जलु मयरहरु ॥ ५

णं सुरवइ सुर-परिवेड्डियउं

तोडन्तु करगें दाडियउ ॥ ६

रोसुग्गउ उम्मूलियउ हत्थु

णिड्डुरिय-णयणु सीहासणत्थु ॥ ७

'सुय-भायर-परिभउ सम्भरेवि

भउ जीविउ रज्जु वि परिहरेवि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

असहन्तु सुरासुर-डमर-करु जम-धणय-पुरन्दर-वरुण-धरु ।

सज्जण-दुज्जणहं जणन्तु भउ फुरियाँहरु आउह-साल गउ ॥ ९

[२]

ताव हूअँइ दुण्णिमित्तँइ ।

उड्ढाविउ उत्तरिउ

आयवत्तु मोडिउ दु-वाएँण ।

हाहा-रउ उट्टियउ

छिण्ण कुँहिणि घण-कंसण-णाएँण ॥

णिएँवि ताँइ दु-ण्णिमित्तँइ णय-सिर-पन्तिहिँ ।

'जाहि माय' मन्दोयरि बुच्चइ मन्तिहिँ ॥ १

'मा' णासउ सुन्दरु पुरिसँ-रयणु

जइ कह वि तुहारउ करइ वयणु ॥ २

तो परिअच्छावहि बुद्धि देवि'

आलावेंहिँ तोहिँ पयइ देवि ॥ ३

3 P °रि, 8 °रे. 4 P S A °प्पहरि. 5 P उअय° corrected as उयअ°, 'S उवय°, P उयअ°.

6 P S A उट्टिय. 7 Wanting in P S. 8 P S भजंतउ, A ओसारंभउ. 9 P पइट्टउ.

10 A °उं. 11 A णिहरिय°. 12 P S फुरिआहर, A फुरिआणणु.

2. 1 S हूवइ, A हूयइं. 2 P S °त्ताइं, A °त्तइ. 3 P S पुरस°.

[१] १ T सुत-भ्रातृ.

[२] १ मार्गः. २ कृष्ण-सर्पेण. ३ उ(२न)तमस्तकपंक्तिभि

‘विहडप्फड पासु दसाणणासु
णं सइ-महएवि पुरन्दरासु
पणवेप्पिणु कप्पिणु पणय-कोउं
पभणइ ‘परमेसर काइँ मूहु

हरि-भएण करेणु व वारणासु ॥ ४
णं रइ सरसुँत्थ-धणुद्धरासु ॥ ५
दरिसन्ति अंसु-जलु थोउं थोउ ॥ ६
मोहन्ध-कूवें किं देव झूहु ॥ ७

5

॥ घत्ता ॥

कु-सरीरहों कारणें जाणइहें मा णिवडहि णरय-महाणइहें ।
लँइ वूँहि किमिच्छहि पुहइवइ किं होमि सुरङ्गण लच्छि रइ' ॥ ८

[३]

तं सुणेप्पिणु भणइ दहवयणु ।
10 'किं रम्भ-तिलोत्तिमहिँ उव्वसीएँ अच्छरएँ लच्छिँ ।
किं सीयएँ किं रइँ पइँ वि काइँ कुवलय-दलच्छिँ ॥

जाहि कन्तें हउँ लग्गउ वन्धु-पराहवे ।

थरहरन्ति सर-धोरणि लायमि राहवे ॥ १

लक्खणें पुणु मि सँत्ति संचारमि अङ्गङ्गय जमउरि पइसारमि ॥ २
15 पाडमि वाणर-वंस-पईवहों मत्थएँ वज्ज-दण्डु सुग्गीवहों ॥ ३
चन्दहासु चन्दोयर-णन्दणें वायवु वाउएव-सुय-सन्दणें ॥ ४
वारुणु भामण्डलें भय-भीसणें धगधगन्तु अँगेउ विहीसणें ॥ ५
णागवासु माहिन्द-महिन्दहुँ वैँइसवणत्थु कुमुअ-कुन्देन्दहुँ ॥ ६
मोडमि गवय-गवक्खहुँ चिन्धइँ णच्चावमि णल-णील-कवन्धइँ ॥ ७
20 तार-सुसेण देमि वलि भूयहुँ अवर वि णैमि पासु जम-दूयहुँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जसु इँन्दादेव वि आणकर दासि व्व कियञ्जलि स-धर धर ।
सो जइ आरूसमि दहवयणु तो हरि-वल सण्ढं कवणु गहणु' ॥ ९

4 P S °सुत्थु. 5 P S °कोहु 6 P S थोउ थोउ.

3. 1 P S A काइ. 2 P S A हउ 3 P वित्ति. 4 P S दासी, व, A दास-व्व.
5 P संढहुँ, S संढहु

४ उत्सुका. ५ पूर्यताम्. ६ ब्रूहि.

[३] १ वायव्यवाणम् २ वारुणवाणम् ३ अग्निवाणम् ४ वैश्रवणाखं वाणम् ५ इन्द्रादेवा
अपि । देवाना द्वंद्वे इत्याकारपूर्वे

[४]

तेण वयणें कुइय महएवि ।

“हेवाइउं सुरवराहिं तेण तुञ्जु एवड्डु विक्रमु ।
खर-दूसण-तिसिर-वहें किण्णें णाउ लक्खण-परक्कमु ॥
जेण मण्ड पायाललङ्क उहालिय ।

दिण्ण तार सुग्गीवहों सिल संचालिय ॥ १

अण्ण वि बहु-दुक्ख-जणेराइं चरियइं हणुवन्तहों केराइं ॥ २
पइं रावण काइं ण दिट्ठाइं हियवएँ सल्लइं व पइट्ठाइं ॥ ३
अज्ज वि अच्छन्ति महन्ताइं दुज्जण-वयणं व्व दुहन्ताइं ॥ ४
अण्ण ई णल-णील केण सहिय रणें हत्थ-पहत्थ जेहिं वहिय ॥ ५
रहुवइहें णिहालिउ केण मुहु छ-व्वार वि-रहु जें कियउ तुहुं ॥ ६
अङ्गङ्गएहिं किर को गहणु किउ तेहि मि महु केस-गहणु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

मायासुग्गीव-विमद्दणहों एत्तिय मेत्ति वि रहु-गन्दणहों ।
णव-मालइ-माला-मउअ-भुअ अज्ज वि अप्पिज्जउ जणय-सुय' ॥ ८

[५]

णियय-पक्खहों दिण्णें अंहिखेवें ।

पर-पक्खें^२ पसंसियएँ दस-^३सिरेहिं दससिरु पलित्तउ ।
जाला-सय-पज्जलिउ हुअवहो व्व वाएण छित्तउ ॥

रत्त-णेत्तु (वि)फुरियाहुरु मलिय-करुप्पलु ।

चलिय-गण्डु भू-भङ्गुरु ताडिय-महियलु ॥ १

‘जइ अण्णें केण वि वुत्तु एव तो सिरु पाडमि ताल-हलु जेम ॥ २
तुहुं घेइं पणइणि पणएण चुक्कं ओसरु पासहों मा पुरउ दुक्कं ॥ ३
किण्ण करमि सन्धि तहिं जें कालें खर-दूसण-रणें हय-कोट्टवालें ॥ ४
उज्जाण-भङ्गें मन्दिर-विणासें रामागमं एक्कोयर-पवासें ॥ ५
पढमंभिभेडें^७ हत्थ-पहत्थ-मरणें इन्दइ-घणवाहणं-वन्दि-धरणें ॥ ६
एवहिं पुणु दूसन्थवउ कज्जु ऐक्कन्तरु ताह मि महु मि अज्जु ॥ ७

4. 1 P S हेवाहिउ 2 P S A °इ 3 P °णा व, S °णा इ 4 A इ 5 P S A जेहि.

5. 1 P S A दिण्ण अहिसेवि. 2 P S A °पक्ख. 3 Wanting in A. 4 P S सित्तउ 5 P विप्फुरिअहरु, S विप्फुरियाहुरु, A विप्फुरिआहरु. 6 S A °कु 7 P S A °दि. 8 P S A °णे

[४] १ गर्व नीत २ न जातम्.

[५] १ T निन्दा २ शीघ्र सप्राप्तं वा ३ विभीषणे गते. ४ सप्राप्ते ५ सप्राप्तम्.

॥ घत्ता ॥

एवहिँ तुह वयणैहिँ विभव-जुअ
जिम लक्खण-रामहिँ भग्गएँहिँ

विहिँ गइहिँ समप्पमि जणय-सुअ ।
जिमँ महुँ पाणैहिँ मि विणिग्गएँहिँ ॥ ८

[६]

5

एम भणेवि पहय रण-भेरि ।

तूरइँ अप्फालियइँ

दिण्णं सङ्ख उन्निभय महच्चय ।

सज्जिय रह जुत्तं हय

सारि-सज्ज किय दन्ति दुज्जय ॥

मिलिउ सेण्णु किउ कलयलु रण-परिओसैण ।

णिरवसेसु जगु वहिरिउ तूर-णिघोसैण ॥ १

10 वहरुविणि-किय-मायाविग्गहु

सज्जिउ तुरिउ गइन्द-महारहु ॥ २

तुङ्ग-रहँहु णहँ जैँ ण साइँ

वीयउ मन्दरु णं उप्पाइँ ॥ ३

तहिँ गयवर-सहासु जोत्तेप्पिणु

दस सहास पय-रक्ख करेप्पिणु ॥ ४

जय-जय-सहँ चडिउ दसाणणु

णं गिरि-सिहरोवरि पञ्चाणणु ॥ ५

दहहिँ^६ मुहेहिँ भयङ्करु दहसुहु

भुवण-कोसु णं जलिउ दिसा-मुहुँ ॥ ६

15 विविह-वाहु विविहुक्खय-पहरणु

णाइँ^७ विउव्वणँ थिउ सुँर-वारणु ॥ ७

दस-विह लोय-पाल मणँ झाँएँवि

दइवँ मुक्क णाइँ^९ उप्पाँएँवि ॥ ८

भुवण-भयङ्करु कहँ वि ण भावइ

दण्डु जमेण विसज्जिउ णावइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

धय-दण्डु समुन्निभउँ सेय-वडु

णिज्जीवउ लङ्काहिव-सुहडु ।

20 ¹⁰पुरैँ(?) सायँरँ रहँ-वोहित्थ-कउ

परवलँ-परतीरहँ¹³ णाइँ गउ ॥ १०

[७]

रहु णिरन्तरु भरिउ पहरणहुँ ।

सम्मइ सारत्थि किउ

वहरुविणि-विज्जा-विणिम्मिउ ।

कण्टइँ^९ रावणँ

उरँ ण मन्तुँ सण्णाहु परिहिउ ॥

9 P S A लक्खणु. 10 P A जिम. 11 A महुँ

6. 1 S दिण्णइ. 2 P S जोत्त 3 P S A रहंगु 4 P उं. 5 A उं. 6 A दहह मि 7 P A हुँ 8 P हु 9 P S A णाइ 10 P पुरि 11 P S A रहु. 12 P S परवलु 13 P तिरहे, S तीरहु, A तीहे.

7 1 P S A विज्जा 2 P कण्टइय, S कण्टइयइ, S कटयइ 3 S माइ

[६] १ अन्तरी २ भुवनभटागारा ३ ऐरावण. ४ श्वेतपट्ट . ५ मरजीवा । 'णिजावउ' पाठे निर्गमक.

वाहु-दण्ड विहुणेपिणु रणे दुल्लियएणं ।

पहरणाइं परिगीढइं रहसुच्छलियएणं ॥ १

पहिलएं करे धणुहरु सरु वीयएं

सहु चउत्थएं पञ्चमे अंडुउ

अट्टमे चित्त-दण्डु णवमएं हलु

भीसणु भिण्डिमालु वारहमएं

पत्तु महन्तु कोन्तु चउदहमएं

सोलहमएं तिसूलु अइ भीसणु

अट्टारहमएं मोगरु दारुणु

वीसमए मुसण्ठि उग्गामिउ

गयहुं कयन्त गयासणि तइयएं ॥ २

छट्टे^{१०} असि सत्तमे वसुणन्दउ ॥ ३

इसु दसमेयारसमएं सव्वलु ॥ ४

चक्कु असक्कु^८ थक्कु तेरहमएं ॥ ५

सत्ति भयङ्कर पण्णारहमएं ॥ ६

सत्तारहमएं कणउ दुदरिसणु ॥ ७

एगुणवीसमे धणु घुसिणारुणु ॥ ८

काले काल-दण्डु णं भामिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वीसहि मि^{१०} भुअ(दण्डे)हिं वीसाउहेहिं दसहि^{१२} मि भिउडि-भयङ्कर-मुहेहिं ।

भीसावणु रावणु जाउ किह

सहुं गहेहिं कयन्तु विरुद्धु जिह ॥ १०

[८]

दसहिं कण्ठेहिं दस जे कण्ठाइं ।

दस-भालहिं तिलय दस

दहहि मि कुण्डल-जुएहिं

दस-सिरेहिं दस मउड पजलिय ।

कण्ण-जुअलं सुकउल(?) -मुहलिय ॥

फुरिउ रयण-सङ्गाउ दसाणणं-रोसु व ।

अह थियो^४ स-तारायणु वहल-पओसु व ॥ १

पढम-वयणु खय-सूर-सम-प्पहु

वीयउं वयणु धवलु धवलच्छउं

तइयउं वयणु भुवणं-भयगारउं

वयणु चउत्थउं वुह-मुह-भासुरु

छट्टउं सुक्कु^९ सुक्क-सङ्कासउं

सत्तमु कसणु सणिच्छरं^{१०}-भीसणु

सिन्दूरारुणु सुरह मि दूसहु ॥ २

पुण्णिम-यन्द-विम्व-सारिच्छउं ॥ ३

अङ्गारारुणु मुक्कङ्गारउं ॥ ४

पञ्चमएण सइं जे णं सुर-गुरु ॥ ५

दाणव-वक्खिउं सुर-सन्तासउं ॥ ६

दन्तुरु वियडे-दाहु दुदरिसणु ॥ ७

4 P S °लिण 5 S °लिण 6 P S A छट्टे 7 A सत्ति° 8 P S असक्कु. 9 P S कुंतु

10 Wanting in A. 11 This pāda is wanting in A 12 P S दसहि 13 A विरुद्धु कयतु

8. 1 P S पजलिय 2 P °जुवल corrected as जुअल, S जुयल 3 P दसासण°, A दसासणु

4 P थियउ, S थियो, A थियो 5 A °उ 6 A वचलच्छउ 7 P भुअण°, S वयण°.

8 A भुयगारउ 9 P S सुक्क 10 P S A °रु 11 P S °हु

[७] १ T 'गयत' अवमाने प्राप्ता । 'कयत' इति पाठे कृत अन्त इत्यर्थ । २ T प्रहरणविशेषौ ३ मुद्गर आयुध

अड्डमु राहु-वयणु विकरालउ
दसमउ वयणु दसाणण-केरउ

णवमउ धूमकेउ धूमालउ ॥ ८
सव्व-जणहो भय-दुक्ख-जणेरउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वहु-रूवउ वहु-सिरुं वहु-वयणु वहुविह-कवोलु वहुविह-णयणु ।
वहु-कण्ठउ वहु-करु वि वहु-पउ णं णट्ट-पुरिसु रस-भाव-गउ ॥ १०

[९]

तो णिएप्पिणु णिसियरिन्दस्स ।

सीसइ^१ णयणइं मुहइं पहरणाइं रयणियरुं-भीसणु ।
आहरणइं वच्छ-यलु राहवेण पुच्छिउ विहीसणु ॥

‘किं तिकूड-सेलोवरि दीसइ णव-घणु’ ।

‘देव देव णं णं एहु र्हें थिउ रावणु’ ॥ १

‘किं गिरि-सिहरइं णहें^३ दीसिराइं’ ‘णं णं आयइं दससिर-सिराइं’ ॥ २

‘किं पलय-दिवायर-मण्डलाइं’ ‘णं णं आयइं मणि-कुण्डलाइं’ ॥ ३

‘किं कुवलायाइं माणस-सरहो’ ‘णं णं णयणइं लङ्केसरहो’ ॥ ४

१५ ‘किं गिरि-कन्दरइं भयाणणाइं’ ‘णं णं दहवयणे दसाणणाइं’ ॥ ५

‘किं सुर-चावइं चावुत्तमाइं’ ‘णं णं कण्ठाहरणइं इमाइं’ ॥ ६

‘किं तारा-यणइं तणुज्जलाइं’ ‘णं णं धवलइं मुत्ताहलाइं’ ॥ ७

‘किं कसणु विहीसणु गयण-यलु’ ‘णं णं लङ्काहिव-वच्छयलु’ ॥ ८

‘किं दिस-वेयण्ड-सोण्ड-पयरो’ ‘णं णं दहकन्धर-कर-णियरो’ ॥ ९

२०

॥ घत्ता ॥

तं वयणु सुणेप्पिणु लक्खणेण लोयणइं विरिल्लेवि तक्खणेण ।

अवलोइउ रावणु मच्छरेण णं रासि-गएण सणिच्छरेण ॥ १०

[१०]

करे करेप्पिणु सायरावत्तु ।

२५ थिउ लक्खणु गरुड-रहे गरुडत्थु गरुड-महद्धउ ।

वलु वज्जावत्त-धरु सीह-चिन्धु वर-सीह-सन्दणु ॥

12 P S A °सिर 13 A विहु°

9. 1 A सीसाइ 2 P S रयणीयर°, A कारणिपर°. 3 P S A णहि. 4 S A दीसराइ (S °इ)

5 P S A °इ. 6 P चावुत्ति°, S चाउत्ति°. 7 This pāda is wanting in A

10. 1 A दीह°

[९] १ दिग्गज २ विस्तार्यपि(१).

गय-विहत्थु गय-रहवरु पमय-महद्धउ ।

विप्फुरन्तु किक्किन्धाहिउ सण्णद्धउ ॥ १

अक्खोहणि-पञ्च-सएँहिँ समाणु

भामण्डलु अक्खोहणि-सहासु

अङ्गङ्गय अक्खोहणि-सएण

पडिवक्ख-लक्ख-संखोहणीहिँ

तीसक्खोहणि-वल्लु अहिय-माणि

तीसहिँ दहिमुहुँ तीसहिँ महिन्दु

सोलहहिँ कुमुउ चउदहहिँ सहु

चन्दोयर-सुउ सत्तहिँ सहाउ

सुग्गीवु णिँएवि सण्णज्झमाणु ॥ २

सण्णहेँवि दुक्क लक्खणहोँ पासु ॥ ३

णल-णील ताहँ अद्धद्धएण ॥ ४

मारुइ चालीसक्खोहणीहिँ ॥ ५

रहेँ चडिउ विहीसणु सूल-पाणि ॥ ६

वीसहिँ सुसेणु वीसहिँ^० जँ कुन्दु ॥ ७

वारहहिँ गवउ अट्टहिँ गवक्खु ॥ ८

सुउ वालिहेँ तेहत्तरिहिँ आउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सण्णहेँवि पासु दुक्कइँ वलहोँ अक्खोहणि-वीस-सयइँ वलहोँ ।

विरएवि वूहु संचल्लियइँ णं उवहि-मुहइँ उत्थल्लियइँ ॥ १०

[११]

घुट्टु कलयलु दिण्ण रण-भेरि ।

चिन्धाइँ^१ समुत्थियइँ

लइय कवयँ किय हेइ-सङ्गहँ ।

गय-घडउ पचोइयउ

मुक्क तुरय वाहिय महारह ॥

राम-सेणु रण-रहसिउँ कहि मि ण माइउ ।

जगु गिलेवि णं पर-वल्लु गिलहुँ पधाइउ ॥ १

अत्थिभट्टु जुञ्जु रोसिय-मणाहुँ

ओरसिय-सद्ध-सयँ-संघडाहुँ

उद्धक्कुस-धाइय-गय-घडाहुँ

कम्पाविय-सयल-वसुन्धराहुँ

मेह्लाविय-णयँण-हुवासणाहुँ

जयलच्छि-वहुअ-गेण्हण-मणाहुँ

उग्गामिय-भामिय-असिवराहुँ

रयणीयर-वाणर-लञ्छणाहुँ ॥ २

रणवहु-फेडाविय-मुहवडाहुँ ॥ ३

खर-पवणन्दोलिय-धयवडाहुँ ॥ ४

रोसाविय-आसीविसहराहुँ ॥ ५

संजलिय-दिसामुहँ-इन्धणाहुँ ॥ ६

जूराविय-सुरकामिणि-जणाहुँ ॥ ७

णिन्वट्टिय-लोट्टिय-हयवराहुँ ॥ ८

2 P S सण्णज्झेवि, A सण्णहिवि 3 S A अक्खोहिणि^० 4 P S ^०सखोह^०, A ^०साखोह^०. 5 P A
^०हु 6 P S A ^०हि

11. 1 P S A ^०इ 2 A कवल 3 P S ^०हे. 4 P S ^०सियउ. 5 P S गिलइ. 6 P ^०इयउ
 7 A ^०गय^० 8 A मयण^०. 9 P ^०हु, S A हु

गिहलिय-भृम्भिभ-कुम्भन्त्यन्तर्हं उच्छलिय-भ्रयन्त-मुत्ताहन्तर्हं ॥ ९

॥ यता ॥

भय-भय-गय-भ्रम्भि गिहन्तर्हं गह-नुर्याहं नृगिउ भिउन्तर्हं ।

'गय-गियरु समुद्रित अन्ति फिल गिय-कुलु मटलन्तु न-पृत्तु जिह ॥ १०

[१२]

हरि-गुराहउ रउ समुच्छलित ।

गय-पय-भर-भारियर्हं धरर्हं पाहं नीसामु मेहिय ।

अहय वि मुच्छाधियर्हं अन्धयारु जीउ व्र मेहिय ॥

अह पाग्निन्द-क्रोवाणलेण टउञ्जन्तिहे ।

वहय-भूम-विच्छलुर्हं धूमार्थन्तिहे ॥ १

अहयह दीहय-धग्निन्द-पाहं उग-रुमंते दिग्गामुह-द्वय-विमाले ॥ २

रण-भेटणि-फणिय-मोहमाणे हरि-भमर-भैगुर-विहटिजीमाणे ॥ ३

उच्छलित मन्दु मयग्न्द पाहं रय-णिहेण व पाहहो धरिन्ति नाह ॥ ४

उरुहं व ममर-पट-धार्गिचुणु पासह व मो जौ गह नुरय-उणु ॥ ५

१५ धारेह व रणु विणिणं वि चन्तर्हं मारउ देह व चच्छ-त्यन्तर्हं ॥ ६

महलेह व वयणहं पाग्भगहं आरुहह व उप्परं रहवगहं ॥ ७

मज्जह व माण महा-गयाहं पाञ्चह व कण-तालेहं तार्धं (१६) ॥ ८

धीयसह व छन-धर्गहं चउवि तवह व गयणहं गिच्वडेवि ॥ ९

॥ यता ॥

२० पमरन्तुहन्तु महन्तु रउ न्द्विखजाह कविणउ कव्वुरउ ।

महि-महउ गिहन्तर्हो म-रहसहो 'णं केम-भारु रण-रकयसहो ॥ १०

[१३]

'मो ण मन्दणु सो ण मायहु ।

'ण नुरहसु ण वि य भउ गायवत्तु जं णउ कलक्किउ ।

२५ पर णिमल्लु आहयणे भट्टहुं चित्तु महलेवि ण सक्किउ ॥

10 P B ०, ६, १०. 11 P ०, १०, ११, १२, १३, १४.

12. 1 P १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००.

10 This pada is wanting in P. 11 After this P marginally adds: धवरो-परौ सुहृदि सुहृद जाय । 12 P ०, १०, ११, १२, १३, १४. 13 P १, १०, ११, १२. 14 This pada is wanting in A.

15. 1 These padas are wanting in A. 2 P १, १०, ११, १२.

[१२] १ धर्गियणह.

जाउ सुट्टु समरङ्गणु दूसंचारउ^४ ।

तहि मि के वि पहरन्ति स-साहुंकारउ ॥ १

केहि मि करि-कुम्भइं परमट्टइं	णं सङ्गाम-सिरिहें थणवट्टइं ॥ २
केहि मि लइयइं णर-सिर-पवरइं	णं जयलच्छि-वरङ्गण-चमरइं ॥ ३
केहि मि हिर्यइं वला ^७ रिउ-छत्तइं	णं जयसिरि-लीला-सयवत्तइं ॥ ४
केहि मि चक्खु-पसरु अलहन्तेहिं	पहरिउ वालालुच्चि करन्तेहिं ॥ ५
केण वि खग्ग-लट्ठि परिउड्डिय	रण-रक्खसहों जीह णं कट्ठिय ॥ ६
केण वि करि-कुम्भत्थलु ^८ फाडिउ	णं रण-भवण-चारु उग्घाडिउ ॥ ७
कत्थइ मुसुमूरिय असि-धारेंहिं	मोत्तिय-दन्तुरु हसियउ अहरेंहिं ॥ ८
कत्थइ रुहिर-पवाहिणि धावइ	जाउ महाहउ पाउसु णावइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सोणिय-जल-पहरणगिरएँहिं वसुहन्तराल-णहयल-गएँहिं ।
पज्जलइ वलइ धूमाइ रणु णं जुग-खय-कालें काल-त्रयणु ॥ १०

[१४]

ताव रण-रउ भुवणु मइलन्तु ।

रवि-मण्डलु पइसरइ तहिं मि सूर-कर-णियर-तत्तउ ।
पडिखलेंवि दिसामुहेंहिं सुट्टिय-गत्तु णावइ णियत्तउ ॥

सुर-मुहांइं अ-लहन्तउ थिउ हेट्टामुहुं ।

पलय-धूमकेउ व धूमन्त-दिसामुहुं ॥ १

लक्खिज्जइ पलट्टन्तु रेणु	रण-वसहहों णं रोमन्थ-फेणु ॥ २
सोमिच्छिहें ^६ रामहों रावणासु	णं सुरेंहिं विसज्जिउ कुसुम-वासु ॥ ३
रणएविहें णं सुरवहु-जणेण	धूमोहु दिण्णु णहं-भायणेण ॥ ४
सर-णियर-णिरन्तर-जज्जरङ्ग	णं धूलिहोवि णहु पडहुं लग्गु ॥ ५
सयमेव ^७ सूर-कर-खेइउ व्व	तिसिउ व्व सुट्टु पासेइउ व्व ॥ ६
जलु पियइ व गय-भय-देहें ^{१०} अथाहे	ण्हाइ व ^{११} सोणिय-वाहिणि-पवाहें ॥ ७

3 After this word P marginally adds दुस्सह 4 P °उ. 5 P °रउ, A साहुंका°.

6 P लइयए, S लइयइ 7 P S परवल° 8 P पाडिउ

14. 1 P णिअत्तउ, S णियत्तउ, A णिअत्तउ 2 P °सुहाइं 3 P A °हुं. 4 P A रणु
5 P S A °हि 6 P S णहे 7 P S सरणियर, P marginally noting the reading
सयमेव 8 P S A °य 9 Wanting in A 10 S °देहे 11 P ण्हाइउ, S ण्हायउ,

[१३] १ नदी

[१४] १ सग्रामवृषभस्य वग्गोण(४ल)-फेणम्

[१६]

को वि गयघड-वरविलासिणिँ

कुम्भयल-पओहरेँहिँ 'भिण्णु' 'दन्ति-दन्तगें' लगगई ।

'कर'-छित्तुच्चाइयउ को वि णाहिँ-उप्परें वलगगई ॥

को वि सुट्टु हेड्डामुहुँ ठिँ चिन्तन्तउ ।

'किण्ण मज्झु हय-दइवें दिण्णु' 'सिर-त्तउ ॥ १

जें णिरिणु होमि तीहिँ¹⁰मि जणहुँ¹¹ सामिय-सरणाइय-सज्जणहुँ ॥ २

कों वि सामिहें अग्गएँ वावरइ सिर-कमलेंहिँ पत्त-वाडुँ करइ ॥ ३

केण वि असहाएँ होन्तएँण चिन्तिउ रण-मुहें जुञ्जन्तएँण ॥ ४

'वे वाहउ तइयउ हियउ छुडुँ वइसारमि गय-घड-पीठे फुडुँ' ॥ ५

कासु वि¹⁶ स-वाहु असि-लट्ठि गय णं 'सोरग चन्दण-रुक्ख-लय ॥ ६

कत्थ ई¹⁷ अन्तेँहिँ गुप्पन्तुँ हउ सामिउ लेप्पिणु णिय सिमिरु गडुँ ॥ ७

॥ वत्ता ॥

²⁰कत्थ इ गय-घड कोवारुहिय धाइय सुहडहों सवडम्महिय ।

सिरु धुणइ ण डुकइ पासु किह पहिलारएँ¹⁹ णव-वहुअ जिह ॥ ८

[१७]

को वि मयगलु दन्त-मुसलेहिँ ।

आरुहेंवि मइन्दु जिह असिवरेण कुम्भ-यलु दारइ ।

कहेंवि मुत्ताहलइ करेंवि धूलि धवलेइ णावइ ॥

को वि दन्त उप्पाडेंवि मत्त-गइन्दहों ।

मुअइ तं जें पहरणु अण्णहों गय-विन्दहों ॥ १

उट्टण्ड-सोण्ड-मण्डवें विसालें² भिज्जन्त-दन्तिं-गत्तन्तरालें⁴ ॥ २

करि-कण्ण-चमर-विज्जिज्जमाणु णं सुवइ को वि रण-वहु-समाणु ॥ ३

16. 1 A °वय° 2 A °दंतग. 3 A घाण्हिं. 4 A करिच्छित्तुच्चेइयउ 5 A णाहिं°
6 P A °इं. 7 P सुहड, A सुहइ. 8 P A °हुं 9 wanting in S, A ठिं 10 P S तिण्ह
वि 11 P जणह, S जणहु, A जणाहुं. 12 P °णाहं, S °णाहु, A °णाहु 13 P S °वाइ.
14 P A च्छुड, S च्छुइ. 15 P S फुड, A फुट्टु 16 A इ. 17 P A ई 18 P S घुलंतु, P
marginally notes the reading गुप्पन्तु. 19 Wanting in A 20 The portion
from here up to ण in the third pāda is wanting in A.

17. 1 P S A गयंढहो 2 P S मडवविसालि, A मडवविसाल 3 P S °दते, A °दत्त°.
4 P S A °लि

[१६] १ चम्पित. २ हस्तिदन्ताग्रे लग्नानि ३ करेण स्पृष्टोक्षिप्रस्तदुपरि विलग्नो । अपरोऽपि
यो कामी पुरुषो नायिकास्तनयुगलेन पीड्यते न स्पृष्टा (१) प्रेर्यते स सुरतार्था किलोपरि चटति ।
४ मस्तकत्रयम् ५ ससर्पा

गय-मय-^१णइ-^२रुहिर-णइ-प्पवाहें
असि कहुँवि फरु तप्पउ करेवि
करि-कुम्भन्दो^३लय-पायवीहें
उभय-चलइँ पेक्खा-जणु करेवि
५ रण-पिडि(?) रहवर-सारिउ करेवि
कत्थ इ सिव सुहडहों हियउ लेवि

विहि वेणी-सङ्गमें दहें अथाहें ॥ ४
जुञ्जण-मण वीर तरन्ति के वि ॥ ५
^३भोमालिय-गाडा-जुअल-गीहें ॥ ६
अन्दोलियँ अन्दोलन्ति के वि ॥ ७
गय-पासा पिहुँ पाडन्ति के वि ॥ ८
गय वेस व चाडु-सयइँ करेवि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

कत्थ इ भडु गय-घड-पेहियउ
पल्लडु पडीवउ असि धरेंवि

भामेंवि आयीसहों मेहियउ ।
णं सामिहें अवसरु सम्भरेंवि ॥ १०

[१८]

तहिँ महाहवें अमिउ हणुवस्स ।

सुग्गीवहों अइयकउ

विज्जुदण्डु णीलहों विरुद्धउ ।

जमघण्डु तारँ-सुअहों

मय-णरिन्दु जम्बवहों कुद्धउ ॥

सीहणाय-सीहोयर गवय-गवक्खहें ।

१५ विज्जुदाढ-विज्जुप्पह सङ्ग-सुसङ्गहें ॥ १

ताराणणु तारहों ओवडिउ

कल्लोलु तरङ्गहों अत्थिभडिउ ॥ २

जालक्खु सुसेणहों उत्थरिउ

चन्दमुँहें चन्दोयरु धरिउ ॥ ३

अत्थिभट्टु कियन्तवत्तु णलहों

णक्खत्तदर्वणु भामण्डलहों ॥ ४

सञ्जागलगज्जिउ दहिमुहहों

हयगीउ महिन्दहों अहिमुहहों ॥ ५

२० घणघोसु पसन्नकित्ति णिवहों

वज्जक्खु विहीसण-पत्थिवहों ॥ ६

पवि कुन्दहों कुमुअहों मीहरहु

सदूलहों दुम्मुहु दुव्विसहु ॥ ७

धूमाणणु कुद्धु अणुद्धरहों

जालन्धर-राउ वसुन्धरहों ॥ ८

वियडोयरु णहुसहों ओवडिउ

तडिकेसि रयणकेसिहें भिडिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

२५ रणें एव णराहिव उत्थरिय

स-रहस सामरिस रोस-भरिय ।

दणु-दारण-पहरण-संजुएँहिँ

पहरन्त परोप्परु स इँ भु एँहिँ ॥ १०

*

५ P °कुभोडलण, S कुंभोडोलण, A कुमंडोलण 6 P S अंदोलिउ, 7 P S डोलावत्तु. 8 A पहु.
9 P आसट, A आयासहें.

18. 1 P तहि, S तहे, A तहा. 2 P S महाकाउ, P marginally noting a variant
महतणु वि 3 P S A तारा° 4 P चंदमुहे, A चदाणहि 5 P वरिउ, S चरिउ 6 P °दमणु
7 P मयदहु, S मयदहो 8 P S अत्थिभडिउ, A उवडिउ 9 S पहगति

[१७] १ T नयाम २ रुवरनरी ३ हस्तिमुट

[७५. पंचहत्तरिमो संधि]

जम-धणय-पुरन्दर-डामरहो^१ स-उरग-^२जग-जगडावणहो ।
जिह उत्तर-गड दाहिण-गयहो^३ भिडिउ रामु रणे रावणहो ॥

[१]

॥ दुवई ॥ तुङ्ग-तुरङ्ग-तिकख-गक्खुक्खय-रय-कय-जलण-जालए । 5

दुहम-दन्ति-दन्त-णिहसुट्टिय-सिहि-सिह-विज्जुमालए ॥ १

दप्पुब्भड-भड-थड-संकडिल्ले हय-फेण-तरङ्गिणि-दुत्तरिल्ले ॥ २

गय-मय-णइ-कदम-भग्ग-मग्गे करि-कण्ण-पवण-पेल्लिय-धयग्गे ॥ ३

चामीयर-चामर-दिण्ण-सोहे छत्तोह-पिहिय-दिणयर-करोहे ॥ ४

धय-दण्ड-^४सण्ड-मण्डिय-दियन्ते णर-रुण्ड-खण्ड-खाइय-कियन्ते ॥ ५ 10

हय-हिंसिय-भेसिय-रवि-तुरङ्गे रह-चक्क-चारु-चूरिय-भुअङ्गे ॥ ६

रहसुद्ध-खन्ध-णच्चिय-कवन्धे कङ्काले-माल-किय-सेउ-वन्धे ॥ ७

सर-णियर-दिण्ण-भुवणन्तराले पडु-पडह-सङ्ग-झलरि-वमाले ॥ ८

सुर-वहु-विमाणे छइयन्तरिक्खे दुव्विसमे दु-संचरे दुण्णिरिक्खे ॥ ९

॥ वत्ता ॥ 15

तहिं तेहए दारुणे आहयणे गन्धवहुद्धुअ-धवल-धय ।

गज्जन्त-मत्त-मायङ्ग जिह भिडिय परोप्परु हणुव-मय ॥ १०

[२]

॥ दुवई ॥ दुहम-देह दो वि दूरुज्जिय-धणुहर पवर-विक्रमा ।

जणिय-जणाणुराय जस-लालस सर-रहस सुर-परक्कमा ॥ १ 20

पहरन्ति परोप्परु पहरणेहिं दणु-इन्द-विन्द-दप्पहरणेहिं ॥ २

जल-थल-णह-यल-पच्छायणेहिं तडि-तामस-तवणुप्पायणेहिं ॥ ३

गिरि-गारुड-पाहण-पायवेहिं वारुण-अग्गेयहिं वायवेहिं ॥ ४

तो अहिमुह-दहिमुह-माउलेण उव्विभय-धुय-धयमालाउलेण ॥ ५

कञ्चणगिरि-सरिस-महारहेण सुर-घाय-किणङ्गिय-विग्गहेण ॥ ६ 25

पज्जालिय-कोव-हुआसणेण आयड्ढिय-ससर-सरासणेण ॥ ७

इन्दइ-कुमार-^१मायामहेण हणुवन्त-महद्धउ छिण्णु तेण ॥ ८

1 1 A °डामरहो 2 Wanting in A 3 A तह 4 P S °म° 5 P S A °क्ख° 6 A

°जालयं 7 P S °सिहि°. 8 P A °विज्ज°. 9 P S °सडमंड°, A °सडदड° 10 P S ककोल°

2. 1 P °यरेहिं, S °वरेहिं 2 P S °दह°

[१] १ T ससर्प २ T जगत ३ T समूह ४ शब्दकोलाहले ५ T वातोद्धता

[२] १ T दानवेद्र २ मएण

तो रावण-उववण-महणेण

चल-गमणहो पवणहो णन्दणेण ॥ ९

॥ वत्ता ॥

स-तुरङ्गु स-सारहि स-धउ रहुँ हणोँवि सरोँहिँ सय-खण्डु कउ ।

णह-लङ्घण^१-करणोँहिँ उप्पएँवि अण्णाहिँ सन्दणोँ चडिउ मउ ॥ १०

[३]

॥ दुवई ॥ रण-भर-धवल-धूलि-धूसरिय-धयवडाडोय-डम्बरो^१ ।पक्कल-चक्क-णेमि-णिग्घोसं-णिरन्तरं-वहिरियम्बरो^१ ॥ १

सो वि पवण-पुत्तेण सन्दणो

जणिय-वन्दि-वन्देहिणन्दणो ॥ २

महिहरो व्व तडि-वडण-ताडिओ^६दारुणद्धयन्देण पाडिओ^६ ॥ ३

१० तो तहिँ णिएऊण णिय-भडं

भग-रहवरं छिण्ण-धयवडं ॥ ४

दहमुहेण माया-विणिम्मिओ^६करि-विमुक्क-सिक्कार-तिम्मिओ^६ ॥ ५

संचरन्त-चाँमियर-चामरो

साहिलासं-परिओसियामरो ॥ ६

अच्छर-च्छवि-^{१०}च्छोह-फसलिओ

टणटणन्त-घण्टालि-मुहलिओ ॥ ७

कणय-किङ्किणी-जाल-भूसिओ

रहवरो तुरन्तेण पेसिओ^६ ॥ ८

१५ तो तहिँ वलग्गो णिसायरो

तोण-वाण-धणु-गुण-कियायरो ॥ ९

॥ वत्ता ॥

मन्दोयरि-वप्पेँ कुद्धएँण

तिक्ख-खुरुप्पेँहिँ खण्डियउ ।

हणुवन्तेँ विहलीहूअएँण

रहु दुपुँत्तु इव छण्डियउ ॥ १०

[४]

२० ॥ दुवई ॥ जं णिसियर-खुरुप्प-पहराँहिहउ हणुवन्त-सन्दणो ।

तं कोवग्गि-जाल-मालाव(?)पलीविउ जणय-णन्दणो ॥ १

भामण्डलु मण्डल-धम्मपालु

अक्खोहणि-दस-सय-सामिसालु ॥ २

सोलह-आहरणं-विहूसियडु

णं माणुस-वेसेँ थिउ अणङ्गु ॥ ३

३ P S A रहो ४ P S A °करणु

३. 1 P S °र 2 P S °सु 3 P S A °र 4 A °वदणो 5 P S A °उ. 6 S A °उ, P °उं
 7 P S तिम्मिउ, A तिम्मड 8 S चामी° 9 P S °सि 10 P A °च्छवि°. 11 P °भसलिउ,
 S °भसलिओ, A T °फसलिउ 12 P S °धूसिउ, A °भूसिउ. 13 P S °पु° 14 P छड्डियउ,
 S चड्डियउ

4 1 P S °राहउ 2 P °लापली°, S °लाए ली° 3 A °णइ°.

[३] १ आर्द्र २ T आहत

सिय-चामरु धरिय-सियायवत्तु
 'रयणीयर-लञ्छण थाहि थाहि
 पई मुएँवि महीयलें मणुसु कवणु
 तो एवें भणेंवि भामण्डलेण
 सर-जालें जलहर-सण्णिहेण
 तो मएँण वि रोस-वसंगएण

वाहेंवि रहु 'कोवाईञ्जु पत्तु ॥ ४
 वलु वलु उरि रहवरु वाहि वाहि ॥ ५
 दहसीस-ससरु सुर-मन्ति-दमणु' ॥ ६
 रिउ छाइउ सहुँ रवि-मण्डलेण ॥ ७
 विण्णाण-जाण-णाणाविहेण ॥ ८
 'वइदेहि-समाहउ सर-सएण ॥ ९

॥ वत्ता ॥

सण्णाहु छत्तु धयवर-तुरय
 भामण्डलु अ-विणयवन्तु जिह

सारहि रहु रणें जज्जरिउ ।
 पर एकेलउ उव्वरिउ ॥ १०

[५]

॥ दुवई ॥ ताव 'सुतार-तार-तारावई तारावइ-समप्पहो ।

सुरवर-पवर-करि-करायार-कराहय-हय-महारहो ॥ १

सो जणय-तणय-मय-कय-वैमालें
 विञ्जु व जिह दाहिण-उत्तराहें
 रयणीयर-वाणर-लञ्छणाहें
 विज्जाहर-पुर-परमेसराहें
 सर-वडण-वियारिय-साहणाहें
 संचरइ कइद्धउ जहिँ^४ जि जहिँ
 जहिँ जहिँ रहवरें आरुहइ गम्पि
 जं जं धणुहरु सुग्गीवु लेइ

सुग्गीउ परिट्टिउ अन्तरालें ॥ २
 अविभङ्गु परोप्परु समरु ताहें ॥ ३
 धवलिय-णिय-कुलहें अ-लञ्छणाहें ॥ ४
 एकेकम-छिण्ण-महारहाहें ॥ ५
 जयसिरि-जय-दिण्ण-पसाहणाहें ॥ ६
 रिवु सरहिँ णिरुम्भइ तहिँ जें तहिँ ॥ ७
 'इन्दइ-मायामहु हणइ तं पि ॥ ८
 तं तं रयणीयरु खयहों णेइ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

किं एकहों किक्किन्धाहिर्वहों

हियइच्छियउ ण संपडइ ।

धणु सव्वहों लक्खण-विरहियहों

लइउ लइउ हत्थहों पडइ ॥ १०

[६]

॥ दुवई ॥ ताव विहीसणेण धूवन्त-धयवडालिद्ध-णहयलो^१ ।

सूल-महाउहेण रहु वाहिउ बहुलुच्छलिय-कलयलो^२ ॥ १

4 T notes a variant हयवाडत्तु

5 P S दहसुदहो

6 A दिणयर^०

5. 1 P S °ङ्. 2 P S विञ्ज 3 P S °ट्ट 4 P S °हि, A °हे 5 T notes the

variants णिसुभइ = मारयति and णिरुत्तरु = निराकृत्य 6 P S °वइ.

6. 1 A °तु 2 P S °ल.

[४] १ T कोपाविद्ध, the variant हयवाडत्तु = हतत्तु २ भामण्डल

[५] १ T सुट्टु तारे शुमे तारे लोचने यस्या सा सुतारा । सुतारा तारा च सुतारतारा । तस्या पति सुग्रीव . २ चद्र ३ सग्राम कोलाहले. ४ मय नाम्नो (ना)

‘वलु वलु मय माम मणोहिराम
मई मुएँवि विहीसणु झडँ-झडक
तं णिमुणेंवि मन्दोयरि-जणेरु
‘ओसरु ओसरु मं पुरउ थाहि
६ पारकएँ थकएँ हंसदीवें
तहिँ अवसरें किं तउ मुएँवि जुत्तु
तो एवँ भणेंवि ववगय-भएण
किउ कलयलु णिसियर-माहणेण

सुर-समर-सहाम-पयास-णाम ॥ २
को महइ तुहारी णरं-चडक’ ॥ ३
णिक्कम्पु परिट्टिउ णाईँ मेरु ॥ ४
छल-विरहिउ रणु परिहैरवि जाहि ॥ ५
गुणु जइ वि णाहि वीमद्ध-गीवें ॥ ६
जइ सच्चउ रयणामवहों पुत्तु’ ॥ ७
रहु कवउ छत्तु छिज्जइ मएण ॥ ८
वोछिज्जइ सुर-कामिणि-जणेण ॥ ९

॥ वत्ता ॥

१० ‘मारुइ भामण्डलु पमयवइ
गय-पाएँ बुद्धीहयएँण

स-विहीसण विच्छाइर्यइ ।
मएँण जि कह व ण मारियइँ’ ॥ १०

[७]

॥ दुवई ॥ तो खर-णहर-पहर-धुव-केसरं-केसरि-जुत्त-सन्दणो ।

धवल-महद्धओ समुद्धाईँउ दसरह-जेट्ट-णन्दणो ॥ १

१६ जस-धवल-धूलि-धूसरिय-अहु
धवलाणणु धवल-पलम्ब-वाहु
धवलउ जें सहावें धवल-वंसु
धवलाहँ धवलु धवलायवत्त
हेलएँ जें विणासिउ मय-मरइ
२० तहिँ अवसरें सुर-संतावणेण
वहुरुविणि-रूर्व-णिरुवियहु
दस सहस परिट्टिय गत्त-रक्ख

धवलम्बरु धवलावर-तुरङ्गु ॥ २
धवलामल-कोमल-कमलणाहु ॥ ३
‘धवलच्छि-मरालिहें रायहंसु ॥ ४
रहुणन्दणु दणु पहरन्तु पत्तु ॥ ५
रहु खञ्जेंवि पच्छामुहु पयइ ॥ ६
रहु अन्तरें दिज्जइ रावणेण ॥ ७
गय-दस-सय-संचालिय-रह्जु ॥ ८
‘सारच्छ कराविय अंगलक्ख ॥ ९

॥ वत्ता ॥

णं अञ्जण-महिहर-तुहिण-गिरि

वहु-कालहों एकहिँ^{१०} धडियँ ।

२० कोवारुणें दारुणें आहयणें

रामण-राम वे वि भिडिय ॥ १०

३ P भडचटव, ४ छुट° ४ P रणमडक. ५ P S A °ड. ६ P विच्छाइय, ८ विच्छरिय ७ P S
मारिय.

७. १ P केशरु. २ A ‘चाइउ ३ P °लकर. ४ P S हुं ५ P S A तहि. ६ A रुवि. ७ P
विणिम्मिअ, ८ विणिम्मिय°. ८ P S सो°. ९ P S °अंगवक्ख. १० P S A °हि ११ A ‘वि°.

[६] १ सुप्रोव .

[७] १ कमलमिव नागिर्यस्य २ पुरुपलदमी. ३ P सारयि, T सारय (१) ४ T घृष्टाधृष्टो
भूत (१ ती).

[८]

॥ दुवई ॥ १ जाणइ-जलण-जाले-मालावलीविया वे वि दारुणा ।

कुद्ध-मयन्ध-गन्ध-सिन्धुर व वल्लुङ्गुर राम-रामणा ॥ १

तो रण-भर-पवर-धुरन्धरेण

अप्फालिउ धणु दस-कन्धरेण ॥ २

णं गज्जिउ पलय-महाघणेण

णं घोरिउ घोरु जमाणणेण ॥ ३

अप्पाणु धित्तु णं गहयलेण

णं विरसिउ विरसु रसायलेण ॥ ४

णं महियल्ले णिवडिउ वज्ज-घाउ

वल्ले रामहो कम्पु महन्तु जाउ ॥ ५

मय विरयलिय मत्त-महागयाहँ

रह फुट्ट तुट्ट १पगह हयाहँ ॥ ६

हल्लोहलिहूअ णरिन्द सव्व

णिप्फन्द णिराउह गलिय-गव्व ॥ ७

धय-उत्तोहँ कडयड-सहु घुट्टु

कायर वाणर थरहरिय सुट्टु ॥ ८

वोह्लन्ति परोप्परु १णट्टु कज्जु

संघार-कालु लएँ दुक्कु अज्जु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

एत्तहँ रयणायरु दुप्पगमु

एत्तहँ दारुणु दहवयणु ।

एवहिँ जीवेवउँ कहि तणउँ

दिट्टु ण परियणु घरु सयणु ॥ १०

[९]

॥ दुवई ॥ तो णग्गोह-रोह-पारोह-पईहर-वाहु-दण्डेणं ।

विडसुग्गीव-जीव-हरणेण रणे मत्तण्ड-चण्डेणं ॥ १

अप्फालिउ वज्जावत्तु चाउ

तहोँ सहेँ कहोँ ण वि गयउ गौउ ॥ २

तहोँ सहेँ वहिरिउ णहु असेसु

थिउ जगु जेँ णाँइँ मरणावसेसु ॥ ३

तहोँ सहेँ णं णायउल्लु तुट्टु

कह कह वि ण कुम्म-कडाहु फुट्टु ॥ ४

रसरसिय सुसावियँ सायरा वि

कम्पाविय चन्द-दिवायरा वि ॥ ५

डोह्लाविय कुलगिरि दिग्गया वि

अप्पंपरिहूअ सुरिन्दया वि ॥ ६

दसकन्धर-रह-करि-णियरु रडिउ

लङ्कहँ पायारु दडँत्ति पडिउ ॥ ७

ल्लुह-धवलइँ णयणाणन्दिराँ

पडियाँ असेसइँ मन्दिराँ ॥ ८

कोँ वि पाणोँहिँ मुक्कु अणाहवोँ वि

णरु कायरु काहँ मि कहइ को वि ॥ ९

8. 1 P S °जालमाला (S °ल°) वि°, A जालाव° 2 P S A °ल° 3 P S °ह°. 4 A °उं 5 P A °उ

9. 1 P मत्तंग, S मत्तपचंडेण 2 P S A णाह 3 P सुसायविय collected to °विस, S सुसायरि. 4 S दवत्ति 5 S °वे 6 P S काहेँ वि

[८] १ सीता २ सिंदूरारुणगजसिव ३ T दोरक

[९] १ गर्व

॥ घत्ता ॥

‘लहु णासहुँ लङ्खेवि मयरहरु एत्थ वसन्तहुँ’ णाहि धर ।
 धणुहर-टङ्कारु जे पाणहरु जइ धई आइय राम-सर’ ॥ १०

[१०]

ताव दसाणणेण अपमाणेहि वाणेहि छाइयं णहं ।
 5 दसरह-गन्दणेण ते छिण्ण णहे च्चिय पडिय पडिवहं ॥ १

तो हसिउ रामेण	रामाहिरामेण ॥ २
उच्छलिय-णामेण	लद्धारिधामेण ॥ ३
‘धणुवेय-परिहीण	ओसरु पराहीण ॥ ४
जज्जाहि आवासु	अण्णमउ गुरु-पासु ॥ ५
10 धणु-लक्खणं बुज्झु	दिवसेहि पुणु जुज्झु ॥ ६
एण जि पयावेण	दुण्णय-सहावेण ॥ ७
संताविया देव	काराविया सेव ॥ ८
अहवइ असाराहँ	रणे चोर-जाराहँ ॥ ९
वियलन्ति सत्ताइँ	ण वहन्ति गत्ताइँ’ ॥ १०
15 तो णिसियरिन्देण	णिज्जिय-सुरिन्देण ॥ ११
जम-धणय-झम्पेण	कइलास-कम्पेण ॥ १२
सहसयर-धरणेण	वर-वरुण-वरणेण ॥ १३
सुर-भवण-भीसेण	वीसद्ध-सीसेण ॥ १४
कोवग्गि-दित्तेण	‘वहणेक्क-चित्तेण ॥ १५
20 तम-पुञ्ज-देहेण	णं पलय-मेहेण ॥ १६
भू-भङ्गुरच्छेण	मण-पवण-दच्छेण ॥ १७

॥ घत्ता ॥

वीसहि मि करेहि वीसाउहइँ एक-वार रणे मुक्काइँ ।
 घरु किविणहोँ भामन्तु वइ जिह रामहोँ पासु ण दुक्काइँ ॥ १८

7 P S A °ह 8 P collectes to पइ, S थइ.

10. 1 P S णह, A तहि 2 A द्वियय जि 3 P S रायाहिराप(S थे)ण. 4 P S trans-
 pose the pādas in this line 5 P S हवन्ति 6 S P °धरणेण. 7 S °परिभच्छ°. 8 P A
 मुक्कइ, S मुक्कइ. 9 P T इव, S omits 10 P S दुक्कइ

२ भूमि (?)

[१०] १ T प्रतिपक्ष २ वलेन ३ पौहवानि ४ T आच्छादकेन. ५ T वधन. ६ T लच्छेण (?)
 ७ T भ्रमतमिभ (different leading)

[११]

॥ दुवई ॥ णवर दसाणणेण वामोहुं तमोहुं सरो विसज्जिओ^१ ।

सो वि वल्लुंजुरेण रामेण पयंग-सरेण णिज्जिओ^२ ॥ १

रामणेण विसज्जिउ कुलिस-दण्डु सों वि रामें किउ सय-खण्ड^३-खण्डु ॥ २

रामणेण समाहउ पायवेण सों वि भग्गु महत्थें वायवेण ॥ ३

रामणेण विसज्जिउ गिरि विचित्तु सों वि रामें वलि जिह दिसहिं घित्तु ॥ ४

अग्गेउ मुक्कु दस-कन्धरेण उल्हाविउ सो वि वारुण-सरेण ॥ ५

रामणेण विसज्जिउ पण्णयत्थु सों वि गारुड-वाणेंहिं किउ गिरत्थु ॥ ६

रामणेण गयाणर्ण-सर विमुक्क ताह मि^७ वल्ल-वाण-मइन्द^८ दुक्क ॥ ७

रामणेण विसज्जिउ सायरत्थु ^{१०}तं मन्दर-घाएं णिउ गिरत्थु ॥ ८

जं जं आमेल्लइ णिसियरिन्दु तं तं वि णिवारइ रामचन्दु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

रणें रामण-राम-सरेंहिं वल्लइ समर-भूमि मेलावियइ ।

दुप्पुत्तहिं जिह पहवन्तएहिं उहय-कुलइ संतवियइ ॥ १०

[१२]

॥ दुवई ॥ विण्णि वि सुद्ध-वंस रयणासव-दसरह-जेड्ड-गन्दणा ।

विण्णि वि दिण्ण-सङ्ख करि-केसरि-जोत्तिय-पवर-सन्दणा ॥ १

विहिं हत्थेंहिं पहरइ रामचन्दु वीसहिं भुव-दण्डेंहिं णिसियरिन्दु ॥ २

अ-पवाण वाण राहवहों तो वि जज्जरिय लङ्क रयणायरो वि ॥ ३

छाइज्जइ गयणु चडन्तएहिं अखलिय-सर-महि-णिवडन्तएहिं ॥ ४

वाएवउ चत्तु पहञ्जणेण रहु खच्चिउ अदितिहें^५ णन्दणेण ॥ ५

दिस-करिहुं असेसहुं गलिउ गाउ हलोहलिहूअउ जगु जें साउ ॥ ६

भिज्जन्ति वल्लइ जलें जलयरा वि णहें णट्ट देव थलें थलयरा वि ॥ ७

सो ण वि गयवरु सो ण वि तुरङ्गु सो ण वि रहवरु तण्ण वि रहङ्गु ॥ ८

सो ण वि धउ तण्ण वि आयवत्तु जहिं राम-सरहें सउ सउ ण पत्तु ॥ ९

11. 1 P वम्मोह, S वम्मोह. 2 P तम्मोहु 3 P S A °उ 4 P A वल्ल, S वल्लुद्ध° 5 P S A °खडु खडु 6 P S °णु सरु विमुक्क 7 S तासु इ 8 P S वल्ल 9 P S °दु दुक्क 10 P omits this pāda 11 A सभा°

12 1 P S अदिहिहे 2 P जलइ, S जलइ

[११] १ T गजमुखवाणा २ समुद्र (?)

[१२] १ गमनक्रिया २ T सूर्येण ३ सर्वम्

॥ घत्ता ॥

गय सत्त दिव्ह जुञ्जन्ताहुँ तो इ ण छेउ महाहवहोँ ।
लहु लक्खणु अन्तरें देवि रहु विजउ णाँइँ थिय राहवहोँ ॥ १०

[१३]

५ ॥ दुवई ॥ 'वल मइँ किङ्करेण किं कीरइ जइ तुहुँ धरहि धणुहरं ।
णिसियर-कुल-कियन्तु हँ अन्छमि रावण वाहँ रहवरं ॥ १
दुम्मुहँ दुच्चरिय दुराय-राय तउ राहव-केरा कुद्ध पाय ॥ २
वल उरें कउ चुकहि महु जियन्तु वहु-कालें पावउ 'धउ कियन्तु' ॥ ३
तो कोव-जलण-जालोलि-जलिउ 'हणु हणु' भणन्तु लक्खणहोँ वलिउ ॥ ४
१० ते वासुएव-पडिवासुएव कुल-धवल धणुद्धर 'सावलेव ॥ ५
गय-गारुड-सन्दण कसण-देह उण्णइय णाँइँ णहँ पलय-मेह ॥ ६
णं सीह महीहर-मत्थयत्थ णं विञ्ज-सञ्ज उअयाचलत्थ ॥ ७
णं अञ्जण-महिहर विण्णिहूअ णं णर-णिहेण थिय काल-दूय ॥ ८
णं रवि-रत्तुपल-तोडणत्थ णं धरएँ पसारिय उहय हत्थ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

१५ लङ्केसर-लक्खण उत्थरिय पलय-जलय-गम्भीर-रव ।
वेयाल-सहासइँ णच्चियइँ 'जइ पर होसइ अज्ज धव ॥ १०

[१४]

॥ दुवई ॥ जं किउ राहवेण तं तुहु मि करेसहि भूमि-गोयरा' ।
२० दह-दाहिण-करेहिँ दह-वयणें दह कड्डिय महा-सरा ॥ १
पहिलेण पवरु णग्गोह-रुक्खु वीएण महग्गिरि दिण्ण-दुक्खु ॥ २
जलु तइएँ जलणु चउत्थएण पञ्चमैण सीहु फणि छट्टएण ॥ ३
सत्तमैण मत्त-मायङ्ग-लीलु अट्टमैण णिसायरु विसम-सीलु ॥ ४
णवमेण महन्तु महन्धयारु दहमेण महोवहि-हत्थियारु ॥ ५
२५ दस दिव्व महा-सर पलय-भाव दस दिसउ णिरुम्भेवि ठन्ति जाव ॥ ६
तो लक्खणु वुत्तु विहीसणेण 'दिव्वत्थइँ लइयइँ रावणेण ॥ ७
एक्केकु जें होइ अणेय-भायँ एक्केकु जें दरिसइ विविह माय ॥ ८

३ S दिवस. ४ P S A णाह.

१३ १ P °ह, S A °हु. २ A वराय° ३ P S A णाह ४ P S A °संज्ञ

१४. १ P S सत्त° २ तमध° ३ P S भेय

[१३] १ तृप्ति २ साहंकार

[१४] १ विद्यामयी (१ या) वाणा

एकेकु जें जगु जगडेंवि समत्थु लइ एहएँ अवसरें वाहि हत्थु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जइ आयइँ पइँ ण णिवारियइँ आयामेप्पिणु भुअ-जुअल्लु ।
तो ण वि हँ ण वि तुहुँ रामु ण वि ण वि सुग्गीउ ण 'पमय-वल्लु' ॥ १०

[१५]

॥ दुवई ॥ तो लच्छीहरेण तरु डञ्जइ हुअवहँ-तुँण्ड-कण्डेणं ।

माया-महिहरो वि मुसुमूरिउ दारुण-वज्ज-दण्डेणं ॥ १

वायवेण विणासिउ वारुणत्थु वारुणेण हुआसणु किउ णिरत्थु ॥ २

सरहेण सीहु गरुडेण णाउ पञ्चाणणेण गय(?) दिण्णु घाउ ॥ ३

णिसियरु णिरुद्धु णारायणेण तमु णासिउ दिणयर-पहरणेण ॥ ४

सोसिउ समुहु वडवाणलेण तहिँ अवसरें^४ आयउ णहयलेण ॥ ५

वर कण्णउ अट्ट मणोहराउ सुर-करि-कुम्भयल-पओहराउ ॥ ६

ससिवज्जण-विज्जाहर-सुआउ मालइ-माला-कोमल-भुआउ ॥ ७

'वइदेहि-सयम्बरें^६ वुत्तियाउ लच्छीहर तुँह कुल-उत्तियाउ ॥ ८

जय णन्द वहु सिद्धत्थु होहि^६ तं णिसुणेंवि हरिसिउ 'हरि-विरोहि ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सिद्धत्थु अत्थु मणें सम्भरेंवि मुक्कु णिसायर-^१णायगेंण ।

तमिं^१(?तं) धरिउ कुमारें एन्तु णहें^१ अत्थें विग्घ-विणायगेंण ॥ १०

[१६]

॥ दुवई ॥ जं जं किं पि पहरणं मुअइ णिसायर-वइ दसाणणो^१ ।

तं तं सर-सएहिँ विणिवारइ अद्ध-वहें जें लक्खणो^१ ॥ १

तो तियस-विन्द-कन्दावणेण वहरुविणि चिन्तिय रावणेण ॥ २

'दे दे आएसु' भणन्ति आय मुह-कुहरें विणिगय तहों वि वाय ॥ ३

'जं अट्ट दिवस आराहिया-सि बहु-मन्तेहिँ^३ थोत्तेहिँ साहिया-सि ॥ ४

तें सहल मणोरह करहि अज्जु भू-गोयर-महिहरेँ^४ होहि वज्जु ॥ ५

दहवयणहों केरउ रूवु लेवि मायामउ रहवरु होहि देवि' ॥ ६

15 1 P S °हु, A °ह. 2 P S °तोय° 3 S °कण्डिण, A °कुण्डेण. 4 P S A °रि 5 S °रि, A °र 6 P S तउ 7 P S ताम

16 1 A °णे. 2 P °णे 3 P S A °हि. 4 S A °हर.

२ वानरा .

[१५] १ रावण २ T नायकेन मुक्त ३ ययार्थं विघ्नविनाशकेन

[१६] १ रामलक्ष्मण-पर्वते

पउ० च० २०

पुणु सोलह पुणु वत्तीस होन्ति
सउ अट्टावीसउ तक्खणेण
छप्पण्णइँ विणिण सयइँ कियाइँ
पुणु पञ्च सयाइँ स-वारहाइँ
पुणु चउवीसोत्तरु सिर-सहासु

चउसट्ठि सिरइँ पुणु णीसरंति ॥ ५
पाडिज्जइ सीसहुँ लक्खणेण ॥ ६
छिण्णइ कुमारु जिह दुक्कियाइँ ॥ ७
कमलाइँ व तोडइ तुरिउ ताइँ ॥ ८
पाडइ वँच्छ-त्थल-सिरि-णिवासु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सीसइँ छिन्दन्तहोँ लक्खणहोँ विउणउँ विउणउँ वित्थरइ ।
रणेँ दक्खवन्तु बहु-रूवाँइँ रावणु छन्दहोँ अणुहरइ ॥ १०

[१९]

॥ दुवई ॥ जिह निट्ठन्ति णाहि रिउ-सीसइँ तिह लक्खण-महासरा ।

‘दुक्करु थत्ति एत्थु रणेँ होसइ’ णहेँ वोळन्ति सुरवरा ॥ १

तो जण-मण-णयणाणन्दणेण पहरन्तेँ दसरह-णन्दणेण ॥ २
रिउ-सिरइँ ताव विणिवाइँयाँइँ रण-भूमिहिँ जाव ण माइँयाँइँ ॥ ३

जिह सीसइँ तिह हय वाहु-दण्ड णं गरुडेँ विसहर कय दु-खण्ड ॥ ४

सय सहस लक्ख अ-परिप्पमाण एक्केक्कएँ तहि मि अणेय वाण ॥ ५

णग्गोहहोँ णं पारोह छिण्ण णं सुर-करि-कर केण वि^० पइण्ण ॥ ६

सव्वहुलि सव्व-णहुज्जलङ्ग णं पञ्च-फणावलि थिय भुअङ्ग ॥ ७

कोँ वि करयलु सहइ स-मण्डलगु णं तरुवर-पल्लउ लयहोँ लग्गु ॥ ८

कोँ वि सहइ सिलिम्मुह-सङ्गमेण णं लइउ भुअङ्गु भुअङ्गमेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

महि-मण्डलु मण्डिउ कर-सिरेँहिँ छुडु खुडिएहिँ स-कोमलेँहिँ ।

रण-देवय अच्चिय लक्खणेण णाँइँ स-णालेँहिँ उप्पलेँहिँ ॥ १०

[२०]

॥ दुवई ॥ गय दस दिवस विहि मि जुञ्जन्तहँ तो वि ण णिट्ठियं रणं ।

माया-रावणेण वोळिज्जइ ‘जइ जीवेण कारणं ॥ १

तो जं जाणहि तं करेँ दवत्ति लङ्केसर महु एत्तडिय सत्ति’ ॥ २

18. 1 A °उ 2 P A °रुवइँ, 8 °रुवइ.

19 1 S A णिट्ठन्त. 2 S णहि, A णाहि 3 P A °यइ, S °यइ 4 P °यइ, S A यइ 5 P S
अप्प°, A °माणु 6 P S विप्पइण्ण 7 P S A °इ.

20 1 P S °हे

[१८] १ लक्ष्मण

[२०] १ बहुरपिणी रावणेण सह जल्पति

स-विलकखु रकखु सयमेव थक्कु
परिरकखणु जकख-सहासु जासु
दुद्धरिसणु भीराणु णिसिय-धारु
स-कुसुम-चन्दण-चच्चिक्रियङ्कु
५ तं णिँँवि णट्टु णहँँ सुरवरा वि
तो वुत्तु कुमारँँ णिसियरिन्दु
लइ तेण पयावँँ दुद्ध-भाव

पँल्यक-सम-प्पहु लइउ चक्कु ॥ ३
विसहर-णर-सुरवर-जँणिय-तासु ॥ ४
मुत्ताहल-माला-मँल्लियारु ॥ ५
णिय-णासु णाँँँ दरिसिउ रहङ्कु ॥ ६
ओसँँँँँ वि दूरँँ थिय वाणरा वि ॥ ७
'पँँँ जेण पयावँँ धरिउ इन्दु ॥ ८
मुँँँ चक्कु चिरावहि काँँँ पाव' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दुव्वयणुदीविँँँ दहँँमुहँँँ करँँँ रहङ्कु उग्गामियडँँ ।
१० णहँँँ तेण भमाडिज्जन्तएँँँ जगु जँँँ सव्वु णं भामियडँँ ॥ १०

[२१]

॥ दुवई ॥ तो लच्छीहरेण छिण्णणहिँँँ समारम्भिउ रहङ्गयं ।

तीरिय-तोमरेहिँँँ णाराएँँँँ तहँँँँ वि वला' समागयं ॥ १

'रिउ-करँँँ-विमुक्कु मण-पवण-वेउ
१५ रणँँँ धरँँँँ वि ण सक्किउ लकखणेण
सुग्गीवुँँँ गँँँँ राहउ हलेण
भामण्डलु पत्तल-असिवरेण
अङ्गउ तिकखँँँँ कुँँँँँरएण
जम्बउ झसेण फलिहेण णीलु
२५ कुन्तेण कुन्दु' दहिमुहु घणेण
भज्जन्तु असेसाउह-सयाँँँ
परिभमिँँँँ ति-वारउ तरल-तुङ्कु

घण-घोर-घोसु पलयग्गि-तेउ ॥ २
पहणन्ति असेस वि तक्खणेण ॥ ३
सूलेण विहीसणु पच्चलेण ॥ ४
हणुवन्तु महन्तेँँँ मोगगरेण ॥ ५
णलु चक्केँँँ वइरि-वियारणेण ॥ ६
कणएण विराहिउ विसम-सीलु ॥ ७
केण वि ण णिवारिउ पहरणेण ॥ ८
णं तुहिणु दहन्तु सँँँँँरुहाँँँ ॥ ९
णं मेरुहँँँ पासँँँँँ भाणु-विम्बु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

जं अण्ण-भवन्तरँँँ अज्जियडँँँ

तं अप्पेणहिँँँ(?) समावडिउ ।

२५ आणा-विहेउ सु-कलत्तु जिह

चक्कु कुमारहँँँँ करँँँँ चडिउ ॥ ११

२ P °णिय collected as °णियर° ३ P S °सचदण° ४ P °चच्चिक्रियङ्गु, S °चच्चियगु
५ P S A °इ ६ A सरिवि ७ P °ए ८ P दस°. ९ A °उं

21. 1 A छिँँँ २ P S वल्लस मग्गयं ३ P S °रे ४ P S °वे ५ P S गय, A गयं. ६ P S कुठा°. ७ P कुत्तु दहमुह ८ P ङ्गुहत्तु, S A दहँँँँ ९ S A सरु°. १० A °उं ११ P अप्पणु to which पुणु is added marginally

२ प्रलयकालसूर्यवत् ३ तीक्ष्ण ४ मालासहित आरा यस्य.

[२१] १ रामणहस्तविमुक्त २ कमलानि,

[२२]

॥ दुवई ॥ जं उप्पणु चकु सोमिच्छिं तं सुर-णियरु तोसिउ ।

दुन्दुहि दिण्णं मुक्क^३ कुसुमञ्जलि साहुकारु घोसिउ ॥ १

अहिणन्दिउ लक्खणु वाणरेहिं

‘जय णन्द वच्च’ मङ्गल-रवेहिं ॥ २

चिन्तवई^४ विहीसणु जाय सङ्क

‘लइ णट्टु कञ्जु उच्छिण्ण लङ्क ॥ ३

मुउ रावणु सन्तई तुट्ट अञ्जु

मन्दोयरि विहव विणट्टु रञ्जु’ ॥ ४

पभणइ कुमारु ‘करे चित्तु धीरु

छुडु सीय समप्पइ खमइ वीरु’ ॥ ५

तो गहिय-चन्दहासाउहेण

हकारिउ लक्खणु दहमुहेण ॥ ६

‘लइ पहरु पहरु किं करहि खेउ

तुहुं एक्के चक्के ‘सावलेउ ॥ ७

महु धँइ पुणु आएं कवणु गण्णु

किं सीहहो होइ सहाउ अण्णु’ ॥ ८

तं णिसुणेवि विप्फुरियाहरेण

मेह्णिउ रहड्डु लच्छीहरेण ॥ ९

॥ घत्ता ॥

उअयइरिहं णं अत्थइरि गउ

सूर-विम्बु कर-मण्डियउ ।

स ई भु ऐहिं हणन्तहो दहमुहहो

मण्ड उर-त्थलु खण्डियउ ॥ १०

*

[७६. छसत्तरिमो संधि]

णिहँए दसाणणे किउ सुरेहिं

कलयलु भुवण-मणोरह-गारउ ।

लोअ-पाल सच्चन्द थिय

दुन्दुहि पहय पणच्चिउ णारउ ॥

[१]

णिवडिँए रावणे तिहुअण-कण्टए

कुल-मङ्गल-कलसें व्व विसइँए ॥ १

णह-सिरि-दप्पणे व्व चिच्छुट्टए

लच्छि-वरङ्गण-हारें व तुट्टए ॥ २

पुहइ-विलासिणि-माणे व गलियँए

रणवहु-जोव्वणे व्व दरमलियँए ॥ ३

दाहिण-दिस-गए व्व ओणल्लए

णीसारिँए व सुरासुर-सल्लए ॥ ४

रण-देवय-णमंसिँए व दिण्णए

तोयदवाहण-वंसें व छिण्णए ॥ ५

चवण-पुरन्दरे व्व संकमिँए

कालहो दिण्यरे व्व अत्थमिँए ॥ ६

22. 1 A °ण्ण 2 P S °ण्णु 3 P क्क. 4 S A चित्तइ वि 5 The portion from here up to करे in line 5 is missing in S 6 P A °न्न 7 A सच्च 8 P S पइ, A वइ. 9 A गुण्णु

1 1 A णिहिँए 2 P S णिच्छट्टए. 3 S णवसिँए

लङ्काउरि-पायारै^४ व पडियँ
तम-सङ्गाएँ व पुञ्जेवि मुक्कएँ

तेणं पडन्ते पाडियँ

५ पाण महारहें महिहरहें

अमरेंहिं साहुक्कारिएँ हरि-वल्लें
तहिं अवसरें मणि-गण-विष्फुरियहें
अप्पउं हणइ विहीसणु जावेंहिं
१० णिवडिउ धरणि-पँडुँ णिञ्चेयणु
चरण धरेवि रुपवएँ लग्गउ
हा हा भायर ण किउ णिवारिउ
हा भायर सरीरें सुकुमारएँ
हा भायर दुण्णिदएँ भुत्तउ

१५

किं अवहेरि करेवि थिउ
अच्छमि सुद्धुम्माहियउ

रुअइ विहीसणु सोयक्कमियउ
२० तुहुँ ण जिओऽसि सयलु जिउ तिहुअणु तुहुँ ण मुओऽसि मुअउ वंन्दिय-जणु ॥ २
तुहुँ पडिओऽसि ण पडिउ पुरन्दरु
दिट्ठि ण णट्ठ णट्ठ लङ्काउरि
हारु ण तुट्ठु तुट्ठु तारायणु
चक्कु ण दुक्कु दुक्कु एकन्तरु
२५ जीउ ण गउ गउ आसा-पोट्टलु
सीय ण आणिय आणिय जमउरि

४ P S °र ५ S तो पाण ६ P S A °इ

२. १ P S A °य, २ P S °णु ३ P A °इ, S °इ ४ P S °वट्ठि, A °पट्ट ५ P चक्कए, T असि° ६ P सुट्टुउ°, A सुट्टुउ°

३. १ P वंदिजणु, A वंदिजणु २ P °कदरु ३ P S A °हु ४ P S कुट्टु कुट्टु ण

सीय-सयत्तणें व्व णिवडियँ ॥ ७
अञ्जण-सेलें व थाणहें चुक्कएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

चित्तँइ रणें रयणीयर-णामहुँ ।

सुर-कुसुमइँ सिरें लक्खण-रामहुँ ॥ ९

[२]

विजएँ^१ पधुट्ठें समुट्ठिएँ^१ कलयलें ॥ १

उप्परें करु करेवि णिय-छुरियहें ॥ २

मुच्छएँ^३ णाईं णिवारिउ तावेहिं ॥ ३

दुक्खु समुट्ठिउ पसरिय-वेयणु ॥ ४

‘हा भायर मइँ मुएँवि कहिं गउ ॥ ५

जण-विरुद्धु ववहरिउ णिरारिउ ॥ ६

केम वियारिउ चक्कहें धारएँ ॥ ७

सेज्ज मुएँवि किं महियलें सुत्तउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सीसैं चडाविय चलण तुहारा ।

हियउ फुट्टु आलिङ्गि भडारा’ ॥ ९

[३]

‘तुहुँ णत्थमिउ वंसु अत्थमियउ ॥ १

मउडु ण भग्गु भग्गु गिरि-मन्दरु ॥ ३

वाय ण णट्ट णट्ट मन्दोयरि ॥ ४

हियउ ण भिण्णु भिण्णु गयणङ्गणु ॥ ५

आउ ण खुट्टु खुट्टु रयणायरु ॥ ६

तुहुँ^३ ण सुत्तु सुत्तउ महि-मण्डलु ॥ ७

हरि-वल्ल कुट्टं ण कुट्टा केसरि ॥ ८

[३] १ T वाचा.

सुरवर-सण्ड-वैराङ्गा
रावण पइँ सीहेण विणु

सयल-सुरासुर-दिण्ण-पसंसहों
खल-खुदहँ पिसुणहँ दुवियदुहँ^१
दुन्दुहि वज्जउ गज्जउ सायरु
अज्जु मियङ्कु होउ पहवन्तउ
अज्जु धणउ धण-रिद्धि गियच्छउ
अज्जु जमहों गिन्वहउ जमत्तणु
अज्जु घणहँ^३ पूरन्तु मणोरह
अज्जु^५ पफुलउ फलउ वणासइ

ताव दसाणणु आहयणें
धाइउ मन्दोयरि-पमुहँ

दुम्मणु दुक्ख-महण्णवें घित्तउ
मोक्कल-केसुँ विसण्डुल-गत्तउ
उद्ध-हत्थु उद्धाहावन्तउ
णेउर-हार-दोरें-गुप्पन्तउ
पीण-पओहर-भारकन्तउ
णं कोइल-कुलु कहि मि पयदुउ
णं कमलिणि-वणु थाणहों^० चुक्कउ
कलुण-सरेण रसन्तु पधाइउ

हय-गय-भड-रुहिरारुणिय
रत्तउ परिहँवि पडुहँवि

5 P S तेण

4. 1 P S °हु, A °हो 2 P S A °गि. 3 P S °हु 4 P S °लु 5 S अहो पफु 6 P S °ह.
5. 1 P S विउ. 2 S A °स 3 P °द्धतउ 4 A °उ 5 P °दोर, S °दोर 6 A °हुँ
7 S A हस°. 8 परिहवेवि, S यरिहरेवि

२ T वराका

[४] १ T गायन्तु

॥ घत्ता ॥

सयल-काल जे मिग सम्भूया ।
ते^६ वि अज्जु सच्छन्दीहया ॥ ९

[४]

अज्जु अमङ्गलु रक्खस-वंसहों ॥ १
अज्जु मणोरह सुरवर-सण्डहँ ॥ २
अज्जु तवउ सच्छन्दु दिवायरु ॥ ३
वाउ वाउ जगें^२ अज्जु सइत्तउ ॥ ४
अज्जु जलन्तु जलणु जगें अच्छउ ॥ ५
अज्जु करेउ इन्दु इन्दत्तणु ॥ ६
अज्जु गिरिगलं होन्तु महागह ॥ ७
अज्जु 'गाउ मोक्कलउ सरासइ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पडिउ सुणेवि स-दोरु स-णेउरु ।
धाहावन्तु सयलु अन्तेउरु ॥ ९

[५]

पियं-विओय-जालोलि-पलित्तउ ॥ १
विहडप्फडु गिवडन्तुइन्तउ ॥ २
अंसु-जलेण वसुह सिञ्चन्तउ^३ ॥ ३
चन्दण-छउ-कदमँ सुप्पन्तउ ॥ ४
कज्जल-जल-मल-मइलिज्जन्तउ ॥ ५
णं गणियारि-जूहु विच्छुदुउ ॥ ६
णं 'हंसिउलु महासर-मुक्कउ ॥ ७
णिविसे रण-धरित्ति सम्पाइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

समर-वसुन्धरि सोह ण पावइ ।
थिय रावण-अणुमरणें णावइ ॥ ९

5

10

15

20

25

दिड्डु महाहडु विणिवाइय-भडु
 हडु-रुण्ड-विच्छडु-भयङ्गरु
 णच्चिय-उद्ध-कवन्ध-विसन्धुलु^१
 5 कहि मि आयवत्तइँ ससि-धवलइँ
 कहि मि तुरङ्ग वाण-विणिभिण्णा
 कहि मि सरेहिँ धरिय णहँ कुञ्जर
 कहि मि रहङ्ग-भग्ग थिय रहवर
 तहिँ दहवयणु दिड्डु बहु-वाहउ
 10 'रज्ज-गयालण-खम ु व छिण्णउ^२

दह दियहाइँ स-रत्तियइँ
 तेण चक्क-सेज्जहिँ चडँवि

15 दिड्डु पुणो वि णाहु पिय-णारिहिँ
 'वाहिणिहिँ व सुक्कउ रयणायरु
 कुमुइणिहिँ व्वं जरढ-मयलञ्छणु
 अमर-वहूहिँ व चवण-पुरन्दरु
 भमरावलिहिँ म्वं सूडिय-तरुवरु
 20 'कलयण्ठीहिँ म्वं माहव-णिग्गमु
 'वहुल-पओसु व तारा-पन्तिहिँ
 दस-सिरु दस-सेहरु दस-मउडउँ

णिँएवि अवत्थ दसाणणहँ

25 अन्तेउरु मुच्छा-विहलु

6. 1 P S °कड° 2 P °ल, S °ला 3 P S °थोर°. 4 P S A °इ. 5 A °उ 6 A °चके सो
 विणि°. 7 P जुज्जतए णि°

7. 1 P S A °हि. 2 P S A व. 3 P S म, A व 4 P S °विहंगमु 5 A °उ

[६] १ राज्यगजस्थालानस्तम्भ

[७] १ नदीभि २ कोकिलाभि वसन्तनिर्गम ३ गरुडेन हतं ४ कृष्णपक्ष इव ५ T सशिखर
 ६ T शीघ्रं

[६]

आमिस-सोणिय-रस-वस-वीसडु ॥ १
 लोट्टाविय-धय-चिन्ध-णिरन्तरु ॥ २
 वायस-घोरँ-गिद्ध-सिव-सङ्कुलुँ ॥ ३
 णं रण-देवय-अञ्चण-कमलइँ ॥ ४
 रण-देवयहँ णाइँ^४ वलि दिण्णा ॥ ५
 णं जल-धारा-ऊरिय जलहर ॥ ६
 णं वज्जासणि-सूडिय महिहर ॥ ७
 कप्प-तरु व्व पलोट्टिय-साहउ ॥ ८
 लक्खण-चक्क-रयण-विणिभिण्णउँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जं जुज्जन्तुं ण णिहएँ भुत्तउ ।
 रण-वहुअएँ समाणु णं सुत्तउ ॥ १०

[७]

सुत्तु मत्त-हत्थि व गणियारिहिँ ॥ १
 कमलिणिहिँ व अत्थवण-दिवायरु ॥ २
 विज्जुहि व्व छुडु छुडु वरिसिय-घणु ॥ ३
 गिम्भ-दिसाहिँ व अञ्जण-महिहरु ॥ ४
 कलहंसीहि म्व अ-जलु महा-सरु ॥ ५
 णाइणिहिँ^१ व 'हय-गरुड-भुयङ्गमु ॥ ६
 तेम दसास-पासु दुक्कन्तिहिँ ॥ ७
 गिरि व स-कन्दरु स-तरु सँ-कूडउँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'हा हा सामि' भणन्तु स-वेयणु ।

णिवडिउ महिहिँ झँत्ति णिच्चेयणु ॥ ९

[८]

तारा-चक्रु व थाणहों चुक्कउ
लग्ग रुएव्वएँ तहिँ^१ मन्दोयरि
चन्दवयण सिरिकन्ताणुद्धरि
मालइ चम्पयमाल मणोहरि
लच्छि वसन्तलेह मिगलोयण
रयणावलि मयणावलि सुप्पह
सुहय वसन्ततिलय मलयावइ
उप्पलमाल गुणावलि णिरुवम

दुक्खु दुक्खु मुच्छएँ आमुक्कउ ॥ १
उव्वसि रम्भ तिलोत्तिम-सुन्दरि ॥ २
कमलाणण गन्धारि वसुन्धरि ॥ ३
जयसिरि चन्दणलेह तणूअरि ॥ ४
जोयणगन्ध गोरि गोरोयण ॥ ५
कामलेह कामलय सयम्पह ॥ ६
कुङ्कुमलेह पउम पउमावइ ॥ ७
कित्ति बुद्धि जयलच्छि मणोरम ॥ ८

॥ घत्ता ॥

आएँहिँ सोआऊँरियहिँ
णव-घण-मालाडम्बरेँहिँ

अट्टारहहि मि^१ जुवइ-सहासेँहिँ ।
छाइउ विञ्जु जेम चउ-पासेँहिँ ॥ ९

[९]

रोवइ लंङ्का-पुर-परमेसरि
पइँ विणु समर-तूरु कहों वज्जइ
पइँ विणु णव-गह-एक्कीकरणउ
पइँ विणु को वि^१ विज्ज आराहइ
को गन्धव्व-वावि आडोहइ
पइँ विणु को कुवेरु भञ्जेसइ
पइँ विणु को जमु विणिवारेसइ
सहसकिरणं-गलकुव्वर-सक्कहुँ
को णिहाण-रयणइँ पालेसइ

‘हा रावण तिहुअण-जण-केसरि ॥ १
पइँ विणु वाल-कील कहों छज्जइ ॥ २
को परिहेसइ कण्ठाहरणउ ॥ ३
पइँ विणु चन्दहासु को साहँइ ॥ ४
कण्णहँ छ वि सहासु संखोहइ ॥ ५
तिजगविहूसणु कहों वसिहोसइ ॥ ६
को कइलासुद्धरणु करेसइ ॥ ७
को अरि होसइ ससि-वरुणक्कहुँ ॥ ८
को वहुरुविणि विज्ज लएसइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सामिय पइँ भविण विणु
मेरु-सिहरेँ जिण-मन्दिरइँ

पुप्फ-विमाणेँ चडेँवि गुरु-भत्तिएँ ।
को मँइँ णेसइ वन्दण-हत्तिएँ ॥ १०

8. 1 P S A तहि. 2 P S °धरि 3 P S सोआरिय°. 4 P S व.

9. 1 A °उ. 2 S को विज्जा 3 A पावइ. 4 P S °हो 5 P S A °णु. 6 P S A मह.

[१०]

पुंणु वि पुणु वि गयणङ्गणगोयरि
 'णन्दण-वणें दिज्जन्ति मणोहरि
 बुडुण-वाविहें थण-परिचडुणु
 ५ सँयण-भवणें णह-णियर-वियारणु
 पणय-रोस-समए मय-वड्डणुं
 सुमरमि दिज्जमाणु दणु-दावणि
 सुमरमि सामि कुंमारहों केरउ
 सुमरमि सुर-करि-मँय-मल-सामलु

कलुणंक्कन्दु करइ मन्दोयरि ॥ १
 सुमरमि पारियाय-तरु-मज्जरि ॥ २
 सुमरमि ईसि ईसि अवरुण्डणु ॥ ३
 सुमरमि लीला-पङ्कय-ताडणु ॥ ४
 सुमरमि रसणा-दाम-णिवन्धणु ॥ ५
 धरणिन्दहों केरउ चूडा-मणि ॥ ६
 वरहिण-पेहुण-कण्णेऊरउ ॥ ७
 हारें ठविज्जमाणु मुत्ताहलु ॥ ८

10

सुमरमि सइँ सुरयारुहणें
 तो इ महारउ वज्जमउ

॥ घत्ता ॥

णेउर-वर-झङ्कार-विलासु ।
 हियउ ण वे-दलु होइ णिरासु' ॥ ९

[११]

पुणु वि पुणु वि मन्दोयरि जम्पइ
 15 जइ वि णिरारिउ णिहँए भुत्तउ
 सामिय को अवरहु महारउ
 तो इ अ-कारणें ज्ज आरुडुउ
 तहिँ अवसरें पिउ पेक्खेंवि घाइउ
 आलिङ्गेप्पिणु सव्वायामें
 20 का वि वरंसुएण क वि हारें
 क वि उरें ताडेंवि लीला-कमलें

'उट्टें भडारा केत्तिउ सुप्पइ ॥ १
 तो वि ण सोहहि महियलें सुत्तउ ॥ २
 सीयहें दूई गय सय-वारउ ॥ ३
 जेण परिट्ठिउ 'पाराउट्टु' ॥ ४
 का वि करेइ अलीयइ(?)साइउ ॥ ५
 का वि णिवन्धइ रसणा-दामें ॥ ६
 का वि सुअन्ध-कुसुम-पव्वभारें ॥ ७
 पभणइ मउलिएण मुह-कमलें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'तुम्हहें चक-धार-वहुअ
 तो किं महु पेक्खन्तियहें'

जइ वि णिरारिउ पाणहें रुच्चइ ।
 हियएँ पइट्ठी णिविसु ण मुच्चइ' ॥ ९

10. 1 SA °ण 2 PS °ण°, A °णु°. 3 PS °वधणु, A °वडणु. 4 P °ण्णेऊ°, S °ण्णेदू°. 5 S °कर°. 6 A °रव°.

11. 1 P णिंदइ, A णिंदए. 2 PS °णि, A °ण. 3 PA अलीयइ. 4 PS °धार°. 5 PA °हो, S °हि.

[१०] १ T वारंवारं. २ ईषदीषत्. ३ सयन=शय्या प्रति (?). ४ कुमारकस्य क्रीडा-मयूरपिच्छं. ५ गंध.

[११] १ पराङ्मुख. २ वरवलेण.

[१२]

क वि केसावलि रङ्गोलावइ
का वि कुडिल भउहावलि दावइ
का वि णिएइ दिट्टिएँ सु-विसालएँ
क वि अहिसिञ्चइ अविरेल-वाहँ
का वि पियाणणँ आणणु लांयइ
क वि आलिङ्गइ भुअँहिँ विसालहिँ
क वि परिमसइ अग्ग-हत्थयलें
क वि णिम्मल-कँररुह पयडावइ
का वि पओहर-घड-जुअलेणं

णं कसणाहि-पन्ति खेलावइ ॥ १
हणइ मयण-धणु-लट्टिएँ णावइ ॥ २
णं ढङ्कइ णीलुप्पल-मालएँ ॥ ३
पाउस-सिरि गिरि व्व जल-वाहँ ॥ ४ 5
णं कमलोवरि कमलु चडावइ ॥ ५
णं ओमालइ मालइ-मालँहिँ ॥ ६
छिवइ णाई णव-लीला-कमलें ॥ ७
'णं दह-मुहहुँ' व दप्पणु दावइ ॥ ८
णं सिञ्चइ लायणं-जलेणं ॥ ९ 10

॥ घत्ता ॥

तहिँ अवसरँ केण वि णरँण
सहसा जिह ण मरन्ति तिह

इन्दइ-कुम्भयणण-आवासएँ ।
रावण-मरणु कहिउ परिहासएँ ॥ १०

[१३]

'अज्जु महन्तु दिट्ठु अच्चरियउ
किह मुट्टिएँ मेरु इ मुसुमूरिउ
किह इन्धणेंण देह्हु वइसाणरु
किह पोट्टलेंण णिवद्धु पहञ्जणु
दिणयरु तेय-रासि कर-दूसहु
'किह पडेण पच्छणु पहायउ
किह परँमाणुणण णहु छाइउ
किह मसएण तुलिउ भुवण-त्तउ

किह कमलेण कुलिसु जज्जरियउ ॥ १ 15
किह पायालु तिलञ्चें पूरिउ ॥ २
किह चुलुएण सुसिउ रयणायरु ॥ ३
किह करेण ढङ्किउ मयलञ्छणु ॥ ४
किह जोइङ्गणेण किउ णिप्पहु ॥ ५
किह सिव-पहु अण्णाणें णायउ ॥ ६ 20
किह गोप्पएँ महि-मण्डलु माइउ ॥ ७
मरणावत्थ कालु कह पत्तउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं एरिसँउ वयणु सुणेंवि
इन्दइ-पमुहउ मुच्छियउ

रावण-तणयहुँ विक्रम-सारहुँ
अद्ध-पञ्च कोडीउ कुमारहुँ ॥ ९ 25

12. 1 S लावइ, A लाइय 2 P A °अहि, S °यहि. 3 P °मालेहि, A °मालेहि, S
मालेहि. 4 P S A °हु. 5 P S णियणयण°.

13. 1 A ढहु 2 P S A परि°. 3 P S T ववएस°.

[१२] १ विस्तारयति २ कृष्णसर्पपंक्तिरिव ३ अशु(अश्रु)प्रवाहेन प्रपातेन वा ४ T नख.
५ T रामणस्य दशान[ना]नामपि दर्पणं दर्शापयति

[१३] १ कथ वक्षेण प्रभातो प्रच्छादित २ T गोक्षुरमध्ये ३ (variant) बुधोपदेश ;
T व्यपदेश .

[१४]

गिवाडिउ कुम्भयणु सहुँ^१ पुत्तेहिँ
 णं अमराहिउ सहियउ अमरेहिँ
 उट्टिउ दुक्खु दुक्खु दुक्खाउरु
 5 लगु रुपवएँ 'हा हा भायरि
 हा विहि तुहु मि हूउ दालिद्धिउ
 हा जम तुहु मि महाह्वेँ घाइउ
 हा मरु तुहु मि गिबन्धणु पत्तउ
 हा दहो^२सि तुहु मि धूमद्धय

10

'हा अचलिन्द तुहु मि चलिउ
 पुण्ण-महक्खएँ पेक्खु किह

ताव स-वेयणु उट्टिउ इन्दइ
 15 'हा हा ताय ताय माणुण्णय
 पइँ अत्थन्तएण अत्थमियइँ
 सुत्त-विउद्ध-गमण-आगमणइँ
 वण-कीला-जल-कीला-थाणइँ
 गेय-पणच्चियाइँ वर-वज्जइँ
 20 तोयदवाहणो वि स-कुमारउ
 कन्दइ कणइ पवट्टिय-वेयणु

णं मयलञ्छणु सहुँ गक्खत्तेहिँ ॥ १
 सित्तु जलेण पविज्जिउ चमरेहिँ ॥ २
 सोयहोँ तणउ^३ णाइँ^३ पढमङ्कुरु ॥ ३
 हा^४ हा 'हउ हरिणेहिँ व केसरि ॥ ४
 हा सब्ब^५णहु तुहु मि किह छिद्धिउ ॥ ५
 हा रयणायर तुहु मि तिसाइउ ॥ ६
 हा रवि तुहु मि किरण-परिचत्तउ ॥ ७
 णीसोहग्गु तुहु मि मयरद्धय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तुहु मि पयावइ भुक्खएँ भग्गउ ।
 वज्जमएँ वि खम्भेँ घुणु लग्गउ' ॥ ९

[१५]

अप्पउ हणइ धिवइ परिणिन्दइ ॥ १
 सुरवर-समर-सहासहिँ दुज्जय ॥ २
 वोल्लिय-हसिय-रमिय-परिभमियँइँ ॥ ३
 परिहिय-जिमिय-'पसाहिय-णहवणइँ ॥ ४
 पुत्तुच्छव-विवाह-वर-पाणइँ ॥ ५
 परियण-पिण्डवास-सियरज्जइँ' ॥ ६
 मुच्छाविज्जइ सय-सय-वारउ ॥ ७
 अविरल-वाहाऊरिय-लोयणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

दुक्खु दसाणण-परियणहोँ सीयहोँ दिहि जउ लक्खण-रामहुँ ।
 सुर वि स इँ भु व णहुँ चलिय लङ्क पइइ कइद्धय-णामहुँ ॥ ९

*

14. 1 P S A सहु. 2 A °उं. 3 P S A णाइ. 4 P हा हओसि, S हा हओ. 5 P S सब्बहु, A सावहु 6 S उट्टुउ सि.

15. 1 P S °मेण 2 P A °अइ, S °यइ 3 A °रय°. 4 P गेयए, S गेयइ, A गियप°.

[१४] १ T हत २ हे मेरो

[१५] १ शृगारितल्लापितानि.

[७७. सत्तसत्तरिमो संधि]

भाइ-^१विओएँ
तिह तिह दुक्खेण

जिह जिह करइ विहीसणु सोउं ।
^१रुवइ ^४स-हरि-वल-वाणर-लोउ ॥

[१]

दुम्मणुं दुम्मण-वयणउं
दुक्कु कइद्धय-^१सत्थउ
तेण समाणु विणिग्गय-णामेहिं
दिट्ठइँ स-मउड-सिरइँ पलोट्ठइँ
दिट्ठइँ भालयलइँ पायडियइँ
दिट्ठइँ मणि-कुण्डलइँ स-तेयइँ
दिट्ठउ भउहउ भिउडि-करालउ
दिट्ठइँ दीह-विसालइँ णेत्तइँ
मुह-कुहरइँ दट्ठोट्ठइँ दिट्ठइँ
दिट्ठ महवभुव भउ-सन्दोहेँ
दिट्ठ उर-त्थलु फाडिउ चक्केँ
^१अवणियलु व विञ्जेण विहञ्जिउ

अंसु-जलोहिय-णयणउं ।
जहिँ^१ रावणु पँलहत्थउ ॥ १
दिट्ठु दसाणणु लक्खण-णामेहिँ ॥ २
णाइँ स-केसराइँ कन्दोट्ठइँ ॥ ३
अद्धयन्द-विम्वाइँ^१ व पडियइँ ॥ ४
णं खय-रवि-मण्डलइँ अणेयइँ ॥ ५
णं पलयग्गि-सिहउ धूमालउ ॥ ६
मिहुणा इव आमरणासत्तइँ ॥ ७
जमकरणाइँ व जमहोँ अणिट्ठइँ ॥ ८
णं पारोह मुक्क णगोहेँ ॥ ९
दिण-मज्झु अ(?) मज्झत्थेँ अक्केँ ॥ १०
णं विहिँ^{१२} भाएँहिँ तिमिरु व पुञ्जिउ ॥ ११

॥ यत्ता ॥

पेक्खेँवि रामेण
आलिङ्गेप्पिणु

समरङ्गणेँ^{१३} रामण[होँ] मुहाइँ ।
धीरिउ ^४रुवहि विहीसण काइ ॥ १२

[२]

सो मुउ जो मय-मत्तउ
वय-चारित्त-विहूणउ
सरणाइय-वन्दिग्गहेँ गोग्गहेँ
णिय-परिहवेँ पर-विहुरेँ ण जुज्जइ
अण्णु^२ इ दुक्किय-कम्म-जणेउ^३

जीव-दया-परिचत्तउ ।
दाण-रणङ्गणेँ दीणउ ॥ १
सामिहेँ अवसरें मित्त-परिग्गहेँ ॥ २
तेहउ पुरिसु विहीसण रुज्जइ ॥ ३
गरुअउ^४ पाव-भारु जसु केरउ ॥ ४

1. 1 SC °विओअए. 2 SC. सोओ 3 P SO रुअइ 4 SC. सह विवइ वाणरलोओ.
5 P S दुम्मण. 6 A °उ 7 P °उ 8 P S A °हि 9 P S A °इ. 10 P S °सत्तइ, A
°रत्तइ. 11 P S जगहो 12 P S A विहि 13 A समरण.

2. 1 P °दयए, S °दए. 2 P corrects इ as वि, S अण्णु इ, A अण्णइ. 3 A उ
4 A गउआउ. 4 P S A सवंसहे, T सव्वसह.

[१] १ T समह. २ रणे पतित. ३ भूमितलं.

'सर्वंसह^४ वि सहेवि ण सक्कइ
वेवइ वाहिणि किं मइँ सोसहि
छिज्जमाण वणसइ उग्घोसइ^७
पवणु ण भिडइ भाणु कर खच्चइ
५ विन्धइ कण्ठेहिँ व^{१०} दुव्वयणैहिँ

अहों अण्णाउ भणन्ति ण थक्कइ ॥ ५
धाहावइ^६ खज्जन्ती ओसहि ॥ ६
कइयहुँ^८ मरणु गिरासहों होसइ ॥ ७
धणु राउल^९-चोरग्गिहुँ सच्चइ ॥ ८
विस-रुक्खु व मण्णिज्जइ सयणैहिँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

धम्म-विहूणउ^{११}
सो रोवेवउ

पाव-पिण्डु अणिहालिय-थामु ।
जासु महिस-विस-मेसहिँ णामु ॥ १०

[३]

१० एयहों अखलिय-माणहों
पूरिय-पणइणि-आसहों
रोवहि किं तिहुअण-वसियरणउ^१
रोवहि किय-कुवेर-विब्भाडणु
रोवहि किय-कइलासुद्धरणु
१५ रोवहि किय-सुरवइ-भुव-वन्धणु
रोवहि किय-दिणयर-रह-मोडणु
रोवहि किय-फणिमणि-उद्दालणु
रोवहि किह णिहि-रयणुप्पायणु
रोवहि किय-वहुरुविणि-साहणु

दिण्ण^१-णिरन्तर-दाणहों
रोवहि काइँ दसांसहों ॥ १
किय-णिसियर-वंसव्वमुद्धरणउ^२ ॥ २
किय-जम-महिस-सिङ्ग-उप्पाडणु ॥ ३
सहसकिरण^६-णलकुवर-वारणु ॥ ४
किय-अइरावय-दप्प-णिसुम्भणु ॥ ५
किय-ससि-केसरि-केसर-तोडणु ॥ ६
किय-वरुणाहिमाण-संचालणु ॥ ७
किय-रयणियर-णियर-अप्पायणु ॥ ८
किय-दारुण-दूसह-समररङ्गणु ॥ ९

२९

॥ घत्ता ॥

थिय अजरामर
सय-सय-वारउ

भुवण-पसिद्धि परिद्धिय *जासु ।
रोवहि काइँ विहीसण तासु' ॥ १०

५ P सोहहि, A किमिइ सासहि 6 P S °हि. 7 P °हि. 8 °यहु, S °यहो, A °हुं.
9 P राउल्ल, A रावल. 10 P S मे. 11 P °उ.

3. 1 P S दिण्ण 2 A दसासणहो 3 P A °उं. 4 P S °सु. 5 A °उं. 6 P S °णु.
7 P S °भुव° 8 P S किह 9 P S सव°. * The portion from जासु to णामेण पडु
(in 78 4 5 b) is not available from P for collation, because its
folios 189-192 are missing.

[४]

तं गिसुणेवि पहाणउ^१
 'एत्तिउ रुअमि दसासहों
 एण सरीरें अविणय-थाणें
 सुरचावेण व अथिर-सहावें
 रम्भा-गब्भेण व णीसारें
 'सुण्ण-हरेण व विहडिय-वन्धें
 उक्करुडेण व कीडावासें
 'परिवाहेण व किमि-कोट्टारें
 अट्टिय-पोट्टलेण वस-कुण्डें
 मल-कूडेण रुहिर-जल-वरणें
 कुहिय-करण्डएण धिणिवन्तें
 तउ ण चिण्णु मण-तुरउ ण खञ्चिउ
 वउ ण धरिउ महु ण किउ णिवारिउ
 तं गिसुणेवि विहीरइ हलहरु

भगइ विहीसण-राणउ ।
 भरिउ भुवणु जं अयसहों ॥ १
 दिट्ठ-णट्ठ-जल-विन्दु-समाणें ॥ २
 तडि-फुरणेण व तक्खण-भावें ॥ ३
 पक्क-फलेण व सउणाहारें ॥ ४
 'पच्छहरेण व अइ-दुग्गन्धें ॥ ५
 अकुलीणेण व सुकिय-विणासें ॥ ६
 असुइहें भुवणें भूमिहें^२ भारें ॥ ७
 पूय-तलाएं आमिस-उण्डें ॥ ८
 'लसि-विवरेण^३ 'घम्म-णिज्झरणें ॥ ९
 चम्ममएण इमेण कु-जन्तें ॥ १०
 मोक्खु ण साहिउ णाहु ण अञ्चिउ ॥ ११
 अप्पउ किउ तिण-समउ णिरारिउ' ॥ १२
 'एहु' वट्टइ णिज्जावण-अवसरु' ॥ १३

॥ वत्ता ॥

एम भणेप्पिणु
 'थट्ठ^४-सहावइ

पुणु आएसु दिण्णु परिवारहों ।
 खलइ^५ व लहु कट्टइ णीसारहों' ॥ १४

[५]

लद्धें रामाएसें
 मेलावियइ विचित्तइ
 वव्वर-गोसिरीस-सिरिखण्डइ
 लय कत्थूरी-कप्पूरज्जइ
 एव सुअन्ध-महहुम-पमुहइ
 किङ्कर-वरोहिं तिलोयाणन्दहों

भड-णिवहेण असेसें ।
 'सिल्हय-चन्दण-भित्तइ ॥ १
 देवदारु-कालागरु-खण्डइ ॥ २
 कङ्कोलेला-लवलि-लवज्जइ^३ ॥ ३
 णीसारेवि मसाणहों समुहइ^४ ॥ ४
 कहिउ णवेप्पिणु राहवचन्दहों ॥ ५

4. 1 S A °उ. 2 A °कु° 3 S A °हि 4 °धरणे 5 A °विहरेण. 6 S A पेम्म,
 T घम्मो. 7 S पहु 8 S थट्टइ दुसहावइ. 9 S A °इ
 5. 1 A °गोसिरीस° 2 S °लेणुलाइ. 3 S A °इ

[४] T १ अन्यगृहमिव मि(इ)दं शरीर २ वेष्टन इव. ३ नगर-जल-प्रवाह इव ४ गुह्य-
 विवरेण [इ]व. ५ प्रस्वेद

[५] T १ leads सिण्डइ=स्निग्धानि(१). २ इंधनानि.

‘मेलवियइँ भडारा कडइँ
कामिणि-जोव्वणइँ^३ व जण-घडइँ
वइरि-कुलाइँ^४ व उक्खय-मूलइँ
तं णिसुणेवि विणिग्गय-णामेँ

5

जेण तुलेप्पिणु
सो विहि-छन्देण

उच्चाइँ दसाणणै

10

भीसणु विविह-पयारउ
केली-वण उच्छु-वण-समाणइँ
धय थरहरिय मसाण-भएण व
तूरइँ हयइँ पुव्व-वइरा इव
चमरइँ पाडियाइँ चित्ताइँ व
15 फाडियाइँ दोहाइँ^५ व णेत्ताइँ
चूरियाइँ^६ खल-मुहइँ^७ व रयणइँ
आएँ मरणावत्थ-विहोएँ
णिउ मसाणु सुरवर-सन्तावणु

20

जो परिचड्ढिउ
सो पुण्ण-क्खएँ

अट्टावय-कम्पावणै
सालङ्कारु स-णेउरु

‘दुड्ढकुर-दाणाइँ [व] कडइँ^८ ॥ ६
कु-कुडुम्वाइँ^९ व थाणहोँ भडइँ ॥ ७
वाँइ-पुरिस-चित्ताइँ व थूलइँ ॥ ८
उच्चल्लाविउ रामणु रामेँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

किउ कइलासु समुण्णइँ-भग्गउ ।
सामण्णहि मि तुलिज्जइ लग्गउ ॥ १०

[६]

सोउ पवँड्डिउ परियणै ।
उट्टिउ हाहाकारउ ॥ १
खलइँ^{१०} व उद्धइँ^{११} थियइँ^{१२} विताणइँ ॥ २
पूरिय सङ्ग वन्धु दुक्खेण व ॥ ३
वद्धइँ तोरणइँ चोरा इव ॥ ४
घित्तइँ पण्णइँ कु-कलत्ताइँ^{१३} व ॥ ५
धरियइँ संगहणाइँ^{१४} व छत्ताइँ ॥ ६
खुद्धइँ सङ्ग-उलाइँ^{१५} व वयणइँ ॥ ७
कलुणकँन्दु करन्तेँ लोएँ ॥ ८
विरइउ सलु वइसारिउ रावणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सयल-काल कामिणि-थण-वट्ठेहिँ ।
पेक्खु केम पहु पेळ्ळिउ कड्ढेहिँ ॥ १०

[७]

चियएँ चडाविएँ रावणै ।
मुच्छाविउ अन्तेउरु ॥ १

4 This pāda is wanting in A. 5 s इ. 6 s थाणा. 7 s चाइँ. 8 s A °दु.

6. 1 A पवट्टिउ 2 s A °इ. 3 s खुद्धइ, A खुद्धइँ. 4 s °णकं, A °णुकं. 5 A °वइँ संताणु. 6 A °ड्डियउ 7 s मेळ्ळिउ.

३ वादी-पुरुष-चित्त इव.

[६] T १ वल्लविशेष . २ पुश्चल-स्त्री-पुरुष-युगलानामिव.

7. 1 s °विउ 2 For this latter half A reads भीसणु विविहपयारउ उट्टिउ हाहाकारउ (1 e. the same as 77 6 1 b) and after this it reads the following extra Yamaka. सालंकारु सदोरु सणेवरु । मुच्छाविउ रामणअन्तेउरु.

वार-वार णिवडइ णिञ्चेयणु
 वार-वार उम्मुहु धाहावइ
 अन्तेउरँ-अणुमरणासङ्कएँ
 छत्तइँ एम भणन्ति वराया
 तूरहिँ एम णाईँ घोसिज्जइ
 'को जुप्पेसइ रण-भर-लक्खेहिँ'
 तहिँ अवसरेँ 'तज्जोणि-विणासणु
 सहसा उप्परेँ च्छेविँ ण सकइ
 'सगिरि-ससायर-महि-कम्पावणु

वार-वार उँविभयइ स-वेयणु ॥ २
 छिज्जमाणु सङ्घिणि-उलु णावइ ॥ ३
 चिन्धइँ कम्पन्ति व अणुकम्पएँ ॥ ४
 'पइँ विणु कासु करेसहुँ छाया' ॥ ५
 'पइँ विणु कासु पासेँ वज्जिज्जइ' ॥ ६
 एव णाईँ धाहाविउ सङ्खेहिँ ॥ ७
 सीयासौउ व दिण्णुँ हुआसणु ॥ ८
 कम्पइ तसइ ल्हसइ णीँ झुलुक्कइ ॥ ९
 मा पुणो वि जीवेसइ रावणु' ॥ १०

॥ वत्ता ॥

पुणु वि पडीवउ
 'काईँ दहेसमि

चिन्तइ एव णाईँ धूमद्धउ ।

'एयहोँ जो अयसेण जि दहुउ' ॥ ११

[८]

तहिँ अवसरेँ दुक्खाउरु
 मइलिय-वयण-सरोरुहु
 गयइँ कलत्तइँ जम्मन्तरइँ व
 सङ्घ णियन्त(?)रुएँविँ सयणा इव
 वन्दिण दाण-भोग-णिवहा इव
 रयण-णिहाण-धरत्ति-तिखण्डइँ
 लङ्काउरि-सीहासण-छत्तइँ
 गय गय गय जि ण दिट्ठ पडीवा
 रह रह रह रहेवि थिय दूरें
 तहिँ अवसरेँ परितुङ्ग-पहिड्डइँ
 'जाहँ पसाय ताहँ एक्केण वि
 सामिय अम्हेँ' जइ वि पइँ घट्टइँ

लङ्काहिव-अन्तेउरु ।

णिउ सलिलहोँ सवडम्मुहु ॥ १

तूर-सहासइँ सुइणन्तरइँ व ॥ २

किङ्कर लद्ध-फलइँ सउणा इव ॥ ३

वन्धव णव-जोव्वण-दियहा इव ॥ ४

चमरइँ चिन्धइँ धयइँ स-दण्डइँ ॥ ५

छुँवेवि थियइँ णाईँ दु-कलत्तइँ ॥ ६

हय हय हय जि ण ह्य स-जीवा ॥ ७

को दीसइ अत्थमिणं सूरें ॥ ८

एव चवन्ति व चन्दण-कट्टइँ ॥ ९

तुम्हावसरु ण सारिउ केण वि ॥ १०

गणियइँ जणहोँ मज्जेँ अइ कट्टइँ ॥ ११

॥ वत्ता ॥

जइ वि स-हत्थेण
 तो वि डहेव्वउ

ण किउ आसि गरुयउ सम्माणु ।

हुयवहँ पइँ समाणु अप्पाणु' ॥ १२

3 S उज्जि°. 4 SA °रु 5 A चित्तइँ 6 SA °इ. 7 S तज्जेणि. 8 S दिंतु 9 SA चडिदि.
 10 SA न. 11 S एयहु, A पियहो.

8. 1 S prefixes हुवइ. 2 S °पवि. 3 A अम्ह. 4 A °वउ. 5 A °वहेण.

[७] १ T कष्टानि (२ काष्ठानि), २ सापामिव.

१ ताव गिरन्तरु णीलउ
अन्धारिय-णह-सगउ

दस-दिसि-वह मइलन्तु पधाइउ

५ धूम-मज्जे धूमउ धावइ

पढम (?) पएहिं लग्गु अकुलीणु व

जे णरवर-चूडामणि-चुम्बिय

ते कम-कमल कन्ति-परियहा

१ जं सुकलत्त-कलत्तेहिं रत्तउ

१० सीहामण-पल्लेहिं ठन्तउ

तं णियम्बु जलणेन विहत्तिउ

जं कइलास-कूड-अवरुणउणु

जं मोत्तिय-मालालङ्करियउ

१५ जं १० रत्तिंदिउ

अलसन्तेण व

१ जे भुवणाहिन्दोलणा

सुर-सिन्धुर-कर-वन्धुरा

२० जे थिर थोर पलम्ब पईहर

जे वालत्तणे वालकीलए

जे गन्धव्व-वावि-आडुम्भण

जे वइसवण-रिद्धि-विम्भाडण

जे जम-दण्ड-चण्ड-उद्दालण

२५ जे सहसयर-मडप्पर-भञ्जण

[९]

उट्टिउ धूमपीलउ ।

रावण-अयमु व णिग्गउ ॥ १

जिहं अकुलीणउ कहिं मि ण माउउ ॥ २

विज्जु-वलउ जलअन्तरे णावउ ॥ ३

पच्छर्ये उपर्ये चटिउ णिणीणु व ॥ ४

जाहं णहेहिं रवि-समि पट्टिविम्बिय ॥ ५

सिहि-खलेण मुयणा इव दहा ॥ ६

१ रह-गय-तुरय-विमाणेहिं जन्तउ ॥ ७

रमणा-किद्धिणि-मुहलिज्जन्तउ ॥ ८

तक्खणे छारहो पुज्जु परत्तिउ ॥ ९

जं कामिणि-पीण-त्थण-चट्टणु ॥ १०

१ णं गयणङ्गणु तारा-भरियउ ॥ ११

॥ वत्ता ॥

सीया-विरहाणल-जालहंउ ।

तं पहु-हियउ हुआसें दहंउ ॥ १२

[१०]

वइरि-समुद-विरोलणा ।

परियट्टिय-रण-भर-धुरा ॥ १

सुहि-मम्भीस वीस-पहरण-धर ॥ २

पण्णय-मुहेहिं लुहन्तउ लीलए ॥ ३

सुरसुन्दर-बुह-कणय-णिसुम्भण ॥ ४

तिजगविहसण-गय-मय-साडण ॥ ५

स-वसुन्धर-कइलासुच्चालण ॥ ६

णलकुव्वर-गेहिणि-मण-रञ्जण ॥ ७

9. 1 s दुवई । ताव गिरतर 2 A जह 3 s धायउ 4 s जो. 5 A लउउ 6 Before this pāda A has an extra pāda त सिहि-दुज्जणेण लहु सउउ. 7 A विहि°. 8 s °कइ, A °कइ 9 This pāda is wanting in A. 10 s A रत्ति°. 11 s ससीया. 12 s °लादइउ, A लइ. 13 s अलसते णयवते 14 A दइ.

10. 1 s reads दुवई in the beginning. 2 s °रि°. 3 A °वहु°.

[९] T १ नितविनीभि .

जे अमरिन्द-दप्प-ओहँट्टण
जे वहरुविणि-विज्जाराहण

जे स-सुरासुर-
ते णिविसद्धेण

दसकन्धर-संदीवउ

किं दहगीवहो गीवउ

सो ज्जे जीउ कण्ठ-ट्टिउ णावइ

जेहउ वाल-भावँ^१ पढमुब्भवेँ

जेहउ विज्ज-सहस्साराहणे

जेहउ मन्दोयरि-पाणिग्गहेँ

जेहउ कणय-धणय-ओसारणे

जेहउ अट्टावय-कम्पावणे

जेहउ णलकुब्बर-वल-महणे

जेहउ वरुण-णराहिव-साहणे

तेहउ एवहिँ

आएं कोड्डेण

^१वयणु णियन्तु हुआसउ

लग्गु मुहँहिँ विसत्थउ

गउ सरहसु दहेवि दह वयणइँ

जाइँ^२ वहल-त्तम्बोलायम्बइँ

दसण-च्छवि-किय-विज्जु-विलासइँ

मुद्ध-पुरन्धि-पीय-अहर-दलँइँ

रणँ^४ रणेँ^४ दाणेँ वद्ध-अणुरायइँ

4 s °ऊह°, A °उह° 5 s °णु 6 s °दूया 7 Wanting in s

11 1 s A °इ 2 s A °वि 3 s °रि 4 s वणययजमवि°. 5 A °उ

12 1 s leads हुवई in the beginning 2 s A °इ 3 A °यलइ. 4 s °रणदाण°.

[१२] T १ माहात्म्यं

वरुण-णराहिव-वल-दलवट्टण ॥ ८

दूरोसारिय-वाणर-साहण^५ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जग-जूरावण जिह जम-दूवा^६ ।

वीस^७ वि वाहु-दण्ड मसिहूया ॥ १० 5

[११]

णाइँ^१ णिएइ पडीवउ ।

णिज्जीवाउ सजीवउ ॥ १

णावइ दह-मुहेहिँ वीहावइ ॥ २

णव-गह-कण्ठाहरण-समुब्भवेँ ॥ ३ 10

जेहउ चन्दहास-असि-साहणे ॥ ४

जेहउ सुरसुन्दरँ-वन्दिग्गहेँ ॥ ५

जेहउ जम-गइन्द-विणिवारणे ॥ ६

जेहउ सहसकिरण-जूरावणे ॥ ७

जेहउ सक-सुहउ-कडमहणे ॥ ८ 15

जेहउ वहरुविणि-आराहणे ॥ ९

॥ घत्ता ॥

होइ ण होइ व किह मुह-राउ ।

हुअवहु णाइँ णिहालउ आउ ॥ १०

[१२]

वट्टिउ जाल-सहासउ ।

णाइँ^३ विलासिणि-सत्थउ ॥ १

गहकलोलु व दस-ससि-गहणइँ ॥ २

फग्गुण-तरुण-तरणि-पडिविम्बइँ ॥ ३

मलयाणिल-सुअन्ध-णीसासइँ ॥ ४ 25

भोयण-खाण-पाण-रस-कुसलइँ ॥ ५

जिय-सुर-छाया-वट्टिय-छायइँ ॥ ६

तिहुयण-जण-संतावण-सीलइँ
कम्पाविय-दस-दिसिवह-मग्गइँ
ताइँ मुहइँ अचन्त-वियइँ

जाइँ^१ विसालइँ
विहि-परिणामेण

जे कुण्डल-मणि-मण्डिया
ते कण्णा^२णल-घोलिया

१० जाइ जिणिन्द-पाय-पणमिल्लइँ
अञ्जण-गिरि-सिहरुणय-माँणइँ
कण्ण-कुण्डलुज्जल-गण्डयलइँ
सयल-काल (?)रणे भिउडि-करालइँ
जम-णाराय-पईहर-णयणइँ
१५ ताइँ सिरइँ सय-कुन्तल-केसइँ
धुय-परिहउ परिपुण्ण-मणोरहु
जो सुरवरहँ आसि अवहरियउ
सीया-साँवग्गि व णिव्वडियउ
सेस-विसग्गि व दूरुच्छलियउ

२१

सुरवर-डामरु
'अण्णु कहिं महुँ

२५ 'रे रे जण णीसारउ
दरिसिय-णाणावत्थउ
जहिँ^३ उड्डन्ति महीहर वाएँ
जहिँ जलणेण जलन्ति जलाइँ^४ वि

तियस-विन्द-कन्दवावण-लीलइँ ॥ ७
सयलागम-अवसाण-वलग्गइँ ॥ ८
णिविसेँ सुण्णहराइँ^५ व दह्हुइँ ॥ ९
॥ घत्ता ॥

तरलइँ तारइँ सुद्ध-सहावइँ ।
णयणइँ ताइँ^६ क्रियइँ मसिभावइँ ॥ १०

[१३]

सयलागम-परिचड्डिया ।
वल्लूराँ व पओलिया ॥ १
सेहर-मउड-पट्ट-सोहिल्लइँ^७ ॥ २
सजल-वँलाहय-दुग्ग-समाणइँ ॥ ३
अट्टमि-यन्द-रुन्द-भालयलइँ ॥ ४
भङ्गुर-कसण-लोल-भउहालइँ^८ ॥ ५
दसणावलि-दट्टाहर-वयणइँ ॥ ६
क्रियइँ खणन्तरेण मसि-सेसइँ ॥ ७
सव्व-भूउ समजाली(?)हुअवहु ॥ ८
सो रावणु तेउ व णीसरियउ ॥ ९
लक्खण-कोवग्गि व पायडियउ ॥ १०
वसुमइ-हियय-पएसु व जलियउ ॥ ११
॥ घत्ता ॥

रावणु दह्हु जासु जगु कम्पइ ।
चुक्कइ' एव णाँइँ^९ सिहि जम्पइ ॥ १२

[१४]

विट्टलु खलु संसारउ ।
दुक्खावासु वि गत्थउ ॥ १
तहिँ किं गहणु रेणु-संघाएँ ॥ २
तहिँ तिणोहुँ किं चुक्कइ काँइ वि ॥ ३

13. 1 s reads दुवई in the beginning. 2 s ०री. 3 s A ०इ. 4 A ०रुणिय०
5 A अद्ध० 6 sc. ०तासअरु 7 sc मग्गइ. 8 s A णाट्ट, sc पवणोइ.

14. 1 s ०इ 2 s A ०हि 3 s A ०इ. 4 s तिणाह.

[१३] T १ अग्निदग्धा. २ प्रमाणानि. ३ मेघा. ४ सा(शा)पान्नि.

जहिँ कुलिसाई जन्ति सय-सकरु
होइ महणवो वि जहिँ णिप्पउ
जहिँ अइरावणो वि उम्मज्जइ
जहिँ णित्तेउ तरणि णह-मण्डणु
जहिँ बुड्डइ अचलिन्दु समत्थउ^६
कुम्म-कडाह-यलु वि जहिँ फुट्टइ

जहिँ^२ पलयङ्गउं
उण्णइवन्तउ

ताव दसाणण-परियणु
पइसइ कमल-महासरेंण
कमलायर-तीरन्तरें थक्कवि^१
' अहों विज्जाहर-वंस-पईवहों
जम्बव-मइसमुद्द-मइकन्तहों
रम्भ-विराहिय-तार-तरङ्गहों
गवय-गवक्ख-सुसँद्ध-णरिन्दहों
इन्दइ-कुम्भयण्ण लहु^६ आणहों
तं णिसुणेवि वुत्तु सामन्तेहिँ
' णाह ण होइ एहु भल्लारउ^१

इन्दइ-राणउ^१
तो अम्हारउ^१

किण्ण परक्कमु वुज्झिउ
जिणेंवि वला वलवन्तहों

तहिँ कमलहुँ केत्तडउ मडप्फरु ॥ ४
तहिँ पज्जरइ काई किर गोप्पउ ॥ ५
तहिँ किर काई ससउ गलगज्जइ ॥ ६
तहिँ किं करइ कन्ति जोइङ्गणु ॥ ७
तहिँ किर कवणु गहणु सिद्धत्थउ ॥ ८ ५
तहिँ कुम्हार-घडउं किं छुट्टइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

रावणु तिहुयण-वणगय-अङ्कुसु ।
तहिँ सामण्णु काई किर माणुसु^१ ॥ १०

[१५]

सोआउरु हेट्टाणणु ।
णावइ चिन्ता-सायरेंण ॥ १
पभणइ रहुवइ णरवर कोक्कवि ॥ २
भामण्डल-सुसेण-सुग्गीवहों ॥ ३
दहिमुह-कुमुअ-कुन्द-हणुवन्तहों ॥ ४
चन्दकिरण-करणङ्गय-अङ्गहों ॥ ५
णल-णीलहों माहिन्द-महिन्दहों ॥ ६
लोयाचारु करहों^४ सरें^१ ण्हाणहों^१ ॥ ७
पच्च-पयार-मन्त-मइवन्तेहिँ ॥ ८
सव्वहें^६ जणण-वइरु वड्डारउ^१ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सलिलु णिणेंवि जइ कह वि वियट्टइ ।
खन्धावारु सव्वु दलवट्टइ ॥ १०

[१६]

जइयहुँ सुर-वले जुज्झिउ ।
भग्गु मरट्टु जयन्तहों ॥ १

5 A उं. 6 A °घडिउ 7 SA °य°. 8 SA °व°.

15. 1 SA °क्किवि 2 A °सुसेण 3 S लइ. 4 SA °हु 5 A सिदि. 6 S °वंतहि, A वंतहि 7 A उं. 8 SA °ह 9 S °वइ

16. 1 A °हि.

[१४] १ T पानीयरहित २ मदं मुचति. ३ सर्षप

[१५] १ T विघट्टते

[१६] १ T इद्रपुत्रस.

अण्णु वि पवण-पुत्तु जस-लुद्धउ
 भामण्डलु सुग्गीउ सहत्थे
 अण्णु वि कुम्भयण्णु किं धरियउं
 तहिं अवसें जं तेण वियम्भिउ
 5 अण्णु वि मारुइ आवइ पाविउ
 ते विणिण अणिलाणल-सरिसा
 वद्धा किण्ण हुन्ति^३ मणि उज्जल
 वद्धा कव्वालाव भडारा

10 आयहुं हत्थेण
 एउ ण जाणहुं

तं गिसुणेवि हलीसें
 'लक्खण-संमु किय-पेसणु
 15 विणयवन्तु अच्चन्त-सणेहुंउ
 जेण समाणु रोसुं^३ सो हम्मइ
 अहवइ किं करन्ति ते कुद्धा
 उक्खय-दन्त मत्त मायङ्ग व
 णहर-पहर-परिहीण मइन्द व
 20 लद्धाएस पधाइय किङ्कर
 गम्पिणु तेण असेस वि राणा
 लक्खण-रामहुं^६ पासु पराणिय^७

2 A °उ. 3 A होति 4 S A च्छेइ.

17. 1 reads दुवई in the beginning 2 A सणाहउ 3 A सेसु. 4 S सहु, A पहु.
 5 S °रु. 6 S °हु, A °हो. 7 After this pāda s has the following extra passage ..

दुम्मण पेच्छेवि रामे भाणिया ।
 गउ लङ्केसरु णियअवराहे
 वद्धा सोहहि गयवरदतइ
 करे कंक्कण चामीयरवडियइ
 सोहइ जलु वरवरणिहि वद्धउ
 सोहइ वयह वद्धु मुणिचिनु व
 रायपट्टु णिवमत्थइ वद्धउ
 जिह सइचिनु सुकाहणिवद्धउ

सो वि णाग-वासेहिं णिवद्धउ ॥ २
 वद्ध ते वि तेण जि दिव्वत्थे ॥ ३
 जइयहुं सण्णहेवि णीसरियउं ॥ ४
 किण्ण दिट्ठु वलु सयलु वि थम्भिउ ॥ ५
 तारा-सुएण दुक्खु छोडाविउ ॥ ६
 केण पडिच्छिय वद्धामरिसा ॥ ७
 वद्धा मउ मुअन्ति किं मयगल ॥ ८
 किण्ण हुंन्ति जणवए गुरुआरा ॥ ९

॥ वत्ता ॥

भाइ-वइरु परिअहुंवि भीसणु ।
 काइं करेसइ छेए^४ विहीसणु ॥ १०

[१७]

वुच्चइ विहुणिय-सीसें ।
 विहडइ केम विहीसणु ॥ १
 अण्णु वि खत्तिय-मग्गु ण एहउ ॥ २
 ३ अवसें सहुं अवसाणु ण गम्मइ ॥ ३
 भग्ग-मडप्फरं संसए छुद्धा ॥ ४
 दाहुप्पाडिय पवर भुवङ्ग व ॥ ५
 उण्णइ-भग्ग महीहर-विन्द व ॥ ६
 उक्खय-पहरण-णियर-भयङ्कर ॥ ७
 दुम्मण दीण णिरुण्णय-माणा ॥ ८
 सहं अन्तेउरेण सरे^९ ण्हाणिय ॥ ९

तुम्हई सोह दिति वद्धाहि ॥
 णववहुवर जिह पेमणिवद्धइ ॥
 सोह दिंति हीरामणिजडियइ ॥
 सोहइ कव्वु सुकइयणिवद्धउ ॥
 मुट्टिहि वद्धउ असि विपंपंतु व ॥
 वरु सोहइ सेहरह णिवद्धउ ॥
 भडु तिह सोहइ रणमहि वद्धउ ॥
 इय भणेवि पउमे सम्माणिय ॥

लोयाचारैण
अञ्जलि-उडैहिं व

॥ घत्ता ॥

पाणिउ दिण्णु दसाणण-वीरहों ।
पर धिवन्ति लायण्णु^० सरीरहों ॥ १०

[१८]

अह दहमुह-पियइत्तिहें
'पञ्चजीविय-अत्थएँ
अहवइ वसुमईएँ जं दिण्णउ^४
तं पहु पच्छएँ मग्गिज्जन्तइँ
पुणु वि पडीवइँ बुडुइँ सरवरें
पुणु णीसरियइँ सरहों रउदहों
जलु^१ लायण्णु णाईँ^० मेळन्तइँ^०
वड्ढिम सरहों मरालहुँ थिर-गइ
मुह-अणुराउ रत्त-अरविन्दहुँ
वत्त-सोह सयवत्त-सहासहुँ

मुच्छावियएँ (?) धरित्तिहें^० ।
सलिलु धिवन्ति व मत्थएँ ॥ १
सोकखु असेसु वि आसि उच्छिण्णउ ॥ २
दिन्ति णाईँ^० वेवन्त-रुवन्तइँ ॥ ३
णं पाविट्ठइँ णरयब्भन्तरें ॥ ४
णं भवियइँ संसार-समुदहों ॥ ५
णं तिवलीउ तरङ्गहुँ देन्तइँ^० ॥ ६
चक्कवाल-जुवलहुँ थण-सङ्गइ ॥ ७
महु आलावउ^८ महुअर-विन्दहुँ ॥ ८
णयण-च्छवि कुवलयहुँ असेसहुँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

णीरु तरेप्पिणु
पीलैवि^० पीलैवि^{१०}

जुअइ-सहासइँ साइउ दिन्ति ।
कलुणु महारसु णाईँ^० लइन्ति ॥ १०

[१९]

ताव विहीसण-णामें
लायण्णंम्भ-महासरि
'वाल-मराल-लील-गइ-गामिणि
सोहउ तं जें तुहारउ^३ पेसणु
8 s पहु, A सरि 9 s A °ण्ण.

किय-दूरहों जि पणामें ।
धीरिय लङ्क-पुरेसरि ॥ १
अज्ज वि रज्जु तुहारउ सामिणि ॥ २
छत्तइँ ताईँ तं जि सीहासणु ॥ ३

18. 1 A °अइ 2 s A °हो. 3 A °वति. 4 A °उं 5 s उच्छिण्णओ, A उच्छिण्णउं.
6 s A °इ 7 s जले 8 A आलावणउ. 9 s A पीलिवि. 10 s पीलिवि, A उपीलिवि
11 s लिति

19. 1 s reads दुवइँ in the beginning 2 s °ण्णुम्भ°. 3 A °उ.

[१७] १ T leads समुक्किय and glosses it as सम्यक्प्रकारेण कृत. | २ T leads अवसेमहु and glosses it as अवशेषस्य.

[१८] T १ पाश्चात्य (?)

चमरइँ ताइँ ताइँ धय-दण्डइँ
 ते जि तुरङ्ग ते जि गय सन्दण
 ते जि असेस भिच्च हियइच्छा
 सा तुहुँ सा जें लङ्क परमेसरि
 5 तं गिसुणेवि पवोह्तिउँ 'रावणि
 'लच्छि कुमारि व चञ्चल-चित्ती

पहु मइँ कल्लएँ
 सहँ परिवारेण

10 तं गिसुणेवि णीसामेण
 साहुक्कारिउ रावणि
 एम भेणेवि जयलच्छि-णिवासहो
 परिहावियइँ दुकूलइँ वत्थइँ
 15 परिहावियउ दसाणण-पत्तिउ
 णेउर-णिवहु समउ लय-सग्गे
 अङ्गुत्थलियउ वन्तंणि-सोहेहिँ(?)
 सहँ केरुरालिङ्गण-भावैहिँ
 मणि-कुण्डलइँ समउ तणु-तेएँहिँ
 20 लुहिय हिय(?) तिलय सहँ माणेहिँ

एव विमुक्कइँ
 णवर ण सुक्कइँ

जुञ्जकण्डं समाप्तम् ॥

रयण-णिहाणइँ वसुह-ति-खण्डइँ ॥ ४
 ते जि तुहारा सयल वि णन्दण ॥ ५
 ते जि णराहिव आण-वडिच्छा ॥ ६
 इन्दइ भुञ्जउ सयल वसुन्धरि' ॥ ७
 विजाहर-कुमार-चूडामणि ॥ ८
 किह भुञ्जमि जा ताएँ भुत्ती ॥ ९

॥ वत्ता ॥

सद्व-सङ्ग-परिचाउ करेवउ ।
 पाणि-पत्ते आहारु लएवउ' ॥ १०

[२०]

पुलउ वहन्ते रामेण ।
 'होहि भव-चूडामणि' ॥ १
 सवइँ णियइँ णियय-आवासहो ॥ २
 वायरणइँ व लङ्क-सदत्थइँ ॥ ३
 सहु केउरँहिँ विमुक्कउ पोत्तिउ ॥ ४
 रसणा-दामइँ सहँ सोहग्गे ॥ ५
 चूडा-वन्ध समउ घर-मोहेहिँ ॥ ६
 कण्ठा कण्ठ-ग्गहण-सहावेहिँ ॥ ७
 वर-कण्णावयंस सहँ गेएँहिँ ॥ ८
 चूडामणि पिय-पणय-पणामेहिँ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

विसय-सुहेहिँ समउ मणि-रयणइँ ।
 दिढँइँ स इँ भु एण गुरु-वयणइँ ॥ १०

4 S A °इ 5 S °सडड, A °खेडह. 6 A °य 7 A चञ्जमि. 8 A एहु

20. 1 S leads हुवइँ in the beginning 2 S °णाइ, A °णइ 3 S वत्थणि°
 4 A केजरा°. 5 S °तेयहि, A °तेयहि 6 S °गेयहि, A °गेएहु. 7 S A °माणि° 8 S A °इ.
 9 S दिढ 10 Wanting in A.

[१९] १ इन्द्रजित्

[२०] १ पट्टवन्नाणि. २ कला

कइराय - सयम्भुएव - किउ
पउमचरिउ

पञ्चमं उत्तरकण्डं

[७८. अट्टसत्तरिमो संधि]

रावणेंण मरन्ते दिण्णु सुहु सुरहुँ दुक्खु वन्धव-जणहों ।
 रामहों कलत्तु लक्खणहों जउ अविचल्लु रज्जु विहीसणहों ॥

[१]

जससेसीहूअँ दहवयणें	पडिवण्णएँ दिणमणि अत्थवणें ॥ १
छप्पण-सएहिँ महा-रिसिहिँ	तव-सूरहुँ णासिय-भव-णिसिहिँ ॥ २
णामेण साहु अपमेयवल्लु	थिउ णन्दण-वणें मेरु व अचल्लु ॥ ३
उप्पण्णु णाणु तहों मुणिवरहों	एत्तहें ^१ वि परम-तित्थङ्करहों ॥ ४
धण-कणय-रयण-कामिणि-पउरें	अइसुन्दरें सुन्दररयण-पुरें ^२ ॥ ५
जे वन्दणहत्तिँ तेत्थुं गय	ते इह वि पराइय अमर-सय ॥ ६
एत्तहें रहु-तणउ स-साहणु वि	एत्तहें इन्दइ घणवाहणु वि ॥ ७
सयलेहिँ वि वन्दणहत्ति किय	रयणीयर पुणु वोल्लन्त ^३ थिय ॥८

॥ घत्ता ॥

‘तुम्हागमु उग्गामु केवलहों अण्णु एउ देवागमणु ।
 गय-दिवसेँ भडारा होन्तु जइ तो मरन्तु^४ किं दहवयणु’ ॥ ९

[२]

परमेसरु केवल-णाण-णिहि	णिसियरहें विअक्खइ धम्म-विहि ॥ १
‘विसमहों दीहरहों अणिट्ठियहों	तिहुयण- ^५ वम्मीय ^१ -परिट्ठियहों ॥ २
को काल-भुयङ्गहों उव्वरइ	जो जगु जें सव्वु उवसङ्गरइ ॥ ३

1 1 s Δ °हि 2 s T °रमण° 3 s Δ तिःथु 4 s सयले, Δ सयलेहि. 5 s °ति
 6 s हुतु 7 s °ति

2 1 s °वम्मीह° 2 s उच्च°, Δ उव्वरइ 3 s °सह°

[१] १ T नामेदम्.

[२] १ T विपमस्य २ वल्मीक

पउ० च० २३

तहों जहिं जहिं कहि मि दिट्टि रमइ तहिं तहिं णं मइयवट्टु भमइ ॥ ४
 कें वि गिलइ 'गिलेवि' कें वि उगिलइ काहि(?) मि जम्मावसाणें^० मिलइ ॥ ५
 कें वि णरय-विलेहिं पइसेवि गसइ काहि(?) वि अणुलगउ जें वसइ ॥ ६
 कें वि कइइ सग्गहों वरि चडेवि कें वि खयहों णेइ उप्परें पडेवि ॥ ७
 5 कें वि धारइ घोरं^० पाव-विसेण^० कें वि भक्खइ णाणाविह-मिसेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहों को वि ण चुक्कइ भुक्खियहों काल-भुअङ्गहों दूसहहों ।
 जिण-वयण-रसायणु लहु पियहों जें अजरामरु पउ लहहों ॥ ९

[३]

10 जइ काल-भुअङ्गु ण उवडसइ तो किं सुरवइ सग्गहों खसइ ॥ १
 काहिं रावणु सुरवर-डमर-करु दस-कन्धरु दस-मुहु वीस-करु ॥ २
 बहुरुविणि जसु पेसणु करइ जसु णामें तिहुयणु थरहरइ ॥ ३
 जसु चन्दु ण णहयेल तवइ रवि जमु तलवरु वत्थइ धुवइ हंवि ॥ ४
 जसु पङ्गणु वोहारइ पवणु कोसाणुपालु जसु वैइसवणु ॥ ५
 15 घण छडउ देन्ति सरसइ झुणइ जसु वणसइ पुप्फच्चणु कुणइ ॥ ६
 सा सम्पय गय कहिं^० रावणहों काहिं^० रावणु काहिं^० सुहु^० परियणहों ॥ ७

॥ घत्ता ॥

अम्ह वि तुम्ह वि अवरह मि सव्वइ एक्कहिं मिलियाइ ।
 पेक्खेसहुं काल-भुअङ्गमेण^० अज्ज व कल्ल व गिलियाइ ॥ ८

[४]

20 सो काल-भुअङ्गमु दुव्विसहों^१ अण्णु वि^१ विसमउ परिवारु तहों ॥ १
 अच्छइ परिवेदिउ सप्पिणिहिं^३ विहिं^४ ओसप्पिणि-अवसप्पिणिहिं ॥ २

4 s गिलइ. 5 A omits the rest of the line 5. 6 s °णि 7 s च°
 8 s योरइ, A घोरइ 9 A °रसेण

3. 2 A पडइ 3 s उवहारइ 4 s दिंति, A देत्ति 5 A वसुमइ 6 s A °हि 7 s
 सहु, A सुहुं 8 s A इ 9 A °मसेण

4. 1 s °हु, A °हुं. 2 s °हे, A °हुं 3 s °हि, A °हो 4 s A °हि

३ पापविपेन

[३] १ वैद्याद(न)र २ वनद.

[४] १ T विपम साहकार.

एकेकहें^६ तिण्णि तिण्णि समय
ताहें^७ वि उप्पण्ण सँट्ठि तणय
एकेकहों^८ विण्णि कलत्ताइँ
एकेकहों तहिँ छ-च्छङ्गरुह
एकेकहों तहों वि धवल-कसण
एकेकहों तहिँ^९ वि पाण-पियउ

सुँ-दु-पढम-समुत्तर-णाम णय ॥ ३
संवच्छर-णाम पसिद्धि गय ॥ ४
अयणइँ णामेण पहुत्ताइँ ॥ ५
फग्गुण-अवसाण^६ चैत्त-पमुह ॥ ६
उप्पण्ण पुत्त दुइ दुइ जें जण ॥ ७
पण्णारह पण्णारह तियउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एँहु^{१०} परियणु काल-भुअङ्गमहों अवरु गणोंवि केँ^{११} सक्रियउ ।
सो तेहउ तिहुअणें को वि ण वि जो ण वि आपं उड्ढि^{१२}यउ ॥ ९

[५]

तं णिसुणेंवि करुण-रसवभइय
मय-कुम्भयण्ण-मारिच्चि तिह
सहसत्ति जाय सीलाहरण
मन्दोयरि वय-गुण-वन्तियहें
णिक्खन्त समउ अन्तेउरेंण
पव्वइउ को वि पव्वइउ ण वि
रवि उइउ विहीसणु गयउ तहिँ^१
आहरणइँ वत्थइँ ढोइयइँ

इन्दइ-घणवाहण पव्वइय ॥ १
अवर वि णरिन्द अमरिन्द-णिह ॥ २
आयास-वास कर-पावरण ॥ ३
कन्तियहें पासेँ ससिकन्तियहें ॥ ४
साहरणोत्तारिय-णेउरेंण ॥ ५
णहें णाइँ णिहालउ आउ रवि ॥ ६
नन्दण-वणें जैणयहों तणय जहिँ ॥ ७
वइदेहिँ ताइँ ण जोइयइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

‘मल्लु केवलु आयइँ सव्वइ मि जइ मणें मल्लिणु मणम्मणउ^२ ।
णिय-पइहें मिलन्तिहें कुल-वहुहें सीलु जि होइ पसाहणउ^३ ॥ ९

5 S °हि, A °ए. 6 S A ताह 7 S हि 8 P S A °णु 9 P S A °हि 10 P एउ, S यउ.
11 P S किं. 12 A खडियउ

5. 1 P S A तहि. 2 A °उं

२ T पद समय ३ T अत्र ययामङ्ग्येन त्रय सुशब्दपूर्वात्त्रयो दुशब्दपूर्वा एवमेते षडपि दु (१) खमा-
शब्दोत्तरस्तद् यथा । सुखमसुखमा । सुखमा । सुखमदु खमा । दु खमसुखमा । दु खमा । दु खमदु खमा
४ तदाह । प्रभव, विभव, शुरु, प्रमोद, प्रजापति, अगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य,
प्रमाथी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विच्छति,
खर, नदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलव, विल्वी, विकारी, सर्वधारी, प्लवंग, सुमिक्ष, शोभन,
क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्रलव, कीलक, सौम्य, साधारण विरोध, परिधावी, प्रमादी, आनंद,
राक्षस, नल, पिंगल, काल, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्भति, दुदुभि, रुधिरादारी, रक्ताक्ष, क्रोधन, क्षय । इति
पष्ठिपुत्रा ५ उत्तरदक्षिणायनौ

[५] १ वल. २ दीक्षिता. ३ सीता.

[६]

जइ जामि आसि परिचत्त-भय
 विणु णिय-भत्तारें जन्तियहें
 पुरिसहुँ चित्तइ आसीविसइँ
 ६ वीसासु जन्ति णउ इयरहु मि
 तं वयणु सुणेवि महासइहें
 "अहों अहों परमेसर दासरहि
 मिलि ताव भडारा जाणइहें
 चडु तिजगविहसण-कुम्भयलें

तो सहँ हणुवन्तें किण्ण गय ॥ १
 कुलहरु जें पिसुणु कुलउत्तियहें ॥ २
 अलहन्त वि उदिसन्ति मिसइँ^१ ॥ ३
 सुय-देवर-भायर-पियरहु मि^२ ॥ ४
 गउ पासु विहीसणु रहुवइहें ॥ ५
 पच्छएँ लङ्गाउरि पइसरहि ॥ ६
 तरु दुत्तर^३-विरह-महाणइहें ॥ ७
 मय-परिमल-मेलाविय-भसलें^४ ॥ ८

10

॥ घत्ता ॥

तं णिसुणेंवि हलहरु चक्कहरु सीयहें पासें समुच्चलिय ।
 अहिसेय-समएँ सिरि-देवयहें दिग्गय विण्णि णाइँ^१ मिलिय ॥ ९

[७]

वइदेहि दिट्ट हरि-हलहरेंहिँ
 15 णं सरय-लच्छि पङ्कय-सरेंहिँ
 णं सुर-सरि हिमगिरि-सायेंहिँ
 परिपुण्ण मणोरह जाणइहें
 णिय-णयण-सरासणि सन्धइ व
 जस-कहमँ णं जगु लिम्पइ व
 20 विज्जेइ व करयल-पल्लवेंहिँ
 पइसरइ व हियएँ हलाउहहों

णं चन्दलेह 'विहिँ^१ जलहरेंहिँ ॥ १
 णं पुण्णिम^२ विहिँ पक्खन्तरेंहिँ ॥ २
 णं णह-सिरि चन्द-दिवायेंहिँ ॥ ३
 तरइ व लायण्ण-महाणइहें ॥ ४
 पिउ पगुण-गुणोहिँ णिवन्धइ व ॥ ५
 ३हरिसंसु-पवाहें सिप्पइ व ॥ ६
 अच्छेइ व णह-कुसमँहिँ णवेंहिँ ॥ ७
 करइ व उज्जोउ दिसामुहहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

^३मेहलिँ मिलन्तहों रहुवइहें ^३सुहु उप्पण्णउं जेत्तडउ ।
 इन्दहों इन्दत्तणु पत्तहों होज्ज ण होज्ज व तेत्तडउ ॥ ९

6 1 P S A °इ 2 P S A दुत्तर.

7. 1 P S A °हि. 2 P पुन्नए, S पुण्णइ. 3 A लिंचइ 4 P अच्छेइ 5 A °उं

[६] १ नरप्रधान.

[७] १ T समुद्रयुग्मेण (१). २ T हर्षाश्रुप्रवाहेन. ३ सीताया ,

[८]

स-कलत्तउ लक्खणु पणय-सिरु
 'जं किउ खर-दूसण-तिसिर-वहु
 जं सत्ति पडिच्छिय समर-मुहँ
 जं रणँ उप्पणु चक्करयणु
 तं देवि पसाएं तउ तणँण
 अहिवायणु किउ सक्खणँण जिह
 सयल वि णिय-णिय-वाहणँहि थिय
 जय-मङ्गल-तूरइँ ताडियँइँ

पभणइ जलहर-गम्भीर-गिरु ॥ १
 जं हंसदीवँ जिउ हंसरहु ॥ २
 जं लग्ग विसल्ल करम्बुरुहँ ॥ ३
 जं णिहउ वलुद्धरु दहवयणु ॥ ४
 कुलु धवल्लिउ जाँँ सँइत्तणँण' ॥ ५
 सुग्गीव-पमुह-णरवरहिँ तिह ॥ ६
 पर-पुर-पवेस-सामग्गि किय ॥ ७
 रिउ-घरिणिहिँ चित्तँ पाडियँइँ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

पइसन्तहँ वल-णारायणहँ
 णं सुरहँँ धरन्त-धरन्ताहँँ

णयरु मणोहँँरु आवडिउ ।
 तुँँँवि सग्ग-खण्डु पडिउ ॥ ९

[९]

पइसन्तँँ वल-णारायणँँण
 'एँहु सुन्दरि सोक्खुप्पायणहँँ
 एँहु लक्खणु लक्खण-लक्ख-धरु
 एँहु भामण्डलु 'भा-भूस-भुउ
 एँहु किक्किन्धाहिउ दुद्धरिसु
 एँहु अङ्गउ जेण मणोहरिहँँ
 एँहु सुरवइ-करि-कर-पवर-भुउ
 एँहु कुमुउ विराहिउँ णीलु णलु

'चव चालिय णायरियाणणँँण ॥ १
 'अहिरामु रामु 'रामा-यणहँँ ॥ २
 जूरावण-रावण-पलय-करु ॥ ३
 वइदेहि-सहोयरु जणय-सुउ ॥ ४
 'तारावइ तारावइ-सरिसु ॥ ५
 केसग्गहु किउ मन्दोयरिहँँ ॥ ६
 णन्दण-वण-मद्दणु पवण-सुउ ॥ ७
 एँहु गवउ गवक्खु सहुँँ पवलु' ॥ ८

॥ वत्ता ॥

तहिँ काँँल लङ्क पइसन्ताहँँ^४
 सो अमराउरि भुञ्जन्ताहँँ^४

परम रिद्धि जा हलहरहँँ ।
 होज्ज ण होज्ज पुरन्दरहँँ ॥ ९

8. 1 S A यिउ. 2 P °आइँ, S °याइँ, A °याइँ 3 P °आइँ, S °याइँ, A आइँ. 4 P S A मणोरहु. 5 P S A °हु

9. 1 A °वु 2 P S सख 3 P पइसतहो, S पइँसतहो. 4 P S A भुजतहो

[८] १ सतीत्वेन. २ जोकार.

[९] १ वार्ता परस्पर कथयति २ मनोज्ञ . ३ स्त्रीजनस्य. ४ दीप्त्या भूषितभुज .

५ सुग्रीव चन्द्रसमान

[१०]

पइसरइ रामु रावण-भवणु

'इह मेह-उलीहँ दिज्जइ छडउ

किय अच्चण एत्थु वणँस्सइएँ

5 इह १णिक्कउ करइ आसि पवणु

इह वत्थइँ ३सिहिण पडिच्छियइँ

अणवसरु ४पियामह-हरि-हरहँ

आयरणु एत्थु जम-तलवरहँ

इह णव-गह दमिय दसाणँण

दक्खवइ णिवाणइँ^१ सयलु जणु ॥ १

इह सक्कु पसाहइँ गय-घडउ ॥ २

इह गाय(?)उ गेउ^३ सरस्सइएँ ॥ ३

इह भण्डागारिउ वइसवणु ॥ ४

सुर-वन्दि-सयइँ इह अच्छियइँ ॥ ५

अत्थाणु एत्थु दसकन्धरहँ ॥ ६

इह मेलउ णाग-गरामरहँ ॥ ७

इह अच्छिउ सहँ 'वणियायणँण'^५ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पेक्खन्तु 'णिवाणइँ' रावणहँ

स-कलत्तु स-भाइ स-भिच्चयणु

कहि मि ण रहुवइ रइ करइ ।

सन्ति-जिणालउ पइसरइ ॥ ९

[११]

थुओ सन्ति-णाहो

15 हयाणङ्ग-सङ्गो

दया-मूल-धम्मो

तिलोयग-गामी

महा-देव-देवो

जरा-रोग-णासो

20 समुप्पण-णाणो

ति-सेयायवत्तो

अणन्तो महन्तो

अ-डाहो अवाहो

अ-कोहो अरोहो

25 अ-दुक्खो अ-भुक्खो

अ-जाणो सजाणो

कयक्खावराहो ॥ १

पभा-भूसियङ्गो ॥ २

पणट्ठ-कम्मो ॥ ३

सुणासीर-सामी ॥ ४

पहाणूढ-सेवो ॥ ५

असामण-भासो ॥ ६

कयङ्गि-प्पमाणो ॥ ७

महा-रिद्धि-पत्तो ॥ ८

अ-कन्तो अ-चिन्तो ॥ ९

अ-लोहो अ-मोहो ॥ १०

अ-जोहो अ-मोहो ॥ ११

अ-माणो समाणो ॥ १२

अ-णाहो वि णाहो^१ ॥ १३

10. 1 P S °णइ, A °रइ. 2 P S °उ 3 P S वणास° 4 P S चकारिउ एत्थु. 5 P °च्चियइ, S °च्चियइ. 6 P S °जणेण 7 P S A °इ

11. 1 P leads थुओ सन्तिणाहो and s थुओ सतिणाहो after 13 b

[१०] १ गीत कृत २ बुद्धारणा (Hindi बुद्धारना) ३ अग्निना. ४ ब्रह्मा ५ वनिता-जनेन ६ शुभस्थानानि

[११] १ कृत इंद्रियाणामपराधस्य २ T इड ,

॥ घत्ता ॥

थुइ एम करेवि किर वीसमइ
स-कलत्तु स-लक्खणु स-वलु वलु

ताव पडिच्छिय-पेसणेंण ।
णित्ठ णिय-णिलत्त विहीसणेंण ॥ १४
[१२]

सु-वियड्डु 'वियट्ठाएवि लहु'^१
दहि-दोव-जलक्खय-गहिय-कर
आसीसहिं सेसहिं पणवणेंहिं
उच्छाहेंहिं धवलेंहिं मङ्गलेंहिं
कइ-कहएहिं णड-णट्ठावएहिं
णर-णायर-वम्भण-घोसणेंहिं
मन्दिरु पइसरइ विहीसणहो
पुणु णवणासण-परिहावणेंहिं

वर-जुवइहुं दसहिं सएहिं सहुं ॥ १
गय-तहिं जहिं हलहर-चक्कहर ॥ २
जय-गन्द-वद्ध-वद्धावणेंहिं ॥ ३
पडु-पडहेंहिं सहुं मन्दलेंहिं ॥ ४
गायण-वायण-फम्फावएहिं ॥ ५
अवरेहि मि चित्त-परिओसणेंहिं ॥ ६
मज्जणउं भरिउं^४ रहु-णन्दणहो^७
दसकण्ठ-कोस-दरिसावणेंहिं ८

॥ घत्ता ॥

गउ दिवसु सव्वु^५ पाहुणेंण^६ लब्भइ तो वि पमाणु ण वि ।

'सुहु^१ सुअउ सीय सहुं^३ रहु-सुएण'^२ एम भणेंवि^७ णं ल्हिक्कु रवि ॥ ९

[१३]

तो भणइ विहीसणु 'दासरहि
सीयऽग-महिसि^१ तुहुं रज्ज-धरु
रमणीय एह लङ्का-णयरि
एहु पुप्फ-विमाणु पहाणु घरें
सिंहासण-छत्तइं चामरइं^३
तं णिसुणेंवि पभणइ दासरहि
अम्हहुं घरें भरहु जें रज्ज-धरु
तुम्हहुं घरें तुज्जु जें राय-सिय

अणुहुज्जि भडारा सयल महि ॥ १
सोमिच्छि मन्ति हउं आण-करु ॥ २
एहु तिजगविहसणु पवर-करि ॥ ३
एउ चन्दहासु करवालु करें ॥ ४
लइ उवसमन्तु रिउ-डामरइं^५ ॥ ५
'अणुहुज्जि विहीसणु तुहुं जें महि ॥ ६
जसु जणणिहें ताएं दिण्णु वरु ॥ ७
सइ जासु वियट्ठाएवि तिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

णहें सुरवर महियलें मेरु-गिरि
परिभमइ कित्ति जणें जाव महु

जाव महा-जलु मयरहरें ।
ताव विहीसण रज्जु करें ॥ ९

12. 1 P S °हु 2 P S A °हि 3 S A °उ 4 P भणित्ठ 5 P S साउ 6 P S A
पाहुण' 7 A सुहि 8 P S A °हु. 9 P S A भणिवि
13 1 P S A तुहु 2 S A रज्जु° 3 P S A °इ

[१४]

अहिसेउ विहीसणें आढविउ
सुगीउ विराहिउ णीलु णलु
अद्वहि मि तेहिं सुह-दंसणहों
5 सइं वहु पहु रहु-णन्दणेंण^१
'जाउ वि माणियउ ण माणियउ
णं सुर-वहुअउ सग्गहों चुअउ
कल्लाणमाल वणमाल तहँ
कइपुङ्गम-दहिमुह-णन्दणिउं^२

भामण्डलु कलसु लएवि थिउ ॥ १
दहिमुहु महिन्दु मारुइ पवलु ॥ २
पल्हत्थिय कलस विहीसणहों ॥ ३
वहु-दिवसेहिं राम-जणहणेंण^३ ॥ ४
ताउ वि तहिं तुरिउ पराणियउ ॥ ५
सीहोयर-वज्जयणण-सुअउ ॥ ६
जियपोम सोम जिण-पडिम जिह ॥ ७
ससिवज्जण-णयणाणन्दणिउं ॥ ८

10

॥ घत्ता ॥

वैहु-विन्दइँ आयइँ अवरइ मि सव्वइँ^४ तहिं जें समागयइँ^५ ।
अच्छन्तहँ वल-णारायणहँ लङ्कहँ वरिसइँ छहँ गँयइँ ॥ ९

[१५]

तहिं कालें सुकोसल-राणियहँ
15 रत्तिन्दिहु^१ पहु जोअन्तियहँ
घर-पङ्गणें वायसुं कुलकुलइ
रिसि णारउ ताव पराइयउ
तेणें वि णिय-वइयरु विमलु कउं
वन्दन्तहों 'तेत्थु' तित्थ-सयइँ
20 पुणु तेत्थहों^२ लङ्का-णयरि गउ
'पडि पुव्व-विदेहु पराइयउ

णन्दण-विओय-विहाणियहँ ॥ १
पन्थिय-पउत्ति-पुच्छन्तियहँ ॥ २
णं भणइ 'माएँ रहुवइ मिलइ' ॥ ३
थुउ पुच्छिउ 'केत्तहों' आइयउ' ॥ ४
'परमेसरि पुव्व-विदेहँ गउ ॥ ५
सत्तारह वरिसइँ ववगइँ ॥ ६
जहिं लक्खण-चक्कें वइरि हउ ॥ ७
तेवीसहुँ वरिसहुँ आइयउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लक्खणु विसल्ल वइदेहि वलु
अच्छन्ति माएँ लुहि लोयणइँ

लङ्कहिं रज्जु करन्ताइँ ।
तउ दक्खवमि जियन्ताइँ' ॥ ९

14. 1 P adds marginally after 3 After 4 b P adds marginally 5 P S A °णीउ 6 P आयाइ, S आयाइ

4 a सहु कन्हे रिउवलमहणेण 2 P °हणेहि तहो चित्तु वियाणिउ वुहजणेहि 4 P S तहि 7 P S A °इ 8 P A छ 9 A ग्ग.

15. 1 P °दिउ, A °दिहु. 2 P S °स A तेत्थुइ 6 P S °इ

3 P °हे, S °हि. 4 P S किउ 5 S तत्थु,

[१४] १ ये स्त्री कदाचित् सभोगविषये न सन्मानिता सिहोदरवज्जकणेषुतादीनि २ वधूसमूहानि एतानि ३ पइ वर्षाणि गतानि

[१५] १ प्रयुक्ति २ नारदेन. ३ प्रकट ४ T पूर्वविदेह-वर्तमान ५ T पुन, 'पुणु' वा पाठे

[१६]

गड लङ्क महा-रिसि मण-गमणु
परिभमिर-भमर-झङ्कार-वैरें
तरु-तीर-लयाहरें कुसुमहरें
तिहुवण-परिभमिर-पियारएण
'किं कुसलु कुमार वियक्खणहों
तेण वि जिय-सयल-महाहवहों
हलहरेंण वि अब्भुत्थाणु किउ
तावसेण बुत्तु 'तउ माइयहें
सा तुम्ह विओएं दुम्मणिय

'णिय-वेओहामिय-खर-पवणु ॥ १
णीलुप्पल-वहु-रय-गन्ध-भरें^३ ॥ २
जहि अङ्गउ कीलइ कमल-सरें ॥ ३
तहिं थाएँवि पुच्छिउ णारएण ॥ ४
वइदेहिहें रामहों लक्खणहों' ॥ ५
पइसारिउ मन्दिरु राहवहों ॥ ६
'आगमणु काइँ' एत्तिउ चविउ ॥ ७
आयउ पासहों अपराइयहें ॥ ८
अच्छइ हरिणि व बुण्णाणणिय ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सुहु एक्कु वि दिवसु ण जाणियउ
अच्छइ कन्दन्ति स-वेयणिय

पइ वण-वासु पवणएण ।
णन्दिणि जिह विणु तण्णएण' ॥ १०

[१७]

उम्माहिउ तं णिसुणेवि वलु
'अहों मह-रिसि सुन्दरु कहिउ पइँ
तो दंसण-सल्ल-तिसाइयहें
णिय-जम्मभूमि जणणिएँ सहिय
लइ जामि विहीसण णियय-घरु
छव्वरिसइँ एक्क-दिवस-समइँ
लब्भइ पमाणु सायर-जलहों
लब्भइ पमाणु लक्खण-सरहों

बोलइ मउलावियँ-मुह-कमलु ॥ १
जइ अज्जु कलें णउ दिट्ठ मइँ ॥ २
उड्डुन्ति पाण अपराइयहें ॥ ३
सगें वि होइ अइ-दुल्लहिय ॥ ४
पइँ मुएँवि अण्णु को सहइ भरु ॥ ५
ववगयइँ सुरिन्द-सुहोवमइँ ॥ ६
लब्भइ पमाणु वाणर-वलहों ॥ ७
लब्भइ पमाणु दिणयर-करहों ॥ ८

॥ घत्ता ॥

लब्भइ पमाणु जिण-भासियहुँ
परिमाणु विहीसण लड्डु ण वि

वयणहुँ 'णिव्वुइ-गाराहुँ ।
णिरुवम-गुणहें तुहाराहुँ' ॥ ९

16. 1 P S °वेवो°, A °वेउ°. 2 P °वरि, S °ववहिरि, A °धरि. 3 P S A °रि. 4 P S °भरे. 5 P S A °इ 6 A °उ.

17. 1 P S A °उ°. 2 P S A, °इ.

[१६] १ निजवेग. २ T जल्पित. ३ ऊर्ध्वमुखी. ४ यथा गौ वत्सेन विना

[१७] १ T मुक्तिस्थानस्य (१)

[१८]

तो भणइ विहीसणु पणय-सिरु
 'जइ रहुवइ विजय-जत्त करहि
 हउं^२ जाव करेमि पुणणविय^३
 ५ वल-लक्खण एव परिट्टविय
 पुणु पच्छएँ विज्जाहर-पवर
 ओरुवुडु तेहि^५ कञ्चण-वरिसु
 घरें घरें मणिकूडागार किय
 पुरें घोसण तो वि परिव्भमइ

थुइ-वयण-सहासुगिणण-गिरु ॥ १
 तो सोलह वासर परिहरहि ॥ २
 उज्झाउरि सव्व सुवणमिय' ॥ ३
 अगएँ वद्धावा पट्टविय ॥ ४
 णहयलु भरन्त णं अम्बुहर ॥ ५
 किउ पुरवर लङ्काउरि-सरिसु ॥ ६
 घरें घरें णं णव-णिहि सङ्कमिय ॥ ७
 'सो लेउ लएवएँ जासु मइ' ॥ ८

10 ॥ घत्ता ॥

तं पट्टणु कञ्चण-धर्ण-पउरु
 देन्तउ जें अत्थि पर सयलु जणु

वहइ पुरन्दर-णयर-छवि ।
 जसु दिज्जइ सो को वि ण वि ॥ ९

[१९]

गउ लङ्क विहीसणु भिच्च-वलु
 15 स-विमाणु स-साहणु गयण-वहें
 'एहु सुन्दरि दीसइ मयरहरु
 किक्किन्ध-महिन्द^१-इन्दसइल
 हउं लक्खणु एण पहेण गय
 इह सम्बु-कुमारहों खुडिउ सिरु
 20 इह सो उद्देसु णियच्छियउ
 एहु देसु असेसु वि(?) चारु-चरिउ

सोलहमएँ दिवसेँ पयडु वलु ॥ १
 दावन्तु णिवाणइँ पिययमहें ॥ २
 एहु मलय-धराहरु सुरहि-तरु ॥ ३
 इह तुलिय कुमारें कोडि-सिल ॥ ४
 एत्तहें खर-दूसण-तिसिर हय ॥ ५
 इह फेडिउ रिसि-उवसगु चिरु ॥ ६
 जियपोम-जणणु जहि^५ अच्छियउ ॥ ७
 अइवीर-गराहिउ जहि^५ धरिउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं सुन्दरि एउ जियन्तउरु जहि^५ वणमाल समावडिय ।
 लक्खिज्जइ लक्खण-पायवहों अहिणव वेळि णाइँ^५ चडिय ॥ ९

18. 1 P S A °णु. 2 P S A °उ. 3 P S पुणणमिय, A पुणणमिय. 4 P ओरुवुडु, s ओ, A रवडु 5 The portion from तेहि (6 a) up to घोसण (8 a) is omitted in s 6 P S °जण.

19. 1 P S °दहो इह 2 P S A °सयल. 3 P S A °हि. 4 P A जहि, s जं. 5 P S A °इ.

[२०]

रामउरि एह गुण-गारविय
 ऐहु अरुणु गामु कविलहों तणउ^१
 ऐहु दीसइ सुन्दरि विञ्जइरि
 वइदेहि एउ कुच्चर-णयरु
 ऐउ दसरु जहिं लक्खणु भमिउ
 ऐह सा गम्भीर समावडिय
 उहु दीसइ सव्वु सुवणमउ
 धूवन्त-धवल-धयवड-पउरु

जा पृयण-जक्खें कारविय ॥ १
 जहिं गलथल्लाविउ अप्पणउ^२ ॥ २
 जहिं^३ वसिकिउ वालिखिल्लु वइरि ॥ ३
 कल्लाणमाल जहिं^४ जाउ णरु ॥ ४
 सीहोयर^५-सीहु समरें दमिउ ॥ ५
 जहिं महु कर-पल्लवें तुहुं चडिय ॥ ६
 णिम्मविउ विहीसणें^६ णं णवउ ॥ ७
 पिऐं पेक्खु अउञ्जाउरि-णयरु^७ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

किर जम्म-भूमि जणणीऐं सम अणु विहूसिय जिणहरेंहिं^१ ।
 पुरि वन्दिय सिरें^२ स इं भु व^३ करेवि^४ जणय-तणय-हरि-हलहरेंहिं^५ ॥ ९

*

[७९. एकूणासीमो संधि]

सीयहें रामहों लक्खणहों
 वुद्धिहें ववसायहों विहिहें

मुह-यन्द-णिहालउ भरहु गउ ।
 णं पुण्ण-णिवहु सवडम्मुहउ^१ ॥ 15

[१]

रामागमणें भरहु णीसरियउ
 अणोत्तहें सत्तुहणु स-वाहणु
 छत्त-विमाण-सहासइं धरियइं
 तूरइं हयइं कोडि-परिमाणेहिं
 जणवउ णिरवसेसु संखुब्भइ
 णिवडियं एकमेक्क-भिडमाणेहिं
 कण्णताल-हय-महुअर-विन्दहों
 हरि-वल स-महिल पुप्फ-विमाणहों

हय-गय-रह-णरिन्द-परियरियउ ॥ १
 स-रहसु सालङ्कारु स-साहणु ॥ २
 अम्बरें रवि-किरणइं अन्तरियइं ॥ ३
 दुन्दुहि दिण्ण गयणें गिवाणेंहिं ॥ ४
 रह-गय-तुरऐंहिं मग्गु ण लब्भइ ॥ ५
 पे वेळिं जाय जम्पाणेंहिं ॥ ६
 भरहाहिउ उत्तरिउ^४ गइन्दहों ॥ ७
 अवर वि णरवइ णिय-णिय-जाणहों ॥ ८

20. 1 A °उ 2 P A °उ 3 P S वसे. 4 P S A °हि. 5 S A °रु. 6 P S A °णि. 7 P °वरेहिं 8 P S सिर, A सिरि. 9 S A भु 10 P करेहि.

1. 1 A °उ. 2 A णियचंडि 3 A °विल्लि. 4 P S ओवरिउ.

* At the end of the Sandhi. P जुञ्जकंड समत्त ॥ ज्येष्ठ वदि १ सोमे, S जुञ्जकंड समत्त ॥ छ ॥ ज्येष्ठ वदि १ सोमे, A जुञ्जकंड समाप्त ॥ ज्येष्ठ वदि १ सोमे

[१] T विधिभि. (१)

॥ घत्ता ॥

केकय-सुएँण^१ णमन्तएँण
दीसइ^२ विहिँ^३ रत्तुप्पलहँ

सिरु रहुवइ-चलणन्तरेँ कियउ ।
णीलुप्पलु मज्जेँ णाईँ^४ थियउ ॥ ९

[२]

५ जिह रामहों तिह णमिउ कुमारहों
वलेंण वलुद्धरेण हक्कारेँवि
अवरुण्डिउ भायरु लहुवारउ^५
सय-वारउ उच्छङ्गेँ चडाविउ^६
सय-वारउ दिण्णउ आसीसउ
१० 'भुञ्जि सहोयर रज्जु णिरङ्कुसु
अच्छउ वीर-लच्छि भुव-दण्डएँ
एम भणेवि पगासिय-णामें

अन्तेउरहों 'पघोलिर'^१-हारहों ॥ १
सरहस णिय-भुव-दण्ड पसारेंवि ॥ २
मत्थएँ चुम्बिउ पुणु सय-वारउ^३ ॥ ३
सय-वारउ भिच्चहँ दरिसाविउ^४ ॥ ४
'वरिस-सरिस-^५हरिसंसु-विमीसउ ॥ ५
णन्द वद्ध जय जीव चिराउसु ॥ ६
णिवसउ वसुह तुहारएँ खण्डएँ^६ ॥ ७
पुप्फ-विमाणें चडाविउ रामें ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१५ भरह-गराहिवु दासरहि
धम्मु पुण्णु ववसाउ 'सिय

लक्खणु वइदेहि णिविड्ढाईँ ।
णं मिलेँवि^१ अउज्ज पइड्ढाईँ ॥ ९

[३]

तूरइँ हयइँ णिणदिय-ति-जयइँ
मेह-मइन्द-समुद्-^२णिघोसइँ
सिव-संजीवण^३-जीवणिणहइँ
२० सुन्दर-सन्ति-सोम-सङ्गीयइँ
गहिर-पसण्णइँ पुण्ण-पवित्तइँ
झल्लरि-भम्भा-भेरि-वमालइँ
करडा-करडइँ(?) मउन्दा-ढक्कइँ
^४ढड्ढिय-पणव-तणव-दडि-दहुर

णन्द-सुणन्द-भइ-जय-विजयइँ^१ ॥ १
णन्दिघोस-जयघोस-सुघोसइँ ॥ २
वद्धण-वद्धमाण-माहेन्दइँ ॥ ३
णन्दावत्त-कण्ण-रमणीयइँ ॥ ४
'अवराइँ वि बहुविह-त्राइत्तइँ ॥ ५
महल-णन्दि-मउन्दा-तालइँ ॥ ६
काहल-टिविल-ढक्क-पडिढक्कइँ ॥ ७
डमरुअ-गुञ्जा-रुञ्जा वन्धुर ॥ ८

५ A दीसति हि 6 P S A °हि 7 P S A °इ 8 P थियउ, S थियउ, A थियउ.

2. 1 P °पहोलि, S वरहोलि 2 P °वराउ 3 P °वाराउ. 4 P °वियउ. 5 P S A मिलिवि.

3. 1 P S A °इ. 2 P S णिग्वो°. 3 P जस°. 4 P S स° 5 P जंजीवणि, S °सजीवणि, A °सजीवणु. 6 P S °माहि°. 7 P °करणइ, S °करणइ. 8 P दड्ढिय°, S दड्ढिय°.

[२] १ T प्रकषेण घुलायमानहारस्य. २ वर्षासदृश. ३ T हर्पाशु ४ श्रीसीता च

[३] १ क्रियार्थाऽपि (?)

अट्टारह अक्खोहणिउ
अवरहँ तूरहँ तूरियहँ

॥ घत्ता ॥

रयणीयर-गयरहँ आणियउ^० ।
कइ कोडिउ किं परियाणियँउ ॥ ९

[४]

जय-जय-कारु करन्तेहिँ लोएँहिँ
अइहव-सेसासीस-सहासेँहिँ
इहि-दोवा-दप्पण-जल-कलसेँहिँ
ग्ग्भण-वयणुग्ग्घोसिय-वेएँहिँ
गड-कइ-कहय-छत्त-फम्फावेँहिँ
भट्टेँहिँ वयणुच्छाह पढन्तेहिँ
मल्लफोडण-सरेँहिँ विचित्तेहिँ
मन्द-फेन्द-वन्देँहिँ कुदन्तेहिँ

मङ्गल-धवलुच्छाह-^१पओएँहिँ ॥ १ 5
तोरण-णिवह-छडा-विण्णासेँहिँ ॥ २
मोत्तिय-रङ्गावलि-णव-कणिसेँहिँ ॥ ३
कण्डिय-^१जजु-रिउ-सामा-भेएँहिँ ॥ ४
लङ्घिय-वत्तारुहण-विहावेँहिँ ॥ ५
वायालीस वि सर सुमरन्तेहिँ ॥ ६ 10
इन्दयाल-उप्पाइय-चित्तेहिँ ॥ ७
डोम्बेँहिँ वंसारुहणु करन्तेहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पुरेँ पइसन्तहँ राहवहँ
दुन्दुहि ताडिय सुरेँहिँ णहँ

^०ण कला-विण्णाणइँ केवलइँ ।
अच्छरेँहि मि गीयइँ मङ्गलइँ ॥ ९ 15

[५]

पुरेँ पइसन्तेँ राम-णारायणेँ
एँहु सो रामु जासु विहि वीयउ
एँहु सो लक्खणु लक्खणवन्तउ
एँहु सो वहिणि विहीसण-राणउँ
एँहु सो सहि सुग्गीवु सुणिज्जइ
एँहु सो विज्जाहरु भामण्डलु
एँहु सो सहि णामेण विराहिउ
एँहु सो हणुउ जेण वणु भग्गउ
जाम णयरु णाम-ग्गहणालुउ

^१जाय वोळ वर-णायरिया-यणे ॥ १
दीसइ णहँणावन्तु स-सीयउ ॥ २
जेण दसाणणु णिहउ मिडन्तउ ॥ ३
^१सुव्वइ विणयवन्तु बहु-जाणउ^० ॥ ४ 20
गिरि-किक्किन्ध-णयरु जो^१ भुज्जइ ॥ ५
णं सुर-सामिसालु आहण्डलु ॥ ६
दूसणु जेण महाहवेँ साहिउ ॥ ७
रामहँ दिण्णु रज्जु आवग्गउ ॥ ८
तिण्णि वि ताव पइँडुइँ राउलु ॥ ९ 25

9 A °उ. 10 P °आणिउ

4. 1 P जजुरिचसम^०, S जजरिचसमभेयहि, A °सेएहि. 2 S लसिय^०, A लक्खिय^०. 3 P S
°तारारुहणु 4 A °फिट^०. 5 P कुदंतेहिँ, S कुदंतेहि, कुदत्तेहि 6 S णट^०

5. 1 P S णहि (S °हे) हेमट. 2 A °उ. 3 P A °उं. 4 P जसु छज्जइ, S जसु
भुंजइ. 5 P S आपटलु 6 P S °णाउरु

[४] १ T प्रयोग. २ (P's leading) चंद्र इव दृष्ट

[५] १ T नागरिकाजने वार्ता जाता. २ श्रूयते. ३ समस्तं स्वाधीनं वा.

॥ घत्ता ॥

बलु धवलउ हरि सामलउ
णं हिमगिरि-णव-जलहरहँ

वइदेहि सुवण्ण-वण्णु हरइ ।
अब्भन्तरेँ विज्जुल विप्फुरइ ॥ १०

[६]

- 5 तिण्णि वि गयइँ तेत्थु जहिँ 'कोसल' पण्ह^१-भरन्त-घण-त्थण-मण्डल ॥ १
 'साइउ दिण्णउ' मणुँ साहारिय जिणवर-पडिम जेम जयकारिय ॥ २
 ताएँ वि दिण्णासीस मणोहर 'जाव महा-समुद्द स-महीहर ॥ ३
 धरइ धरत्ति जाव सयरायर जाव मेरु णहँ चन्द-टिवायर ॥ ४
 जाव दिसा-गइन्द गह-मण्डल जाव सुरेँहिँ समाणु आहँण्डलु ॥ ५
 10 जाव वहन्ति 'महाणइ-वत्तइँ' जाव तवन्ति गयणँ णक्खत्तइँ ॥ ६
 ताव पुत्त तुहुँ सिय अणुहुञ्जहि लीयाएविहँ पट्टु पउञ्जहि ॥ ७
 लक्खणु होउ ति-खण्ड-पहाणउँ भरहु अउञ्जा-मण्डलेँ राणउँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कइकइ-केकय-सुप्पहउ
15 मेरुहँ जिण-पडिमाउ जिह

तिण्णि वि पुणु 'तिहिँ'^९ अहिणन्दियउ ।
सइँ इन्द-पडिन्देँहिँ वन्दियउ ॥ ९

[७]

हरि-हलहरेँहिँ तेत्थु अच्छन्तेँहिँ
भरहहँ राय-लच्छि माणन्तहँ
तिविह-सत्ति-चउ-विज्जावन्तहँ
20 छगुण्णउँ असेसु जुज्जन्तहँ
'बुद्धि-महागुण-अट्टु वहन्तहँ
वारह-मण्डल-चिन्त करन्तहँ
एकहिँ दिवसेँ जाउ उम्माहउ

वहवेँहिँ वासरेँहिँ गच्छन्तेँहिँ ॥ १
'तन्तावाय वे वि जाणन्तहँ ॥ २
पञ्च-पयारु मन्तु मन्तन्तहँ ॥ ३
तह सत्तडु रज्जु भुञ्जन्तहँ ॥ ४
'दसमेँ भाएँ पय पालन्तहँ ॥ ५
अट्टारह तित्थइँ^३ रक्खन्तहँ ॥ ६
कमल-सण्डु थिउ णाईँ^३ हिमाहउ ॥ ७

6. 1 A पल्हं 2 P दिन्नउ, S A दिण्णुउ 3 P मनु, A मण्णु. 4 P S आखंडलु, A अहंडलु. 5 P S A °इ 6 S णिउं 7 P A °उ. 8 P A °उं. 9 P S A °हि.

7. 1 A °उ 2 This Pada is omitted in A 3 P S A °इ.

[६] १ कोशल्या राम-माता २ दुग्धेन स्तनमंडलानि ३ अरुमाला. ४ मनो धीरिता माता.
५ महानदीप्रवाहमुखानि ६ सुप्रभा शत्रुघ्न-माता. ७ त्रिभि पद्मादिभि

[७] १ तंतं निजदेशप्रतिपालनं, आवाउ परदेशोच्चाटनं २ सहाया. साधनोपाया देशकालौ
बलावलौ । विपत्तेश्च प्रतीकार, पंचागो मंत्र इष्यते ॥ ३ दशाशेन

॥ वृत्ता ॥

'ते रह ते गय ते तुरय
ताउ 'जणेरिउ सो जि हउं

ते मिलिय स-किङ्कर भाइ-णर ।
पर ताउ ण दीसइ एकु पर ॥ ८

[८]

जिह ण ताउ तिह हउ मि ण कालें
रज्जु धिगत्यु धिगत्यइँ छत्तइँ
धण्णउ^३ ताउ जेण परिहरियइँ
हउं पुणु कु-पुरिसु दुण्णय-वन्तउ
मुणिहँ पासँ^४ चिरु लइउ अवग्गहु
जहिँ जें दिवसँ तिण्णि वि णिदिइँ
तहिँ जें कालें जं ण गउ तवोवणु
“दुइँ-सहाउ कसाएँ लइयउ

पर 'वामोहिउ मोहण-जालें ॥ १
घरु परियणु धणु पुत्त-कलत्तइँ^५ ॥ २
दुग्गइ-गामियाइँ दुच्चरियइँ ॥ ३
अज्ज वि अच्छमि विसयासत्तउ^६ ॥ ४
'रामागमणे होमि अ-परिग्गहु ॥ ५
जहिँ^७ जें दिवसँ णिय-णयरेँ पइँइँ^८ ॥ ६
मं वोह्लेसइ को इ अ-सज्जणु ॥ ७
रामागमेँ^९ जि भरहु पव्वइयउ” ॥ ८

॥ वृत्ता ॥

अग्ग-महिसि करेँ जणय-सुय
अप्पुणु पालहि सयल महि

मन्तित्तणु देवि^{१०} जणहणहों ।
हउं^{१०} रहवइ जामि तवोवणहों ॥ ९

[९]

ताएँ कवणु सञ्चु किर जम्पिउ
तहों अविणयहों सुद्धि पर मरणें
तेण णिवित्ति भडारा रज्जहों
तो जिय-जाउहाण-सङ्गामे
'अज्जु वि तुहँ जें राउ ते किङ्कर
ते सामन्त अम्हेँ^३ ते भायर
छत्तइँ ताइँ तं जें सिंहासणु
भामण्डलु सुग्गीवु विहीसणु

तुम्हहँ वणु महु रज्जु समप्पिउ ॥ १
अहवइ घोर-वीर-तव-चरणें ॥ २
एवहिँ^४ जामि धामि^५ पावज्जहों ॥ ३
भरहु चवन्तु णिवारिउ रामें ॥ ४
ते गय ते तुरङ्ग ते रहवर ॥ ५
सा समुह-परिअन्त-वसुन्धर ॥ ६
तं चामीयर-चामर-वासणु ॥ ७
सयल वि तउ करन्ति घरेँ पेसणु^८ ॥ ८

॥ वृत्ता ॥

एव वि जं अवहेरि किय

चल-वलय-मुहल-कल-णेउरहों ।

'जिह सक्हहों तिह पडिखलहों' आएसु दिण्णु अन्तेउरहों ॥ ९

8. 1 P S वम्मो°. 2 P S A °इ. 3 A °उं. 4 P S A पासि. 5 P S A °हि. 6 P S A पय°. 7 P S दुहु. 8 P S A °सि 9 S देहि 10 P S A हउ.

9. 1 P S एमहि, A एवहि 2 S सामि जामि. 3 P S A अम्हि

४ मात्र.

[९] १ राक्षस रावणादिक.

[१०]

जं आप्सु दिण्णु वर-विलयहुँ
णह-मणि-किरण-करालिय-गयणहुँ
थण-गयउर-पेलाविय-जोहहुँ
5 सयल-कला-कलाव-कल-कुसलहुँ
भउह-सरासण-लोयण-वाणहुँ^१
विम्भाडिय-वम्मह-सोहग्गहुँ^२
तो कल्लाणमाल-वणमालहिँ
सल्ल-विसल्लासुन्दरि-सीयहिँ

10

वुच्चइ भरह-गराहिवइ
देवर थोडी वार वरि

जाणइ-पमुहहुँ^३ गुण-गण-णिलयहुँ ॥ १
'रमणावासावासिय-मयणहुँ ॥ २
रुवोहामिय-सुरवहु-सोहहुँ ॥ ३
मुह-मारुअ-मेलाविय-भसलहुँ ॥ ४
केस-णिवन्धण-जिय-गिवाणहुँ ॥ ५
लावण्णम्भ-भरिय-पुरि-सग्गहुँ ॥ ६
गुणवइ-गुणमहग्घ-गुणमालहिँ ॥ ७
वज्जयण्ण-सीहोयर-धीयहिँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'सर-मज्झे तरन्त-तरन्ताइँ ।
अच्छहुँ जल-कील करन्ताइँ ॥ ९

[११]

तं पडिवण्णु पइहु महा-सरु
15 लग्गउ सुन्दरीउ चउ-पासेहिँ
हेला-हाव-भाव-विण्णासेहिँ
'मोटाविय-कोट्टिमिय-वियारोहिँ
तो वि ण खुहिउ भरहु सहसुट्टिउ
अच्छइ जाव तीरें सुह-दंसणु
20 णिय-आलाण-खम्भु उप्पाडेवि
परिभमन्तु गउ तं जें महा-सरु^३
'परम-मित्तु इहु अण्ण-भवन्तरेँ

जल-कीलहेँ वि अचलु परमेसरु ॥ १
गाढालिङ्गण-चुम्भण-हासेहिँ ॥ २
'किलिकिञ्चिय-विच्छित्ति-विलासेहिँ ॥ ३
विम्भम-वर-विव्वोक्क-पयारोहिँ ॥ ४
अविचलु णं गिरि मेरु परिट्टिउ ॥ ५
ताव महा-गउ तिजगविहूसणु ॥ ६
मन्दिर-सयइ अणेयइ पाडेवि ॥ ७
भरहु णिएवि जाउ जाई-सरु ॥ ८
णिवसिय सग्गे वे वि वम्भोत्तरेँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पुण्ण-पहावेँ सम्भविउ^४

इहु णरवइ हउँ पुणु मत्त-गउ' ।

25

कवल्लु ण लेइ ण पियइ जलु^५ अत्थक्कएँ थिउ लेप्पमउ ॥ १०

10. 1 P S °ह, A °ह. P S °वासियवासा°, T °वासियसासय°. 3 A °गयपेलावियउ.
4 P °कय° 5 P S A मेला° 6 P S A °हु 7 P S लायण्ण°

11. 1 P S °कुट्टिमिय°, A °कुट्टिमि°. 2 P S °क° 3 After this P S read an
extra Pāda जलकीलए (S °इ) जहि भरहु णरेसरु 4 P S सभरमि.

[१०] १ कटीतटावासितनिश्चलमदनाना २ समूह

[११] १ विपरीतसुरतमेदैरिव. २ बलात्कारेण यत्सुरतं तदिव. ३ आकस्मिकमिव.

[१२]

करि सम्भरइ भवन्तरु जावहिं
लक्खण-राम पराइय भायर
णवर विसल्लासुन्दरि-वीयएँ
चडिउ महा-गएँ तिहुअणभूसणें
पुरें पइसन्तें जय-जय-सदें
तो आलाण-खम्भें करेँ आलिउ
कवलु ण लेइ ण गेणहइ पाणिउ^४
काहिउ 'करिल्लेहिं पङ्कयणाहहों

पुप्फ-विमाणुं चडेप्पिणु तावहिं ॥ १
णं 'सञ्चारिमं चन्द-दिवायर ॥ २
भरह-गराहिवो वि सहुँ सीयएँ ॥ ३
सुरवर-णाहु णाई अइरावणें ॥ ४
वन्दिण-वम्भण-तूर-णिणहें ॥ ५
अविरल्लालि-रिञ्छोलि-वमालिउ ॥ ६
कुञ्जर-चरिउ ण केण वि जाणिउ^४ ॥ ७
'दुकरु जीविउ वारण-णाहहों' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं गयवर-वइयरु सुणेंवि
आयउ ताव समोसरणु

उप्पण चिन्त वल-लक्खणहुँ ।
कुलभूसण-देसविहसणहुँ ॥ ९

[१३]

रिसि-आगमणु सुणेंवि 'परमन्तिएँ
गय सत्तुहण-भरह स-जणइण
भामण्डल-सुग्गीव-विराहिय
स-विहीसण णल-णीलङ्गय
कोसल-कइकइ-केकय-सुप्पह
साहुहुँ वन्दणहत्ति करेप्पिणु
पुच्छिउ जेइ-महारिसि रामें
कवलु ण लेइ ण दुक्कइ सलिलहों

गउ रह-णन्दणु वन्दणहत्तिएँ ॥ १
स-तुरङ्गम स-गइन्द स-सन्दण ॥ २
गवय-गवक्ख-सङ्ग रहसाहिय ॥ ३
तार-तरङ्ग-रम्भ-पवणञ्जय ॥ ४
सैन्तेउर वइदेहि विणिगगय ॥ ५
दस-पयारु जिण-धम्मु सुणेप्पिणु ॥ ६
'एँहु करि तिजगविहसणु णामें ॥ ७
जेम महारिसिन्दु कलि-कलिलहों' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कुञ्जर-भरत-भवन्तरइ^१
केकइ-णन्दणु पव्वइउ

अक्खियइँ असेसइँ मुणिवरेंण ।
सामन्त-सहासें उत्तरेंण ॥ ९

12 1 P जावहि, S जावेहि. 2 S णे, A ण. 3 S य. 4 S A उं. 5 P करिल्लेहि,
S करिल्लिहि, A करेल्लिहिं.

13. 1 P S A इ.

[१२] १ प्रचलमान २ भ्रमरपंक्ति

[१३] १ अलाटरेण २ लक्ष्मणमाता. ३ अत पुरसहितं ४ पातकस्य

पउ० च० २५

[१४]

विक्कम-णय-विणय-पसाहिएण
थिउ भरहु महारिसि-रुवु लेवि
तहि^१ जुवइ-सएहिं सहुं केकया वि
५ सो तिजगविहूसणु मरेंवि णाउ^२
भरहाहिवो वि उप्पण्ण^३-णाणु
अहिसित्तु रामु विज्जाहरेहिं
णल-णील-विहीसण-अङ्गएहिं
चन्दोयरसुय-जम्बुण्णएहिं

सामन्त-सहासैं 'साहिएण ॥ १
मणि-रयणाहरणइं परिहरेवि ॥ २
थिय केसुप्पाडु करेवि सा वि ॥ ३
वम्हुत्तरे सग्गे सुरिन्दु जाउ ॥ ४
वहु-दिवसेहिं^४ गउ लोगावसाणु ॥ ५
भामण्डल-किक्किन्धेसरेहिं ॥ ६
दहिमुह-महिन्द-पवणङ्गएहिं ॥ ७
अवरेहि मि भडेहिं सउण्णएहिं ॥ ८

10

॥ घत्ता ॥

वज्जु पइ रहु-णन्दणहो
लक्खणु^६ चक्क-रयण^६-सहिउ

कञ्चण-कलसेहिं अहिसेउ किउ ।
धर स-धर स इं^७ भु ज्जन्तु थिउ ॥ ९

*

[८०. असीइमो संधि]

१५ रहवइ रज्जु करन्तु थिउ
दिण्ण विहज्जेवि सयल महि

गउ भरहु तवोवणु ।
सामन्तहुं^१ जीवणु ॥

[१]

वसुमइ ति-खण्ड-मण्डिय हरिहें^२
धण-कणय-समिद्धु पउर^४-पवरु
ससि-फलह-लिहिय-जस^५-सासणहो
२० वण-भङ्गहो भड-चूडामणिहें^७
रहणेउर-पुरु भामण्डलहो
माहिन्दि महिन्दहो दुज्यहो

पायाललङ्क चन्दोयरिहें^८ ॥ १
सुगीवहो गिरि^५-किक्किन्ध-पुरु ॥ २
लङ्काउरि अचल विहीसणहो ॥ ३
सिरिपव्वय-मण्डलु पावणिहें^८ ॥ ४
कइ-दीवु दिण्णु णीलहो णलहो ॥ ५
आइच्च-णयरु पवणङ्गयहो ॥ ६

14. 1 P S A °हि. 2 After this Pāda s marginally वय पालेवि खीणु करेवि काउ । सेच्छ (°) परिहरेवि महाणुभाउ. 3 P S A °ण्णु 4 A °सहु. 5 P S °ण 6 P S °णु 7 P A सइ, S सयं.

1. 1 P S °हु, A °हो. 2 P S °हो. 3 P S A °हो 4 P S सपउरु पुरु 5 S वर° 6 P जस collected as जय°. 7 P S °हो, A °हि. 8 P °हे collected as °हि, S A °हि.

[१४] १ साधिकेन

[१] १ जीवनवृत्तिरूपं. २ हनूमंतविशेषण ३ श्रीपर्वत । देस-नामेद ४ माहेंद्रपुरी

अवराह मि अवरइँ पट्टणइँ
 'वलु जीवणु देइ' विघोसइ वि
 सो सयलु वि मइँ अब्भत्थियउ

'घर-सिहर-रविन्दु-विहट्टणइँ ॥ ७
 'जो णरवइ हूवउ' होसइ वि ॥ ८
 मा होउ को वि जगँ दुत्थियउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

'णाएँ भाएँ दसमएँण
 देवहँ सवणहँ वम्भणहँ

पय परिपालेज्जहँ ।
 मं पीड करेज्जहँ' ॥ १०

5

[२]

पुणु पुणु अब्भत्थइ दासरहि
 अणुरत्तु पयएँ णय-विणय-परु
 जो 'घइँ पुणु देव-भोग हरइ
 सो खयहँ जाइ तिहिं वासरहँ
 जइ कह वि चुक्कु तहँ अवसरहँ
 सामन्त 'णिजन्तेवि' राहवँण
 'ण पहुच्चइ काइँ^४ एह पिहिमि
 पयडिज्जइ तो इ मज्जे जणहँ

'सो णरवइ जो पालेइ महि ॥ १
 सो अविचलु रज्जु करेइ णरु ॥ २
 वर-^३थावर-वित्ति-छेउ करइ ॥ ३
 तिहिं मासहिं तिहिं संवच्छरँहिं ॥ ४
 तो अकुसलु अण्ण-भवन्तरहँ' ॥ ५
 सत्तुहणु वुत्तु जीयाहवँण ॥ ६
 सोमिच्छिहँ तुज्जु मज्जु तिहि मि ॥ ७
 लइ मण्डलु जं भावइ मणहँ' ॥ ८

10

15

॥ घत्ता ॥

वुच्चइ सुप्पह-णन्दणँण
 तो वरि महुरायहँ तणिय

'जइ महु दय किज्जइ ।
 महुराउरि दिज्जइ' ॥ ९

[३]

तो मणँ चिन्ताविउ दासरहि
 दुम्महु महु महु वि असज्जु रणँ
 'भय-भावि-भाणु-भा-भासुरँण
 सो महुर-णराहिउ केण जिउ
 तुहुँ^१ अज्जु वि वालु कालु कवणु
 दुद्दम-दणु-देह-वियारणहुँ

'दुग्गेज्जु महुर किह पइसरहि ॥ १
 अज्जु वि रावणु णउ मुउ जँ गणँ ॥ २
 जसु दिण्णु सूलु 'चमरासुरेण ॥ ३
 फणवइहँ फणामणि केण हिउ ॥ ४
 तियसहु मि भयङ्करु होइ रणु ॥ ५
 किह अज्जु समोडुहि पहरणहुँ' ॥ ६

20

25

9 P S होइवि.

2. 1 P S A अणुरत्त पयइ°, P मणुरत्त पयइ 2 P S A °तिवि. 3 P notes a variant सीराउहेण 4 P S A °इ

3 1 A omits the portion °राहिउ to रणु (5 b) 2 P S °हु

५ आदित्यचंद्रौ विष्टितानि (१). ६ श्रीराम ७ कथयति ८ नीत्या, T न्यायेन ९ दशाशेन

[२] १ पुन. २ T दोहलीभूमिदानं ३ स्थापयित्वा.

[३] १ T क्षयकालोत्पन्नादित्य. २ T भावनेद्रेण.

पणवेप्पिणु पभणइ सत्तुहणु
जइ महुर-गराहिउ णउ हणामि

‘हउँ देव णिरुत्तउ सत्तु-हणुं ॥ ७
तो रहुवइ पइ मि ण जय भणमि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पइसइ जइ वि सरणु जमहों
जीर्य-महाविसु अवहरमि

अहवइ जम-वप्पहों ।
महुराहिव-सप्पहों’ ॥ ९

[४]

गज्जन्तु णिवारिउ सुप्पहएँ
वोल्लिज्जइ तं^१ जं णिव्वहइ
किं साहसु दिट्ठु ण भायरहुँ^२
किण्ण मुणिउ णिरुवम-गुण-भरिउ
तउ दसरह-भरहहिँ धोरु किउ
तुहुँ णवर करेसहि जम्पणउ
जइ महु उप्पण्णु मणोरहेंण
तो पउ वि म देहि परम्मुहउ^४

‘किं पुत्त पइज्जा ‘सम्पयएँ ॥ १
भउ-वोक्केहिँ सुहडु ण जउ लहइ ॥ २
किउ विहिँ जें विणासु णिसायरहुँ ॥ ३
अणरण्णाणन्तवीर-चरिउ ॥ ४
इक्खुक्क-वंसु एहु एम थिउ ॥ ५
तो वरि जसु रक्खिउ अप्पणउ ॥ ६
जइ जणिउ जणेरें दसरहेंण ॥ ७
पडिक्खु जिणेसहि सम्मुहउ^४ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कैउ-सुमालालङ्करिय
पुत्त पयत्तें भुञ्जे तुहुँ

‘महु-राय-णिवासिणि ।
तं महुर-विलासिणि’ ॥ ९

[५]

आसीस दिण्ण जं सुप्पहाएँ
तो स-सरु सरासणु राहवेण
लक्खणेंण वि धणुहरु अप्पणउ
णामेण कियन्तवत्तुं पवलु
सामन्तहँ लक्खें परियरिउ
सु-णिमित्तइ हूअइ जन्ताहुँ
उक्खन्धें दूरुज्झिय-सिवहों
तो मन्तिहिँ पभणिउ सत्तुहणु

वद्धारिय-णिय-गुण-सम्पयाएँ ॥ १
दिज्जइ ‘णिव्वूढ-महाहवेण ॥ २
दससिर-सिर-कमलुक्कप्पणउ^१ ॥ ३
सेणवइ दिण्णु समन्त-वलु ॥ ४
सत्तुहणु अउज्जहें णीसरिउ ॥ ५
सव्वइ मिलन्ति सियवन्ताहुँ ॥ ६
गउ उप्परें महुर-गराहिवहों ॥ ७
‘जय णन्द वद्ध वहु-सत्तु-हणु ॥ ८

३ A °हत्तु ४ A भणिय. ५ P जीव°.

४. १ A सुप्पयए. २ P S जं तं ३ P S A °हु. ४ A °उ. ५ P S °रय°.

५. १ A °उं. २ P S °त्त ३ A सोण्णावइ. ४ A महंत°.

[४] १ T साप्रत २ मधुरा ध्वजामालाऽलंकृता । विलासिन्यपि पुष्पमालाऽलंकृता भवति.

३ मधुराजस्य वसतिर्मधुराऽन्यत्र मधु कामो रागोऽनुरागस्तयोर्वसतिर्विलासिनी

[५] १ दृढ निर्वाहक सप्राप्तेण

॥ घत्ता ॥

महु-मत्तहों महुराहिवहों
अञ्जु भडारा छ-दिवस

चर-पुरिस गविट्टहों ।
उज्जाणु^१ पइट्टहों ॥ ९

[६]

करें लगइ जाव ण सूळ तहों
वयणेण तेण रहसुच्छलिउ
पुरें वेढिए वारइ रूद्धाई
किउ कलयलु तूरइ आहयइ
धयरट्ट-महागइ-गामिणिहिं
दिढ-लोह-कवाडइ फोडियइ
णर-णायामर-दप्प-हरणइ
सिहि-जाला-माला-लीवियइ

लइ ताव महु^१ महुराहिवहों ॥ १
पडिवण्णए अद्ध-रत्ते चलिउ ॥ २
भय-विहलइ^२ संसए छुद्धाई ॥ ३
विरसियइ असङ्ख-सङ्ख-सयइ ॥ ४
परिगलिय-गब्भ-रिउ-कामिणिहिं ॥ ५
घर-सिहर-सहासइ मोडियइ ॥ ६
लइयइ सावरणइ^३ पहरणइ ॥ ७
घरें घरें जोएवि मणि-दीवियइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सत्तुहणहों पणमिय-सिरेंहिं
'पट्टणें जिणवर-धम्मं जिह^४

सामन्तेहिं^५ सीसइ ।
महु कहि मि ण दीसइ' ॥ ९

[७]

सत्तुहणागमें पवणञ्जयहों
उप्पण्णु रोसु रहवरें चडिउ
किउ कलयलु तूर-रवब्भइउ
तेण वि ओहामिय-सन्दणहों
धणु ताडिउ पाडिउ आहयणें
तेण वि कियन्तवत्तहों तणउ^६
तें^७ दूरु वरुज्झिय-पाण-भय
कण्णिय-खुरुप्प-कप्परिय-कवय(?)

महु-पुत्तहों लवणमहण्णवहों ॥ १
सण्णाहु लइउ पर-वलें मिडिउ ॥ २
सरवरेंहिं^८ कियन्तवत्तु छइउ ॥ ३
धय-दण्डु छिण्णु महु-णन्दणहों ॥ ४
दुव्वाएं णं मेहागमणें ॥ ५
सहुं चिन्धें छिण्णु 'सरासणउ'^९ ॥ ६
धणुवेय-भेय-पर-पारु गय ॥ ७
लोट्टाविय-सारहि पहय-हय ॥ ८

5 A °णि.

6. 1 P S परि, A पुरि. 2 P S A °इ. 3 P °आइ, S °याइ. 4 P °आइ, S °याइ.
A °याइ. 5 P S A °हि 6 S जिउ.

7. 1 P S °रवब्भइउ, A °रब्भइउ 2 P S A °हि. 3 P S ओवाहिय°. 4 A °उं.
5 P S तें.

[७] १ वायुदेवोऽन्यविद्याधरजयनशीलस्य (१) २ शत्रुघ्नस्य मंत्री. ३ लवणमहाणवस्य. ४ धनुषं

॥ घत्ता ॥

विहि मि परोप्परु वि-रहु किड थिय वे वि गइन्देहिं ।
साहुकारिय गयण-यलें जम-धणय-सुरिन्देहिं ॥ ९

[८]

- 5 'पचोइया गइन्दया
खयगि-पुञ्ज-दुस्सहा
'वलाहय व्व गज्जिया
'मइल्ल-गिल्ल-गण्डया
करगि-छित्त-अम्बरा'
10 स-ढक्क दुक्क दुज्जया
'विवक्ख-तिक्ख-कण्टया
विसार्ण-मिण्ण-दिम्मुहा
- मिलावियालि-विन्दया ॥ १
गिरि व्व^१ तुङ्ग-विग्गहा ॥ २
जियारि सारि-सज्जया ॥ ३
धुणन्त-पुच्छ-दण्डया ॥ ४
कयम्बुवाहँ-डम्बरा ॥ ५
झणज्झणन्त-गेज्जया ॥ ६
टणट्टणन्त-घण्टया ॥ ७
रँयद्धि-पुक्खराउहा ॥ ८

॥ घत्ता ॥

- 15 ताव कियन्तवत्त-भेडँण
पडणत्थवणइँ दावियइँ
रिड आहउ सत्तिँ ।
णं सूरहँ रत्तिँ ॥ ९

[९]

- जं लवणमहण्णउ गिहउ रणें
आरुहिउ महा-रहँ 'जुप्पि हय
दुहम-णरिन्द-णिहारणहुँ
20 हय समर-भेरि अमरिस-चडिउ
'महु तणउँ 'तणउँ जिह गिहउ रणें
तहिँ' अवसरँ अन्तरँ थिउ स-धणु
ते भिडिय परोप्परु कुइय-मण
महि-कारणें परिवहन्तँ-कलि
- तं महुर-णराहिउ कुइउ मणें ॥ १
उब्भविय-धवल-धूवन्त-धय ॥ २
रहु भरिउ अणन्तहुँ^३ पहरणहुँ ॥ ३
स-रहसु कियन्तवत्तहँ भिडिउ ॥ ४
तिह पहरु पहरु दिहु होहि मणें' ॥ ५
सइँ दसरह-णन्दणु सत्तुहणु ॥ ६
णं वे वि पुरन्दर-दहवयण ॥ ७
णं भरह-णराहिव-चाहुवलि ॥ ८

8. 1 P S गिरिँ^० 2 After this P S read an extra Pāda पहतदाणणिज्जरा.
3 P S A °हुँ 4 A झलझलंतं 5 T notes variants चित्त and °कंडया. 6 P S
चिलाम् 7 P S °पुप्प 8 P S पट्टणुट्टवणइ (S °इ)

9. 1 P जमिय, S जम्मि 2 P S उट्टावियवलधूवत्तं. 3 P S A °हुँ 4 A °उं. 5 P S A
°हि. 6 A °ति

[८] १ प्रेरिता २ मेघ इव ३ मदवती. ४ हृदयमलीभूती ५ (T's variant)
तीक्ष्णवाणा ६ दत्तपादहस्तायुधा

[९] १ जोत्रिता. २ पुत्र.

॥ घत्ता ॥

विहि मि गिरन्तर-चावरणें सर-जालु पहावइ ।
विञ्जहों सज्जहों मज्जे थिउ घण-डम्बरु गावइ ॥ ९

[१०]

अवरोप्परु वाणेंहिं छाइयँउ अवरोप्परु कह वि ण घाइयँउ ॥ १
अवरोप्परु कवयँइ ताडियँइ अवरोप्परु चिन्धँइ फाडियँइ ॥ २
अवरोप्परु छत्तँइ छिण्णाँइ अवरोप्परु अङ्गँइ भिण्णाँइ ॥ ३
अवरोप्परु हयँइ सरासणँइ जल-थलँइ वि जायँइ 'स-व्वणँइ ॥ ४
अवरोप्परु सारहिं णिडुविय स-तुरङ्गम जमउरि पट्टविय ॥ ५
अवरोप्परु खण्डिय पवर रह थिय मत्त-गइन्देहिं दुव्विसह ॥ ६
ते महुर-णराहिव-सत्तुहण णं णहयल-लङ्घण स-घण घण ॥ ७
णं केसरि गिरि-सिहरेहिं चडिय णं रावण-राम समावडिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वे वि स-पहरण सामरिस करिवरेहिं वलगा ।
मलय-महिन्द-महीहरेहिं णं 'वण'-यव लग्गा ॥ ९

[११]

समुद्धाइया सिन्धुरा जुद्ध-लुद्धा 'वलुत्ताल-दुक्काल-काल व्व कुद्धा ॥ १
विमुक्कङ्कुसा उम्मुहा उद्ध-सोण्डा स-सिन्दूर-कुम्भत्थला गिल्ल-गण्डा ॥ २
मयम्भेहिं सिप्पन्त-पाय-प्पएसा मिलन्तालि-माला-गिरिन्धी-कयासा ॥ ३
विसाणप्पहा-पण्डुरिज्जन्त-देहा वलायावली-दिण्ण-सोह व्व मेहा ॥ ४
चलन्तेहिं सञ्चालिओ सेस-णाओ भमन्तेहिं 'पव्वभामिओ भूमि-भाओ ॥ ५
गिरिन्दा समुद्दावलीभाव जाया गइन्देसु तेसुट्टिया वे वि राया ॥ ६
महा-भीसणा 'भू-लया-भङ्गुरच्छा पमुक्केकमेक्काउहा विज्जु-दच्छा ॥ ७
करिन्देण ओहामिओ वारणिन्दो कुमारेण ओहामिओ 'माहुरिन्दो ॥ ८

7. P S °जाल. 8 P S A सज्जहो.

10. 1 P S A °अउ 2 P °अउ, A °उ - 3 P S A °हि . 4 P S साहरण 5 A वलय

11. 1 P S A °उ 2 P S A गय° 3 P S A °मु° 4 P S A विज्ज°

[१०] १ 'व्रण'='घात'-सहितानि २ दवाभिरिव

[११] १ वलोद्धतौ, T चलत्तालेति पाठे चलोद्धतौ इत्यर्थं २ अवारीकृता दिशा ३ T प्रकर्षेण
भ्रामित भूमिभाग ४ T भूलता ५ मधु

॥ घत्ता ॥

महु णाराय-कडन्तरिउ
फगुणें फुल्ल-पलासु जिह

रुहिरारुणु गयवरें ।
लक्खिज्जइ गिरिवरें ॥ ९

[१२]

५ अवसाणें कालु जं हुक्कियउ
जं सुल्लु ण दाहिण-करें चडिउ
तं परम-विसाउ जाउ महुहें^१
पञ्चेन्दिय दुहम दमिय ण वि
मइ^३ पावे^४ पावासत्तएण
१६ संजोउ सव्वु को कहों^५ तणउ
वरि एवाहिं सल्लेहणु करमि
तो एम भणेंवि णिग्गन्थु थिउ

जं रहु-सुउ जिणेंवि ण सक्कियउ ॥ १
जं पुत्तहों मरणु समावडिउ ॥ २
'मइ^३ ण किय पुज्ज तिहुअण-पहुहें^३ ॥ ३
धम्म-क्किय एक वि ण किय क वि ॥ ४
णउ वन्दिय देव जियन्तएण ॥ ५
णिप्फलु^६ जम्मु गउ महु^७ तणउ ॥ ६
वय पञ्च महा-दुद्धर धरमि' ॥ ७
सइ^३ हत्थें केसुप्पाडु किउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

१६ 'एक्कु जि जीउ महु^७ तणउ
रणु जें तवोवणु जिणु सरणु

'सव्वहों परिहारउ ।
गयवरु सन्थारउ' ॥ ९

[१३]

जे भव-जणहों सुह-वसुहारा
अरहन्तहुं^१ केरा सत्त सरा
पुणु सिद्धहुं^२ केरा पञ्च सरा
२१ आयरियहुं^३ केरा सत्त सरा
सत्तोवज्जाय-णमोक्करणा
इय^४ पञ्चतीस परमक्खरइं
विस-विसम-विसय-णिद्धाडणइं
महुं^५ सुह-गइं^६ देन्तु^७ भणन्तु थिउ

पुणु घोसिय पञ्च णमोक्कारा ॥ १
जे सव्वहं सोक्खहं पढमयरा ॥ २
जे सासय-पुरवर-सिद्धियरा ॥ ३
जे परमाचार-विचार-परा ॥ ४
णव साहुहुं^५ भव-भय-परिहरणा ॥ ५
सुय-पारावार-परम्परइं ॥ ६
सिवउरि-क्वाड-उग्घाडणइं ॥ ७
कुञ्जरहों जें उप्परें कालु किउ^८ ॥ ८

5 णारायण०. 6 P ०कडित्तरिउ, S ०कडित्तरिउ

12. 1 P S A ०हो. 2 S A ०हो. 3 P S A ०इ. 4 P S पावइ, A पावे. 5 P S A कहु.

6 P गउ णिप्फलु, A णिप्फलु वि. 7 A महु तणउ 8 P एमहि, S येवहि, A एवहि. 9 A महुं तणउ.

13. 1 P S A ०हो. 2 P S A ०हु. 3 P S ०करणा, A णमोकारकरण. 4 A इह-

5 A वारवारस. 6 P A महुं. 7 P S सुहइ. 8 S पभणंतु. 9 After this P margi-

nally and s read संजायउ मणकुमारे अमरु । अक्खरकरचालियचमरभरु ॥

[१२] १ 'एगो मे सामदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो' इत्यादि. २ अन्यत्सर्व परद्रव्यं जानीहि.

॥ घत्ता ॥

कुसुमइँ सुरेहिँ¹⁰ विसज्जियइँ किउ साहुक्कारु ।
महुर स इँ भु ज्जन्तु थिय सत्तुहणु कुमारु ॥ ९

[८१. एकासीइमो संधि]

वणु सेविउ सायरु लङ्घियउ णिहउ दसाणणु रत्तएँण ।
अवसाण-कालेँ पुणु राहवेंण घल्लिय सीय विरत्तएँण ॥

[१]

ल्येयहुँ छन्देण	तेँण तेँण तेँण चित्तें ।	
राहव-चन्देण	तेँण तेँण तेँण चित्तें ॥	
पाण-पियल्लिया	तेँण तेँण तेँण चित्तें ।	10
जिह वणें घल्लिया	तेँण तेँण तेँण चित्तें ॥ जंभेद्वियाँ ॥ १	
रामहों रामालिङ्घिय-गत्तहों	अमिय-रसोवम-भोगासत्तहों ॥ २	
एक्कहिँ दिवसेँ मणोहर-गारी	पासेँ परिद्विय सीय भडारी ॥ ३	
जाणिय-णिरवसेस-परमत्थी	पभणइ पणय-कियज्जलि-हत्थी ॥ ४	
'णाह णाह जग-मोहण-सत्तिहिँ ⁴	सुइणउ अज्जु दिट्ठु मइँ रत्तिहिँ ⁵ ॥ ५	15
पुप्फ-विमाणहों पडेँवि पहिट्ठुउँ	सरह-जुअलु महु वयणें पइट्ठुउँ ⁶ ॥ ६	
तो सज्जण-मण-णयणाणन्देँ	हसिउ स-विब्भमु राहवचन्देँ ॥ ७	
'दुइ होसन्ति पुत्त परमेसरि	परणर-वरणर-वारण-केसरि ॥ ८	
णवर एक्कु महु हियएँ ⁹ चडियउ	सुन्दरि सरह-जुअलु जं पडियउँ ¹⁰ ॥ ९	

॥ घत्ता ॥

20

तो अण्णेहिँ दिवसेँहिँ थोवएँहिँ सीयइँ गुरुहाराइँ ।
'सहि णीसरु' णं वण-देवयएँ पट्टवियइँ हक्काराँइँ ॥ १०

[२]

॥ जम्भेद्वियाँ ॥ रहुवइ-घरिणिया जिह वणें करिणिया ।
मत्तहण-लीलिया कीलण-सीलिया ॥ १

25

10 P S A °हि.

1. 1 तेण wanting in P 2 तेण wanting in P S 3 S A जंभि°. 4 P °हे, S A °हि. 5 P S °हे, A °हि 6 P पुप्फ°, S A पुप्फ° 7 P S °द्विउ, A °द्वउं. 8 A °उं. 9 S °एण 10 A °उ. 11 S अण्णेक्कहि. 12 P थोवहि, S थोवहि. 13 P °रहु, S °रहु.

2. 1 A omits this name of the metre in this and all the subsequent Kadavakas

बलु वोलावइ णरवर-केसरि
 विहसिय 'वियसिय-पङ्कय-वयणी
 'वल धवलामल-केवल-वाहहो
 पिय-वयणेण तेण साणन्दे
 5 दिव्व-महिन्द-दुमय-गन्दण-वणे
 चन्दण-वउल-तिलय-कुसुमाउले
 दाहिण-पवणन्दोलिय-तरुवरें
 धय-तोरण-विमाण-किय-मण्डवें

'को दोहलउ अक्खु परमेसरि' ॥ २
 दन्त-दिच्छि-उज्जोइय-गयणी ॥ ३
 जाणमि पुज्ज रयमि जिणणाहहो ॥ ४
 परम पुज्ज किय राहव-चन्दे ॥ ५
 तरल-तमाल-ताल-ताली-घणे ॥ ६
 कल-कोइल-कुल-कलयल-सङ्कुले ॥ ७
 भमिर-भमर-झङ्कार-मणोहरें ॥ ८
 फेन्द-वन्द-सङ्गन्दिय-तण्डवें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

10 तहिं तेहए उववणे पइसरेंवि जय-जय-सहें पुज्ज किय ।
 जिह जिणवर-धम्महो जीव-दय जाणइ रामहो पासें थिय ॥ १०

[३]

॥ जम्भेड्डिया ॥ ताव विणीयहे
 दुक्खुक्कोयणु
 15 'फुरेंवि^२ आसि पइ पर-दुग्गेज्जहें^३
 थियइ विदेसें देसु भमन्तइ
 रण-रक्खसेण गिलेंवि उगिलियइ
 एवहिं एउ ण जाणहुं इक्खणु
 तो एत्थन्तरे साहुज्जारे
 20 'अहो रायाहिराय परमेसर
 दुद्धम-दणुअ-देह-मय-महण
 जइ अवराहु णाहिं धर-धारा

फन्दइ सीयहे ।
 दाहिणुं लोयणु ॥ १
 तिणिण मि णीसारियइ अउज्जहें^४ ॥ २
 दुस्सह-दुक्ख-परम्पर-पत्तइ ॥ ३
 कहं वि कह वि णिय-गोत्तहो मिलियइ ॥ ४
 काइ करेसइ फुरेंवि अ-लक्खणु' ॥ ५
 आइय पय असेस कूवारें ॥ ६
 णिम्मल-रहुकुल-णहयल-ससहर ॥ ७
 तिहुअण-जण-मण-णयणाणन्दण ॥ ८
 तो पट्टणु विण्णवइ भडारा ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पर-पुरिसु रमेवि दुम्महिलउ देन्ति पडुत्तर पँइ-यणहो ।
 25 "किं रामु ण भुज्जइ जणय-सुअ वरिसु वसेवि घरे रामणहो" ॥ १०

2 This Pada is wanting in A 3 °महिंदोक्व°.

3. 1 S A °ण 2 P फुरिवि, S A फुरवि. 3 S A °हो. 4 P S °हो, A °हि. 5 A
 कहो वि कहो 6 A वरिसुद्धु

[२] १ T विकशितपकजवदना

[३] १ एष नेत्र २ वृक्षगाखा करै कृत्वा, ३ T प्रजा आगता, ४ भर्ताजनस्य

[४]

॥ जम्भेद्विया ॥ 'पय-परिवाणं
णं सिरें आहउ
चिन्तइ मउलिय-वयण-सरोरुहु
'विणु पर-तत्तिएँ को वि ण जीवइ
लोउ सहावें दुप्परिपालउ
भीम-भुअहु भुअङ्गागरउ
'कइ सइ जइ णरवइ णउ भावइ
होइ हुआसणो व्व अविणीयउ
चन्दु व 'दोस-गाहि खइ ख-त्थउ
वाणु व लोह-फलु गुण-मुकउ

मोग्गर-घाएणं ।

रहुवइ-णाहउ ॥ १

वसुह लिहन्तु ठन्तु हेडा-मुहु ॥ २

सइ विणहु अणणइ उदीवइ ॥ ३

विसम-चित्तु पर-छिह-णिहालउ ॥ ४

पगुण-गुणुज्जिउ अवगुण-गारउ ॥ ५

अवसे^३ किं पि^४ कलङ्कउ लावइ ॥ ६

गिम्भु व सुहु अणिच्छिय-सीयउ ॥ ७

सूरु व कर-चणउउ दूर-त्थउ ॥ ८

विन्धणसीलउ धम्महो चुकउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जइ कह वि णिरङ्कुस होइ पय तो हँत्थि-हडहें अणुहरइ ।

जो कवल देइ जलु दक्खवइ तासु जें जीविउ अवहरइ ॥ १०

[५]

॥ जम्भेद्विया ॥ अह खल-महिलहे
को पत्तिज्जइ
अणु णिएइ अणु वोलावइ
हियवइ णिवसइ विमु हालाहलु
महिलहें तणउ चरिउ को जाणइ
चन्द-कल व 'सव्वोवरि वड्डी
णव-विज्जुलिय व चञ्चल-देही
'वाणिय-कल कवडङ्किय-माणी
णिहि व पयसेँ परिरक्खेवी
अप्पाणेण जें अप्पउ वोहिउ

णइ जिह कुडिलहे ।

जइ वि मरिज्जइ ॥ १

चिन्तइ अणु अणु मणेँ भावइ ॥ २

अमिउ वयणेँ दिट्ठिहें जमु केवलु ॥ ३

उभय-तडइ जिह खणइ महा-णइ ॥ ४

दोस-ग्गाहिणि सइ स-कलङ्की ॥ ५

गोरस-मन्थ व कारिम-णेही ॥ ६

अडइ व गरुआसङ्का-थाणी ॥ ७

'गुलहिय-खीरि व कहों वि ण देवी' ॥ ८

'वरि गय सीय म लोउ विरोहिउ ॥ ९

4. 1 °च्छ° 2 SA °णज्जि° 3 P SA °मि 4 P S चि 5 P S लोहा°. 6 P S गुण°. 7 A °उं.

5. 1 A सल. 2 A °उ 3 P °ल व्व, S °लेव 4 A °सथ 5 P °ल. 6 P चंडक्रिय°, 8 व कवडणिय°. 7 P गुलस°, 8 A गुलहिव°

[४] १ प्रजादुर्वाक्येन २ कवि-महासती-यतिपतिश्च राजानो न प्रतिभाति । एवमेव कलंकं वदति.
३ विनयरहितो लोको हुताशनस्तु मेघवाहन . ४ हिमं सीतादेवी च. ५ रात्रिगाही क्षयी गगनस्थश्च
चद्रो लोक स्त्रीदोषग्राही क्षयी स्वस्यो भीत . ६ किरणप्रतापी भानु , लोकस्तु दुर्वचनदायी ७ हस्तिघटायै.

[५] १ T पुत्र-पितादे , शंकरस्य च कविममये २ श्रेष्ठिन ३ T अतीवशकास्थान ४ गुडघृतसहित..

॥ वत्ता ॥

णिय-णेह-णिवद्धंउ आवडइ
को फेडेंवि सक्कइ लञ्छणउ

जइ वि महा-सइ महु मणहों ।
जं घरें¹⁰ णिवसिय रावणहों' ॥ १०

[६]

5 ॥ जम्भेड्डिया ॥ ताव जणदणु
घिण्ण व सित्तउ
कड्डिउ सूरहासु करें णिम्लु
'दुज्जण-मइयवडु हउं अच्छमि
जं किउ खरहों महा-खल-खुदहों
10 तं करेमि दुज्जणहें हयासहें
को घल्लावइ सीय महा-सइ
जा सुरवरेंहिं पइव्वय वुच्चइ
जाहें पहावें रहु-कुलु णन्दइ
जाहें पाय-पंसु वि वन्दिज्जइ

णाइँ¹ हुआसणु ।
झत्ति पलित्तउ ॥ १
विज्जु-विलासु जलणु जालुज्जलु ॥ २
जो जम्पइ तहों पलउ समिच्छमि ॥ ३
जं किउ रणें रावणहों रउदहों ॥ ४
कुडिल-भुअङ्ग-अङ्ग-सङ्कासहें ॥ ५
गाम-गगहणें जाहें दुहु णासइ ॥ ६
जाहें पसाएं वसुमइ पच्चइ ॥ ७
पलयहों पिसुणु जाउं जो णिन्दइ ॥ ८
ताहें कलङ्कु केम लाइज्जइ ॥ ९

15

॥ वत्ता ॥

जो रूसइ सीय-महासइहें
तहों⁴ पावहों विरसु रसन्ताहों

सो मुहु अगएँ थाउ खलु ।
खुडमि स-हत्थें सिर-कमलु' ॥ १०

[७]

॥ जम्भेड्डिया ॥ धरिउ जणदणु
20 जउणा-वाहु व
'जइ समुहु णिय-समयहों चुक्कइ
जइ वि 'डहंति णिमित्तें⁴ कन्दहें
चन्दणु छिज्जइ भिज्जइ घासइ
दन्तु दलिज्जइ पावइ कप्पणु
25 पय णरवइहिं णएण लएवी
तो विण्णविउ कुमारें राहवु

रहुवइ-णाहेंणं ।
गङ्गा-वाहेंणं ॥ १
तो तहों को सवडम्मुहु टुक्कइ ॥ २
तो वि ण रूसइ विज्जु पुलिन्दहें ॥ ३
तो इ ण णियय-गन्धु तहों णासइ ॥ ४
तो वि ण मुअइ णियय-धवलत्तणु ॥ ५
दुम्मुह जइ वि तो वि पालेवी' ॥ ६
'अहों परमेसर परम-पराहवु ॥ ७

8 P S °वधउ. 9 A °उ 10 P S A घरि.

6. 1 P S A °इ. 2 P S °इ. 3 P marginally notes a variant दूसइ. 4 S जि, A ज. 5 A विरसताहो.

7. 1 A °वहु 2 P गंगपवाहेण, गंगावाहेण. 3 P S हडंति. 4 °P S त्ति, A °त्ते

[६] १ T पतिव्रता.

[७] १ यतिनोऽपि निलं कदमूलमुत्पाद्यंति (?)

जं जणवउ गिय-गाहु ण पुच्छइ
रहु-कउत्थ-अणरण-विरामेहिं

लद्ध-पसरु राय-उलु दुगुच्छइ ॥ ८
दसरह-भरह-गराहिव-रामेहिं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

इक्खुक्क-वंसें उप्पणाएहिं
तहो पय-उवयार-महहुमहो

सव्वेहिं पालिउ पुरु अचलु ।
लहु भडारा परम-फलु' ॥ १०

[८]

॥ जम्भेद्विया ॥ हरि बुज्जाविउ
हलु वि ण भावइ
'एत्थु वच्छ अवहेरि करेवी
जीवउ मरउ काइ किर तत्तिए
मं रहु-कुल्ले कलङ्कु उप्पज्जउ
जाउ गिरुत्तरु केइकइ-गन्दणु
देवि चडाविय गिय-परिएसहो
धाहाविउ कोसलए सुमित्तए
गायरिया-यणेण उक्कण्ठे
घरु विणट्टु खल-पिसणहुं छन्दे

केम वि रामेणं ।

सीयहे णामेणं ॥ १

जणय-तणय वणे कहि मि थवेवी ॥ २

किं दिणमणि सहुं गिवसइ रत्तिए ॥ ३ 10

तिहुअणे अयस-पडहु मं वज्जउ' ॥ ४

लहु सेणाणी ढोइउ सन्दणु ॥ ५

पेक्खन्तहो पुरवरहो असेसहो ॥ ६

सुप्पहाए सोआउर-चित्तए' ॥ ७

'केव विओइय दइवे दुट्ठे ॥ ८

धि-धि अजुत्तु किउ राहवचन्दे ॥ ९ 15

॥ घत्ता ॥

किं माणुस-जम्भे लद्धएण

इट्ट-विओय-परम्परेण ।

वरि जाय णारि वणे वेळडिय जा णवि मुच्चइ तरुवरणे' ॥ १०

[९]

॥ जम्भेद्विया ॥ ताव तुरङ्गेहिं

णिउ रहु तेत्तहे ।

वियण महाडइ

दारुण जेत्तहे ॥ १

जेत्थु सज्जज्जुणा धाइ-धव-धम्मणा

ताल-हिन्ताल-ताली-तमालज्जुणा ॥ २

चिच्चिणी चम्पयं चूअ-चवि-चन्दणा

वंसु विसु वञ्जुलं वउल-वड-चन्दणा ॥ ३

तिमिर-तरु तरल-ताल्लर-तामिच्छयं

सिम्बली सल्लइ सेल्लु सत्तच्छयं ॥ ४ 20

5 S जिं. 6 P S अणु° 7 P पइ, S A पइ

8. 1 P S धिवेवी 2 P S A हु 3 P °त्तिहे, S °त्तिहि 4 P °हे, S °हो 5 P धिद्धिअत्तु, S धिद्धियत्थु.

9. 1 P S स 2 P S °तासुर° 3 P S संव°

२ अनतरानंतरे (१) ३ तस्य प्रजायारूपकारम्

[८] हल्ल-अञ्ज सीताया (१) २ लक्ष्मण

[९] १ T वेडस २ T अजन

णाग-पुण्णाग-णारङ्ग-णो^४मालियं कुन्द-कोरण्ट^५-कप्पूर-ककौलयं ॥ ५
 सरल-समि^७-सामरी-साल-सिणि-सीसवं^८ पाडली फोफली केअई^९ वाहवं ॥ ६
 माहवी-मङ्कु-मालूर-वहुमोक्खयं सिन्दि-सिन्दूर-मन्दार-महरुक्खयं ॥ ७
 गिस्वं^{१०}-कोसम्भ-जम्बीर-जम्बू वरं खिङ्गिणी राइणी तोरणी तुम्बरं ॥ ८
 ५ गालिकेरी करीरी करञ्जालणं दाडिमी देवदारु-क्यंवासणं ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जं जेण जेम्भ कम्मउं कियउ तं तहों तेव समावडइ ।
 किं रज्जहों टालेवि जणय-सुअ दइवें णिज्जइ तं अडइ ॥ १०

[१०]

१० ॥ जम्भेद्विया ॥ सइहें वि होन्तिहे लञ्छणु लाइउ ।
 सव्वहों विलसइ कम्मु पुराइउ ॥ १
 जत्थ दंस-मसयं भयङ्करं सीह-सरहयं णङ्कु-सूरं ॥ २
 णाय-णउलयं कायलोलुहं हत्थि-अजयरं दव-महीरुहं ॥ ३
 दम्भ-सीर-कुस-कास-मुञ्जयं पवण-पडिय-तरु-पण्ण-पुञ्जयं ॥ ४
 १५ विडव-णिहस-चुण्णुग्ध-मच्छियं क्रिसि-पिपी^५लि-उद्देहि-विच्छियं ॥ ५
 हीर-खुण्ट-कण्टय-णिरन्तरं सिल-खडक्क-पत्थर-णिसत्थरं ॥ ६
 तहिं महा-वने परम-दारुणे^३ सीह-पहय-गय-सोणियारुणे^४ ॥ ७
 अच्छहल-पड्डल-भीसणे सिव-सियाल-अलियल्लि-भी(णी)सणे ॥ ८
 मुक्क तेत्थु सूण्ण जाणई 'महु ण दोसु रहुवइ जें जाणई ॥ ९

२०

॥ घत्ता ॥

वरि विसु हालाहउ भक्खियउ वरि जम-लोउ णिहालियउ ।
 पर-पेसण-भायणुं दुह-णिलउ सेवा-धम्मु ण पालियउ ॥ १०

[११]

२५ ॥ जम्भेद्विया ॥ दुप्परिपालउ जीविय-संसउ ।
 आण-वडिच्छउ विक्किय-मंसउ ॥ १

४ P S णे°. ५ P S °ट°. ६ P S कं°. ७ P S °सि°. ८ P S °यं. ९ S °व°. १० A °म°. ११ P S °र°. १२ P S °वु°. १३ P S °क° १४ P °उ

१०. १ P S सूरय. २ P A पीप°. ३ P S °णा. ४ P S °ण. ५ P S अत्थ°.

[१०] १ काकोलक्कम् २ अग्नि ३ T कीटिका. ४ दीपकै (T दीवकै) ५ पलसटा (?)
 ६ T वडहट्ट (?) वृक्षविशेष ७ सारथिना ८ सीता

[११] १ T विक्रीतमस्तक्कम् (?).

सेवा-धम्मु होइ दुज्जाणउ
भोयणें सयणें मन्तें^१ एकन्तएँ
जहिँ अत्थाणु णिवन्धइ राणउ
णउ वइसणउ ण वड्डुउ जीवणु
पाय-पसारणु हत्थप्फालणु
हसणु भसणु पर-आसण-पेळणु
णउ णियडँएँ ण दूरें वइसेवउ
अगल पच्छल परिहरिएवी

पहु पेक्खेवउ वग्घ-समाणउ ॥ २
मण्डल-जोणि-महणणव-चिन्तएँ ॥ ३
तहिँ पाइक्कु जइँ वि पोराणउ ॥ ४
ण करेवउ कयावि णिट्ठीवणु ॥ ५
उच्चालवणु समुच्च-णिहालणु ॥ ६
गत्त-भङ्गु मुह-जम्भा-मेळणु ॥ ७
रत्त-विरत्त-चित्तु जाणेवउ ॥ ८
जिह तूसइ तिह सेव करेवी ॥ ९

॥ घत्ता ॥

पणवेप्पिणु वर्फइ वड्डिमहँ सिरु विक्किणइ जिएवाहँ ।
सोक्खहँ अणुदिणु पेसणु करँवि णवरि ण एकु वि 'सेवाहँ' ॥ १०

[१२]

॥ जम्भेट्टिया ॥ एम भणेप्पिणु
समुहु अउज्झहँ
वार-वार तहँ दिण्णुं विसेसणु
जं असहेज्जी मुक्क वणन्तरेँ
धाहाविउ उक्कण्डुल-भावएँ
मञ्छुडु सारस-जुअलु विओइउ
जम्महँ लग्गेवि दुक्खहँ भायण
हा सत्तुहण णाहिँ मम्भीसहि

रहु पल्लट्टिउ ।
सूउ पयट्टिउ ॥ १
'जामि माएँ महु एत्तिउ पेसणु'^२ ॥ २
मुच्छँउ एन्ति जन्ति तहिँ अवसरें ॥ ३
'कम्मु रउहु कियउ मइँ पावएँ ॥ ४
चक्कवाय-मिहुणु व विच्छोइउ ॥ ५
हा भामण्डल हा णारायण ॥ ६
हा जणेरि हा जणण ण दीसहि ॥ ७

11 1 P S A °ति 2 P S पहु 3 S जो 4 P S °दे. 5 S °व्व° 6 P S वळ°.

12. 1 P निंदित्तु, S निंदंतु for तहे दिण्णु 2 After पेसणु P adds marginally the following lines, which excepting the first distich are also found in S

देइ सदेमउ मीया सूयहो	वहुगुणजुत्तहो धम्मायत्तहो ॥
रह(इहु) वइ रामहो एम कहेज्जसु	मइ जिह मा जिणवम्मु चइज्जसु ॥
लोयालावणेण अवियारिउ	तेण हवेसइ वहु (S उरु) समारि (S र) उ ॥
गउ पुरि (S रे) वलेण पिट्ठु सदेसउ	तेण वि तासु कहिउ सविसेसउ (S उ) ॥
तं सुणंवि (S णिसुणिवि) हलहरु मुच्छाविउ कहव किलेसं चेयण पाविउ ॥	

3 P S A °च्छ° 4 A वि

२ T युंकनम्. ३ T मेवकस्य.

[१२] १ सीतया

हा हय-विहि हउँ काँइ विओइय
हा हय-विहि तुहँ काँइ विरुद्धउ

सिव-सियाल-सदूलहँ ढोइय ॥ ८
जेण रामु महु उप्परें कुद्धउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वरि तिण-सिह वरि वणें वेळडिय
दूहव-दुरास-दुह-भायणिय

वरि सिल लोयहँ पाण-पिय ।
णउ मई जेही का वि तिय ॥ १०

[१३]

॥ जम्भेद्विया ॥ जलु थलु वणु तिणु
जं जि णिहालमि

भुवणु विचित्तउ ।
तं जि पलित्तउ ॥ १

१० भणु भणु भाणु भाणु भू-भावणु
वणसइ तुहु मि ताव तहि होन्ती
णहयल तुहु मि होन्तु तहि अवसरें
जइयहँ रयणकेसि दलवड्डिउ
वसुमइ पँइ मि दिड्डु तरुवर-घणें
अच्छिउ वरुणु पवणु सिहि भँक्खरु
१५ लोयहँ कारणें दुप्परिणामें
जइ मुय कह वि सइत्तण-धारी

जइ मई मणेंण समिच्छिउ रावणु ॥ २
जइयहँ णिय णिसियरेंण रुवन्ती ॥ ३
जइयहँ जिउ जडाउ सङ्गर-वरें ॥ ४
विज्जा-छेउ करेंवि आवड्डिउ ॥ ५
जइयहँ णिवसियासि णन्दणवणें ॥ ६
केण वि वोळ्छिउ ण वि धम्मक्खरु ॥ ७
हउँ णिक्कारणें घल्लिय रामें ॥ ८
तो तुम्हई तिय-हच्च महारी' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तं वयणु सुणेंवि सीयहँ तणउ
णं सइ-सावन्तर-भीयएण

देव-लोउ चिन्ताविउँउ ।
वज्जजङ्घु मेलावियउ ॥ १०

[१४]

॥ जम्भेद्विया ॥ ताव णरिन्देण
गयमारूढेण

स-सुहड-विन्देण ।
रणें णिवूढेण ॥ १

२५ दिड्डु देवि रत्तुप्पल-चलणी
काय-कन्ति-उण्हविय-सुरिन्दी
णयणोहामिय-वम्मह-वाणी
'हउँ णिल्लक्खण 'णिज्जण-थामें'

णह-किरणुज्जोइय-सइ-भुवणी ॥ २
लोयाणन्द-रुन्द-मुह-यन्दी ॥ ३
पुच्छिय 'कासु धीय कहों राणी' ॥ ४
'लोयहों छन्दें घल्लिय रामें ॥ ५

13. 1 P S तहु 2 P S तइ. 3 P S °ताविउ.

14. 1 S सइ. 2 P S णिच्छलरामें.

[१३] १ T आदिल्यादिल्ल २ T पृथ्वीविचारक ३ सूर्य . ४ सतीशापभयेन

[१४] १ समर्थेन २ तापिता इद्राणी ३ T reads सुरदी and renders it as सुरादि-
भेते . ४ (leading of P S T) छलरहितपाडुरेण. ५ लोकपावादेन

राम-णारि लक्खणु महु देवरु भामण्डलु एकोयरु भायरु ॥ ६
 जणउ जणेरु विदेह जणेरी सुणह णरिन्दहोँ दसरह-केरी' ॥ ७
 पभणइ वज्जजङ्घु 'महि-पाला लक्खण-राम माँ^३ महु साला ॥ ८
 तुहँ पुणु धम्म-वहिणि हउँ भायरु' साहुकारिउ सुरेहिँ णरेसरु ॥ ९

॥ वत्ता ॥

लायणु णिँएवि सीयहँ तणउ तिहुअणँ कासु ण खुहिउ मणु ।
 गिरि धीरँ सायरु गहिरिमँ वज्जजङ्घु पर एक्कु जणु ॥ १०

[१५]

॥ जम्भेद्विया ॥ मम्भीसेप्पिणु	वय-गुण-धाणँणं ।	
णिय परमेसरि	सिविया-जाणँणं ॥ १	10
पुण्डरीय-पुरवरु पइसन्ते	हट्ट-सोह णिम्मविय तुरन्ते ॥ २	
सस भणेवि पडहउ देवाविउ	जणु आसङ्का-थाणु मुआविउ ॥ ३	
तहिँ उप्पणण पुत्त लवणङ्कुस	लक्खण-लक्खङ्गिय दीहाउस ॥ ४	
सीयाएविहँ णयँण-सुहङ्कर	पुव्व-दिसिहँ णं चन्द-दिवायर ॥ ५	
विद्धिँ-गय सिक्खविय महत्थइँ	वायरणाइ-अणेयइँ सत्थइँ ॥ ६	15
सयल-कला-कलाव-कवणीया	मन्दर-मेरु णाँ ^४ थिय वीया ॥ ७	
तेहिँ पहावँ तहिँ रिउ थम्भिय	रहुकुल-भवण-खम्भ णं उट्ठिय ॥ ८	
सरहस सावलेव स-कियत्था	लक्खण-रामहँ समर-समत्था ॥ ९	

॥ वत्ता ॥

रिउ लवणङ्कुसेहिँ णिरङ्कुसेहिँ दण्ड-सङ्गु किउँ णाँ^५ अहि ।
 चप्पेवि वप्पिक्की दासि जिह लइय स य म्भु व लेण महि ॥ १०

३

3 P S A °इ

15. 1 S जाणु 2 P S °क° 3 P सूया°, S सूया° 4 S °विणय°. 5 P S A °इ
 6 P S °य. 7 P वप्पिक्की, S वप्पिक्की

६ T दगरय

[१५] १ कमनीका (२) मनोज्ञा २ विमलतीर्थकरस्य मदरमेरुनामानौ द्वौ गणधरौ तथैवैतौ
 द्वौ भ्रातरौ

[८२. बासीमो संधि]

सुरवर-डामर-डामरैहिँ ससहर-चक्राङ्किय-गामहुँ ।
भिडियाँ आहवें वे वि जण लवणङ्कुस लक्खण-रामहुँ ॥

[१]

5 लवणङ्कुस गिँएवि जुवाण-भाव कँलि-कवलण कलिय-कला-कँलाव ॥ १
सयलामल-कुल-णहयल-मियङ्क ३णं अँरि-करि-केसरि मुक्क-सङ्क ॥ २
रण-भर-धुर-धोरिय धीर-खन्ध गुण-गण-गणालिँ ३णं ३सेउ-वन्ध ॥ ३
धर-धारण दुद्धर-धर-धरिन्द वन्दिय-जिणिन्द-चरणारविन्द ॥ ४
परिरक्खिय-सामिय सरण-मित्त वन्दिगहँ गोगहँ किय-पँरित्त ॥ ५
10 भू-भूसण भुवणाभरण-भाव दस-दिसि-पसत्त-णिग्गय-पयाव ॥ ६
रामाहिराम रँमाणुसरिस जँण-जाणइ-जणणहँ रँणिय-हरिस ॥ ७
पँर-पवर-पुरञ्जय जणिय-तँसँ ५ मुह-चन्द-चन्दिमा-धवलियासँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

माणुस-वेसँ अवयरँवि वे भाय गाँइँ ० थिय कामहँ ।

15 'किहँ परिणावमिँ ३ जमल-मइ' उप्पण चिन्त मणँ मामहँ ॥ ९

[२]

पट्टविय महन्ता तेण तासु पिहिमी-पुरवरँ १ 'पिहु-पँहुहँ पासु ॥ १
'दे देहि अमँयमइ-तणिय वाल कँमणीय-किसोयरि कणयमाल ॥ २
दूयहँ वयणँ ० दूमिउ णरिन्दु ३णं फुरिय-फणा-मणि थिउ फणिन्दु ॥ ३
20 'कुल-सील-कित्ति-परिवज्जियाहँ ४ को कणणउ देइ अलज्जियाहँ ४ ॥ ४
गउ दूउ दुरक्खर-दूमियङ्कु ३णं दण्ड-घाय-घाइउ-भुअङ्कु ॥ ५
लवणङ्कुस-मामहँ कहिउ तेव 'पिहु-राएँ दुहिय ण दिण्ण जेव ॥ ६
तं वयणु सुणेप्पिणु लइय ३खेरि देवाविय लहु सण्णाहँ-भेरि ॥ ७
उक्खन्धँ उप्परि चलिउ तासु पिहिमी-पुरवर-परमेसरासु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

25 ताव णराहिउ वग्घरहु पिहु-पक्खिउ रण-महि मण्डँवि ।
जलहर खीलँवि सुक्कु जिह थिउ अग्गँ जुञ्जु समोडँवि ॥ ९

1. 1 P S ०गामेहिँ. 2 P S ०याहवे विहि (S ०हि) वे वि 3 P S उरु 4 P S ०गणणइ.
5 P S ०सु 6 P A णाइ, S णइ 7 S ०य 8 P S परिणाविय

2. 1 P S ०र. 2 P S भि० 3 P ०णेहि, S ०णेहि 4 P S ०हो 5 P S संगाम०

[१] १ यम २ समूह ३ (१ 1 उरु) गरिष्ट ४ पालिवध ५ रक्षा ६ रामसदश
७ लोमसीता-राम-त्रयाणा च ८ T हर्षोत्पादका ९ गन्धुप्रचुरपुरोपार्जकौ १० दिसा

[२] १ पृथुनामराजा २ T राजपार्थे ३ मनोज्ञ ४ गृहीतकदल.

[३]

ते^१ वग्धमहारह-वज्जजङ्घ
वहु दिवस करेप्पिणु संपहारु
तो पुण्डरीय-पुर-पत्थिवेण
तहिं काले कुइउ पिहु पिहुल-काउ
एत्तहे वि कुमारैहिं दुज्जाएहि
लवणङ्कुस-गाम-पगासणेहिं
रण-रामालिङ्गिय-विग्गहेहिं
'वेढिज्जइ माए ण मामु जाव

अभिद्व परोप्परु रणे अलङ्घ ॥ १
परियाणेवि पर-वल-परम-सारु ॥ २
सदूल-महारहु धरिउ तेण ॥ ३
सामन्त-सयइ मेलवेवि आउ ॥ ४
जयकारिय सीय रणुज्जएहिं ॥ ५
हत्थ-त्थिय-ससर-सरासणेहिं ॥ ६
पहरण-पंडहत्थ-महारहेहिं ॥ ७
जाएवउ अम्हहिं तेत्थु ताव' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो बोलाविय वे वि जण जणणिएँ हरिसंसु-विमीसएँ ।
'स-गिरि स-सायर सयल महि भुज्जेज्जहु महु आसीसएँ' ॥ ९

[४]

आसीस लएँवि विन्नि वि पयट्ट
गय तेत्तहे जेत्तहे रणु अलङ्घु
'अम्हेहिं जीवन्तेहिं दुक्खु कवणु
का गणण तेत्थु विहि-पत्थिवेण
पहु धीरेवि भड-कडमदणेहिं
रहु वाहिउ तूरइँ वाइयाइँ
अन्भिदइँ वलइँ वलुहुँराइँ
सरवर-सङ्गाय-पवरिसिराँइँ

अलमल-वल-मयगल-मइयवट्ट ॥ १
जयकारिउ णरवइ वज्जजङ्घु ॥ २
जहिं अङ्कुसु हुअवहु लवणु पवणु ॥ ३
अवरेण वि पवर-णराहिवेण' ॥ ४
दससन्दण-णन्दण-णन्दणेहिं ॥ ५
किउ कलयलु सेण्णइँ धाइयाइँ ॥ ६
अवरोप्परु चोइय-सिन्धुराँइँ ॥ ७
रय-रुहिर-महाणइ-हरिसिराँइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पिहु-पत्थिउ लवणङ्कुसेहिं
णावड झत्ति झडप्पियउ

हेलएँ जेँ परम्महु लग्गउ ।
विहिं सीहहिं मत्त-महागउ ॥ ९

[५]

तहिं अवसरेँ समर-णिरङ्कुसेहिं
'कुल-सील-विहूणहुँ ल्हसिय केम

पच्चारिउ पिहु लवणङ्कुसेहिं ॥ १
वलु वलु दूवागमेँ चविउ जेम' ॥ २

3. 1 P वे 2 °व्

4. 1 P S द्द° 2 P S °रसिया° 3 P S °या°

5. 1 P S °जा°

[३] १ घत्ता

[४] १ T अलं प्रचुरम्.

पिहु-पत्थिउ चलणेहिँ पडिउ ताहँ
 लइ लवण तुहारी कणयमाल
 पइसारेंवि पुरवरें किउ विवाहु
 तेण वि वत्तीस तणुव्भवाउ
 5 सयलालङ्कारालङ्कियाउ
 सामन्तहँ^६ मिलिय अणेय लक्ख

‘रूसेवउ णउ अम्हारिसाहँ ॥ ३
 मयणङ्कुस तुहु मि तरङ्गमाल’ ॥ ४
 थिउ वज्जजङ्कु जय-सिरि-सणाहु ॥ ५
 णिय-कण्णउँ दिण्ण सँ-विब्भमाउ ॥ ६
 हल-कमल-कुलिस-कलसङ्कियाउ ॥ ७
 पाइक्कहँ वुज्झिय केण सङ्ग ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जे अलमल-वल पवल-वल
 ते णरवइ लवणङ्कुसेहिँ

हरि-वल-वलेहिँ ण साहिय ।
 सर्वसिकरेप्पिणु देस पसाहिय ॥ ९

[६]

10 खस-सव्वर-वव्वर-टक्क-कीर
 तुङ्गङ्ग-वङ्ग-कम्भोज्ज-भोट्ट
 कम्भीरोसीणर-कामरूव
 णेपाल-वट्टि-हिण्डिव-तिसिर्
 15 गन्धार-मगह-महाहिवा वि
 एय वि अवर वि किय वस विहेय
 तं पुण्डरीय-पुरवरु पइट्ट
 तहिँ कालेँ अकलि-कलियारण

कउवेर-कुरव-सोवीरँ धीर ॥ १
 जालन्धर-जवणा-जाण-जट्ट ॥ २
 ताइय-पारस-काहार-सूव ॥ ३
 केरल-कोहल-कइलास-वसिर ॥ ४
 सक-सूरसेण-मरु-पत्थिवा वि ॥ ५
 पलट्ट पडीवा मेहिलेय ॥ ६
 थुउ वज्जजङ्कु वइदेहि दिट्ट ॥ ७
 पोमाइय वेण्णि वि णारण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

20 “मइँ लएप्पिणु सयल महि
 पर जीवन्तेहिँ हरि-वलेहिँ

किय दासि व पेसण-गारी ।
 णउ तुम्हहँ सिय वड्डारी’ ॥ ९

[७]

तं वयणु सुणेवि लवणङ्कुसेण
 ‘कहि कहि को हरि-वल एउ कवणु’
 25 ‘णामेण अत्थि इक्खाय-वंसु

वोल्लिज्जइ परम-महाउसेण ॥ १
 तो कहइ कुमारहोँ गयण-गमणु ॥ २
 तहिँ दसरहु उत्तम-रायहंसु ॥ ३

2 S °व्व° 3 P S °हु 4 P S दिण्णउ सविहवाउ 5 P S °हि 6 S वसि°
 6 1 P S °वक्क°. 2 P S सोंडीर वीर 3 P S °कहोज्ज° 4 P °घट्ट°, S°वट्टि° 5 P
 °तिसिरा, S °तिमार. 6 P S मड
 7. 1 P S °त्ति°

[५] १ (V. I सविहवाउ) T विभवेँ सयुक्का° २ प्रचुर

[६] १ वलात्

[७] १ नारद .

तहों गन्दण लक्खण-राम वे वि
गय दण्डारणु पइँट्टे जाव
तेहि मि मेलाविउ १पमय-सेणु
वेढिय लक्काउरि हउ दसासु
जण-वय-वसेण सइँ सुद्ध-चित्त

वण-वासहों घल्लिय तेण ते वि ॥ ४
अवहरिय सीय रावणेण ताव ॥ ५
हय भेरि पयाणउ णवर दिणु ॥ ६
पडिवलेंवि अउज्झहिँ २ किउ णिवासु ॥ ७
णिकारणें काणणें णेवि घित्त ॥ ८ 5

॥ घत्ता ॥

वज्जजहु तहिँ कहि मि गउ
सस भणेवि सङ्गहिय घरें

तें दिट्ठ रुवन्ति वराइय ।
लवणङ्कुस पुत्त 'वियाइय' ॥ ९

[८]

तं णिसुणेंवि भणइ अणङ्गलवणु
किउ जेण णवर जणणिहें मलित्तु
वइइ जाणिज्जइ तहिँ जें कालें
जिम लक्खण-रामहुँ पलउ जाउ
कहों तणउ वप्पु कहों तणउ पुत्तु
जाणेंवि कुमार-विकमु अलङ्कु
'जो तुम्हहें तिहि मि अणिट्ठु' ३ पाउ
परिपुच्छिउ णारउ परम-जोइ

'अम्हाण समाणु कुलीणु कवणु ॥ १ 10
तहुँ हउँ दवग्गि डहणेक्क-चित्तु ॥ २
दुद्धरिसणें भीसणें भड-वमालें ॥ ३
जिम अम्हहें विहि मि विणासु आउ ॥ ४
जो हणइ सो जिवइ रिउ णिरुत्तु ॥ ५
'सुट्ठेरिउ रोसिउ वज्जजहु ॥ ६ 15
सो महु मि ण भावइ पिसुण' -भाउ' ॥ ७
'एत्थहों अउज्झ किं' दूर होइ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

कहइ महा-रिसि गयण-गइ
'सउ सट्ठुत्तरु जोयणहें

तहों लवणहों समरें समत्थहों ।
साकेय-महापुरि एत्थहों' ॥ ९ 20

[९]

वइदेहि णिवारइ दरं रुवन्ति
हणुवन्तु जाहें घरें करइ सेव
सुग्गीउ विहीसणु मिच्च जाहें
दसकन्धरु दुद्धरु णिहउ जेहिँ
तं णिसुणेंवि लवणङ्कुस पलित्त

'ते दुज्जय लक्खण-राम होन्ति ॥ १
आरुट्ठहों जसु देव वि अ-देव ॥ २
को रणें धुर धरेंवि समत्थु ताहें ॥ ३
को पहरेंवि सक्कइ समउ तेहिँ' ॥ ४ 25
णं विण्णिण हुआसण घिएण सित्त ॥ ५

2 P S °ट्टु 3 P S °हि 4 P S सुविसुद्ध°

8. 1 P °ह 2 P जे° 3 P S °ट्टु. 4 P S A °ण 5 P किहू°

२ वानर ३ सीता ४ मा(१ जा)ता

[८] १ कामस्वरूपी प्रथमपुत्रो लवण २ अतिशयेन.

[९] १ ईषत् २ फारकानि.

‘किं अम्हहँ वलें सामन्त णत्थि
किं अम्हहँ दिढइँ ण वारणाइँ
किं अम्हहँ तणउ ण होइ घाउ

किं अम्हहँ ण-वि रह-तुरय-हत्थि ॥ ६
किं अम्हहँ करेहिँ ण पहरणाइँ ॥ ७
सामण्ण-मरणेँ को भयहँ थाउ’ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

5 तो वुच्चइ मयणङ्कुसेँण
जेण रुवाविय माय महु

‘एत्तडउ ताव दरिसावमि ।
तहँ तणिय माय रोवावमि’ ॥ ९

[१०]

हय भेरि पयाणउ दिण्णु तेहिँ
अग्गएँ दस सयं कुट्ठारियाहँ
10 पण्णारह खेवणि-करयलाहँ
छब्बीसइँ कुसिय-विसोहियाहँ
दस लक्ख गयहुँ मय-णिँभराहुँ
वत्तीस लक्ख फारक्कियाहुँ
रण-रसियहँ रहसँऊरियाहुँ
15 णरवइहिँ फोडिदस किङ्कराहँ

रण-रस-भरियहिँ लवणङ्कुसेहिँ ॥ १
दस दारुण कुद्धल-धारियाहँ ॥ २
झसियहँ चउवीस महा-वलाहँ ॥ ३
वत्तीस सहासइँ चक्कियाहँ ॥ ४
दस रहहुँ अट्टारह हयवराहुँ ॥ ५
चउसट्ठि पवर धाणुक्कियाहुँ ॥ ६
अक्खोहणि साहणेँ तूरियाहुँ ॥ ७
सावरणहँ वर-पहरण-कराहँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

स-रहसु लवणङ्कुसहँ⁴ वलु
णं खय-कालें समुह-जलु

पहँ उप्पहँ कह ‘वि ण माइयउ ।
रेल्लन्तु अउज्झ पराइयउ ॥ ९

[११]

20 तो दप्पुद्धुरेँहिँ णिरङ्कुसेहिँ
गउ झत्ति अउज्झाउरि पइडु
‘अहँ रहुवइ अहँ लक्खण-कुमार
पर-णारी-हरण-दयावणेण
इहु घँइँ पुणु णरवइ वज्जजङ्कु
25 परमुत्तमँ-सत्तु महाणुभावु
रण-रामालिङ्गण-रस-पसत्तु
लवणङ्कुस-मामु महा-पचण्डु

पट्टविउ दूउ लवणङ्कुसेहिँ ॥ १
स-जणदणु ‘सीया-दइउ दिट्ठु ॥ २
वोळ्ळिज्जइ केत्तिउ वार-वार ॥ ३
तुम्हइँ हेवाइय रावणेण ॥ ४
उवहि व अ-खोहु मेरु व अ-लङ्कु ॥ ५
सुर-भुवणन्तर-णिग्गय-पयावु ॥ ६
जसु तिण-समु पर-धणु पर-कलत्तु ॥ ७
सो तुम्हहँ आइउ काल-दण्डु ॥ ८

10. 1 P S सहस कुठा° 2 °णिज्ज° 3 S आसा° 4 P S °हो. 5 A भि.

11. 1 °द्ध°. 2 P S °मु

तैं सहँ काइँ महाहवैण
सुहु जीवहौँ उज्झाउरिहँ

॥ घत्ता ॥

णिय-कोसु असेसु वि देप्पिणु ।
लवणङ्कुस-केर करेप्पिणु' ॥ ९

[१२]

आसीविस-विसहेर-विसम-चित्तु
'जा जाहि दूअ किं गज्जिएण
को वज्जजङ्कु कोऽणङ्गलवणु
जिह सकहौँ तिह उत्थरहौँ तुम्हें
गउ दूउ तुरन्तु वहन्तु खेरि
सण्णद्धु रामु रामाहिरामु
सण्णद्धु पलय-कालाणुकारि
सणद्ध णराहिव णिरवसेस

णारायणु हुअवहु जिह पलित्तु ॥ १
जलएण व जल-परिवज्जिएण ॥ २
को अङ्कुसु तासु पयावु कवणु ॥ ३
गहियाउह थिय सण्णहँवि अम्हें' ॥ ४
हय हरि-वल-वलें सण्णाह-भेरि ॥ ५
तइलोकवन्तरेँ भमिउ णामु ॥ ६
लकखणु सुह-लकखणं-लकखं-धारि ॥ ७
वीसम्भर-गोयर खेयरेस ॥ ८

॥ घत्ता ॥

हय-तूरइँ किय-कलयलइँ
लवणङ्कुस-हरि-वल-वलइँ

दारुण-रणभूमि-पयट्टइँ ।
स-रहसइँ वे वि अन्भिडइँ ॥ ९

[१३]

अन्भिडइँ हरिस-पसाहणाइँ
दुव्वार-वइरि-विणिवारणाइँ
दुद्धर-पर-णर-दप्प-हरणाइँ
जम-लुद्धइँ वड्ढिय-विग्गहाइँ
हरि-खुर-खय-रय-कय-धूसराइँ
असि-किरण-करालिय-णहयलाइँ
रुहिर-णइ-पूर-पूरिय-पहाइँ
पय-भर-भारिय-वीसम्भराइँ

लवणङ्कुस-हरि-वल-साहणाइँ ॥ १
धाइय-उद्धङ्कुस-वारणाइँ ॥ २
अवरोप्परु पेसिय-पहरणाइँ ॥ ३
रण-रामालिङ्गिय-विग्गहाइँ ॥ ४
आयामिय-भामिय-असिवराइँ ॥ ५
गय-मय-कहमिय-महीयलाइँ ॥ ६
खुर-खोणी-खुत्त-महारहाइँ ॥ ७
पहरन्ति परोप्परु णिव्भराइँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वज्जजङ्कु-रहुवइ-वलइँ
रण-भोयणुं भुञ्जन्तएण

दिट्ठइँ सुरपुरं-परिपालें ।
वे मुहइँ कियइँ णं कालें ॥ ९

12. 1 P °विमहरु, 5 विहरणु 2 P S °णु 3 P पलय°
13. 1 P S °वु 2 P S °रि 3 P S °ण 4 P णाइ किय.

४ भण्डारम्

[१२] १ मेघेन. २ हत ३ भूमिगोचरा .

[१३] १ T स्त्रीकृत २ T पृथ्वी ३ इन्द्रेण

[१४]

कहिं जि धाइया भडा
 स-रोस-वावरन्तया
 कहिं जि आगया गया
 5 कहिं जें वाण-जजरा
 कहिं जें दन्ति दन्तया
 कहिं जें ते सु-लौहिया
 कहिं जें आहया हया
 कहिं जें उद्ध-खण्डयं
 10 तओ^१ तहिं महारणे
 गलन्त-सोणियारुणे
 पिसाय-णाय-भीसणे
 मिलन्त-ठन्त-वायसे

मइन्द-विक्रमुन्भडा ॥ १
 परोप्परं हणन्तया ॥ २
 पंहार-संगया गया ॥ ३
 भर्मन्त मत्त कुञ्जरा ॥ ४
 रसन्ति भग्ग-दन्तया ॥ ५
 गिरि व्व धाउ-लोहिया ॥ ६
 पडन्ति चिन्धया धया ॥ ७
 पणच्चियं कवन्धयं ॥ ८
 भडेक्कमेक्क-दारुणे ॥ ९
 विमुक्क-हक्क-दारुणे ॥ १०
 अणेय-तूर-णीसणे ॥ ११
 १सिवा-णियन्त-फोप्फसे ॥ १२

॥ घत्ता ॥

15 ताव वलुद्धुरु वइरि-वलु
 धाइउ अङ्कुसु लक्खणहो

जगडन्तु मज्झे सङ्गामहो ।
 अन्भिद्धु लवणु रणे रामहो ॥ १३

[१५]

अल्भिह परोप्परु लवण-राम
 विण्णि वि भूगोयर-सार-भूय
 20 णं सगहो इन्द-पडिन्द पडिय
 विण्णि वि अप्फालिय-चण्ड-चाव
 विण्णि वि दप्पुद्धर वद्ध-रोस
 विण्णि वि रण-रामालिङ्गियङ्ग
 विण्णि वि अवहत्थिय-मरण-सङ्ग

णं दइवे णिम्मिय विण्णि काम ॥ १
 थिय विण्णि वि णाई कियन्त-दूय ॥ २
 विण्णि वि णिय-णिय-रहवरोहि चडिय ३
 विण्णि वि अवरोप्परु पलय-भाव ॥ ४
 विण्णि वि सुरसुन्दरि-जणिय-तोस ॥ ५
 विण्णि वि दूरुङ्गिय पिसुण-सङ्ग ॥ ६
 विण्णि वि पक्खालिय-पाव-पङ्ग ॥ ७

25

ताव रणङ्गणे राहवहो
 सहु धय-धवल-महद्धएण

॥ घत्ता ॥

आयामेवि विक्रम-सारें ।
 धणु पाडिउ लवण-कुमारें ॥ ८

14. 1 P S °व° 2 P °व°. 3 Lines 5 and 6 omitted in s 4 P S °खंघयं 5 P S °हो 6 P S °ति 7 P S °पत्त°. 8 P S °द्ध°

15. 1 P S सरण°

[१४] १ T प्रहारसगता गजाः २ T दमिता ३ T रक्केन प्लाविता . ४ सिवा मासमा-
 लोक्यन्ति

[१६]

रहु-गन्दण-गन्दण-गन्दणेण
जं पलय-वालवमुहाणुकरणु
सुग्गीवहों जेण सु-दिण्ण तार
तं पवरु सरासणु स-सरु लेवि
रहु खण्डिउ सीर्यं-सुएण ताव
हउ सारहि आहय वर तुरङ्ग
पभणित्ठ अणङ्गलवणेणं रामु
तो वावरु सच्च-परक्कमेण

धणु अवरु लइउ रिउ-मद्दणेण ॥ १
जं विडसुग्गीवहों पाण-हरणु ॥ २
जें रावणु भग्गु अणेय-चार ॥ ३
किर विन्धइ आलंकिखउ करेवि ॥ ४ 5
परिओसिय सुर समरेक्क-भाव ॥ ५
णं पारावारहों हिय तरङ्ग ॥ ६
'तुहें जइ उववासेंण हुयउ खामु ॥ ७
जिय णिसियर एण जि विक्कमेण' ॥ ८

॥ वत्ता ॥

10

वल्लेण विलक्खिहीयएण
वल्लेवि पडीवी लग्ग करे

सर-धोरणि मुक्क कुमारहों ।
णं कुल-वहु णिय-भत्तारहों ॥ ९

[१७]

जिह मुक्कं ण दुक्कइ कोइ वाणु
तिह मुसल्लु गयासणि तिह 'रहङ्गु
लक्खणु वि ताव मयणङ्कुसेण
आमेल्लइ पहरणु जं जें जं जें
धणु पाडिउ पाडिउ आयवत्तु
गयणङ्गणे तो वोळन्ति देव
हंसं गउ सुरवर-पउर-विन्दु
खर-दूसणु सम्भुंकुमारु जो वि

तिह हलु तिह मोग्गरु तिह क्किवाणु ॥ १
तिह अवरु वि पहरणु रणे अहङ्गु ॥ २ 15
णं रूद्धु महा-गउ अङ्कुसेण ॥ ३
लवणौणुउ छिन्दइ तं जें तं जें ॥ ४
हय हयवर सारहि धरणि-पत्तु ॥ ५
'जिय वाल्लेहि लक्खण-राम केव' ॥ ६
'हउ अण्णे' केण वि णिसियरिन्दु ॥ ७ 20
अण्णेण जि केण वि णिहउ सो वि' ॥ ८

॥ वत्ता ॥

जगु जें विरत्तउ हरि-वल्लहं
णहु महियलु पायालयलु

सिसु-साहसं-पवणुद्धुअउ ।
सयलु वि लवणङ्कुसिहूअउ ॥ ९

16. 1 P S जं पलयवालुप°, A णं पलयवालुप°. 2 P S आलि°. 3 P S °या°. 4 P S °यु°. 5 S °हि. 6 P S °हूएण.

17. 1 P S °क्क. 2 P S तुह. 3 P S अण्णह. 4 S °ण. 5 P S °व P S °सु.

[१६] १ रघुनदनोऽ[न]रण्य. । तस्य नंदनो दशरथस्तस्य नदन राम तेन. २ T यं धनुषं प्रलय-कालं सन्मुखं करोति (?). ३ T समुद्रस्य ४ व्याप(१ पा)र कुह.

[१७] १ T चक्र २ T मदनरूपी द्वितीयपुत्रोऽश्वनामा तेन. ३ लघुभ्राता. ४ T हास्यं गत .
पउ० च० २८

[१८]

खरदूसण-रावण-घायणेण
 सय-सूर-समप्पहु णिसिय-धारु
 खय-जलण-जाल-माला-रउहु
 5 धवलुज्जलु हरि-करंयल्ले विहाइ
 आयामेवि मेल्लिउ लक्खणेण
 आसङ्गिय सुर णरं जेऽणुरत्त
 ति-पयाहिण णवरङ्कुसहो देवि
 पडिवारउ घत्तिउ लक्खणेण

10

हरि आमेल्लई अमरिसेण
 वाहिर-विद्धु कलत्तु जिह

तो लइउ चक्कु णारायणेण ॥ १
 दसकन्धर-दारणु दंससयारु ॥ २
 कुण्डल्लेवि णाई थिउ विसहरिन्दु ॥ ३
 वर-कमलहो उप्परि कमलु णाई ॥ ४
 गर फरहरन्तु णहे तक्खणेण ॥ ५
 'लइ एवहिं सीया-सुय समत्त' ॥ ६
 थिउ हरिहे पडीवउ करे चडेवि ॥ ७
 पडिवारउ आइउ तक्खणेण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहो वालहो तण्ण पहावइ ।
 परिभमेवि पुणु पुणु आवइ ॥ ९

[१९]

तो सयल-काल-कलिआरण
 15 'हरि-वल्लहो एह किरं कवण बुद्धि
 गुरु-हार वणन्तरं मुक्क देवि
 पहिलारउ एहु अणङ्गलवणु
 वीयउ मयणङ्कुसु एहु देव
 रिसि-वयणु सुणेवि महा-वलेहिं
 20 अवरुण्डिय चुम्बिय विहिं वि वे वि
 लवणङ्कुस-लक्खण-राम मिलिय

आणन्दु पणच्चिउ णारएण ॥ १
 णिय-पुत्तं वहेवि कहिं लहहो सुद्धि ॥ २
 उप्पण्ण तणय तहे एय वे वि ॥ ३
 कुल-मण्डणु जयसिरि-वास-भवणु ॥ ४
 सहु आयहु पहरहो तुम्हि केव' ॥ ५
 परिचत्तइ करणइ हरि-वलेहिं ॥ ६
 कम-कमलहं णिवडिय ताम ते वि ॥ ७
 चउ सायर एक्कहिं णाई मिलिय ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वज्जजङ्कु स ई भु अ जुएहिं
 वार-वार पोमाइयउ

अवरुण्डिउ जाणइ-कन्तेण ।
 'महु मिलिय पुत्त पई होन्तेण' ॥ ९

7-

18. 1 PS °ह 2 PS °रि 3 PS व 4 PS हरेहि. 5 PS °इ. 6 PS मेल्लइ

19. 1 PS °ह 2 PS °तु 3 PSA °हो 4 PS °गु.

[१८] १ T दशशत आरकयुत.

[१९] १ आयुधानि युद्धक्रियाश्च

[८३ तेआसीमो संधि]

लवणङ्कुस पुरे पइसारैवि जिय-रयणियर-महाहवैण ।
वइदेहिहें दुज्जस-भीयएण दिव्वु समोद्धिउ राहवैण ॥

[१]

लवणङ्कुस-कुमार वलहहें पुरे पइसारिय जय-जय-सहें ॥ १
झलरि-पडह-भेरि-दडि-सङ्खेहि वज्जन्तहिं अवरेहिं अ-सङ्खेहिं ॥ २
रामु अणङ्गलवणु रहें एकहिं लक्खणु मयणङ्कुसु अण्णेकहिं ॥ ३
वज्जजङ्कु थिउ दुदम-वारणे वीया-यन्दु गाई गयणङ्गणे ॥ ४
जय-जयकारिउ भड-सङ्गाएं 'रामहों सुअ मेलाविय आएं' ॥ ५
जणवउ रहसैं अङ्गं ण माइउ एकमेक-चूरन्तु पधाइउ ॥ ६
पेक्खेवि ते कुमार पइसन्ता णारिउ ण वि गणन्ति 'पइ सन्ता ॥ ७
सीया-णन्दण-रूवालयणे लायइ का वि अल्लत्तउ लोयणे ॥ ८
का वि देइ अहरुल्लए कज्जलु काए वि घत्तिउ पच्छए अञ्चलु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

विवरेउ गायरिया-यणु किउ लवणङ्कुस-दंसणेण ।
जगे कामे को वि ण वद्धउ स-सरें कुसुम-सरासणेण ॥ १०

[२]

आयल्लउ करन्त तरुणी-यणे लवणङ्कुस पइसारिय पट्टणे ॥ १
तहिं तेहए पमाणे विज्जाहर लङ्काहिव-किक्किन्ध-पुरेसर ॥ २
भामण्डल-णल-णीलङ्गङ्गय जणय-कणय-मरुतणय समागय ॥ ३
जे पट्टविय गाम-पुर-देसहुं गय हकारा ताहुं असेसहुं ॥ ४
णाणा-जाण-विमाणेहिं आइय णं जिण-जम्मणे अमर पराइय ॥ ५
दिट्ठु रामु सोमिच्छि महाउसु दिट्ठु अणङ्गलवणु मयणङ्कुसु ॥ ६
सत्तुहणो वि दिट्ठु ताह सुन्दर एकहिं मिलिय पच्च णं मन्दर ॥ ७
पुणरवि रामहों क्रिय अहिवन्दण 'धण्णउं तुहुं जसु एहा णन्दण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एत्तउउ दोसु पर रहुवइहें जं परमेसरि णाहिं घरे ।
म पमायहि लोयहुं छन्देण आणेवि का वि परिक्ख करे ॥ ९

1. 1 P S दीउ 2 P A °हिं 3 P S °लि°

2. 1 P S °ण 2 P °उ

[१] १ पतयो विद्यमाना २ लाक्षारसम् ३ परिवानवन्नम्

[२] १ आरात्तिक कामपीडा वा २ प्रघट्टके ३ प्रेषिता . ४ मा लज (२)

[३]

तं गिसुणेवि चँवइ रहुणन्दणु
जाणमि जिह हरि-वंसुप्पणी
जाणमि जिह जिण-सासणें भत्ती
5 जा अणु-गुण-सिक्खा-वर्यं-धारी
जाणमि जिह सायर-गम्भीरी
जाणमि अङ्कुस-लवण-जणेरी
जाणमि सस भामण्डल-रायहों
जाणमि जिह अन्तेउर-सारी

‘जाणमि सीयहें तणउ सइत्तणु ॥ १
जाणमि जिह वय गुण-संपणी ॥ २
जाणमि जिह महु सोक्खुप्पत्ती ॥ ३
जा संम्मत्तं-रयण-मणि-सारी ॥ ४
जाणमि जिह सुर-महिहर-धीरी ॥ ५
जाणमि जिह सुय जणयहों केरी ॥ ६
जाणमि सामिणि रज्जहों आयहों ॥ ७
जाणमि जिह महु पेसण-गारी ॥ ८

10

मेल्लेप्पिणु गायर-लोएण
जो दुज्जसु उप्परें धित्तउ

॥ घत्ता ॥

महु धरें उब्भा करेवि कर ।
एउ ण जाणहों एक्कु पर’ ॥ ९

[४]

तहिँ अवसरें रयणासव-जाएं
15 वोलाविय एत्तहें वि तुरन्तें
विणिण वि विण्णवन्ति पणमन्तिउ
‘देव देव जइ हुअवहु डज्जइ
जइ पायालें णहइणु लोट्टइ
जइ उप्पज्जइ मरणु कियन्तहों
20 जइ अँवरें उगमइ दिवायरु
एउ असेसु वि सम्भाविज्जइ

कोक्खिय ’तियड विहीसण-राएं ॥ १
लङ्कासुन्दरि तो हणुवन्तें ॥ २
सीय-सइत्तण-गव्वु वहन्तिउ ॥ ३
जइ मारुउ पड-पोट्टलें वज्जइ ॥ ४
कालन्तरेंण कालु जइ तिट्ठइ ॥ ५
जइ णासइ सासणु अरहन्तहों ॥ ६
मेरु-सिहरेँ जइ णिवसइ सायरु ॥ ७
सीयहें सीलु ण पुणु मइलिज्जइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जइ एव वि णउ पत्तिज्जहि
तुल-चाउल-विस-जल-जलणहँ

तो परमेसर एउ करें ।
पञ्चहँ एक्कु जि दिव्वु धरें’ ॥ ९

3. 1 P S जाणमि 2 P S omitt वय 3 P सम० 4 S omits भणि. 5 P S °धा°.
6 P °हु collected as °मि, s °मि.

4. 1 P S °णु. 2 S णिट्ठइ.

[३] १ T कथयति २ सम्यक्त्व

[४] १ वृजटा. २ कालान्तरे मध्ये यदि कालोत्पद्यते. ३ पश्चिमदिशायाम्.

[५]

तं णिसुणोँवि रहुवइ परिओसिउ
गउ सुग्गीउ विहीसणुं अङ्गउ
पेसिउ पुप्फ-विमाणु पयट्टउ
पुण्डरीय-पुरवरुं सम्पाइय
‘णन्द बह्व जय होहि चिराउस
लक्खण-राम जेहिं आयामिय
रक्खिय णारएण समरङ्गणें
अम्हइँ आय तुम्हँ-हक्कारा

‘एव होउ’ हक्कारउ पेसिउ ॥ १
चन्दोयर-णन्दणु पवणङ्गउ ॥ २
णं णहयल-सरेँ कमलु विसट्टउ ॥ ३
दिट्ट देवि रहसेण ण माइय ॥ ४
विण्णि वि जाहें पुत्त लवणङ्कुस ॥ ५
सीहहिं जिह गइन्द ओहामिय ॥ ६
तेहि मि ते पइसारिय पट्टणें ॥ ७
दिअहा होन्तु मणोरह-गारा ॥ ८

॥ घत्ता ॥

चडु पुप्फ-विमाणें भडारिएँ मिलु पुत्तहँ पइ-देवरहँ ।
सहुँ अच्छहिं मज्जेँ परिट्ठिय पिहिमि जेम चउ-सायरहँ ॥ ९

[६]

तं णिसुणोँवि लवणङ्कुस-मायएँ
‘णिट्ठुर-हिययहोँ अ-लइय-णामहोँ
घल्लिय जेण रुवन्ति वणन्तरेँ
जहिं सद्दल-सीह-गय-गण्डा
जहिं बहु तच्छ-रिच्छ-रुरु-सम्बर
जहिं माणुसु जीवन्तु वि लुंच्चइ
तहिं वणें घल्लाविय अण्णाणें

वुत्तु विहीसणु गग्गिर-नायएँ ॥ १
जाणमि तत्ति ण किज्जइ रामहोँ ॥ २
डाइणि-रक्खस-भूय-भयङ्करें ॥ ३
वन्वर-सवर-पुलिन्द-पयण्डा ॥ ४
स-उरग-खग-मिगं-विगं-सिव-सूयर ॥ ५
‘विहि कलि-कालु वि पाणहुँ मुच्चइ ॥ ६
एवहिं किं तहोँ तणेण विमाणें ॥ ७

॥ घत्ता ॥

जो तेणें डाहु उप्पाइयउ पिसुणालाव-मरीसिएँण ।
सो दुक्करु उल्हाविज्जइ मेह-सएण वि वरिसिएँण ॥ ८

[७]

जइ वि ण कारणु राहव-चन्दें
एवँ भणेवि देवि जय-सुन्दरि

तो वि जामि लइ तुम्हहँ छन्दें ॥ १
कम-कमलहिं अच्चन्ति वसुन्धरि ॥ २

5. 1 P S A °ण. 2 P S °ले सर. 3 P S °र 4 A अम्हि आय तुम्हह. 6 P सुहुँ, S सुहु.
7 P मि.

6. 1 P S °विग°. 2 P S जहि. 3 P °हि°, १ °हि

[५] १ विराही २ हन्मंत.

[६] १ लुञ्च्यते. २ विधि .

पुष्फ-विमाणे चडिय अणुराए
कोसल-गयरि पराइय जावैहिं
जेत्यहो पिययमेण णिन्वासिय
कह वि विहाणु भाणु णह उग्गउ
5 दिण्णइ तूरइ मङ्गलु घोसिउ
सीय पंविट्ठु णिविट्ठु वरासणे

परिमिय विज्जाहर-सङ्गाए ॥ ३
दिग्गमणि गउ अत्थवणहो तावैहिं ॥ ४
तहो उववणहो मज्जे आवासिय ॥ ५
अहिमुहु सज्जण-लोउ समागउ ॥ ६
पट्टणु णिरवसेसु परिओसिउ ॥ ७
सासण-देवय णं जिण-सासणे ॥ ८

॥ घत्ता ॥

परमेसरि पढम-समागमे ङ्गत्ति णिहालिय हलहरेंण ।
सिय-पक्खहो दिवसे पहिल्लए चन्दलेह णं सायरेंण ॥ ९

10

[८]

कन्तहो तणिय कन्ति पेक्खेप्पिणु
'जइ वि कुलुग्गयाउ णिरवज्जउ
दर-दाविय-कडक्ख-विक्खेवउ
वाहिर-धिट्ठउ गुण-परिहीणउ
15 णउ गणन्ति णिय-कुलु मइलन्तउ
अङ्गु समोद्धेवि धिद्धिक्कारहो
सीय ण भीय सइत्तण-गव्वे
'पुरिस णिहीण होन्ति गुणवन्त वि तियेहो ण पत्तिज्जन्ति मरन्त वि ॥ ८

पभणइ पोमणाहु विहसेप्पिणु ॥ १
महिलउ होन्ति सुट्ठु णिल्लज्जउ ॥ २
कुडिल-मइउ वड्ढिय-अवलेवउ ॥ ३
किह सय-खण्डं ण जन्ति णि^१हीणउ ॥ ४
तिहुअणे अयस-पडहु वज्जन्तउ ॥ ५
वयणु णिएन्ति केम भत्तारहो ॥ ६
वल्लेवि पवोल्लिय मच्छर-गव्वे ॥ ७
पत्तिज्जन्ति मरन्त वि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

20

खडु लक्कडु सलिलु वहन्तियेहो
रयणायरु खारइ देन्तउ

पउराणियेहो कुलुग्गयेहो ।
तो वि ण थक्कइ णम्मयेहो ॥ ९

[९]

साणु ण केण वि जणेण गणिज्जइ गङ्गा-णइहिं तं जि ण्हाइज्जइ ॥ १
ससि स-कलङ्कु तहिं जि पह णिम्मल कालउ मेहु तहिं जे तडि उज्जल ॥ २

7 1 P S जत्य° 2 P S पइ°

8. 1 P °द्ध, S °द्ध 2 P S °डु 3 P S ति° 4 P marginally 'गगरसदे' पाठे.

[७] १ भवता दाक्षिण्येन

[८] १ सतीत्वमहत्त्वेन. २ पवित्राभि । चिरन्तनाभिर्वा. ३ नयाम् (?)

उँवलु अपुज्जु ण केण वि छिप्पइ
धुज्जइ पाउ पङ्कु जइ लग्गइ
दीवउ होइ सहावें कालउ
णर-णारिहिँ एवडुउ अन्तरु
एँह पई कवण 'वोळ पारम्भिय
तुहुँ पेक्खन्तु अच्छु 'वीसत्थउ

तहिँ जि^१ पडिम चन्दणेंण विलिप्पइ ॥ ३
कमल-माल पुणु जिणहों वलग्गइ ॥ ४
वड्ढि-सिहँए मण्डिज्जइ आलउ ॥ ५
मरणें वि वेळि ण मेळइ तरुवरु ॥ ६
सँइ-वडाय मई अँज्जु समुब्भिय ॥ ७
डहउ जलणु जइ डहँवि समत्थउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

किं किज्जइ अण्णें^१ दिव्वें
जिह कणय-लोळि डाहुत्तर

जं^२ ण वि सुज्जइँ महु मणहों ।
अच्छमि मज्जेँ हुआसणहों' ॥ ९

[१०]

सीयहें वयणु सुणेंवि जणु हरिसिउ
महुर-णराहिव-जस-लीह-लुहणें
तिण्णि वि विप्फुरन्त-मणि-कुण्डल
हरिसिय लवणङ्कुस दुस्सीलं^१ वि
तार-तरङ्ग-रम्भ-विससेण वि
गवय-गवक्ख-सङ्ख-सकन्दणं
लङ्काहिव-सुग्गीवङ्गय
लोयवाल-गिरि-णइउ समुह वि

उँच्चारउ रोमञ्चु पदरिसिउ ॥ १
हरिसिउ लक्खणु सहँ सत्तुहणें ॥ २
हरिसिय जणय-कणय-भामण्डल ॥ ३
हरिसिय वज्जजङ्घं-णल-णीलं^१ वि ॥ ४
दहिमुह-कुमुय-महिन्द-सुसेण वि ॥ ५
चन्दरासि-चन्दोयर-णन्दणं ॥ ६
जम्भव-पवणञ्जय-पवणङ्गय ॥ ७
विसहरिन्द अमरिन्द णरिन्द वि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तइलोकवन्तर-वत्तिउ
पर हियवएँ कलुसु वहन्तउ

सयलु वि जणवउ हरिसियउ ।
रहुवइ एक्कु ण हरिसियउ ॥ ९

[११]

सीयएँ जं जें वुत्तु अँवलेवें
कोक्खिय खणय खणाविय खोणी
पूरिय खड-लक्कड 'विच्छड्डुँहिँ
देवदारु-कप्पूर-सहासँहिँ

तं जि समत्थिउ पुणु वलएवें ॥ १
हत्थ-सयाँ तिण्णि चउ-कोणी ॥ २
कालागुरु-चन्दण-सिरिखण्डेँहिँ ॥ ३
कञ्चण-मञ्च रइय चउ-पासँहिँ ॥ ४

9. 1 P तहि पडिमा, S ताहि पडिम 2 P अन्नइ, S अण्णइ 3 PS जे. 4 PS 'हो

10. 1 A सुस्नीलं 2 PS 'वु 3 PS 'लु 4 PS 'णु.

[९] १ पापाण २ कया ३ सतीपताका ४ T अय सम्यगुद्धरामि ५ विसवध .

[१०] १ ऊर्द्धाकार

[११] १ गव्वेण २ गर्ता, T सटा ३ काष्ठसमूह

चडियं राय आर्या गिन्वाण वि
 इन्धण-पुञ्जं चडिय परमेसरि
 'अहो देवहो महु तणउ सइत्तणु
 अहो वइसाणर तुहु मि डहेज्जहि

इन्द-चन्द-रवि-हरि-वम्भाण वि ॥ ५
 णं संठिय वय-सीलहँ उप्परि ॥ ६
 जोएज्जहो रहुवइ-दुट्ठत्तणु ॥ ७
 जइ विरुआरी तो म खमेज्जहि' ॥ ८

5

॥ घत्ता ॥

किउ कलयलु दिण्णु हुआसणु महि जेँ जाय सम-जालडिय ।
 सो णाहिँ को वि तहिँ अवसरँ जेण ण मुक्की धाहडिय ॥ ९

[१२]

खड-लक्कड-विच्छडु-पलित्तएँ
 10 धाहाविउ सोमिन्ति-कुमारें
 धाहाविउ भामण्डल-जणएँहिँ
 धाहाविउ लङ्कालङ्कारें
 धाहाविउ सुग्गीव-णारिन्दें⁴
 धाहाविउ सव्वेँहिँ सामन्तेँहिँ
 15 धाहाविउ वइदेहि-कएँ^० विहिँ⁷
 उद्ध-मुहेण पवड्डिय-सोएँ

धाहाविउ कोसलएँ सुमित्तएँ ॥ १
 'अञ्जु माय मुअ महु अवियारें' ॥ २
 धाहाविउ लवणङ्कुस-तणएँहिँ ॥ ३
 धाहाविउ हणुवन्त-कुमारें ॥ ४
 धाहाविउ महिन्द-माहिन्दें^० ॥ ५
 रामहो धिद्धिक्कारु करन्तेँहिँ ॥ ६
 लङ्कासुन्दरि-तियडाएविहिँ ॥ ७
 धाहाविउ णायरिणं लोएँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'णिट्ठुरु णिराँसु मायारउ
 णउ जाणहँ सीय वहेविणु

दुक्किय-णारउ कूर-मइ ।
 रामु लहेसइ कवण गइ' ॥ ९

20

थिउ एत्थन्तरेँ कारणु भारिउ
 जालउ विप्फुरन्ति तहिँ अवसरँ
 सीय सइत्तणेण णउ कम्पिय
 'एहु देहु गुण-गहण-णिवासणु
 25 डहेँ डहेँ जइ जिण-सासणु छड्डिउ
 डहेँ डहेँ जइ हउँ केण वि ऊणी

[१३]

णिरवसेसु जगु धूमन्धारिउ ॥ १
 णं विज्जुलउँ जलय-जालन्तरेँ ॥ २
 'दुक्कु दुक्कु सिहि' एम पजम्पिय ॥ ३
 डहेँ डहेँ जइ सच्चउ जेँ हुआसणु ॥ ४
 डहेँ डहेँ जइ णिय-गोत्तु ण मण्डिउ ॥ ५
 डहेँ डहेँ जइ चारित्त-विहणी ॥ ६

11. 1 A °या 2 A य

12. 1 P S A °उ. 2 P °कारेँहिँ, S °केसहि. 3 P °रेहि, S °रेंहि. 4 P °दहिँ, S °दहि.
 5 P S °णलणीलमहिँदहि (S °हि). 6 P S A °कए. 7 P हिँवि, S हिँवि. 8 P दुरा°.

13. 1 P जलण°, S °लयउ जल.

[१२] १ सीतानिमित्ते

डहें डहें जइ भत्तारहों दोही
डहें डहें सयल-भुवण-सन्तावणु
तं एवड्डु धीरु को पावइ

डहें डहें जइ परलोय-विरोही ॥ ७
जइ मई मणेंण वि इच्छिउ रावणु' ॥ ८
सिहि सीयलउ होइ ण पहावइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तहिं अवसरें मणें परितुड्डुउ कहइ पुरन्दरु सुर-यणहों ।
'सिहि सङ्कइ डहेंवि ण सकइ पेक्खु पहाउ सइत्तणहों' ॥ १०

5

[१४]

ताम तरुण-तामरसेहि छणणउं
सारस-हंस-कोञ्च-कारण्डेहिं
जलु अत्यक्कएँ कहि मि ण माइउ
णासइ सव्वु लोउ सहुँ रामें
अण्णु वि सहसवत्तु उप्पणणउ
तासु मज्झें मणि-कणय-रवणणउ
तहिं जाणइ जण-साहुकारिय
तहिं वेलहिं सोहइ परमेसरि
आहय दुन्दुहि सुरवर-सत्थें

सो जें जलणु सरवरु उप्पणणउ ॥ १
गुमुगुमन्त-छप्पय-विच्छंङ्गेहिं ॥ २
मञ्च-सयइँ रेहन्तु पधाइउ ॥ ३
सलिलु पवड्डिउं सीयहें णामें ॥ ४
दियँवएँ आसणु णं अवइण्णउ ॥ ५
दिव्वासणु समुच्चु उप्पणणउ ॥ ६
सइँ सुरवर-वहूहिं वइसारिय ॥ ७
णं पच्चक्ख लच्छि कमलोवरि ॥ ८
मेल्लिउ कुसुम-वासु सइँ हत्थें ॥ ९

10

15

॥ घत्ता ॥

जय-जय-कारु पघुड्डुउ
णाणाविह-तूर-महा-रउ

सुह-वयणावणणण-भरिउं ।
जाणइ-जसु वं पँवित्थरिउ ॥ १०

[१५]

तो एत्थन्तरें णिरु दीहाउस
जिह ते तिह विण्णि वि हरि-हलहर
तिह सुग्गीव-णील-मइसायर
तिह स-विहीसण कुमुअङ्गङ्गय
तिह गय-गवय-गवक्ख-विराहिय
तिह महिन्दं-माहिन्दि स-दहिमुह
तिह मइकन्त-वसन्त-रविप्पह
चन्दरासि-सन्ताण णरेसर

सीयहें पासु दुक्क लवणङ्कुस ॥ १
तिह भामण्डल-णल-वेलन्धर ॥ २
तिह सुसेण-विससेण-जसायर ॥ ३
जणय-कणय-मारुइ-पवणञ्जय ॥ ४
वज्जजङ्घं-सत्तुहण गुणाहिय ॥ ५
तार-तरङ्ग-रम्भ-पहु-दुम्मुह ॥ ६
चन्दमरीचि-हंस-पहु-दिढरह ॥ ७
रयणकेसि-पीइङ्कर खेयर ॥ ८

20

25

14. 1 P °उ 2 PS विच्छ°. 3 PS °कु पुणु 4 PS पवदिउ. 5 P देवए, S देवइ°. 6 PS °यउ, A °य 7 PS omit. 8 P वित्थरिअउ, S वित्थरियउ

15. 1 PS °वु 2 PS महिंदिमाहिद. 3 PS °य°.

[१४] १ तदनन्तर नवक्ख(? म)कैराच्छादित .

तिह जम्बव-जम्बवि-इन्दाउह
तिह ससिवद्धण-सेय-समुह वि
लच्छिभुक्ति-कोलाहल-सरल वि

मन्दहर्त्थ-ससिपह-तारामुहँ ॥ ९
रइवद्धण-णन्दण-कुन्देद(?) वि ॥ १०
णहुस-कियन्तवत्त-चल-तरल वि ॥ ११

॥ घत्ता ॥

5 अवर वि एक्केक-पहाणा
अहिसेय-समएँ णं लच्छिहँ

उर-रोमञ्च-समुच्छलिय ।
सयल-दिसा-गइन्द मिलिय ॥ १२

[१६]

तो वोळिज्जइ राहव-चन्देँ
जं अविद्यपेँ मइँ अवमाणिय
10 तं परमेसरि महु मरुसेज्जहि
आउ जाहुँ घर-वासु णिहालहि
पुप्फ-विमाणेँ चडहि सुर-सुन्दरें
उववण-णइउ महइह-सरवरें
णन्दणवण-काणणइँ महायर

'णिकारणेँ खल-पिसुणहँ छन्देँ ॥ १
अणु वि दुहु एवडु पराणिय ॥ २
एक-वार अवरहु खमेज्जहि ॥ ३
सयलु वि णिय-परियणु परिपालहि ॥ ४
वन्दहि जिण-भवणइँ गिरि-मन्दरें ॥ ५
खेत्तइँ कप्पहुम-कुलगिरिवरें ॥ ६
जणवय-वेइ-दीव-रयणायर ॥ ७

15

॥ घत्ता ॥

मणेँ धरहि एउ महु वुत्तउ
सइ जिह सुरवइ-संसर्गिँएँ

मच्छरु सयलु वि परिहरहि ।
'णीसावणु रज्जु करहि' ॥ ८

[१७]

तं णिसुणेँवि परिचत्त-सणेहिँएँ
20 'अहोँ राहव मं जाहि विसायहोँ
भव-भव-सएँहिँ विणासिय-धम्महोँ
को सकइ णासणहँ पुराइउ
वल मइँ बहुविह-देस-णित्ती
वहु-वारउ तम्बोलु समाणित्
25 बहु-वारउ पयडिय-वहु-भोग्गी
वहु-वारउ भवणन्तरें हिण्डित्
एवहिँ तिह करेमि पुणु रहवइ

एव पजम्पित् पुणु वइदेहिँएँ ॥ १
ण वि तउ दोसु ण जण-सङ्घायहोँ ॥ २
सवु दोसु एँउ दुक्किय-कम्महोँ ॥ ३
जं अणुलग्गउ जीवहुँ आइउ ॥ ४
तुज्जु पसाएँ वसुमइ भुत्ती ॥ ५
इहलोइउ सुहु सयलु वि माणित् ॥ ६
पइँ सहुँ पुप्फ-विमाणेँ वलग्गी ॥ ७
अप्पउ बहु-मण्डणेँहिँ पमण्डित् ॥ ८
जिह णं होमि पडिवारी तियमइ ॥ ९

4 P S °त्थि° 5 P S °उह 6 A °रे.

. 16. 1 P जह 2 P omits this Pāda. 3 P S °ग्गी°.

17. 1 P S एमहि.

[१६] १ समस्तम्

[१७] १ हे रामचन्द्र २ पुन स्त्री न भवामि.

॥ घत्ता ॥

महु विसय-सुहैहिँ पँजत्तउ
णिब्विण्णी भव-संसारहँ

छिन्दमि जाइ-जरा-मरण ।
लेमि अज्जु धुवु तव-चरणु' ॥ १०

[१८]

एम ताँएँ एँउ वयणु चवेप्पिणु
णिय-सिर-चिहुर तिलोयाणन्दहँ
केस णिएवि सो वि मुच्छंगउ
महिहिँ णिसणु सुट्टु णिच्चेयणु
ताव णियन्तहँ जिण-पय-सेवहँ
सीयएँ सील-तरण्डएँ थाँएँवि
पाँसे सव्वभूसण-मुणिणाहहँ
जाय तुरिउ तव-भूसिय-विग्गहु

दाहिण-करँण समुप्पाडेप्पिणु ॥ १
पुरउ पघल्लिय राहव-चन्दहँ ॥ २
पडिउ णाँइ तरुवरु मरु-आहउ ॥ ३
जाव कह वि किर होइ स-चेयणु ॥ ४
विज्जाहर-भूगोयर-देवहँ ॥ ५
लइय दिक्ख रिसि-आसमँ जाँएँवि ॥ ६
णिम्मल-केवल-णाण-सणाहहँ ॥ ७
मुक्क-सव्व-पर-वत्थु-परिग्गहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एत्थन्तरेँ वलु उम्मुच्छियउ
तं आसणु जाव णिहालइ

जो रहु-कुल-आयास-रवि ।
जणय-तणय तहिँ ताव ण वि ॥ ९

[१९]

पुणु सव्वाउ दिसाउ णियन्तउ
केण वि स-विणएण तो सीसइ
इह णिय-सुरेँहिँ सुसीलालङ्किय
तं णिसुणँवि रहु-गन्दणु कुद्धउ
रत्त-णेत्तु भउहा-भङ्गुर-मुहु
गएँ आरूढउ मच्छर-भरियउ
उब्भिय-ससि-धवलायववारणु
'जं किउ चिरु मायासुग्गीवहँ
तं करेमि वड्डिय-अवलेवहँ
सहँ णिय-भिच्चेँहिँ एव चवन्तउ
पेक्खँवि णाणुप्पणु मुणिन्दहँ

उट्ठिउ 'केत्तहँ सीय' भणन्तउ ॥ १
'पवरुज्जाणु एउ जं दीसइ ॥ २
मुणि-पुज्जवहँ पासु दिक्खङ्किय' ॥ ३
जुअ-खएँ णाँइँ कियन्तु विरुद्धउ ॥ ४
गउ तहँ उज्जाणहँ सवडंमुहु ॥ ५
वहु-विज्जाहरेँहिँ परियरियउ ॥ ६
दाहिण-करँ कय-सीर-प्पहँरणु ॥ ७
जं लक्खणँण समरँ दहगीवहँ ॥ ८
वासव-पमुह-असेसहँ देवहँ ॥ ९
तं महिन्द-णन्दणवणु पत्तउ ॥ १०
वियलिउ मच्छरु सयलु णरिन्दहँ ॥ ११

18. 1 P S °सहावहो.

19. 1 P S °म°. 2 P S A °इ 3 P S वि पह°

॥ वत्ता ॥

ओयरेवि महा-गय-खन्धहो पयहिण देवि स-गरवरण ।
कर मउलि करेवि मुणि वन्दिउ गय-सिरेण सिरि-हलहरण ॥ १२

[२०]

5 जिह ते तिह वन्दिउ सागन्देहिं लकखण-पमुह-असेस-गरिन्देहिं ॥ १
दिदु सीय तहिं राहव-चन्दे पं तिहुअण-सिरि परम-जिणिन्दे ॥ २
ससि-धवलम्बर-जुवलालङ्किय सहि-णिविदु छुडु छुडु दिक्खङ्किय ॥ ३
पुणु गिय-जस-भुवण-त्तय-धवलें सिर-सीहरोवरि-किय-कर-कमलें ॥ ४
पुच्छिउ वलें 'अणङ्ग-वियारा परम-धम्मु वज्जरहि भडारा' ॥ ५
10 तेण वि कहिउ सव्वु सल्लेवं भरहेसरहो जेव पुरएवं ॥ ६
तव-चरित्त-वय-दंसण-णाणइ पच्च वि गइउ जीव-गुणथाणइ ॥ ७
खम-दम-धम्माहम्म-पुराणइ जग-जीवुच्छेआउं-पमाणइ ॥ ८
समय-पल्ल-रयणायर-पुव्वइ वन्ध-मोक्ख-लेसउं वर-दव्वइ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

15 आयइ अवरइ वि असेसइ कहियइ मुणि-गण-सारएण ।
परमाणे जिह उद्विदुइ आसि स य म्भु-भडारएण ॥ १०

*

इय पउमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
तिहुवण-सयम्भु-रइए संमाणियं सीय-दीव-पव्वमिणं ॥ १
वन्दइ-आसिय-तिहुअण-सयम्भु-कइ-कहिय-पोमचरियस्स ।
20 सेसे भुवण-पगासे तेआसीमो इमो सग्गो^१ ॥ २

*

कइरायस्स विजय-सेसियस्स वित्थारिओ जसो भुवणे ।
तिहुअण-सयम्भुणा पोमचरियसेसेण णिस्सेसो ॥ ३

*

[८४. चउरासीमो सन्धि]

एत्थन्तरे सयलविहूसण पणवेवि वुत्तु विहीसणेण ।
25 'कहे^१ मुणिवर सीय महासइ किं कजे हिय रावणेण ॥

20. 1 P परमाणं. 2 P S जीउच्छेउ 3 P लेसाउ अणुव्वइ. 4 P S जह, S वदे.

1. P °इय, S °इ° 2 S सं ३ T इति कृते रामचरिते स्वयम्भु-महाकविदेवलोक्री वभूव.

1, 1 P S A °हि.

[१]

अण्णु वि जिय-रयणियराहवेण
कहँ गुरु किउ सुक्किउ काइँ एण
अण्णु वि धारायर-वंस-सारु
दस-मन्धरु तरणि व दोस-चत्तु
जो ण वि आयामिउ सुरवरोहिँ
सो दहमुहु कमल-दलकखणेण
मेह्लेप्पिणु णिय-भायरु महन्तु
किह भामण्डलु सुग्गीउ एहु

अण्णहिँ जम्मन्तरँ राहवेण ॥ १
एवड्डु पहुत्तणु पत्तु जेण ॥ २
परमागम-जलणिहि-विगय-पारु ॥ ३
किह मूहउ पेक्खेवि पर-कलत्तु ॥ ४
विसहर-विज्जाहर-णरवरोहिँ ॥ ५
किह रणेँ विणिवाइउ लकखणेण ॥ ६
हउँ किह हरि-वलहँ सणेहवन्तु ॥ ७
रामोवरि वड्ढियँ-गरुअ-णेहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्णहिँ भवेँ जणयहोँ दुहिअएँ काइँ कियइँ गुरु-दुक्कियइँ ।
जेँ जम्महोँ लग्गेवि दुस्सहइँ पत्त महन्त-दुक्ख-सयइँ ॥ ९

[२]

तं णिसुणेप्पिणु हय-मयरद्धउ
‘इहँ जम्बूदीवहोँ अच्चन्तरँ
खेमउरिहँ णयदत्तु वणीसरु
तहोँ सुणन्द पिय पीण-पओहर
तहोँ धणदत्तु पुत्तु पहिलारउ
तहोँ जण्णवलि-णाउ सुँहि दियवरु
रयणप्पह-पिय-गेहिणि-वन्तउ
विणिण वि णव-जोव्वण-पायडियइँ
एक-दिवसेँ परमुत्तम-सत्तेँ

कहइ सयलभूसणु धम्मद्धउ ॥ १
भरह-खेत्तेँ दाहिण-कउहन्तरँ ॥ २
चाव-वडाउ णाइँ कोडीसरु ॥ ३
णं धणयहोँ धणएवि मणोहर ॥ ४
पुणु वसुदत्तु वीउ दिहि-गारउ ॥ ५
सायरदत्तु अवरु पुरेँ वणिवरु ॥ ६
तहोँ गुणवइ सुअ सुउ गुणवन्तउ ॥ ७
सुरवर इव छुड्डु सग्गहोँ पडियइँ ॥ ८
सायरदत्तु बुत्तु णयदत्तेँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

“तरुणीयण-मण-धण-थेणहोँ अहिणव-जोव्वण-धाराहोँ ।
तुह तणिय तणय धणदत्तहोँ दिज्जउ सुयहोँ महाराहोँ” ॥ १०

[३]

तणिसुणेँवि वड्ढिय-अणुराएँ

दिण्ण वाय तहोँ गुणवइ-त्ताएँ ॥ १

2 P S रामाउरि 3 P S A °उ. 4 P S °हे.

2. 1 P S °ण. 2 A °य 3 P S °र°.

[१] १ राक्षस.

[२] १ दिशान्तरे २ मित्र

[३] १ वाचावन्ध

- तो पुरे तहिं जे अवरु गिरु बहु-धणु वणि-तणुरुहु कुमारि-गेणहण-मणु ॥ २
 सिरि-कन्तु व सिरिकन्तु पसिद्धउ वर-सिय-सम्पय-रिद्धि-पसिद्धउ ॥ ३
 तासु जणणि सुंय देवि समिच्छइ थोव-धणहो चिर-वरहो न इच्छइ ॥ ४
 एह वत्त गिसुणेवि वसुदत्ते पढम-सहोयर-अणयाणन्ते ॥ ५
 ६ सुहि-जणणवलि-दिणण-उवएसे परिहिय-णव-जलयोसिय-वासै ॥ ६
 फुरिय-दंहु-ओहुब्भड-वयणे चलिय-गणड-भू-भङ्गुर-णयणे ॥ ७
 गिरु-णीसह-चलण-संचारे सिहि-सिह-णिह-असिवर-फर-धारे ॥ ८
 मन्दिर-पासुजाणे पमाइउ गम्पिणु रयणि-समए सम्भाइउ ॥ ९
 आयामेवि आहउ असि-घाएं गाइ महीहरु असणि-णिहाएं ॥ १०
 १० तेण वि दुण्णिरिक्ख-तिक्खग्गे ताडिउ णंन्दा-णन्दणु खग्गे ॥ ११
 विणिण वि वण-विणित्त रुहिरोल्लिय णं फग्गुणे पलास पप्फुल्लिय ॥ १२
 ॥ घत्ता ॥

तो ताव एव बहु-मच्छर

जुञ्जिय उञ्जिय-मरण-भय ।

जा पाण विहि मि सम-घाएहिं

विहुरे कु-भिच्च व मुएवि गय ॥ १३

१५

[४]

- पुणु उत्तुङ्ग-विसाल-पईहरे जाय वे वि मिग विञ्ज-महीहरे ॥ १
 धणदत्तु वि गुणवइ अ-लहन्तउ भाइहे तणउ दुक्खु अ-सहन्तउ ॥ २
 मुएवि णियय-घरु सुहु रमाउल्लु गउ पुरवरहो देस-भमणाउल्लु ॥ ३
 वाल वि णिय-मणे तहो अणुरत्ती सयलावर वर वरहे विरत्ती ॥ ४
 २० धणदत्तहो गमणे विच्छाइय जणणे अणण णिओयहो लाइय ॥ ५
 छाइय अइ-रउह-परिणामे सिहि व पलिप्पइ साहुहुं गामे ॥ ६
 णियवि मुणिन्द-रूवु उवहासइ कडुयक्खर-खर-वयणइ भासइ ॥ ७
 अक्कोसइ णिन्दइ णिब्भच्छइ जइण-धम्मु सुइणे वि ण इच्छइ ॥ ८
 ॥ घत्ता ॥

२५

वहु-काले अट्ट ज्ञाणेण

पुण्णाउस अवसाणे मय ।

उप्पणण तेत्थु पुणु काणणे

जहिं वसन्ति ते वे वि मय ॥ ९

3. 1 P S °उहु° 2 P S अंजणसिद्ध°, A °णीद्ध°. 3 P S °हि°. 4 P S °रे. 5 P S °सि°.

4. 1 A °उ. 2 P S A °हि

२ विष्णुरिव ३ पी(१ पु)त्री ४ ज्येष्ठप्रातु अनाज्ञातेन. ५ कृष्णवस्त्र परिहित्वा. ६ प्रमादी.
 ७ विद्युत्. ८ श्रीकान्तेन ९ वसुदत्तु. १० विनिर्गत.

[४] १ मृत.

[५]

मारुय-वाहण-हरिण-समाणा
तहिं वि ताहें कारणेण विरुज्जेवि^१
जाय महिस जम-महिस-भयङ्कर
पुणु अञ्जण-गिरि-गरुअ महागय
पुणु 'ईसाण-विसोरु-धुरन्धर
पुणु 'विसदंस घोर पुणु वाणर
पुणु णाणाविह अवर वि थलयर
अइ-दूसह-दुक्खइँ विसहन्ता

विणिण वि सिग पुण्णाउ-पमाणा ॥ १
मरणु पत्त अवरोप्परु झुज्जेवि^२ ॥ २
पुणु वराह अण्णोण्ण-खयङ्कर ॥ ३
कण्ण-पवण-उड्ढाविय-छप्पय ॥ ४
उण्णय-कंडअ थोर-थिर-कन्धर ॥ ५
पुणु 'विग पुणु कसणुज्जल सिगवर ॥ ६
पुणु कमेण णहयर पुणु जलयर ॥ ७
एकमेक-सामरिस-वहन्ता ॥ ८

॥ घत्ता ॥

भवेँ एव भमन्ति भयङ्करे
तेँ कज्जेँ जेँ रिण-वइरइँ

पुव्व-वइर-सम्बन्ध-पर ।
जो ण कुणइँ सँ(?) वियहु पर ॥ ९

[६]

तो धणदत्तु वि सुट्टुम्माहिउ
देसेँ देसु असेसु भमन्तउ
पत्तु जिणालउ रयणिमुहन्तरेँ
“अहोँ अहोँ सुँक्किय-कियँ पव्वइयहोँ
वेहुँ कहि मि जइ अत्थि जलोसहु
विहसेँवि चवइ पहाण-मुणीसरु
मूढ हियत्तणेण तउ सीसइ
सूरत्थवणहोँ लग्गेवि दिढ-मणु
जहिँ पर-भोयरु अत्थि पहूअहँ

मल-धूसरु तिस-भुक्खहिँ वाहिउ ॥ १
दूरागमणँ-परीसम-सन्तउ ॥ २
लग्गु चँवेवएँ णिविसव्वभन्तरेँ ॥ ३
महु तिस-छुहँ-महवाहिँ^५ लइयहोँ ॥ ४
जं कारणु महन्त-परिओसहोँ” ॥ ५
“सलिलु पिएवएँ को किर अवसरु ॥ ६
जहिँ अन्धारएँ किं पि ण दीसइ ॥ ७
जहिँ भविय-यणु णँ भुज्जइ भोयणु ॥ ८
पेय-महग्गह-डाइणि-भूअहँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अइ-पीडियह मि वर-वाहिँएँ
इयँ सँव्वरि-समएँ दुसअर्रेँ

ण लइज्जइ ओसहु वि जहिँ ।
किह परिपिज्जइ सलिलु ताहिँ ॥ १०

5. 1 P °ज्झिय, 8 A °ज्झिवि. 2 P °ज्जेवि corrected as ज्झिय.

6. 1 P सुद्ध°, 8 सद्ध°. 2 P S °णु. 3 A °पिय°. 4 P S दुह 5 A °हे 6 P S भवियणु णउ. 7 A इउ महु

[५] १ ईश्वरवृषमेव वलीवहोँ. २ कुकुद स्कंध । टाठि (?) ३ विराल. ४ मेढिह,
(=H मेढिया). ५ स विचक्षण

[६] १ खेददुर्बल, २ कथयितुम्. ३ सुकृत प्रियं येषाम्. ४ रात्रि.

[७]

णहें णिऐवि सया रवि अत्थमिउं
 सो पावइ मणहर देव-गइ
 अणुअत्तेवि उत्तमु कुल लहइ
 5 णिसि-भोजु ण छण्डिउ जेण पुणु
 अल्ल-मंसु तें भक्खियउ
 सण-हुल्ला णिम्ब-मसिद्धाई
 तें वयणु असच्चउं जम्पियउ
 तें सुट्टु णिरन्तर हिंस किय

जो पाळइ जीउ अणत्थमिउं ॥ १
 सुहु भुज्जइ होऐवि अमग्-गइ ॥ २
 पुणु अट्टु वि कम्मटं णिहुत्तइ ॥ ३
 तहो भवे भवे दुक्खु जणन्त-गुणु ॥ ४
 तें पिय मइरा महु चक्खियउ ॥ ५
 तें पञ्चुम्वरइ मि गल्लाई ॥ ६
 तें अण्णहो तणइ दच्चु हियउ ॥ ७
 पर-गारि वि तें णिरन्तु लइय ॥ ८

10

॥ वत्ता ॥

अहवइ किं बहुएं चविऐण
 जें होन्ते होइ समीवउ
 एउ जें मूलु सत्तुं वयहं ।
 मोक्खु वि भव्व-जीव-मयहं ॥ ९

[८]

रिसि-वयणें विमुक्क-मिच्छत्ते
 15 गउ तेत्थहो वि गएण तंमालें
 समउं समाहिऐं मरणु पवण्णउं
 तहिं वे सायराइं णिवसेविणु
 जाउ महा-पुर बहु-धण-जुत्तउ
 पहु पिययम सिरिदत्तालङ्घिय
 20 धारिणि-मेरु-वणीसहं तणुरुहु
 एक्कहिं दिणें स-तुरङ्गु पवट्टउ

लइयइं अणुवयाइं धणदत्ते ॥ १
 भमेवि महीयले वट्ठे कालें ॥ २
 पुणु सोहम्मो देउ उप्पण्णउं ॥ ३
 किं पि सेसें थिएं पुण्णे चवेणिणु ॥ ४
 छत्तच्छाय-णरेसर-भत्तउ ॥ ५
 पर-पुरवर-णर-णियरासङ्घिय ॥ ६
 णामे पङ्कयरुइ पङ्कय-मुहु ॥ ७
 गोहुं पलोऐवि पाडिपलट्टउ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

तावग्गएं महिहें णिसण्णउं
 पुण्णाउसु पाणकन्तउ
 तुहिणगिरिन्दु व णिरु धवल ।
 दीसइ एक्कु जुण्ण-धवल ॥ ९

7 1 P S °यउ 2 S °यउ 3 P S भुंजेवि. 4 P S लिंव°. 5 P °उं. 6 P A °उं.
 7 S °व. 8 P S °य°.

8. 1 P °उं. 2 A °म्मेट्टउ 3 P A °उ 4 P S A °हि. 5 P S °उं.

[८] १ अन्धकारे २ नामेदम्. ३ वृद्धवृषभ .

[९]

तं गोइन्दु णिँएवि चडुलङ्गहों
पासु पढुँकवि^१ तहों कण्णन्तरें
तहों फलेण जिण-सासण-भत्तहों
जाउ पुत्तु परिवड्ढिय-छायहों
एक्कहिँ दिणें णन्दणवणु जन्तउ
थिउ णिञ्चलु जोयन्तु णिरन्तरु
दिसउ णिँएवि गउ परम-विसायहों
“एत्थु आसि अणडुँहु हउं होन्तउ
इह चरन्तु इह सलिलु पियन्तउ^{१०}

मेरु-तणउं ओयरिउ तुरङ्गहों ॥ १
दिण्ण पच्च णमुँकार खणन्तरें ॥ २
गव्भवन्तरें तहों सिरिदत्तहों ॥ ३
वँसहद्धउ तहों छत्तच्छायहों ॥ ४
णिय चिरु मरण-भूमि सम्पत्तउ ॥ ५
सुमरिउं सयलु वि णियय-भवन्तरु ॥ ६
पुणु उत्तरिउं अणोवँम-णायहों ॥ ७
एत्थु पएसे^{१०} आसि^{११} णिवसन्तउ ॥ ८
इह णिवडिउ चिरु पाणकन्तुउ ॥ ९

॥ वत्ता ॥

तहिँ कालें कण्णें महु केरएँ
पेक्खेमि केणोवाएण(?)”

जेण दिण्णु जँवु जीव-हिउ ।
एम सुइरु चिन्तन्तु थिउ ॥ १०

[१०]

पुणु सहसा उत्तुडु विसालउ
णियय-भवन्तरु पडेँ वि लिहावेंवि
थवेंवि अणेय सुहउ परिरक्खणु
एक्कहिँ दिणें पउमरुइ महाँइउ
दिट्ठुं ताव पडुँ लिहिय-कहन्तरु
तावारक्खिएहिँ दुव्वारहों
सो वि इट्ठ-सङ्गम-अणुराइउ
दिट्ठु तेणं पडेँ वित्तुं णियन्तउ

तेत्थु कराविउ परम-जिणालउं ॥ १
वार-पएसें तासु वन्धावेंवि ॥ २
गउ राउलु कुमारु बहु-लक्खणु ॥ ३
वन्दणहत्तिँए जिणहरु आइउ ॥ ४
विग्भिउ जोवइ जाव णिरन्तरु ॥ ५
कहिउ गग्गि तहों राय-कुमारहों ॥ ६
झत्ति परम-जिण-भवणु पराइउ ॥ ७
अचल-दिट्ठि वर-विम्हय-वन्तउ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

पुणु वसहद्धएण पपुच्छिउ
“एहुँ पडुँ णिएवि तउ हूअउ

णिय-सिय-वंसुद्धारणेंण ।
कोज्जहँलु किं कारणेंण” ॥ ९

9. 1 P उ 2 P उअ, SA उ. 3 PS क, A क. 4 PS व. 5 A तहि.
6 A वि. 7 P उं. 8 P तहोत्तिम, S ण उत्तिम. 9 PA उं, S उं. 10 PA
सि, S सं. 11 P णिँवि, S व. 12 A उं. 13 PS सो पेक्खे (S क्खि).

10. 1 P उं. 2 P पहाइउ, S परायउ. 3 S दिट्ठ. 4 PS उ. 5 A लिहिउ.
6 PS A वि. 7 PS वि. 8 PS वित्तउ. 9 PS एह. 10 P उं 11 PS कोउहलु.

[९] १ वृषभम् २ पङ्कजरुचि . ३ वृषभध्वज ४ राज . ५ हस्तीत. ६ वृषभ. ७ जाप्यम्.
पउ० च० ३०

[११]

- तं णिसुणेंवि अक्खइ वणि-त्तणुरुहु
 तहों णवकार पच्च मइँ दिण्णा
 तं एँउ सयलु वि णिँएँवि चिराणउं
 5 तो सिरिदत्ता-सुँएँण सुवीरें
 “सो गोवइ हँउँ” एव चवेप्पिणु
 हार-कडय-कडिसुत्तेहिँ पुज्जिउ
 “ण वि तं करइ पियरु ण वि मायरि
 ण वि सस दुहिय ण मित्त ण किङ्कर
 10 जं पइँ मँहु सुहिँ^१-इङ्कु समारिउ
- “एत्थु पएँसँ एकु मुउ अणडुँहु ॥ १
 जे पणतीसक्खर-सम्पुण्णा” ॥ २
 गउ विम्हयहों सरेवि कहाणउं ॥ ३
 रहसाऊरिय-सयल-सरीरें ॥ ४
 कर-मउलज्जलि तुरिउ करेप्पिणु ॥ ५
 गुरु व सु-साँसेँ कुमँड-विवज्जिउ ॥ ६
 ण वि कलत्तु ण वि पुत्तु ण भायरि ॥ ७
 सहमणयण-पमुह वि ण वि सुरवर ॥ ८
 णरय-तिरिय-गइ-गमणु-णिवारिउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

जं दिण्णु समाहि-रसाँयणु तेत्थु विहुरें^२ पइँ णिरुवमँउ ।
 तहों फलेंण णरिन्दहों णन्दणु पुणु एत्थु जें पुरें हँउँ हँउँ ॥ १०

[१२]

- 15 जं उवलद्धउं मइँ मणुअत्तणु
 जं थुव्वमि-णरवर-सङ्घाएँ
 लइ णीसेसु रज्जु सिंहासणु
 एवमाइ संभासँवि वणि-वरु
 विण्णि वि जण णिविडु एक्कासणें
 20 इन्द-पडिन्द व सुन्दर-देहा
 विण्णि वि जण सम्मत्त-णिरत्ता
 विहि वि करावियाँ जिण-भवणँइ
- अणुणु वि एहु विहडउ वडुत्तणु ॥ १
 तं सयलु वि एँउ तुज्जु पसाएँ ॥ २
 हँउँ तउ दासु पडिच्छियँ-पेसणु” ॥ ३
 पुणु णिउ णिय-राउलु जण-मणहरु ॥ ४
 चन्दाइच्च णाँइँ गयणङ्गणें ॥ ५
 अवरोप्परु परिवहिय-णेहा ॥ ६
 सावय-वय-भर-धुर-संजुत्ता ॥ ७
 उण्णय-सिहरुल्लहिय-गयणँइ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जिह सायरँ-सिरि मणि-रयणेंहिँ जिह कुलवहु गुणेहिँ^३ वरेंहिँ ।
 25 जिह सुकह सुहासिय-वयणेंहिँ तिह महि भूसिय जिर्णहरेँहिँ ॥ ९

11. 1 A °उ°. 2 P S °उं. 3 P S A वि°. 4 P S °यु°. 5 P सुहु, S सुहु. 6 P साहु°, S महु. 7 P S °रयणु. 8 P S A °रि. 9 P A °उ. 10 P S ह्यउ. 11 P S omit हउ.

12. 1 P S °उं - 2 P °पु. 3 A °उ. 4 A °रु. 5 P S बहुगुणेहि. 6 A जिणभवणेहिँ

[१३]

वहु-कालें सल्लेहणें^१ मरेवि
रयणायराई तहिं दुइ गमेवि
हुउ अवरविदेहें जयइरि-सिहरें
णन्दीसरपहु-कणयप्पहाहें
तहिं रज्जु अमर-लीलएँ करेवि
माहिन्द-सगें गिवाणु जाउ
मेरुहें पुव्वें खेमाउरीहें
पउमावइ-गव्भें गुणाहिगुत्तु
मुहयन्द-रुन्दु सिरिचन्द-णामु
वहु-कालु करेवि मणोज्जु रज्जु

ईसाण-सगें सुर जाय वे वि ॥ १
पउमप्पहु सुरवरु पुणु चवेवि ॥ २
सु-मणोहरें चन्दावत्त-णयरें ॥ ३
सुउ णयणाणन्दणु णामु ताहें ॥ ४
तव-चरणु चरेप्पिणु पुणु मरेवि ॥ ५
सायरइँ सत्त णिवसेवि आउ ॥ ६
णिय-विहि-ओहामियँ-सुरपुरीहें ॥ ७
णरवइहें विमलवाहणहों पुत्तु ॥ ८
थिउ माणुस-वेसें णाई कामु ॥ ९
पुणु चिन्तिउ मणें^२ परलोय-कज्जु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

णिय-पुत्तहों पट्टु णिवन्धेवि
तव-चरणु लइउ सिरिचन्देण

दिहिकन्तहों सुन्दरमइहें ।
पासें समाहिगुत्तं-जइहें ॥ ११

[१४]

सो सिरिचन्द-साहु अ-परिग्गहु
णिरु णिरुवम-रयण-त्तय-मण्डणु
पञ्च - महवय - भारुद्धारणु
कन्दर - पुलिणुज्जाणँ - णिवासणु
एक्कु चित्त सुँह - भावण - भावणु
वहु - कालें अवसाणु पवण्णउँ
सुरवर - णाहु विमाणें विसालएँ

घण-मलकञ्चुअ-भूसिय-विग्गहु ॥ १
पञ्चेन्दिय-दुद्धम-दणु-दण्डणु ॥ २
मास - पक्ख - छट्ठम - पारणु ॥ ३
राग - दोस - भय - मोह - विणासणु ॥ ४
किय - सासण - वच्छल - पहावणु ॥ ५
गम्पिणु वम्भलोएँ उप्पण्णउँ ॥ ६
मणि - मुत्ताहल - विहुम - मालएँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

तहिं तियसाहिव-सिय माणेंवि
उप्पण्णु एत्थु एँहु राहउ

दस - सायरेंहिं गएहिं चुउ ।
दसरह - रायहों पढम - सुउ ॥ ८

13 1 P S °ण 2 P S A °उ. 3 A °उ° 4 P सुयदतुँदु, S सुहयदतुँदु, A सुहयंद, चंदु 5 A पुणु 6 P सुदरमयहो, S सुरसुदरहो. 7 P S सिरिच सिरिचदणेण. 8 P °जुजइहो.
14. 1 P S रिसिचंदु 2 P S °णु. 3 A णिरु सुह°. 4 P °उं

[१३] १ पद्मरुचिश्चेष्टिपुत्र देवो भूत्वा २ विजयार्धगिरि-

[१५]

चिर-तव-चरण-पहावें आयहों
 इय-भुवण-तएँ को उवमिज्जइ
 जो चिरु वसहमहद्धउ होन्तउ
 ५ दुइ सायरइँ वसेप्पिणु आयउ
 सुउ सूररयहों खेयर-णेसरुं
 ऐहु सुग्गीवु जगत्तय-पायडु
 सिरिकन्तु वि गुरु-दुक्ख-णिवासहिँ
 गयरें मुणालकुण्डें रिउ-मद्दहों
 १० जाउ सम्भु-णामें वर-णन्दणु
 वसुदत्तु वि जम्मन्तरँ-लक्खेहिँ

विक्रम-रुव-विहूइ-सहायहों ॥ १
 जासु सहस-णयणु वि णउं पुज्जइ ॥ २
 जो ईसाणें सुरत्तणु पत्तउ ॥ ३
 कालें सो तारावइ जायउ ॥ ४
 गिरि-किक्किन्ध-णयर-परमेसरु ॥ ५
 वालि-कणिट्ठउ वाणर-धयवडु ॥ ६
 परिभमन्तु वहु-जोणि-सहासहिँ ॥ ७
 हेमवइहें^३ वइकण्ठ-णरिन्दहों ॥ ८
 सुरहें मि दुज्जउ गयणाणन्दणु ॥ ९
 उप्पज्जन्तु कमेणँ असङ्खेहिँ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सिरिभूइ-णामु तेत्थु जें पुरें
 हुउ सम्भुहें परम-पुरोहिउ

णिय-जस-भुवणुज्जालियहों ।
 सरसइ-णामें भज्ज तहों ॥ ११

१५

गुणवइ वि अणेय-भवेहिँ आय
 एकहिँ दिणें पड्डुप्पङ्के खुत्त
 पेक्खेवि तरङ्गजव-खेयरेण
 पुणु सिरिभूइहें उप्पण्ण दुहिय
 २० णं का वि देवि पच्छण्ण आय
 सिरिभूइ पजम्पिउ “कणय-वण्ण
 तो तेण वि सुडु विरुद्धएण
 जिण-धम्मं सुरवरु सँगें जाउ

[१६]

पुणु करिणि अमरसरि-तीरें जाय ॥ १
 पाणाउल मउलीहूअ-णेत्त ॥ २
 णवकार पञ्च तहिँ दिण्ण तेण ॥ ३
 वेयवइ णामु छण-यन्द-मुहिय ॥ ४
 सा मग्गिय सम्भुं जणिय-राय ॥ ५
 किह मिच्छादिट्ठिहें देमि कण्ण” ॥ ६
 णिट्ठविउ पुरोहिउ कुद्धएण ॥ ७
 जँरठारुण-छवि सच्छाय-छाउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो वेयवइहें णरणाहेंण
 २५ वलिमण्डएँ ण समिच्छन्तिहें

जें^१ सयलुत्तम-मण्डणउँ ।
 किउ तहें सीलहों खण्डणउँ ॥ ९

15. 1 P S णवि 2 P S खयरणरेसरु 3 P S A °हि, 4 P S रि. 5 S °ति 6 P °म्मेण°.

16. 1 The portion from °यवइ to कण° (6 a) is wanting in A. 2 A छाय°. 3 A जे 4 P A °उ

[१६] १ गन्नाया°. २ ख(?)भूता राज्ञा ३ प्रथमखर्गें. ४ वालादिल्ल (?).

[१७]

जं चारित्तु विणासिउ राएं
णं 'सरसइ-सुअ झत्ति पलित्ती
'वेविरङ्गि' आयम्बिर-णयणी
“रे णिसंस कप्पुरिस अ-लज्जिय
जं पइं महु जणेरु सङ्गारेंवि
तं तउ गरुअ-कम्म-संचरणहों
एव भणेंवि णरवइहें णिलुक्केंवि
हरिकन्तियहें पासु णिक्खन्ती

जणणु विवाइउ गरुअ-कसाएं ॥ १
जलण-तिडिक्क पलालें^१ व धित्ती ॥ २
पभणइ दर-फुरियाहर-वयणी ॥ ३
खल वराय दुग्गइ-गम-सज्जिय ॥ ४
हउं पॅरिहुत्तं वला तहों हारेंवि ॥ ५
होसमि वाहि व कारणु मरणहों” ॥ ६
कह वि कह वि जिण-भवणु पटुक्केंवि ॥ ७
वम्भ-लोउ वहु-कालें पत्ती ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सम्भु वि सिय-सयण-विमुक्कउ जिणवर-वयण-परम्मुहउं^३ ।
मिच्छाहिमाणु मणें मूढउ वहु-दिवसेंहिं^६ दुग्गइहें गउ ॥ ९

[१८]

तहिं महन्त-दुक्खइं पावेप्पिणु
पुणु सावित्ति-गब्भें पङ्कय-मुहु
णामु पहासकुन्दु सुपसिद्धउ
दिक्खङ्गिउ चउ-णाण-सणाहहों
तउ करन्तु परमागम-जुत्तिए
सम्मेइरिहें परायउ जावेंहिं
गयणङ्गणें लक्खिज्जइ जन्तउ
तं णिएवि परिचिन्तिउ साहुहुं^४
“होउ ताव महु सासय-सोक्खें

तिरिय-गइ वि णीसेस भमेप्पिणु ॥ १
जाउ कुसद्धय-विप्पहों तणुरुहु ॥ २
दुल्लह-वोहि-रयण-सुसमिद्धउ ॥ ३
पासें विचित्तसेण-मुणिणाहहों ॥ ४
एक्क-दिवसें गउ वन्दणहत्तिए ॥ ५
कणयप्पहु विज्जाहरु तावेंहिं ॥ ६
जो सुरवइहें वि सियए महन्तउ ॥ ७
मयरकेउ-मयलञ्छण-राहुहुं ॥ ८
विहव-विवज्जिएण तें मोक्खें ॥ ९

॥ घत्ता ॥

दूसहहों जिणागम-कहियहों
तो एहउ अणण-भवन्तरें

अत्थि किं पि जइ तवहों फलु ।
होउ पहुत्तणु महु सयलु” ॥ १०

17. 1 P S °ल 2 P °रमि, A °रने 3 P S परिहूय वाल परिहारे (S रि) वि°. 4 A °उ. 5 P S A °हि

18. 1 P S कुयुद्धय° 2 P S A °म 3 A सिणु वह°. 4 A साहु. 5 P °राहुहुं, S °राहुहु, A °राहु

[१७] १ वेदवती २ कम्पायमान. ३ रे आचारभ्रष्ट ४ वलाद् भुक्ता. नाशयित्वा वा (?)

[१८] १ पूर्यताम्

[१९]

इय गियाण-दूसिय-तव-चिण्णउ
 सग्गं सणकुमारै^१ उप्पज्जेवि
 चवैवि जाउ सुउ जय-सिरि-माणु
 ६ गिय-जस-भूसण-भूसिय-तिहुअणु
 तोयदवाहण-वंसुद्धारणु
 जो सम्भू 'सिरिभूइ-विवाइउ
 चवैवि परिट्ठापुरे उप्पज्जेवि
 तइयउं तियसावासु चडेप्पिणु

परम-समाहिँ मरणु पवण्णउं ॥ १
 तहिँ सायरइँ सत्त सुहु भुज्जेवि ॥ २
 कइकसि-रयणासवहुँ दसाणणु ॥ ३
 कम्पाविय-विसहर-णर-सुरयणु ॥ ४
 सहसणयण-विणिवन्धण-कारणु ॥ ५
 पुणु सोहम्म-सग्गु सम्पाइउ ॥ ६
 खयरु पुणव्वसु तवु आवज्जेवि ॥ ७
 सत्त समुदोवमइँ गमेप्पिणु ॥ ८

10

॥ घत्ता ॥

सो जायउ गव्भे सुमित्तिहे
 एउ लक्खणु लक्खणवन्तउ

दससन्दण-णरवइहे सुउ ।
 चक्काहिवु राहव-अणुउ ॥ ९

[२०]

जो गुणवइहे आसि गुणवन्तउ
 15 भवे परिभमेवि चारु-मुह-मण्डलु
 जो जण्णवलि आसि गुण-भूसणु
 ते सयलं वि रामहो अणुरत्ता
 जा चिरु हुन्ती गुणवइ वणि-सुय
 सिरिभूइहे सुअ रूव-रवण्णी
 20 तहिँ तेरह पल्लइँ गिवसेप्पिणु
 11 एह सा जाय सीय जणयहो सुय

भायरु लहुउ पगुण-गुण-वन्तउ ॥ १
 सो उप्पणु एहु भामण्डलु ॥ २
 सो तुहुँ एहु संजाउ विहीसणु ॥ ३
 पुव्व-भवन्तर-णेह-णित्ता ॥ ४
 भवे^३ परिभमेवि^४ कमेण दियहरे^५ हुय । ५
 जा चिरु^७ वग्ग-कप्पे उप्पण्णी ॥ ६
 पुण्णं-पुज्जे थिए सेसे^{१०} चवेप्पिणु ॥ ७
 गिरु महुरालाविणि णं परहुय ॥ ८

19. 1 A दूगियाण°. 2 P °विन्नउ, A °विसउ. 3 P A °उं 4 P S A °रि. 5 A omits lines 4 and 5. 6 P S पह°. 7

20. 1 P S °लु. 2 A omits this line 3 P S °वि 4 P S °मि°. 5 P S °रि°. 6 A °पवण्णी. 7 P S सुह 8 P S तहि (S °हि) सुरसुह अमाण (S यमाण) भुजेप्पिणु 9 A पुणु भुजे 10 P S A थियसेसि 11 For the passage एह सा (line 7) to पत्ती (line 9) P S lead as follows (orthographic variants of s are ignored)

[१९] १ प्रो(? पुरो)हित २ सनत्कुमारखरें

[२०] १ वेद्यती ब्राह्मणपुत्री.

चिरु वेयवई गेह^{१३} -सम्बन्धे
जं मुणि पुच्च-^{१४}जमें णिन्दन्ती

हिय दसकन्धरेण कामन्धे ॥ ९
तं^{१६} इह दुहई महन्तई पत्ती ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सिरिभूइ काले सुअ-कारणे
ते लङ्केसरु चिरु हिंसणु

जं हउ सम्भु-णरेसरेंण ।
विणिवाइउ लच्छीहरेंण' ॥ ११

[२१]

गुरु-वयणेहिं तेहिं गज्जोल्लिउ
'कहे कें कमें जणण विणीयहे'
तं णिसुणेवि वयणु मुणि-पुङ्गमु
'मुणि सुअरिसणु आसि विहरन्तउ
थिउ णन्दणवणे णिरु णिम्मल-मणु
मुणिवरो वि लहु-वहिणिऐं सवणए
किं पि चवन्तु णिऐंवि वेअवइए

पुणु वि विहीसणु एम पवोल्लिउ ॥ १
सइहे^२ वि लञ्छणु लाइउ सीयहे ॥ २
अक्खइ णाण-महाणइ-सङ्गमु ॥ ३
मण्डलि-णामु गामु संपत्तउ ॥ ४
तं वन्देप्पिणु गउ सयलु वि जणु ॥ ५
सइ महसइएं समउ सुअरिसणए ॥ ६
कहिउ असेसहे लोयहे कुमइए ॥ ७

॥ घत्ता ॥

किं चोज्जु एउ जं णाऐंहि
राउल-णिहाउ दुग्घरिणिहिं

दूसिज्जइ घरु 'हरिहिं वणु ।
पिसुण-सहासे साहु-जणु ॥ ८

[२२]

"तुम्हंहिं भणहु चारु धम्मच्छउ
मइं पुणु ऐहु सयमेव परिक्खउ

णिज्जिय-पञ्चेन्दिय-मयरच्छउ ॥ १
सहुं महिलए एअन्ते परिद्धिउ" ॥ २

हुय सुय जणयहो बहुगुणवंतहो
रामएवपिययम सीलकिय
जेत्थु काले सो सुरु विवुहालउ
तेत्थु काले कुंडलमडियपहु
विणिण वि जुयपय गट्ठि णिसण्णा
भाइभइणिजुवलउ सजायउ
भामडलु सिरिमीयाणामउ
वेयवई (९ इहि) णेहहो संबंधे
जं णिंदिय मुणि आसि महता

मीया नाम विदेहाकंतहो ॥
ण सह इदहो विणयविहूसिय ॥
वेयवई चरु चइवि विसालउ ॥
मरिवि सरिवि जिणवरपयपयतुहु ॥
देवि विदेहहि कंचणवण्णा ॥
ण तियसहो सुरमिहुणु समायउ ॥
गुणरयणायरु वच्छियकामउ ॥
हिय दसकंधरेण कामंधे ॥
त इह णाणाविह दुह पत्ता ॥

12 A वेयरइ. 13 A णेह 14 A °म्मि 15 A ते.

21. 1 S A °हो. 2 P °हिं, S A °हि. 3 A चाउलणिहउ.

22. 1 P S A °इ.

[२१] १ अर्जिकाया. २ सुदर्शन(२ ना) नाम्ना. ३ स्त्रीभि (?). ४ मर्कटै. ५ राजगृहसद्वाम्.

एम ताँ तंव-णियम-सणाहहों
 'सो वि करेवि अवग्गहु थक्कउ
 ता णिवित्ति महु सयलाहारहों"
 सासण-देवयाँ अँत्थक्कएँ
 ५ ताँ वि एउ वुत्तु "अहों लोयहों
 जं मइँ कहिउ सव्वु तं अलियउँ

'लोएँ' अणायरु किउ मुणि-णाहहों ॥ ३
 "जा ण फिट्ठु 'संवाउ गुरुक्कउ ॥ ४
 जाणवि णिच्छँउ हय-संसारहों ॥ ५
 मुहु सूणाविउ गरुआसङ्कएँ ॥ ६
 णिय-मणु मा सन्देहहों ढोयहों ॥ ७
 अज्जु वि पाउ असेसु वि फलियउ" ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जं भाइ-जुअलु तं णिन्दियउ
 "संवाउ एत्थ उवद्धउँ

पुव्व-भवन्तरें खल-मइँ ।
 जणहों मज्झें तें जाणइँएँ ॥ ९

॥

[२३]

पंडिभणइ विहीसणु विमल-मइ
 तो कहइ भडारउ गहिरँ-गिरु
 हीणङ्गु भमन्तु वि^१ एक्कु मंड
 पुणु जाउ कणय-धण-कण-पउरें
 १५ सावयहों विहिय-णामहों^४ सु-भुँउ
 तहिँ पालेंवि पञ्चाणुव्वइँ
 जिणवर-पुज्जउ ण्हवणउ करेंवि
 ईसाण-सग्गें वर-देवु हुउ
 इह पुव्व-विदेहव्वन्तरएँ
 २१ णामेण मत्तकोइलविउलु

'कहि वालि-भवन्तरु परम-जइ' ॥ १
 'विन्दारणण-त्थलें विउलें चिरु ॥ २
 सो रिसि-सज्झाउ सुणेवि मंड ॥ ३
 अइरावएँ खेतें दित्ति-णयरें ॥ ४
 सिवमइहें गव्वे महदत्तु सुउ ॥ ५
 तिण्णिगुणव्वय (चउ) सिक्खावयइँ ॥ ६
 वहु-कालें सण्णासैण मरेंवि ॥ ७
 विहिँ रयणायरेंहिँ गएहिँ चुउ ॥ ८
 विजयावइ-पुरें णियडन्तरएँ ॥ ९
 वर-गामु रहङ्गि व धण-वहुलु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तहिँ कन्तसोउ वर-राणउ
 तहुँ वीहि मि सुप्पहु णामेण

रयणावइ पिय हंस-गइ ।
 णन्दणु जाउ (?) विमल-मइ ॥ ११

१ P S °व. २ P S लोइयवायर
 ५ A गउ°. ६ P षालिउं. ७ P °उ.

३ A लोइ°. P S °च्छि°. ४ P S °देवाइय.

२३. १ P S परि°. २ P S A °रु. ३ P S omit, A विउ. ४ P S °णामयहो. ५ S ड.
 ६ P S °त्त°.

[२२] १ (V 1.) लोकापवाद. २ स मुनि. ३ अपवाद. ४ शीघ्रिण. ५ मिथ्या-
 दोषोद्भावनम्.

[२३] १ मृग. २ मृत.

[२४]

तेण जुवाण-भाउ पावन्ते
सम्मत्तोरु-भारु पवहन्ते
णिरु णिरुवम-गुण-गण-संजुत्ते
ससहर-सण्णिहेण जस-वन्ते
दुल्लह-तव-णिहाणु उवलद्धउं
वहु-संवच्छर-सहसेहिं विगएहिं
आऊरिउं सुह-झाणु पहाणउं
ता अवसाण-कालु तहो आइउ
एकं-रयणि-तणु सुरवरु जायउ
तहिं तेतीस जलहि परिमाणइं

णिय-मणे जइण-धम्मु भावन्ते ॥ १
दिणे दिणे जिणु ति-कालु पणवन्ते ॥ २
कन्तसोय-रयणावइ-पुत्ते ॥ ३
तणु-तेओहामिय-रइकन्ते ॥ ४
णाणाविह-लद्धीहिं समिद्धउं ॥ ५
दुद्धर-विसय-महारिहिं णिहएहिं ॥ ६
किर उप्पज्जइ केवल-णाणउं ॥ ७
पुणु सव्वत्थ-सिद्धि संपाइउ ॥ ८
सूर-कोडि-छाया-संछायउ ॥ ९
भुज्जेवि सोक्खइं अमिय-समाणइं ॥ १०

॥ घत्ता ॥

सो अमरु चवेप्पिणुं एत्थहो
अखलिय-पयावु सुह-दंसणु

जाउ वालि इह खयर-पहु ।
चरम-सरीरु समरे अइ-दूसहु(?) ॥ ११

[२५]

जो णिग्गन्थु मुएवि सामणहो
जो णिविसन्तरे पिहिमि कमेप्पिणु
जेण समरे सहं पुप्फ-विमाणे
दाहिण-भुएण भुवण-सन्तावणु
पच्छए धुव ससिकिरण मुएप्पिणु
लइय दिक्ख भव-गहण-विरत्ते
दिणुं सिलोवरि परमत्तावणु
पुणु वि मडप्फरु भग्गु खणन्तरे

ण वि जयकारु करइ जगे अण्णहो ॥ १
एइ सयल-जिणहरइं णवेप्पिणु ॥ २
अण्णु चन्दहासेण क्किवाणे ॥ ३
हेलाए जे उच्चाइउ रावणु ॥ ४
राय-लच्छि सुग्गीवहो देप्पिणु ॥ ५
गिरि-कइलासु चडेवि पयत्ते ॥ ६
णहे जन्तउ रोसाविउ रावणु ॥ ७
को उवमिज्जइ तहो भुवणन्तरे ॥ ८

॥ घत्ता ॥

उप्पण्ण-णाणु सो मुणिवरु
झाएवि स य म्भु भडारउ

अट्ट-दुट्ट-कम्मारि-खउ ।
सिद्धि-खेत्त-वर-णयरु गउ' ॥ ९

*

24. 1 P S °णु. 2 P A °वे°. 3 P °उं. 4 A °उं. 5 P S °उ. 6 P S °णु.
7 P S °कु. 8 A °विणु. 9 A °हउ.

25. 1 P S भुव 2 P दिन्न, S दिण्ण. 3 P S परसंतावणु. 4 P S A °णु.

इय पडमचरिय - सेसे
तिहुयण - सयम्भु - रइए
इय रामएव - चरिए
बुहयण - मण - सुह - जणणो

सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
सपरियण - हलीस - भंव - कहणं ॥
वन्दई - आसिय - सयम्भु - सुअ - रइए ।
चउरासीमो इमो सग्गो ॥

[८५. पंचासीमो संधि]

पुणु वि विहीसणेंण
सीया - णन्दणहँ

पुच्छिज्जइ 'मयण - वियारा ।
कहि जम्मन्तरइँ भडारा' ॥

[१]

॥ हेला ॥ तं णिसुणेवि वयणु
१० बुच्चइ मुणिवरिन्देण
'सुणि अक्खमि परिओसिय-सुरवरें
वामएव-विप्पहों विक्खायहों
सुय वसुएव-सुएव वियक्खण
ताहँ 'पियउ दुइ णिम्मल-चित्तउ
१५ एकहिं दिणें 'मयणाय-मइन्दहों
विहि मि जणेहिं तेहिं गुरुएँन्तिएँ(?)
वहु-कालें अवसाणु पवण्णा
तहि मि तिण्णि पल्लइँ णिवसेप्पिणु
पुणु ईसाण-सग्गें हुअ सुरवर

जग-भवण-भूसणेणं ।
सयलभूसणेणं ॥ १ ॥
जगें पसिञ्जँ कायन्दी-पुरवरें ॥ २
सामलीएँ घरिणीएँ सहायहों ॥ ३
वियसिय विमल-जमल-कमलेक्खण ॥ ४
दिसय-पियडु-णाम-संजुत्तउ ॥ ५
अण्ण-दाणु सिरितिलय-मुणिन्दहों ॥ ६
दिण्णु समुज्जल-अविचल-भत्तिएँ ॥ ७
उँत्तरकुरुहें गम्पि उप्पण्णा ॥ ८
मणें चिन्तविय भोग भुज्जेप्पिणु ॥ ९
पलय - समुग्गय णं रवि-ससहर ॥ १०

२०

॥ घत्ता ॥

विहिं रयणायरेंहिं
चवण करेवि पुणु

अइकन्तेहिं 'सम्मय - भरिया ।
तेहें कायन्दिहें अवयरिया ॥ ११

1 A °कव्व°. 2 P S वंदे°, 3 P °णे, A °यणो.

1. P S A °द्धि. 2 P S A °र°. 3 S भत्तिए.

[१] १ काकन्दीपुरे २ भायें द्वे. ३ मदनाग=कन्दर्पगज-सिंहस्य. ४ आगते सति.
५ भोगभूमि. ६ सम्यक्त्व सन्मतिश्च.

[२]

॥ हेला ॥ रइवद्धण-गरिन्दहो
ससि-णिम्मल-जसासु
जाय वे वि जिणवर-पय-सेविहँ
तहिँ पहिलारउ णामु पियङ्करु
सोहइ दित्तिँ णाई^१ दिणेसर
वहु-कालें तव-चरणु लएप्पिणु
हुव गेवज्ज-णिवासिय सुरवर
दुइ-रयणी-सरीर-उव्वहिया
सूरप्पहँ विमाणें वित्थिण्णएँ
तहिँ इच्छियइँ सुहइँ माणेप्पिणु
चवेंवि जाय पुणु अरि-करि-अङ्कुस

पर-परायणासु ।
सिव-सोक्ख-भायणासु ॥ १
णन्दण सुअरिसणा-महएविहँ ॥ २
तणु तणुअउ पुणु अणुउ हियङ्करु ॥ ३ 5
णाई भरह-पहु-वाहुवलीसर ॥ ४
सण्णासेण सरीरु मुएप्पिणु ॥ ५
स-मउड दिव्व-कडय-कुण्डल-धर ॥ ६
अणिमाइहिँ गुणेहिँ सइँ सहिया ॥ ७
णाणाविह-मणि-गणहिँ रवण्णएँ ॥ ८ 10
सायराइँ चउवीस गमेप्पिणु ॥ ९
सीयहँ णन्दण इहँ लवणङ्कुस^२ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

तं तेहउ वयणु
हुउ विम्भउ गुरुउ

णिसुणेप्पिणु परम-मुणिन्दहों ।
विज्जाहर-सुरवर-विन्दहों ॥ ११ 15

[३]

॥ हेला ॥ जाणेंवि पुव्व-वइर-सम्बन्धु विहि मि ताहँ ।
सीयहँ कारणेण सोमिन्ति-रावणाहँ ॥ १

अण्णु वि बहु-दुक्ख-णिरन्तराई
दहमुह-भायर-जाणइ-वलाहँ
कें वि आसङ्गिय गय भयहों के वि
कें वि थिय चिन्ता-सायरें विसेवि
कें वि सयल्लु परिग्गहु परिहरेवि
अण्णेक्क के वि थिय वउ धरेवि
भूगोयर-खयर-सुरासुरेहिँ
णीसेस-जीव-मम्भीसणासु

अ-पमाणइँ सुणेंवि भवन्तराई ॥ २
सुगगीव-वालि-भामण्डलाहँ ॥ ३ 20
कें वि थिय णिय-मणें मच्छरु मुएवि ॥ ४
कें वि हुव मह-दुक्ख विउद्ध के वि ॥ ५
अत्थक्कएँ-थिय पावज्ज लेवि ॥ ६
सम्मत्त-महव्भरें खन्धु देवि ॥ ७
सयल्लेहि मि मुणिहिँ णामिय-सिरेहिँ ॥ ८ 25
किउ साहुक्कारु विहीसणासु ॥ ९

2. 1 A जिय. 2 P S उच्चाहिय 3 A omits 4 P S साहिय 5 P इय collected
as इह, A इय. 6 P S गुरु

[२] १ शत्रुभि अजेयस्य. २ सुदर्शनादेव्या .

[३] १ सीता राम तयोर्भवानि. २ प्रविश्य. ३ विबोधय (?). ४ वेगेन.

॥ घत्ता ॥

‘भो भो गुण-उवहि
अम्हेहि^१ एउ चरिउ

पइँ होन्ते विणय-सहावे ।
आयणिणउ मुणिहिँ पसाएँ ॥ १०

[४]

५ ॥ हेला ॥ तो एत्थन्तरे तिलोयग-पत्त-णामो ।
बुत्तु कियन्तवत्तेणं^१ सरहसेण रामो ॥ १

‘परमेसर सधर-धरिउत्ति-पाल
सुपयाम-गाम-पट्टण-णिउत्त
माणियउ पवर-पीवर-थणाउ
१० अच्छिउ विउल्लेहिँ जण-मणहरेहिँ
आरूढु तुरय-गय-रहवरेहिँ
देवङ्गइँ वत्थइँ परिहियाइँ
णिरुवम-णञ्चियइँ पलोइयाइँ
अणुहुत्तु सयलु इहलोय-सोकखु
१५ महु पुत्तु विवाइउ देवि जुज्जु

मइँ तुज्जु पसाएँ सामिसाल ॥ २
रयणायर देस अणेय भुत्त ॥ ३
सुरवहु-रूवोहामिय-धणाउ ॥ ४
गिन्वाण-विमाणेहिँ वर-धरेहिँ ॥ ५
कीलिउ वण-सरि-सर-लयहरेहिँ ॥ ६
इच्छेएँ अङ्गाइँ पसाहियाइँ ॥ ७
वहु-भेय-गेय-वज्जइँ सुआइँ ॥ ८
जम्महो वि ण लक्खिउ कहि मि दुक्खु ॥ ९
णिय-सत्तिएँ पेसणु कियउ तुज्जु ॥ १०

॥ घत्ता ॥

एवहिँ दासरहि
मुक्क-परिगहउ

उवढुक्कइ जाव ण मरणउ ।
वरि ताम लेमि तव-चरणउ ॥ ११

[५]

२० ॥ हेला ॥ लव्भइ जगे असेसु किय-णरवरिन्द-सेव ।

दुल्लहु णवर एक्कु पावज्ज-रयणु देव ॥ १
तेँ कज्जे लहु हत्थुत्थल्लहिँ^२
इय-वयणेहिँ जण-जणियाणन्दे
‘वच्छ वच्छ पावज्ज लएप्पिणु
२५ किह चरियएँ पर-हरेहिँ^३ भमेसहि
किह दूसह परिसह वि सहेसहि

मइँ परलोय-कङ्ख^४ मोक्कल्लहिँ ॥ २
बुत्तु कियन्तवत्तु वलहदेँ ॥ ३
सव्व-सङ्ग परिचाउ करेप्पिणु ॥ ४
पाणि-पत्ते भोयणु भुज्जेसहि ॥ ५
अङ्गे महा-मल-पडलु धरेसहि ॥ ६

३. 1 P S A °हि.

४. 1 P S °ण 2 P S इच्छिय. 3 P णच्चणइ, S णच्चयइ 4 P S णण°. 5 °उं.

५. 1 P S णरिन्द°. 2 P A °हि. 3 P S °क्खु. 4 P °रहिँ, S °रइ

[४] १ मम पुत्रो मृत

किह धरणियल-सयणें सोवेसहि
किह दुकर-उववास करेसहि^५
रुक्ख-मूळें आयावणु देसहि
तो सेणाणि भणइ 'सुह-भायणु
जो लच्छीहरु उज्झें^६ वि सकमि

काणणें वियणें घोरें गिसि गेसहि ॥ ७
पक्खु मासु छम्मास^८ गमेसहि^७ ॥ ८
तुहिण-कणावलि देहें^९ धरेसहि^७ ॥ ९
जो छड्ढमि तुह गेह-रसायणु ॥ १०
सो किं अवरइं सहेवि ण सकमि ॥ ११

॥ घत्ता ॥

मिञ्चु^{१०} सुराउहेण^{११}
ताव खणेण वरि

'देह-इरि जाव णिहम्मइ^{११} ।
अजरामर-देसहों गम्मइ ॥ १२

[६]

॥ हेला ॥ कालेण वि णरिन्द वड्ढिय-महन्त-सोउ ।

होसइ तुह समाणु अवरेंहिं वि सहँ विओउ ॥ १

तइयहँ दुकरु जीविउ छुट्टइ
तें कज्जे ण वि वारिउ थकमि
तं णिसुणेंवि वलु दुम्मण-वयणउं
'तुहँ स-कियत्थउ जो इउ वुज्झेंवि
घोरु वीरु तव-चरणु समिच्छहि
अवसरु परियाणेंवि संखेवें
जइ जाणहि उवयारु णिरुत्तउं
सो वि सरहसु स-विणउ पणवेप्पिणु

वहु-दुक्खेंहिं महु हियवउं फुट्टइ ॥ २
चउ-गइ-काणणें भमेंवि ण सकमि^{१२} ॥ ३
वोल्लइ अंसु-जलोहिय-णयणउं ॥ ४
महु-सम सिय जर-तिणमिव उज्झेंवि ॥ ५
इय जम्मं जइ मोक्खु ण पेच्छहि ॥ ६
सम्बोहेवउ हउं पइ देवें ॥ ७
सम्भरेज्ज तो एउ जं वुत्तउं^{१३} ॥ ८
'एम करेमि देव' पभणेप्पिणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

वन्देंवि मुणि-पवरु
खणें कियन्तवयणु

'दिक्खहँ पसाउ' पभणन्तउ ।
वहु-गरहिं समउ णिक्खन्तउ ॥ १०

[७]

॥ हेला ॥ सहसा हुउ महरिसी भव-भव-सयाहँ भीउ ।

सीलाहरण-भूसिउ 'करयलुत्तरीउ ॥ १

5 P °रहिं, S °रइ. 6. P S °सु 7 P S A °हि 8 P S A °ज्झि°. 9 S वुत्तु.
10 P सुराउहिवज्जेण. 11 P A °इ.
6. 1 A °उ. 2 P °उं.

[५] १ वज्जेण देव (१ ह) एव पव्वंत .

[७] १ इत्तप्रावरणम्.

तो मुणि अहिणन्देवि अमर-सय
सीराउहो वि संचल्लु तहिं
दीसइ अज्जिय-गण-परियरिय
णं समय-लच्छि विमलम्बरिय
५ पेक्खेवि पुणु थिउ आसणु वल्लु
चिन्तन्तु परिट्टिउ एक्कु खणु
'जा चिरु घण-रवहो वि तसइ मणे
सा वणयर-सह-भयाउलए
वर-काणणे 'पगुण गुणव्भहिय

10

जम्पिय-पिय-वयण
सुहं-उप्पायणिय

णिय-णिय-भवणहं सहसत्ति गय ॥ २
सा अच्छइ सीयाएवि जहिं ॥ ३
ध्रुव-तार व तारालङ्करिय ॥ ४
णं सासण-देवय अवयरिय ॥ ५
णं सरय-जलय-मालहं अचल्लु ॥ ६
दर-वाह-भरिय-अविचल-गयणु ॥ ७
सोवइ हिय-इच्छिय-वर-सयणे ॥ ८
वहु हीर-खुण्डं-कुस-सङ्कुलए ॥ ९
किह रयणि गमेसइ भय-रहिय ॥ १०

॥ घत्ता ॥

अणुकूल मणोज्ज महासइ ।
कहिं लब्भइ एरिस तियमइ ॥ ११

[८]

'धि मइ कियंउ असुन्दरं जणहं कारणेणं ।

15

जं घल्लावियासि 'पिय वणे अकारणेणं' ॥ १

चिन्तेवि एव सीय अहिणन्दिय
जिह ते तेम सुमिच्छिहे जाएं
'तुहं स-कियत्थ जाए' सुपसिद्धउ
जा वन्दणिय जाय णीसेसहुं
२० कन्त-जणेर-कुलइ अप्पउ जणु
पुणु णीसहु करेवि महव्वल
लवणङ्कुस-कुमार विच्छाया
गय णर-णरवरिन्द-विज्जाहर

णं जिण-पडिम सुरिन्दे वन्दिय ॥ २
तिह वर-विज्जाहर-सङ्गाए ॥ ३
जिणवर-वयणामिउ उवलद्धउ ॥ ४
वाल-जुवाण-जरङ्कियवेसहुं ॥ ५
पइ उज्जालिउ सयल्लु वि तिहुयणु' ॥ ६
जाणइ अहिणन्देवि गय हरि-वल ॥ ७
णं रवि-ससहर णिप्पह जाया ॥ ८
सुन्दर-कडय-मउड-कुण्डल-धर ॥ ९

॥ घत्ता ॥

25

दसरह-राय-सुय
इन्द-पडिन्द जिह

णरवर-लक्खेहिं परियरिय ।
तिह उज्झाउरि पइसरिय ॥ १०

7. 1 P S °मालाहे, A °मालेहि 2 P S °कुंट°, 3 A °णे. 4 P S °हु, A °हुं 5 P S A °हि.

8. 1 P छि, S धिद्धि 2 P किओ, S किउ. 3 A °रु 4 S वयणे. 5 P S °य.

6 P A °उं.

[७] २ पर्वत ३ खंटका दर्भाणि ४ प्रकृष्टगुणेन युक्ता.

[८] १ धिग् धिग्. २ प्रेतवने । हे प्रिया वने च. ३ नमस्कृता.

[९]

॥ हेला ॥ एत्थन्तरे णिएवि वलएउ पइसरन्तो ।

रिसह-जिणिन्द-पढम-^१णन्दणहो अणुहरन्तो ॥ १

णाणा-रस-सम्पुण्ण-णिरन्तरु	णायरिया-यणु चवइ परोप्परु ॥ २	
‘एँहु सो वलु णिय-भुअ-वल-वीयउ	दीसइ गिम्भु जेम णिसीयउ ॥ ३	5
सोह ण पावइ उत्तम-सत्तउ	णं जिण-धम्मु दया-परिचत्तउ ॥ ४	
णं जोण्हएँ आमेळ्ळिउ ससहरु	णं दित्तिएँ दूरुज्झिउ दिणयरु ॥ ५	
एँहु सो जें विणिवाइउ रावणु	लक्खणु लक्खण-लक्खङ्गिय-तणु ॥ ६	
इय वेणिण वि जण ते लवणङ्कुस	सीया-णन्दण करि व णिरङ्कुस ॥ ७	
तरणि-तेय णिव्वूढ-महाहव	जेहिँ परज्जिय लक्खण-राहव ॥ ८	10
एँहु सो वज्जजङ्गु वल-सालउ	पुण्डरीय-पुरवर-परिपालउ ॥ ९	

॥ घत्ता ॥

एँहु सो सत्तुहणु

णन्दणु सुप्पहहें

सत्तुहणु समरें अणिवारिउ ।

जें महु महुराहिउ मारिउ ॥ १०

[१०]

॥ हेला ॥ एँहु सो जणय-णन्दणो जयसिरी-णिवासो ।

रहणेउर-पुराहिवो तिहुअणे^१ पयासो ॥ १

एँहु सो सुग्गीवु ^१ वराहिमाणु	पमयद्धय-विज्जाहर-पहाणु ॥ २	
किक्किन्ध-णराहिवु वालि-भाइ	तारावइ तारा-वइ व भाइ ॥ ३	
एँहु सो मारुइ अक्खय-विणासु	जें दिणणु पाउ सिरें रावणासु ॥ ४	20
एँहु सो ^२ सुवियह्वाएवि-कन्तु	लङ्केसु विहीसणु विणय-वन्तु ॥ ५	
एँहु सो णलु घाइउ जेण हत्थु	एँहु णीलु विवाइउ जें पहत्यु ॥ ६	
एँहु सो अङ्गउ थिर-थोर-चाहु	जें किउ मन्दोयरि-केस-गाहु ॥ ७	
एँहु सो पवणञ्जउ सुहड-पवरु	परिपालइ जो आइच्च-णयरु ॥ ८	
एँहु सो महिन्दु अङ्गणहें ताउ	मणवेय-महाएविँ सहाउ ॥ ९	25
आयउ सहि ^४ तिणिण वि जणिउ ताउ	अवराइय-कइकय ^५ सुप्पहाउ ॥ १०	

9. 1 P S °वाइउ.

10. 1 P S °ण. 2 A वि. 3 P S ए(स य°)हु सो नीलु विहउ. 4 P S सहु.

5 S °केकय°.

[९] १ भरतचक्रवर्तिन

[१०] १ श्रेष्ठाभिमान २ चन्द्र इव ३ जनन्यो रामादीनाम्, ४ T लक्ष्मणजनन्या द्वे नामनी कइकइ सुमित्रेति । भरतस्य तु कैकयेति जननी.

॥ घत्ता ॥

पुण्णघणहों तणय
सत्ति-हउँ (?) जाँएँ रणें

सा एह विसल्ला-सुन्दरि ।
परिरक्खिउ लक्खण-केसरि' ॥ ११

[११]

५ ॥ हेला ॥ गायरिया-यणांसु आलाव एव जावं ।

लक्खण-पउमणाह राउलें पइइ तावं ॥ १

सुरसरि-जउण-पवाह व सायरेँ
केसरि व्व गिरि-कुहरव्वन्तरेँ
चिन्तइ वल्लु पिय-सोयव्वभइयउ
१० हउँ भत्तारु जणदणु देवरु
णन्दण दुइ वि एय लवणङ्कुस
इहँ महि एउ रज्जु एँउ पट्टणु
इय पुण्णिम-ससि-सण्णिह-छत्तइँ
सुरवरह मि असक्कु किउ साहसु
१५ एवहिँ उँव्वसिय-परिवायहों

ससि-दिवसयर व अत्थ-धराहरेँ ॥ २
सदत्थ व वायरण-कहन्तरेँ ॥ ३
'पेक्खु केँव सीयँएँ तवु लइयउ ॥ ४
जणउ जणणु भामण्डलु भायरु ॥ ५
अवराइय सासुवं दीहाउस ॥ ६
एँउ घरु एँहु अवरु वि वन्धव-जणु ॥ ७
कह सव्वइ मि झत्ति परिचत्तइँ ॥ ८
वहु-कालहों वि थविउ महियले जसु ॥ ९
होन्तु मणोरह पँय-सङ्गायहों' ॥ १०

॥ घत्ता ॥

लक्खणु चिन्तवइ
'हउँ विणु जाणइँएँ

सीया-गुण-गण-मण-रञ्जिउ ।
हुउ अज्जु जणेरि-विवज्जिउ' ॥ ११

[१२]

२० १ तो एत्तहें वि ताव पइ-पुत्त-मोह-चत्ता

तियसं-भूइ-णिन्दिया अइ-महन्त-सत्ता ॥ १

जा पाउस-सिरि व्व सु-पओहर
सा तवेण परिसोसिय जाणइ
दुप्परिणाम दूरें परिसेसिय
२५ परमागम-जुत्तिँएँ किय-पारण

आसि तियस-जुवइहिँ वि मणोहर ॥ २
णं दिवसयरें गिम्भें महा-णइ ॥ ३
धेण-मलोह-कञ्चुएँण विहूसिय ॥ ४
वसिकिय पञ्चेन्द्रिय-वर-वारण ॥ ५

6. P S सत्तिएँ हउ, A सत्तिहेउ

11. 1 P S ँणुसु. 2 S केँव. 3 S ँय, A ँभ. 4 P S इय.

12. 1 A ता.

[११] १ अस्तपर्वते २ उद्धाषितपरिवादस्य. ३ प्रजाया .

[१२] १ सीतार्जिका २ निविडजल्लमलौघा

रुहिर-मंस-परिवज्जिय-देही
पायड-अत्थि-णिवह-^३सिरै-जाली
घोरु वीरु तव-चरणु करेप्पिणु
दिण तेत्तीस समाहि लहेप्पिणु
तियसावासें गम्पि सोलहमएँ
कञ्चण-सिहरि-सिहर-सङ्कासएँ

जीविणें जणहों जणिय-सन्देही ॥ ६
फेरुसाइण सव्वङ्ग-कराली ॥ ७
हायणाइँ^४ वासट्ठि गमेप्पिणु ॥ ८
थिय इन्दहों इन्दत्तणु लेप्पिणु ॥ ९
वर-विमाणें सूरप्पह-णामएँ ॥ १०
विविह-रयण-पह-किय-^५विमलासएँ ११

॥ घत्ता ॥

^६हरि-रामुज्जियउ
सग-मोक्ख-सुहइँ

अवरु वि जो दिक्ख लएसइ ।
सो सव्वइँ^७ स इँ भु ज्ञेसइ ॥ १२

*

इय पोमचरिय-सेसे
तिहुयण-सयम्भु-रइए
वन्दइ-आसिय-महकइ-सयम्भु-लहु-अङ्गजाय-विणिवद्धे ।
सिरि-पोमचरिय-सेसे

सयम्भुएवस्स कहं वि उव्वरिए ।
सीया-सण्णास-पव्वमिणं ॥
पञ्चासीमो इमो सगो ॥

*

[८६. छायासीमो संधि]

उवल्लेण इन्दत्तणें
तिहि मि जगेहिं जं गिरुवमउ

सीय-पहुत्तणु किं वण्णिज्जइ ।
जइ पर तं जि तासु उवमिज्जइ ॥ ध्रुवकम् ॥

[१]

तो उत्तमङ्गें लाइय-करेण
'परमेसर गिरु-थिरै-थोर-गत्ते
वोलीणएँ सासएँ सुह-णिहाणें
कन्तुज्जिय एवहिं दणु-विर्महु
किं लक्खणु काइँ समीर-तणउ

पभणियु गोत्तमु मगहेसरेण ॥ १
णिकखन्ते सुँ-सत्ते कियन्तवत्ते ॥ २
वइदेही-सण्णासण-विहाणें ॥ ३
कहि काइँ करेसइ रामचन्दु ॥ ४
किं भामण्डलु किं जणउ कणउ ॥ ५

12. 2 P A जणिय जणहो. 3 P S सिरि 4 P S वरिसहि(स हि) तहि(स हि).
5 P S सो वि. Puspikā—1 A °हि

1. 1 P S द्वे. 2 A °उं. 3 P S °रु°, A °य°. 4 P S सिसुत्ते, A सुसत्ति. 5 P S
°यमहु. 6 P A °उं. 7 P °उं.

[१२] ३ वपु नसा ४ रुक्मचर्मा ५ T निर्मलदिग्मुखानि. ६ सुराम (१२) प्रस्तुते, अन्यत्र
षासुदेवेन क्लृप्तेण च रहित .

[१] १ (१ 1) वालकत्वे.

पउ० च० ३२

किं लवणु काँ अङ्कुसु कुमारु
 किं पवणञ्जउ दहिमुहु महिन्दु
 किं णलु णीलु वि सत्तुहणु अङ्कु
 अट्टु वि णारायण-तणय काँ
 5 गउ गवउ चन्दकरु दुम्भुहो वि

किं अवराइयं विमल-मइ
 काँ करेसइ दौण-सुय

10 इय वयणोँहिं मुणि-जण-मणहरेण
 आयण्णहिं सेणिय दिढ-मणाँहं
 दस-दिसिं-परिभमिय-महाजसाँहं
 सुरवर-जण-णयण-मणोहराँहं
 कञ्चणार्थाँहोँ कञ्चणरहेण
 15 'महु धरिणि जयदँह जगेँ पसिद्ध
 दुइ दुहियउ ताँहें वियक्खणाँउ
 मन्दाइणि-णामेँ ताँहें महन्त

ताँहें सयम्वर-कारणेण
 20 तुम्हाँहें विणु सोहन्ति ण वि

एँउ परियाँणेवि सहसत्ति तेहिं
 परिपेसिय अङ्कुस-लवण वे वि
 णं पचलिय अट्टु वि दिस-करिन्द
 25 अण्णेक्क तणय साहण-समाण

8 P S A °दु°. 9 P °यइं, S °यइ.

2. 1 P S °सु. 2 P marginally notes a variant सयंपह, A सयद्दह. 3 A °णउं. 4 P °उं.

२ विसीषण. ३ विसला.

[२] १ स्थानात् २ T सुजला सुवचना च. ३ ज्येष्ठा

[३] १ वस्त्र परसमये [इ]ति कथयति.

किं लङ्काहिवु सुग्गीउ तारु ॥ ६
 चन्दोयरि जम्बवु इन्दु कुन्दु ॥ ७
 पिहुमइ सुसेणु अङ्गउ तरङ्गु ॥ ८
 अण्णु वि आहुट्टु वि सुअ-सयाँइ ॥ ९
 अवरु वि किङ्करु जो वलहोँ को वि ॥ १०

॥ घत्ता ॥

किं सुमित्त सुप्पह गुण-सारा ।
 एँउ सयलु वि वज्जरहि भडारा' ॥ ११

[२]

वुच्चइ पच्छिम-जिण-गणहरेण ॥ १
 वहु-दिवसेँहिं राहव-लक्खणाँहं ॥ २
 असुणिय-पमाण-कय-साहसाँहं ॥ ३
 मुत्तुमूरिय-अरिवर-पुरवराँहं ॥ ४
 पट्टुविउ लेहु कञ्चण-रहेण ॥ ५
 सुर-सरि व सुँवाणिय कुल-विसुद्ध ॥ ६
 अहिणव-जोव्वणउ स-लक्खणाँउ ॥ ७
 लहु चन्दभाय पुणु रूववन्त ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मिलिय सयल महि-गोयर खेयर ।
 इन्द-पडिन्द-रहिय णं सुरवर ॥ ९

[३]

सरहसेँहिं राम-चक्केसरेहिं ॥ १
 हरि-णन्दण अट्टु कुमार जे वि ॥ २
 णं 'वसु णं अट्टु वि विसहरिन्द ॥ ३
 पट्टुवियाहुट्टु-सय-प्पमाण ॥ ४

अवर वि कुमार दिढ-कढिण-देह
स-विमाण पयट्ट णहङ्गणेण
णं जुग-खएँ हुअवहु चन्द-सूर
जोयन्तं चउदिसु महि समत्त

अवरोप्परु परिवेडिय-सणेह ॥ ५
परिवेडिय-विज्जाहर-गणेण ॥ ६
सणि-कणय-केउ-गुरु-राहु कूर ॥ ७
तं कञ्चणथाणु खणेण पत्त ॥ ८

॥ घत्ता ॥

छत्त-चिन्ध-सिगिरि-णियरु
णं विवाह-मण्डवु विउलु

दीसइ पुरे कुमार-सङ्गाएँ ।
णिम्मिउ लवणङ्कुसहँ विहाएँ ॥ ९

[४]

तो णहँ पेक्खँवि आगमणु ताहँ
वेयट्ट-णिवासिय साणुराय
सहुँ तेहिँ मिलेँवि कञ्चणरहासु
जहिँ गाढ णिविड बहु मञ्च वद्ध
जहिँ णरवर पयडिय-वहु-वियार
खणँ लेन्ति अपेयइँ भूसणाइँ
जहिँ सुव्वइ वीणा-वेणु-सहु
जहिँ मणहरु के वि गायन्ति गेउ
तहिँ ते कुमार सयल वि पइट्ट

दससन्दण-णन्दण-णन्दणाहँ ॥ १
अहिमुह विज्जाहर सयल आय ॥ २
गय समुह सयम्बर-मण्डवासु ॥ ३
णावइँ संक्कइँ-कय कव्व-वन्ध ॥ ४
खणँ गलेँ वन्धन्ति मुयन्ति हार ॥ ५
चउ-दिसु जोयन्ति नियंसणाइँ ॥ ६
पडु-पडह-मुरव-रुञ्जा-णिणहु ॥ ७
अइ सु-सरु सुहावउँ विविह-भेउ ॥ ८
णाणा-मणिमय-मञ्जेहिँ णिविड्ड ॥ ९

॥ घत्ता ॥

णिय-रूवोहामिय-मयण
माणुस-वेसेँ धरणि-यलेँ

सोलह-आहरणालङ्करिया ।
अमर-कुमार णाईँ अवयरिया ॥ १०

[५]

तो रूव-पसण्णउ वेण्णि वि कण्णउ^१
णिरुवम-सोहगउ करिणि-वलग्गउ
मणि-विमल-कयासहँ णियय-णिवासहँ
णव-कमल-दलच्छिउ संसरइ-लच्छिउ
सं-विसेसेँ भल्लिउ णं दुइ भल्लिउ

गहिय-पसाहणउँ ।
जण-मण-विन्धणउँ ॥ १
सुह-दिणेँ^३ णिग्गयउँ ।
णाईँ^६ समागयउ ॥ २
मयणँ मेल्लियउ ।

3. 1 P S परिवेडिय°. 2 S °ति 3 P S °सिगिरि°. 4 P S °लु.

4. 1 T has सक्रयकवि 2 A णिया°. 3 P °उं

5. 1 P °उं. 2 P उ, S °ओ 3 P S °ण 4 A °उं. 5 This Pāda is missing in P A 6 P S A °इ

२ बुध . ३ शुक्र (?) ४ मंगल (?).

[४] १ (T's variant) सस्कृतकवि.

[५] १ हस्तिन्या चटितायै (?). २ T सवितर्केण मदानेन. ३ शोभित (?).

गुण-गण-पडिहत्थिउ	वर-वण-लच्छिउ	णं संचल्लियउ ॥ ३
थिय चउहु मि पासहिं	मञ्च-सहासहिं	वर जोयन्तियउ ।
मोहण-लय-मायउ	एक्कहिं आयउ	णं मोहन्तियउ ॥ ४
णं सुकइ-णिवद्धउ	कहउ रसहुउ	मणें पइसन्तियउ ।
६ सोहग-विसेसें	तें ववएसें	णं णासन्तियउ ॥ ५
अइ-विसम-विसाढउ	विसहर-दाढउ	णं मारन्तियउ ।
णं रणें दुक्कन्तिउ	मग्गण-पन्तिउ	विरहु करन्तियउ ॥ ६
णं गिम्भें फुरन्तिउ	दिणयर-दित्तिउ	सन्तावन्तियउ ।
णं आउह-धारउ	दिणण-पहारउ	मुच्छावन्तियउ ॥ ७

10

॥ घत्ता ॥

अगगएँ करिणि-समारुहिय
णावइ चारु वसन्त-सिरि

धाई सयल दरिसावइ णरवर ।
विहिं फुँल्लन्धुअ-पन्तिहिं तरुवर ॥ ८

[६]

जोयवि भू-गोयर चत्त केव	खम-दएँहिं कुगइ-गइ-मग्गु जेव ॥ १
१५ पुणु मेल्लिय विज्जाहर-णरिन्द	णं गङ्गा-जउणेंहिं बहु-गिरिन्द ॥ २
अवरे वि परिहरेंवि गयाउ तेत्थु	ते सीया-णन्दण वे वि जेत्यु ॥ ३
जहिं छत्त-सण्ड-मण्डवु महन्तु	खुर-मणि-कर-णियरन्धार-वन्तु ॥ ४
रविकन्त-पहुज्जोइय-दियन्तु	अवरेंहि मि मणिहिं मह-सोह दिन्तु ॥ ५
पेक्खेंवि लवणङ्कुस तुरिउ सव्वु	गउ परिगलेवि चिरु ख्व-गव्वु ॥ ६
२० जेद्वोवरि पुणु मन्दाइणीएँ	परिधित्त साल गय-गामिणीएँ ॥ ७
अङ्कुसहों चन्दभार्थाएँ तेव	परिओसिय णहयलें सयल देव ॥ ८
किउ कलयलु तूरइँ आहयाइँ	विच्छायइँ जायइँ वर-सयाइँ ॥ ९
णं णिहि-चुक्कइँ वाइय-कुलाइँ	चिन्तन्ति गमण-हिययाउलाइँ ॥ १०

॥ घत्ता ॥

२५ 'किं विणिभिन्दहुँ महि गयणु किं सायरें 'गिरि-विवरें पईसहुँ ।	
धीसोहग-भग्ग-रहिय	जाहुँ तेत्थु जहिं जणेंण ण दीसहुँ' ॥ ११

7 P S °घण°, 8 P S धाइय.

6. 1 P °दमएँहिं, S °दमइहि 2 P S °भाए वि तेव. 3 P S परिउ°, A परिउ°. 4 P °वरे, S °वरि. 5 P S A पइ° 6 A णी°.

४ वचनेन (१). ५ अमरा.

[६] १ समूह. २ T खुरवइमणि=इन्द्रनीलमणि. ३ शीघ्रम् ४ T निधानोत्पादनधातुवाद-विवरप्रवेशकारिण..

[७]

ताव दुष्णिवारारि-महणा
'तिसर्थ-तीस-वीस-प्पमाणथा
मुणेंवि वाल विक्रम-गुरुक्या
सण्णियं दुअन्तेहिं सेण्णयं
फणि-उलं व अच्चन्त-कूरयं
समर-रस-दिट्ठावद्ध-परियरं
रह-विमाण-हय-गय-णिरन्तरं
जाव वलइ किर भीसणाउहं

मणें विरुद्ध सोमिच्छि-गन्दणा ॥ १
पलय-काल-रूवाणुमाणया ॥ २
सयल अवर वर पासं दुक्कया ॥ ३
घण-उलं व णह-यलें णिसण्णयं ॥ ४
दिण्ण-घोर-गम्भीर-तूरयं ॥ ५
पाउसम्बरं णं स-धणुहं ॥ ६
विविह-चिन्ध-छाइय-दियन्तरं ॥ ७
विहि मि राम-गन्दणहं सम्मुहं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

ताव तेहिं अडुहिं वि तहिं
धरिउ णियय-भायरेहिं सहुं

लच्छीहर-महएवी-जाएँहि ।
णं तइलोक्क-चक्कु^३ दिस-णाएँहि ॥ ९

[८]

'अहों अहों भायरहों म करहों कोहु
जो 'जाय-दिणहों लमोंवि सणेहु
आयहें परं कण्णहें कारणेण
गुण-विणय-सैयण-खम-णासणेण
कलहन्ति ए वि^१ पर जेव राय
तुम्हेंहिं पुणु सयलइ अइ समत्थ
लज्जिज्जइ अण्णु वि राहवासु
सुट्टु वि मय-मत्तउ मिलिय-भिड्डु

मं वड्डारहों^१ रहु-कुलें विरोहु ॥ १

सो वल-लक्खणहें म खयहों णेहु ॥ २
अवरोप्परु काइँ महा-रणेण ॥ ३
तिहुअणें धिक्कार-पगासणेण ॥ ४
कु-पुरिस^१ विण्णाण-कला-अणाय ॥ ५
गुणवन्त वियाणिय-अत्थसत्थ ॥ ६
किह वयणु णिएसहुं गम्पि तासु ॥ ७
किं णिय-करु परिचप्पइ भयड्डु^३ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

इय पिय-वयणेंहि अवरेँहि मि^५ ते^६ उवसामिय माण-समुण्णय ।

णं वर-गुरु-मन्तक्खरेँहि किय गइ-मुह-णिवद्ध वहु पण्णय ॥ ९

7. 1 A विसुद्ध 2 A तियस^० 3 P सन्निय, S सण्णिय 4 P S °यल. 5 P °सदिढ^०, S °दिढ^०. 6 P °धर, A °यर

8. 1 P S A °हु 2 A वर. 3 P S °सयक्खविणासणेण. 4 P S व 5 P S omit these 6 P °निमुह वहु, S °निमुह वहु

[७] १ ३५० तीनि सै पचास २ शनिचद्रौ द्वादशराशो यप्पा(या?) भवति (?). ३ T दिग्गजै.

[८] १ T य जन्मदिनप्रमृत्तिस (?). २ (P'S leading) शतसख्या (?). ३ T कलाविज्ञान-अनज्ञात (? अज्ञात). ३ सुट्टि. ४ T हस्ती

[९]

पुणु ते अवलोएँवि वार-वार
 बहु-वन्दिण-वन्देँहिं थुव्यमाण
 णिसुणेंवि गिज्जन्तइँ मङ्गलाइँ
 5 पेक्खेप्पिणु सिय-सम्पय-विहोउ
 अप्पाणंउ परिणिन्दन्ति केवँ
 'अम्हइँ तिखण्ड-महिवइँहेँ पुत्त
 बहु-गुण बहु-साहण 'बहु-सहाय
 ण वि जाणहुँ हीण गुणेण केण

सहुँ कण्णहिँ लवणङ्कुस-कुमार ॥ १
 चउ-दिस-जण-पोमाइजमाण ॥ २
 तूरइँ गहिराइँ स-काहलाइँ ॥ ३
 वर-आणवडिच्छेउ सयलु लोउ ॥ ४
 'हरि-दंसणें सुर तव-हीण जेवँ ॥ ५
 लायण्ण-रुव-जोव्वण-णिरुत्त ॥ ६
 सु-पयाव अतुल-भुय-वल-सहाय ॥ ७
 एकहोँ वि ण घत्तिय माल जेण ॥ ८
 ॥ घत्ता ॥

10

अहवइ काइँ विसूरिँण
 जीवहोँ सणेंण समिच्छियउ

लब्भइ सयलु वि चिरु कय-पुण्णेंहिँ ।
 किं संपडइ 'किँएँहिँ 'पइसुण्णेंहिँ ॥ ९

[१०]

वरि तुरिउ गम्पि तव-चरणु लेहुँ
 15 ऐउ चिन्तेँवि अवहत्थिय-भयासु
 विण्णविउ णवेप्पिणु 'णिसुणि ताय
 अम्हइँ संसार-महासमुदुँ
 दुग्गइ-गम-खारोपार-णीरें
 मिच्छत्त-गरुय-वायन्त-वाएँ
 20 वर-विविह-वाहि-कल्लोल-जुत्तेँ
 मय-माण-विउल-पायाल-विवरें
 मह-मोहुँब्भड-वल-फेण-सोहेँ^०
 परिभमिय सुँइरु अ-लहन्त-धम्मु

जेँ सिद्धि-वहुअ-करथँलु धरेहुँ ॥ १
 पुणु गय वलेवि लक्खणहोँ पासु ॥ २
 'पज्जत्तउँ विसय-सुहेहिँ राय ॥ ३
 दुट्ठइ-कम्म-जलयर-रउदें ॥ ४
 भय-काम-कोह-इन्दिय-गहीरें ॥ ५
 जर-मरण-जाइ-वेला-णिहाएँ ॥ ६
 'परिभमणाणन्तावत्तइत्तेँ ॥ ७
 अलियागम^४-सयल-कुदीव-णियरें ॥ ८
 सविओय-सोय-वडवाणलोहेँ ॥ ९
 कह कह वि लद्धु पुणु मणुअ-जम्मु ॥ १०
 ॥ घत्ता ॥

25

एवहिँ एण कलेवरेंण
 जिण-पावज्ज-तरण्डएँण

जहिँ कहिँ^१ वि णत्थिँ^२ जम-डामरु ।
 जाहुँ^३ देसु जहि जणु अजरामरु' ॥ ११

9. 1 P S °च्छिउ 2 P A °उं 3 P कि एहि, S कि एह

10. 1 P जिं, S जिह 2 P S °ल 3 P °उं 4 P अहियागमे, S अहियागये. 5 P S °हम्भड°. 6 P S °ह. 7 P कहे, S A कहि 8 S णाहि जर'. 9 P S A °हु.

[९] १ इन्द्रदर्शने अल्पतपोधनेनोत्पन्नसुर इव. २ बहुभ्रातर बहुमृत्याश्च ३ पैशुन्यताभि-
 हर्जनै (?).

[१०] १ पूर्यताम् २ T अपर्यतजले. ३ मिथ्यात्ववादै. ४ आवागमणं, ५ दीर्घकालम्.

[११]

सुय-चयण सुगेप्पिणु लक्खणेण
परचुम्बेवि मत्थए वार-वार
'इह सिय इह सम्पय एउ रज्जु
कुल-जायउ आयउ मायरीउ
पासाय एय अइ-सोहमाण
आयइँ अवराइँ वि परिहरेवि
हँ तुम्ह गेह-वन्धणे णिउत्तु
'पडिवुत्तु कुमारेहिँ 'काइँ एण
मोक्कळि ताय मा होउ विग्घु

अवलोएँवि पुणु पुणु तक्खणेण ॥ १
गग्गर-गिरेण पभणिय कुमार ॥ २
एँहु सुर-तिर्य-समु पिय-यणु मणोज्जु ॥ ३
आयउ सच्चह मि महत्तरीउ ॥ ४
कञ्चण-गिरिवर-सिहराणुमाण ॥ ५
किह वणे णिवसेसहुँ दिक्ख लेवि ॥ ६
किं परिसेसेवि सच्चहु मि जुत्तु' ॥ ७
वहुएण णिरत्थे जम्पिएण ॥ ८
सिज्जउ तव-चरण-णिहाणु सिग्घु' ॥ ९

॥ वत्ता ॥

एम भणेप्पिणु सरहसेहि
पासेँ महव्वल-मुणिवरहँ

गम्पिणु महिन्दोधुय(?)णन्दण-वणे ।
लइय दिक्ख णीसेसहुँ तक्खणे ॥ १०

[१२]

एत्तहँ व ताम भामण्डलासु
रहणेउर-पुर-परमेसरासु
कामिणि-मुह-पङ्कय-महुअरासु
मन्दर-णियम्ब-कीलण-मणासु
सिरिमालिणि-भज्जालङ्कियासु
आहरण-विहूसिय-अवयवासु
एक्कहिँ दिणेँ सिहि-उल-कय-वमालु
कसणुज्जल-णव-घण-पिहिय-नयणु
अणवरय-थोर-खर-णीर-धारु

विहवोहामिय-आखण्डलासु ॥ १
णिण्णासिय-सत्तु-णरेसरासु ॥ २
वर-भोगासत्तहँ मणहरासु ॥ ३
णिविसु वि अ-मुक्कु मुज्जङ्गासु ॥ ४
मयगलहँ व सुहु-मयङ्कियासु ॥ ५
अच्छन्तहँ सुर-लीलाएँ तासु ॥ ६
सम्पाइउ वासारत्तु कालु ॥ ७
पयडिय-सुरचाउ अदिहु-तैवणु ॥ ८
चल-विज्जुल-कय-ककुहन्धयारु ॥ ९

॥ वत्ता ॥

तेत्थु कालेँ भामण्डलहँ
मत्थएँ पडिय तडत्ति तँडि

मन्दिर-सत्तम-भूमिहँ थैक्कहँ ।
सेल-सिहरेँ णं पहरणु सक्कहँ ॥ १०

11. 1 A इय 2 PA °पु. 3 PS °सु 4 PS परि°. 5 PS °णु 6 PS °हो.

12. 1 A णिण्णासिय°. 2 PS °भय°. 3 A °पु

[११] १ T सुकोगलादयरागत (?)

[१२] १ मेहकदिनीपु. २ मदेनालकृत ३ मयूरकुल ४ वर्षाकाले ५ सूर्य ६ दिशाः

७ विद्युत् ८ वज्र .

[१३]

जं उ॒त्तमङ्गं^१ णि॒वडिउ णिहाउ
 ग॒य तुरि॒य राम-ल॒क्खणहोँ व॒त्त
 तेहि॒ मि प॒भणिँउ 'रण-स॒य-स॒मत्थु
 ५ ल॒वणङ्कुस-स॒त्तुहणेण॑ स॒हिय
 'हा॒ माम॒ माम॒ गुण-र॒यण-खाणि
 'ए॒त्तिय-का॒लहोँ॑ सि॒हि-म॒हुर-वा॒य
 ८ णि॒सुणा॒विउ जणउ॑ वि॒ तुरिउ॑ आउ
 तहोँ पु॒ण्य पु॒च्छिज्जइ॑ दु॒क्खु काँइ

तं पा॒णहिँ॑ मे॒ल्लिउ॑ जण॒य-जाउ॑ ॥ १
 'भा॒मण्ड॒ल-क॒ह का॒लहोँ॑ स॒मत्त' ॥ २
 अ॒म्हहँ॑ णि॒वडिउ॑ दा॒हिणउँ॑ ह॒त्थु' ॥ ३
 णि॒सुणे॒विणु॑ सो॒य-गँहेण॑ ग॒हिय ॥ ४
 क॒हिँ गउ॑ मु॒एवि॑ ग॒रुआ॒हिमाणि॑ ॥ ५
 हा॒ मु॒य अ॒म्हारि॒य अ॒ज्जु मा॒य' ॥ ६
 ल॒हु-भा॒यरेण॑ क॒णएँ॑ स॒हाउ ॥ ७
 तो व॒णिण॒ज्जइ॑ जइ॒ वहु-मु॒हाँइ ॥ ८

10

॥ घ॒त्ता ॥

मे(१सि)लेँ॒वि अ॒सेसहिँ॑ व॒न्धवेँहिँ॑ सो॒यामणि-स॒न्चूरि॒य-का॒यहोँ॑ ।
 स॒हसा॑ लो॒याचा॒रु किउ॑ दि॒ण्यु स॒लिलु॑ भा॒मण्ड॒ल-रा॒यहोँ॑ ॥ ९

[१४]

तो॒ वहु-दि॒वसेँहिँ॑ मा॒रुवि॑ स-जाउ
 १५ परि॒य॒रि॒यउ वहु-खे॒य॒र-ज॒णेण॑
 गउ॑ व॒न्दण-ह॒त्तिँएँ॑ तुरिउ॑ मे॒रु
 पे॒क्खन्तु॑ दे॒स-दे॒सन्तराँइ॑
 कु॒ल-गि॒रि-सि॒र-स॒रव॒र-जिण॑व॒राँइ॑
 गु॒ह-कूडँइ॑ खे॒त्तँइ॑ का॒णणाँइ॑
 २० स॒व्वँइ॑ पि॒य-घ॒रिणिहिँ॑ द॒क्खव॑न्तु
 ऊ॒रु-र॒हसु॒द्धसि॒य-सं॑स॒त्त-ग॒त्तु

स-वि॒माणु॑ क॒णकुण्ड॑ल-पु॒राउ ॥ १
 अ॒न्तेउ॒र-स॒हिउ॑ ण॒हङ्ग॑णेण ॥ २
 णं ज॒क्खिणि-ज॒क्खेँहिँ॑ स॒हुँ कु॒वेरु ॥ ३
 वे॒यडु-उ॒भय-से॒ढिहिँ॑ पु॒राँइ ॥ ४
 वा॒विउ॑ क॒प्पहु॒म-ल॒य॒हराँइ॑ ॥ ५
 वि॒णिण॑ वि॒ कुरु-भूमिउ॑ उ॒ववणाँइ॑ ॥ ६
 वि॒हस॑न्तु॒ खणे॑ खणँ पु॒ण्य र॑मन्तु ॥ ७
 म॒ण॒हर-गि॒रि-म॒न्दर-सि॒हरु॑ प॒त्तु ॥ ८

॥ घ॒त्ता ॥

प॒वर-वि॒माणहोँ॑ ओ॒र्येँ॒रे॒वि॑ क॒रेँ॒वि प॒याहिण॑ तुरि॒य स-क॑न्ते ।
 णि॒म्मल-भ॒त्तिँएँ॑ जिण-भ॒वणेँ॑ थुइ॒ पार॑म्भि॒य पु॒ण्य ह॑णुवन्ते ॥ ९

13. 1 P S A °नि. 2 P A °उं 3 P °उं. 4 P S णिसुणेविणु. 5 A सोयगहेण.
 6 A only गरु 7 Sixth line is missing in A 8 The portion up to
 तुरिउ is missing in A

14. 1 A मारुह. 2 P °समत्त°, S °समंत° 3 P S A उ°.

[१३] १ विद्युत्.

[१४] १ हन्तुसुत्तु सपुत्रः. २ प्रचुरः.

[१५]

'जय जय जिणवरिन्द धरणिन्द-णरिन्द-सुरिन्द-वन्दिया
 जय जय चन्द-खन्द-वर-विन्तर-वहु-विन्दाहिणन्दिया ॥ १
 जय जय वम्भं-सम्भु-मण-भञ्जण-मयरञ्जय-विणासणा
 जय जय सयल-समग्ग-दुब्भेय-पयासिय-चारु-सासणा ॥ २
 जय जय सुट्टु-पुट्टु-दुट्टु-कम्म-दिठ-वन्ध-तोडणा
 जय जय कोह-लोह-अण्णाण-माण-दुम-पन्ति-मोडणा ॥ ३
 जय जय भव्व-जीव संसार-समुद्धो तुरिउ तारणा
 जय जय हय-तिसल्ल जय जाइ-जरा-मरणइं निवारणा ॥ ४
 जय जय सयल-विमल-केवल-णाणुज्जल-दिच्च-लोयणा
 जय जय भव-भवन्तरावज्जिय-दुरिय-मैलोह-चोयणा ॥ ५
 जय जय तिजय-कमल-वय-दय-णय-णिरुवम-गुण-गणालया
 जय जय विसय-विगय जय जय दस-विह-धम्माणुवालया ॥ ६
 तुहुं सव्वण्हु सव्व-णिरवेक्खु णिरञ्जणु णिक्कलो परो
 तुहुं णिरवयवु सुहुमु परमप्पउ परमु लहुं परंपरो ॥ ७
 तुहुं णिल्लेउ अ-गुरु परमाणुउ अक्खउ वीयरायओ
 तुहुं गइ मइ जणेरु सस मायरि भायरि सुहि सहायओ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एवं विविह-थोत्तेहिं थुणेंवि [पुणु]पुणु जिणवरु पुज्जेवि अञ्जेवि ।
 पवण-पुत्तु पल्लड्डु णहें मन्दर-गिरि-सिहरइं परिअञ्जेवि ॥ ९

[१६]

तहो हणुवहो णयणाणन्दणासु जिण-वन्दण-अणुराइय-मणासु ॥ १
 णिय-लीलएँ एन्तहो भरह-खेतु परिगलिउ दिवसु अत्थमिउ मित्तु ॥ २
 अणुरत्त सञ्ज णं वेस आय णं रक्खसि रत्तारत्त जाय ॥ ३
 वहलन्धयार पुणु दुक्क राइ मसि-खप्परु विहिउ समत्थ^२ (?) णाइं ॥ ४
 तहिं काले हणुउ तणु-पह-जियक्कु सुरदुन्दुहि-सेले स-सेणु थक्कु ॥ ५
 जोअइ कसणुज्जलु जाव गयणु ससि-विरहिउ णिहीवउ व भवणु ॥ ६

15. 1 P S A °भु 2 A °वययणदय° 3 This Pāda is missing in A 4 S
 लरहु, A रहं. 5 P सहायरु, S सहोयरु.

16. 1 P S पत्तउ. 2 A समच्छु

[१५] १ कार्तिकेय. २ T पातकसमूह. ३ छेदक ४ लक्ष्मी ५ मार्गः

[१६] १ रक्तस्य विषये अनुरक्ता । अथ रुधिराणालिता रक्ता. २ सुरदुन्दुही-पर्वते.

पउ० च० ३३

तहिँ ताव गियच्छिय गिरु गुरुक
सव्वहों वि जणहों सज्जसु करन्ति
गह-तारा-रिक्खेहिँ पह हरन्ति
सा थोवन्तरे अ-मुणिय-पमाण

णहयलहों पडन्ति समुज्जलुक ॥ ७
णं विज्जुल-लेह परिप्फुरन्ति ॥ ८
पलयाणल-जालहें अणुहरन्ति ॥ ९
अत्थक्कए णिएवि विलीयमाण ॥ १०

5

॥ घत्ता ॥

चिन्तिउ णिय-मणें सुन्दरेंण
तं तिल-मित्तु वि किं पि ण वि

‘धिद्धिगत्यु संसार-णिवासु ।
जासु ण दीसइ भुवणें विणासु ॥ ११

[१७]

दिवसेहिँ मण-मूढहुँ आरिसाहुँ
लिहकन्तहँ गिरिवर-कन्दरे वि
चउ-दिसहिँ भयन्तहँ अम्वरे वि
आएहिँ अवरेहिँ ण सुअइ मित्तु
जोव्वणु वर-कुञ्जर-कण्ण-चवलु
सम्पय दप्पण-छाया-समाण
सरयव्वभय-छाहिँ-सच्छाउ अत्थु
तुसँ-मुट्ठि व गिरु णीसारु देहु

एह जें अवत्थ अम्हारिसाहुँ ॥ १
मज्जूसहँ असिवर-पञ्जरे वि ॥ २
लुक्कन्तहँ सायरें मन्दरे वि ॥ ३
तो वरि पर-लोयहों दिण्णु चित्तु ॥ ४
जीविउ तणग-जल-विन्दु-तरलु ॥ ५
सिय मरु-हय-दीव-सिहाणुमाण ॥ ६
तिण-जलिय-जलण-समु सयण-सत्थु ॥ ७
जल-रेह व दिट्ठ-पण्डु णेहु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

एउ जाणन्तु वि पेक्खु किह
इय गिरिवरें सूरुग्गमणें

अच्छमि छाइउ मोहण-जालें ।
कल्ले जिं दिक्ख लेमि किं कालें ॥ ९

20

[१८]

चिन्तन्तहों हियवए तासु एव
उग्गमिउ दिवायरु णहें विहाइ
आउच्छेवि पिय-महिला-णिहाउ
णीसेरेंवि विमाणहों अणिल-पुत्तु
गउ णरवर-सहिउ जिणिन्द-भवणु

गय रयणि कमेण कु-बुद्धि जेव ॥ १
पावज्ज-णिहालउ आउ णाडुँ ॥ २
सन्ताणें ठवेवि णियङ्गजाउ ॥ ३
णर-जाणु चडिउ मणि-गण णिउत्तु ॥ ४
चारण-रिसि लक्खिउ धम्मरयणु ॥ ५

17. 1 P लुं, A लुं 2 P धण्णु, S धणु 3 P तुसे, S तुसि. 4 P S °रु. 5 P S
°ग्गमेण, A °ग्गमणे 6 P S omit.

18. 1 P S सुहाइ

३ उल्कापातम् ४ शीघ्रम्.

[१७] १ ई[ट]विधानाम् २ मृत्यु ३ T तृणाग्र ४ सदृश .

[८] १ सिक्किना

परियञ्चैवि जिण-वन्दण करेवि
पण्णासहिं सत्त-सएँहिं सहाउ
वन्धुमइहें पासँ सु-पउमराय
साणङ्गकुसुम तिह खरहों धीय
तिह लङ्कासुन्दरि गुणहँ रासि
अवरउ वि मणोहर तियउ ताव

पुणु १दु-विहु परिग्गहु परिहरेवि ॥ ६
खयरहँ दिक्खङ्किउ साणुराउ ॥ ७
दिक्खङ्किय पहु-सुग्गीव-जाय ॥ ८
तिह सिरिमालिणि णल-सुय १विणीय ॥ ९
जा परिणिय लङ्काउरिहिं आसि ॥ १०
णिक्खन्तउ अट्ट सहास जाव ॥ ११

॥ वत्ता ॥

इय एक्केक्क पहाणियउ
अण्णउ पुणु किं जाणियउ

१सिरिसइलहों अइ-पाण-पियारिउं ।
जाउ तेत्थु पव्वइयउ णारिउ ॥ १२

[१९]

वत्त सुणेंवि रोवइ मरु-अञ्जण
हा हा उहय-चंस-१संवद्धण
हा महिन्दं-माहिन्दिं-परायण
हा हा वज्जाउह-दरिसिय-वह
हा गिब्वाणरवण-वण-चूरण
हा घणवाहण-रण-ओसारण
हा हा णाग-पास-वहु-तोडण
हा हा लङ्का-पउलि-णिलोड्डण
हा लक्खण-विसल्ल-मेलावण
अम्हहँ विहि मि पुत्त ण कहन्तउ^५
एव भणेंवि सुय-सोयव्वभइयइँ

१हा हणुवन्त राम-मण-रञ्जण ॥ १
हा वरुणाहिव-सुय-सय-वन्धण ॥ २
हा हा आसाली-विणिवायण ॥ ३
लङ्कासुन्दरि-किय-पाणिग्गह ॥ ४
अक्खकुमार-सवल-मुसुमूरण ॥ ५
हा विज्जा-लङ्गूल-पहारण ॥ ६
हा हा रावण-मन्दिर-मोडण ॥ ७
हा हा वज्जोयर-दलवट्टण ॥ ८
सय-वारउ जूराविय-रावण ॥ ९
किह एकलउ १ज्जि णिक्खन्तउ^५ ॥ १०
जिणहरु गम्पि ताइँ पव्वइयइँ ॥ ११

॥ वत्ता ॥

सो वि मयरद्धउ वीसमउ
वहु-दिवसँहिं केवलु लहँवि

मारुइ घोर्-वीरं-तव-तत्तउ ।
जेत्थु स य म्भु-देउ तहिं पत्तउ ॥ १२

॥

2 The portion from विणीय up to तियउ (in 11 a) is missing in A
3 P ०रियउ.

19. 1 A वि० 2 P S A ०दि. 3 P S ०द, A ०हंदि. 4 P S ०णे, 5 P A ०उं.
6 P ०उ जे, S ०ओ जि. 7 P S ०रु 8 S ०रु.

२ T वाङ्माभ्यन्तर. ३ हन्तसंतस्य.

[१९] १ T वृद्धिकारक.

कइरायस्त विजयसेसियस्त वित्थारिओ^१ जसो भुवणे ।
 तिहुयण-सयम्भुणा पोमचरिय-सेसेण गिस्सेसो ॥
 इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्त कह वि उंवरिए ।
 तिहुयण-सयम्भु-रइए मारुइ-णिव्वाण-पव्वमिणं ॥
 वन्दइ-आसिय-तिहुयण-सयम्भु-परिरइय-रामचरियस्त ।
 सेसम्मि जग-पसिद्धे छायासीमो इमो सग्गो ॥

*

[८७. सत्तासीमो संधि]

वहु-दिवसेहिं ते लक्खण-सुअ वि दुद्धरु दूसहु तवु करेवि ।
 जिह हणुउ तेम धुय-कम्म-रय थिय सिव-सासएँ पइसरेंवि ॥ ध्रुवकम् ॥
 10 [१]
 तो इय वत्त सुणेवि रिउ-महें विहसेवि वोळिज्जइ वलहदें ॥ १
 'लहवि एय चर-भोय मणोहर हयवर गयवर रहवर णरवर ॥ २
 वहु-सीमन्तिणीउ सुहि-सयणइँ धण-कलहोय-धण्ण-मणि-रयणइँ ॥ ३
 ण वि माणन्ति कमल-सण्णिह-मुह णारायण-पवणञ्जय-तणुरुह ॥ ४
 15 मँहु ण मुणन्तहों भव-भय-लइया पेक्खु केव सयल वि पव्वइया ॥ ५
 संछुडु ते 'वाएं उट्टुद्धा अहवइ कहि मि 'पिसाएं' लद्धा ॥ ६
 जिम वामोहियँ जिम उम्माहियँ कुसलुँ ण अत्थि 'वेज्जेँ ण वि वाइय ॥ ७
 तें कज्जेँ 'विहोय परिसेसेवि गय तवेण अप्पाणउँ भूसेवि' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

20 धवलङ्गहों सिव-सुह-भायणहों जिणवर-वंस-समुब्भवहों ।
 राहवहों वि जहिं जड-मइ हवइ तहिं अण्णहों ण वि होइ कहों ॥ ९

[२]

अण्णहिं दिणें सुरवरहँ वरिडुउ सहसणयणु णिय-सहएँ णिविडुउ ॥ १
 णं सुरगिरि 'सेस-इरि-सहायउ दिणयर-कोडि-तेय-सच्छायउ ॥ २
 25 वर-सीहासण-सिहरारुहियउ णव-तिय-अच्छर-कोडिहिं सहियउ ॥ ३

Puspikā 1 P A °उं, S °उ.

1. 1 P S A °सिवि 2 P A महु 3 P A °इं, S °यं 4 P वाम्मोइय, S वामोइय.
 5 P S उमोइय. 6 A °ल 7 S विज्जि, A विज्ज. 8 P S °उ.

[१] १ सुवर्ण. २ नाऽशुभवत्. ३ वातेन गृहीता. ४ पिगाचेन ५ मंत्रवादिनः
 ६ निभूति.

[२] १ अपरपर्वतै. सह. २ T सप्तविंशति कोटय .

विविहाहरण-फुरन्त-सरीरउ
मह-रिद्धिँ सत्तिँ सम्पुण्णउ
लोयवाल-पमुहँ सुह-पवरहँ
'जासु पसाएँ एँउ इन्दत्तणु
जें संसार-घोर-रिवु एकें
जो भव-सायरँ-दुहँ णिवारइ

गिरि व घीरु^१ जलहि व गम्भीरउ ॥ ४
उत्तम-वल-रूवेण पसण्णउ ॥ ५
वोलइ समउँ असेसहँ अमरहँ ॥ ६
लब्भइ देवत्तणु सिद्धत्तणु ॥ ७
विणिहउ णाण-समुज्जल-चक्कें ॥ ८
भविय-लोउ हेलाएँ^२ जि तारइ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

उप्पण्णहों जसु मन्दर-सिहरें
तं पणवहों सइँ सन्वायरेंण

तियसे^३न्देहिँ अहिसेउ किउ
जइ इच्छहों भव-मरण-खउ ॥ १०

[३]

जो सयरायर पिहिमि मुएप्पिणु
जासु णामु सिवु सम्भु जिणेसरु
जिणु जिणिन्दु कालेज्जरु सङ्करु
विहु सयम्भु सद्धम्भु सयम्पहु
सूरि णाण-लोयणु तिहुयण-गुरु
सुहुमु सोक्खु णिरवेक्खु परम्परु
अ-गुरुँ अ-लहुउ णिरज्जणु णिककलु

थिउ भुवण-त्तय-सिहरें चडेप्पिणु ॥ १
देव-देवु महएवु महेसरु ॥ २
थाणु हिरण्णगम्भु तित्थङ्करु ॥ ३
भयउ अरुहु अरहन्तु जयप्पहु ॥ ४
केवलि रुहु विणुहु हरु जग-गुरु ॥ ५
परमप्पउ परमाणु परमपरु ॥ ६
जग-सङ्गलु णिरवयवु सु-णिम्मलु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

इय णामेहिँ सुर-णर-विसहरेंहिँ
तहों अणुदिणु रिसह-भडाराहों

जो संथुव्वइ भुवण-यलें ।
भत्तिँ लगहों पय-जुवलें ॥ ८

[४]

जीवु अणाइ-णिहणु भव-सायरें
केम^१ वि मणुय-जम्मँ उप्पज्जइ
मिच्छा-तवेंण जाउ हीणामरु
मह-रिद्धियहों वि सुरहों सु-वल्लह
दुक्खु दुक्खु सो धम्महों लग्गइ

कम्म-वसेण भमन्तु दुहायरें ॥ १
धम्महों णवर तहि मि मोहिज्जइ ॥ २
सुज्जइ चवेवि होइवि पडिवउ णरु ॥ ३
होइ णरत्तें वोहि^२ अइ-दुल्लह ॥ ४
अण्णाणिउ पुणु किर कहिँ लग्गइ ॥ ५

2. 1 A गख्य वीरु 2 P °उं. 3 P A °उ. 4 P S एके 5 P S °रु. 6 P हेलेए

जो, S जो हेलेइ 7 A तियसेहि वि

3. 1 P S °त्तए, A °रूप° 2 A अगुरुउलहुउ.

4. 1 A कम्म. 2 S दोहि

- अहं^१ देवो वि होवि पडिवउ णरु णरु वि होवि पुणु पडिवउ सुरवरु ॥ ६
 अहो देवहो कइयहं मणुअत्तणो वोहि लहेसहुं जिणवर-सासणो ॥ ७
 अट्ट-टुट्ट-कम्मारि हणेसहुं अविचलु सिद्धालउ पावेसहुं ॥ ८
 एके सुरेण वुत्तु तो सुरवइ 'सणो वसन्तहं अम्हहं इय मइ ॥ ९
 5 मणुअत्तणो पुणु सव्वहं मुज्झइ कोह-लोहं-मय-माणोहिं रुज्झइ ॥ १०
 अहवइ जइ ण वि मणो परिअच्छहि तो किं पउमणाहु ण णियच्छहि ॥ ११
 चवेवि 'वम्ह-णामहो सुर-लोयहो किह आसत्तउ मणुअ-विहोयहो' ॥ १२

॥ घत्ता ॥

- विहसेवि वुत्तु 'सङ्गन्दणेण 'जीव-णिहाय-णिरुन्धणहं ।
 10 संसारो सणेहं-णिवन्धु दिहु मज्झे असेसहं वन्धणहं ॥ १३

[५]

- लच्छीहरु कसणुज्जल-देहउ रामोवरि-परिवड्डिय-णेहउ ॥ १
 एक्कु वि णिविसु विओउ ण इच्छइ उवगरेहुं पाणेहिं वि वञ्छइ ॥ २
 एत्तिउ जाणमि हउं अहो देवहो मरणहो णामेण जि वलएवहो ॥ ३
 15 ण वि जीवइ णिरुत्तु दामोयरु रामु मुअउं ते^३ केम सहोयरु ॥ ४
 किह वीसरउं विविह-उवयारा जे चिन्तविय-मणोरह-गारा ॥ ५
 कह वीसरउं अउज्झ सुएवउं समउ सयल्ले^५ वण-वासं भमेवउ ॥ ६
 किह वीसरउ रउहु महारणु 'स-तिसिरं-खर-दूसण-सङ्घारणु ॥ ७
 किह वीसरउं समो पहरेवउ इन्दइ वि-रहु करेवि धरेवउ ॥ ८
 20 'किह वीसरउ स-रोसु भिडेवउ लङ्केसर-सिर-कमल खुडेवउ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

- अवर वि उवयार जणहणहो किह रहुवइ मणो वीसरइ ।
 ते अच्छइ पडिवयार-मइ णेह-वसंगउ किं करइ' ॥ १०

3 P S अहो. 4 P S °मोह°. 5 P S °माणे. 6 P सकं°, S सकं°. 7 P S °हु.

- 5. 1 P S वि पाणेहि. 2 A °उ 3 P S तं 4 P °उं. 5 P S °ल. 6 A ससिमि.

7 This pāda is wanting in p. 8 This pāda is wanting in s.

[४] १ पद्मस्वर्गात् २ इन्द्रेण.

[५] १ तिसर .

[६]

आयण्णोवि इय वयणइ चवन्तु
जयकारोवि वासवु चारु-वेस
तहिं णवर स-विब्भम विण्णि देव
'वल्ल मुयड सुणेवि सणेहवन्तु
किह रूअइ पजम्पइ काइ वयणु
मुहु सोएं केहड होइ तासु
एव वयणु पजम्पेवि रयणचूलु
विण्णि वि कय-णिच्छय गय तुरन्त

अण्णु वि जाणोवि आसण्ण-मित्तु ॥ १
गय णिय-णिय-णिलयहं सुर असेस ॥ २
पचलिय लक्खणहो विणासु जेव ॥ ३
पेक्खहुं सो काइ करइ अणन्तु ॥ ४
आरूसइ कहो कहिं कुणइ गमणु ॥ ५
केरिसड दुक्खु अन्तेउरासु ॥ ६
अण्णेक्कु वि णामे अमियचूलु ॥ ७
णिविसेण अउज्झा-णयरि पत्त ॥ ८

॥ घत्ता ॥

मायामड वलएवहो भवणो देवहिं कलुणु सहुं गरुड ।
किउ जुवइ-णिवह-धाहा-गहिरु 'हा हा राहवचन्दु मुउ' ॥ ९

[७]

जं हलहर-मरण-सहु णिसुड
'हा काइ जाड फुडु राहवहो'
सहुं वायए जीविउ णिग्गयड
वर-जायरूव-खम्भासियड
अ-णिमीलिय-लोयणु थडु-तणु
तं पेक्खेवि सुरवर वे वि जण
अइलज्जिय पच्छाताव-कय

तं भणइ विसण्णु सुमित्ति-सुड ॥ १
लहु अहु चवन्तहो एव तहो ॥ २
हरि देहहो णं रूसेवि गयड ॥ ३
सीहासणे विथिण्णए थियड ॥ ४
लेप्पमड गाइ थिउ महुमहणु ॥ ५
अप्पड णिन्दन्ति विसण्ण-मण ॥ ६
सोहम्म-सग्गु सहसत्ति गय ॥ ७

॥ घत्ता ॥

सुरवर-मायए विउरुच्चियड परियाणोवि हरि-गेहिं णिहिं ।
आढतु पणय-कुवियइ करेवि सव्वेहिं सुहु सणेहिणिहिं ॥ ८

[८]

तो पासें दुक्क आउल-मणाहं
क वि पणइणि पणएं भणइ एव

सत्तारह सहस-वरङ्गणाहं ॥ १
'रोसाविउ कवणे अक्खु देव ॥ २

6. 1 P आसणु सुवतु, S आसण्णु. 2 P S A °हि. 3 P सड 4 P S किउ गरुड.
5 P S °हु.

7. 1 P एव, S वेव. 2 S सं° 3 P S विच्छि°. 4 A पच्छताव. 5 P T मे°.

[६] १ (P.'s leading) अन्यदपि आसनं मुच्यन्त वासव ज्ञात्वा.- २ सविस्मय.
३ लीसमूहे.

[७] १ सुवर्णः. २ लीभि .

जो कु-मइएँ^१ किउ अवरारु तुज्जु
 सव्भावेँ अगएँ का वि णडइ
 क वि मणहरु वीणा-वज्जु वाइ
 क वि आलिङ्गइ णिवभर-सणेह
 5 क वि कुसुमइँ सीसेँ^२ समुद्धरेवि
 क वि मुहु जोएँवि मलियङ्गवज्जु^३

सो सयलु वि एकसि खमहि मज्जु^४ ॥ ३
 क वि दइयहोँ चलण-यलेहिँ पडइ ॥ ४
 क वि विविह-भेउ गन्धव्वु गाइ ॥ ५
 चुम्बइ कवोलु सोमाल-देह ॥ ६
 तोसावइ सिरें सेहरिकरेवि ॥ ७
 उट्ठावइ किय-कर-साह-भज्जु^५ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

अण्णाउ वि चेट्टुउ बहु-विहउ जुअइहिँ जाउ जाउ कियउ ।
 जिह किविण-लोएँ सिय-सम्पयउ सव्वउ गयउ णिरत्थियउ ॥ ९

10

[९]

तो एँह वत्त णिसुणेविणु रामु
 लक्खणु कुमारु जहिं तहिं पइहु
 'सव्वरेँ(?)विरामेँ^६ ससि-वयण-छाउ
 काकुत्थु पचिन्तइ रणेँ दुसज्जु
 15 तें कज्जेँ ण वि आयउ वि गणइ
 सिरें चुम्बेँवि पभणिउ 'सुन्दरच्छ
 कहेँ काइँ थियउ कट्टमउ णाइँ'
 अवलोइउ पुणु सयलु वि सरीरु

सहसत्ति आउ जणेँ णाय-णामु ॥ १
 बहु-पियहँ मज्जेँ णिय-भाउ दिट्ठु ॥ २
 णिरु णिच्चलु सिरि-परिहरियेँ-काउ ॥ ३
 'मंछुडु लच्छीहरु कुइउ मज्जु ॥ ४
 ण वि काइँ वि अब्भुत्थाणु 'कुणइ' ॥ ५
 किं महु आलावु ण देहि वच्छ ॥ ६
 परियाणिउँ चिण्हेँहिँ मुअउ भाइ ॥ ७
 मुच्छाविउ खणेँ वलएव-वीरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

20 जिह तरुवरु छिण्णउँ मूलेँ तिह महिहेँ पडिउ णिच्चेयणउँ ।
 मरु-हार-णीर-चन्दण-जलेँहिँ हुउ कह कह वि स-चेयणउँ ॥ ९

[१०]

उट्टिउ सोआउरु रहु-त्तणउँ^७
 तं भाउ णिएवि स-णेउरेंण
 25 'हा णाह आउ सइँ दासरहि

वहु-वाह-पिहिय दीणाणणउ ॥ १
 धाहाविउ हरि-अन्तेउरेंण ॥ २
 किं सीहासणहोँ ण ओयरहि ॥ ३

8. 1 P °हे, S °हि. 2 P S A °सि 3 A °गु. 4 S चि°, A वि°.

9. 1 S सव°. 2 S राम. 3 P S °उ. 4 P करइँ, S करइ. 5 P A °उं.
 6 P °उं. 7 A °उं.

10. 1 P A °उं.

[८] १ अहुत्त्यास्फोटनेन

[९] १ प्रभाते २ राम .

[१०] १ असुप्रवाहै आच्छादितमुख २ राम

हा गाहत्याणु समागयहँ
हा गाह पसण्ण-चित्तु हवहि
एत्थन्तरें तिण्णि वि आइयउ
'हा लक्खण पुत्त' भणन्तियउ
तिह आउ खणद्धें सत्तुहणु

सम्माणु करहि णरवर-सयहँ ॥ ४
णिय-पियउ रुअन्तिउ संथवहि' ॥ ५
सुप्पह-सुमिच्छि-अवराइयउ ॥ ६
अप्पउ करयल्लेहिँ हणन्तियउ ॥ ७
णिवडिउ हरि-चलणहिँ विमण-मणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

'हा हा भायरि' णिय-मायरिउ
पइँ विणु धुवुँ जायउ अज्जु महु

धीरहि सोयाउणियउ' ।
दिसउ असेसउ सुणियउ' ॥ ९

[११]

तो हरि-मायरि सुमिच्छि रुअइ
'हा पुत्त पुत्त कहिँ गयउ तुहँ
हा मइँ अत्थाणें णिअच्छियउ
हा काइँ जाउ एँउ अच्छरिउ
हा पुत्त पुत्त सीयाँहवहों
एक्केलउ छडुँवि जेण गउ
एत्थन्तरें सुणेंवि महाउसैहिँ
परियाणेंवि जीविउ देहुँ चलु

गुण सुमरेंवि गरुअ धाह मुअइ ॥ १
हा थिउ विच्छायउ काइँ मुहु ॥ २
एवहिँ जें चवन्तउ अच्छियउ ॥ ३
जें महु णिलक्खण णामु किउ ॥ ४
किं मणें णिविण्णउँ राहवहों ॥ ५
हा पुत्त अजुत्तउ एउ तउ' ॥ ६
असहन्तेंहिँ दुहु लवणङ्कुसैहिँ ॥ ७
जयकारेंवि रामहों पय-जुअलु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

गम्पिणु जिणहरु जहिँ अमियसरु
कइवय-कुमार-णरवरेंहिँ सहुँ

णिवसइ मुणि भव-भय-हरणु ।
वीहि मि लइयउ तव-चरणु ॥ ९

[१२]

लच्छीहर-मरणउँ एकत्तहिँ
एक्केण जि खणेण' मुच्छिज्जइ
भाइ णिएँवि परियद्धिय-मलहरु
'हा लक्खण लक्खण-लक्खद्धिय
पइँ विणु को महु सहुँ गमु सन्धइ

लवणङ्कुस-विओउ अण्णेत्तहिँ ॥ १
विहिँ दुहेहिँ पुणु किं पुच्छिज्जइ ॥ २
पुणु वि पुणु वि धाहावइ हलहरु ॥ ३
पेक्खु केम महु सुअ दिक्खद्धिय ॥ ४
को सीहोयरु समरें णिवन्धइ ॥ ५

2 P S °र 3 A °उ 4 S अघारउ 5 P सुन्निअउ

11. 1 P थियउ, S थियउ. 2 A अच. 3 P S सीराउहहो. 4 P °उ 5 P S °ह.

6 A लइउ तवचरणु.

12. 1 P A °उ. 2 P एक्कु तहे. 3 P S खणे खणे 4 P मुच्छिज्जइ, S मुच्छियइ.

5 P वि, S वि कि 6 P मुच्छिअइ, S पुच्छियइ. 7 A पारिअहिय°.

[१२] १ शोक

पउ० च० ३४

पइँ विणु को महु पेसणु सारइ
पइँ विणु वालिखिल्लु को धारइ
पइँ विणु को भञ्जइ धरणीधरु

वज्जयणु णरवरु साहारइ ॥ ६
को तं रुद्धुत्ति विणिवारइ ॥ ७
धरइ अणन्तवीरु को दुद्धरु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

६ सत्तिउ अरिदमण-णराहिवहों पञ्च पडिच्छेँवि सइँ समरें ।
पइँ विणु लक्खण खेमञ्जलिहें कहों लग्गइ जियपउम करें ॥ ९

[१३]

हा लक्खण पइँ विणु गुणहराहें उवसग्गु हरइ को मुणिवराहें ॥ १
पइँ विणु अ-किलेसैं भुवणें कासु करें लग्गइ असिवरु सूरहासु ॥ २
१० पइँ विणु को हेँलँए गरुअ-धीरु विणिवायइ सम्बुकुमारु वीरु ॥ ३
पइँ विणु संदरिसिय^१ बहु-वियारु को परियाणइ चन्दणहि चारु ॥ ४
पइँ विणु को जीविउ हरइ ताहें तीहि मि तिसिरय-खर-दूसणाहें ॥ ५
पइँ विणु को धीरइ^२ पमय-सत्थु को कोडि-सिलुद्धरणहुँ समत्थु ॥ ६
पइँ विणु लङ्गा-णयरिहें समीवें को जिणइ हंसरहु हंस-दीवें ॥ ७
१५ पइँ विणु को इन्दइ धरइ भाइ को रावण-सत्तिएँ समुहु थाइ ॥ ८
पइँ विणु कहों आवइ^३ किय-विसल्ल दिवसयरें अणुद्वन्तएँ विसल्ल ॥ ९
पइँ विणु उप्पज्जइ कहों रँहङ्गु को दरिसइ वहरुविणिहें भङ्गु ॥ १०
पइँ विणु कियन्तु को रावणासु को सिय-दायारु विहीसणासु ॥ ११

॥ घत्ता ॥

२० पइँ विणु मणिदु महु भाइणर को मेलवइ पिय-घरिणि ।
पालेसइ णिरु णिरुवद्विय को ति-खण्ड-मण्डिय धरणि ॥ १२

[१४]

हा तवहों विगय महु पुत्त वे वि लच्छीहर भग्गिणु आउ लेवि ॥ १
हा मुएँ मच्छरु लहु पालिएँल वइइ अणगार-मुणिन्द वेल ॥ २
२५ हा किं महु उवरि^१ पणहु णेहु हा जणु संथवहि रूवन्तु एहु ॥ ३
इहँ चक्केँ जें हउ वइरि-चक्कु सो विसहहि केव कियन्त-चक्कु ॥ ४

8 P S ची०.

13. 1 P S A °दु. 2 P S लीलइ

3 A दरिसिय कोवहु.

14. 1 P S °रे. 2 P S °प

[१३] १ चरित्रम् २ सुग्रीवादिकम् ३ अन्यस्य कस्यागच्छति. ४ कृतो विसल्लो यया विमत्त्या ५ चक्रम

[१४] १ गत्वा. २ जला=पृथ्वी

हा काँ करमि संचरमि केत्थु
णिडुहइ जेम भायर-विओउ
ण वि गिम्ह-याँ खर-दिणयरो वि
हा उज्जाउरि-पायारु खसिउ

ण वि तं पएसु सुहु लहमि जेत्थु ॥ ५
तिह ण वि विसु विसमु ण पिसुणु लोउ ॥ ६
ण वि पज्जालिउ वइसाणरो वि ॥ ७
इक्खुक्क-वंस-मयरहरु सुसिउ' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

पुणु आलिङ्गइ चुम्बइ पुसइ अङ्कें थवेप्पिणु पुणु रुवइ ।
जीविण्ण वि मुक्कउ महुमहणु रामु सणेहें ण वि मुयँइ ॥ ९

[१५]

लक्खण-गुण-गण मणें सुमरन्तें
रुणु अउज्जा-जणें असेसैं
रुणु-सल्लसुन्दरिँ विसालँ
रुणु रयणचूलँ वणमालँ
रुणु सच्चसिरि-जयसिरि-सोमैहिँ
रुणु कमलोयण-ससिमुहियहिँ
रुणु अणेयहिँ वन्धव-सयणैहिँ

दसरह-जेट्ट-सुएण रुवन्तें ॥ १
अवराइँ सुप्पहँ विसेसैं ॥ २
रुणु विसल्लँ तिह गुणमालँ ॥ ३
तिह कल्लणमाल-गामालँ ॥ ४
दहिमुह-सुअ-गुणवइ-जियपोमैहिँ ॥ ५
ससिवद्धण-सीहोयर-दुहियहिँ ॥ ६
खणें खणें विहिँ दिण्ण-दुच्चयणैहिँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

जसु सोएँ मुक्कल मुक्क-सर सँ जय-सिरि लच्छि वि रुवइ ।
तहँ उज्जाउरिहँ कमागएँहिँ को वि ण गरुअ धाह मुअइ ॥ ८

[१६]

तो दस-दिसु पसरिय एह वत्त
सयल वि स-कलत्त स-पुत्त आय
ससिवद्धण-तार-तरङ्ग-जणय
कोलाहल-इन्द-महिन्द-कुन्द
ससिकर-णल-णील-पसण्णकित्ति
सयल वि अंसुअँ-जल-भरिय-णयण
वलएवहों चलणहिँ पडिय केवँ

सहसा विज्जाहरवरहँ^१ पत्त ॥ १
सुग्गीव-विहीसण-सीहणाय ॥ २
स-विराहिय गवय-गवक्ख-कणय ॥ ३
दहिमुह-सुसेण-जम्बव-समुह ॥ ४
मय-सङ्ग-रम्भ-दिवसयर-जोत्ति ॥ ५
तुहिणाहय-कमल-विवण्ण-णयण ॥ ६
तइलोक-गुरुहँ गिन्वाण जेवँ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

अवलोइउ पुणु असहन्तएँहिँ चक्काहिउ सम्पत्तु खउ ।
विगय-प्पहु दर-ओणल-सिरु णं किउ केण वि लेप्पमउ ॥ ८

3 P सुवइ.

15 1 P S णित्तु.

16 1 A विज्जाहर आय. 2 A गय°. 3 P S अंसुज्जल°

[१७]

तं णिँएवि सुमिन्ता-तणउ तेहिं
 'हा हा कालहों णिहाण-पाल
 हा हा कहें पेसणु किं पि गाह
 5 हा हा जण-मण-जणियाणुराय
 हा हा सामिय जय-सिरि-णिवास
 हा हा सामिय सव्वोवयारि
 हा सामिय तुह दय-रिणु इमेण
 तें कज्जे किं एँउ जुत्तु तुज्जु

10

तें कलुणारावें णरवरहें

वणसइउ णइउ मह-जलहि

दस-दिसि कण्णउं सुरवर वि ।

गिरि रोवाविय वर विसहर वि^३ ॥ ९

[१८]

अप्यउ सन्थविउ विहीसणेण
 15 'परिसेसहि देव महन्तु सोउ
 ण वि एक्कहों एयहों 'अन्तकरणु
 जीवहों' भव-गहणें ण का वि भन्ति
 उप्पत्ति जेव तिह धुवु विणासु
 कइउ वि अम्हेहिं तुम्हेहिं एव
 20 जइ जीव-रासि आवइ ण जाइ
 जइ मरणु णाहिं भो रामयन्द
 कहिं भरह-पमुह चक्कवइ पवर

पुणु पभणिउ राहवचन्दु तेण ॥ १
 कासु ण भुवणन्तरेँ हुउ विओउ ॥ २
 सव्वहों वि जणहों जर-जम्म-मरणु ॥ ३
 चञ्चलइँ सरीरइँ होन्ति जन्ति ॥ ४
 किं रोवहि कारणें लक्खणासु ॥ ५
 पहु गमणु करेवउ एण जेव ॥ ६
 तो मेइणि-मण्डलें केत्थु माइ ॥ ७
 तो कहिं गय कुलयर जिणवरिन्द ॥ ८
 कहिं रुद-कण्ह-वलएव अवर ॥ ९

॥ वत्ता ॥

एउ जाणेंवि सयलागम-कुसल
 25 ज्ञायहि स य म्भु तइलोक-गुरु

वयणु महारउ मणें धरहि ।

दुहु दु-कलत्तु व परिहरहि' ॥ १०

*

इय पोमचरिय-सेसे
 तिहुअण-सयम्भु-रइए

सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
 हरि-मरणं णाम पव्वमिणं ॥

17. 1 A एक्केण 2 P A °उ. 3 P °हरेहिं, S हरेहि.

18. 1 P °ह

[१७] १ समुद्रावर्तधनुष्यवारक.

[१८] १ यम.

वन्दइ-आसिय-कइराय-
पोमचरियस्स सेसे
तिहुअण-सयम्भु णवरं
पउमरियस्स चूलामणिव्व

तणय-तिहुअण-सयम्भु-णिम्मविण
सत्तासीमो इमो सग्गो ॥
एक्को कइराय-चक्किणुप्पण्णो ।
सेसं कयं जेण ॥

*

[८८. अट्टासीमो संधि]

तहिं अवसरें सिरसा पणवन्तेहिं वल्लु विण्णविउ सयल-सामन्तेहिं ।
'परमेसर उवसोह समारहों' लच्छीहर-कुमारु संकारहों' ॥ ध्रुवकं ॥

[१]

पभणइ सीराउहु इय वयणेंहिं
डज्जउ माय-वप्पु तुम्हारउ
उट्ठि जाहुँ^५ लक्खण लहु तेत्तहें
एवें चवेंवि चुम्बेंवि आलावेंवि
गउ वलएउ अण्णु थाणन्तरु
'भाइ विउज्जहि केत्तिउ सोवहि
पुणु पीढोवरि थवेंवि 'णवम्हेहिं
पुणु भूसइ मणि-रयणाहरणेंहिं
पुणु वोळइ 'समाणु सूयारहों
तेण वि वित्थारिउ 'हरि-परियल्लु
ण वि अहिलसइ ण पेक्खइ लक्खणु

'डज्जहों' तुम्हेहिं सहं णिय-सयणेंहिं ॥ १
होउ^४ चिराउसु भाइ महारउ ॥ २
खल-वयणइ सुव्वन्ति ण जेत्तेहें' ॥ ३
वासुएउ णिय-खन्धें चडावेंवि ॥ ४
पइरुँ^३ तुरन्तु पवर-मज्जणहरु ॥ ५
ण्हाण-वेल परिल्लहसिय ण जोयहि' ॥ ६
अहिसिञ्चइ वर-कञ्चण-कुम्भेंहिं ॥ ७
ससहर-तवण-तेय-अवहरणेंहिं ॥ ८
'भोयण-विहि लहु करहों कुमारहों' ॥ ९
देइ पिण्ड मुहें मणें मोहिउ वल्लु ॥ १०
जिण-वयणु व अ-भव्वु अ-वियक्खणु ॥ ११
॥ घत्ता ॥

तहों आयइँ अवरइँ वि करन्तहों
भाइ-विओय-जाय-अइ-खामहों

णिय-खन्धें हरि-मडउ वहन्तहों ।
अद्दु वरिसु वोलीणउँ रामहों ॥ १२

[२]

तो ताव एउ वइयरु सुणेवि
खर-दूसण-रावण सम्भरेवि

लच्छीहर-मरणउँ मणें मुणेवि ॥ १
सम्बुक्क-वइरु णिय-मणें धरेवि ॥ २

1. 1 P S °मं. 2 P °हु, S A °हु 3 P S A हु 4 P S होड 5 P S जाहु, A
जाह. 6 P S A °हु 7 P °भवणु, S °वणु 8 P °उं.

2. 1 P A °उ.

परियाणैवि रहुवइ सोय-गहिउ
 सामरिस-खयर-णरवर-णित्त
 णहँ वज्जमालि-रयणक्ख-पमुह
 'मरु छिन्दहुँ अज्जु कुमार-सीसु
 ६ जं लइउ खग्गु चिरु सूरहासु
 जं खर-दूसण-तिसरयहँ मरणु

णीसेस 'सेण-वावार-रहिउ ॥ ३
 आइय वहु इन्दइ-सुन्द-पुत्त ॥ ४
 वलइय-कियन्त-धणु-भीम-पमुह ॥ ५
 वहु-कालहों संभाइउ हवीसु ॥ ६
 जं सम्बुकुमारहों किउ विणासु ॥ ७
 किउ अक्खय-रावण-पाण-हरणु ॥ ८
 ॥ घत्ता ॥

जं वहु-ठाएँहिँ अम्हहँ अणुदिणु दिण्णु अणन्तरु वइरु महा-रिणु ।
 तं सयलु वि मेलेँवि णिय-बुद्धिँए फेडहुँ अज्जु सव्वुँ सहँ विद्धिँए' ॥ ९

10 तो सुणैवि आय 'रिवु राहवेण
 रहँ चडेवि थविउ उच्छङ्गँ भाइ
 एत्थन्तरँ जे भाहिन्द पत्त
 ते तक्खणँ आसँण-कम्प होवि
 15 गुण सुमरँवि सामिहँ भत्ति-वन्त
 'विउरुच्चिउ सुरवर-वलु अणन्तु
 तं पेक्खेँवि हरि-वल रिबु पणट्ट
 वोळइ रयणक्खुँ स-वज्जमालि
 अम्हहिँ सयल वि गलियाहिमाण
 20 किह लङ्क गम्पि सुह-दंसणासु

[३]
 आयामिउं वज्जावतु तेण ॥ १
 जोइय पडिवक्ख जमेण णाई ॥ २
 सुर जाय जडाइ-कियन्तवत्त ॥ ३
 अवहिँए परियाणैवि आय वे वि ॥ ४
 सम्पाइय उज्जाउरि तुरन्त ॥ ५
 'मरु वलहों वलहों दुक्कहों' भणन्तु ॥ ६
 लङ्गन्ति दिसउ णं हरिण तट्ट ॥ ७
 'दुहु को व ण पावइ किय-दुवालि ॥ ८
 णिल्लज्ज दुट्ट दुज्जण अयाण ॥ ९
 पेक्खेसहुँ वयणु विहीसणासु' ॥ १०

॥ घत्ता ॥

एम भणैवि इन्दिउ-दुब्भेयहों गम्पिणु पासँ सुणिहँ रइवेयहों ।
 भव-विरत्त णर-णियरालङ्किय ते सुन्दिन्दइ-सुय दिक्खङ्किय ॥ ११

[४]

25 तो रिबु-भएँ विगयएँ सयलैँ गुण-रयण-सायरेणं
 सेणाणिय-सुरँण राम-वोहण-कियायरेणं ॥ १

2 P S° च्च. 3 P S सुद्धिण्.

3. 1 P °उं 2 P उच्चं, S उच्चमे 3 T सामण°, P S A T °कप 4 P S A °क्ख.

4. 1 P सय.

[२] १ लङ्गीवर मुत्तवाऽन्यत्र समूर्ण-मव्वं-सैन्यादिव्यापाररहित इत्यर्थ. २ T नियुक्त.

३ T खरपुत्र. ४ प्रमुग्घेति नामेदम्

[३] १ शत्रव. २ चतुर्थेसर्गे ३ T आसनकपयुक्त. ४ विकुर्वणा कृत (?)

णिम्मिउ सिञ्चिज्जमाणु सलिलेण सुक्क-रुक्खो
 सम्पत्ते वसन्त-मासे^१ विरहि व्व सुट्ठु सुंक्खो ॥ २
^२ओलमिउ कु-पहु णाई णिप्फलु अदिण्ण-छाओ
 किविणु व सई पत्त-फुल्ल-परिचत्तु समल-काओ ॥ ३
^३वसह-कलेवर-जुअम्मि हलु थवेवि ण-किय-खेवो
 वाहइ^४ 'पक्खिरइ वीउ सिलवट्ठे वीय-देवो ॥ ४
^४रोवइ पाहाँणे कमल-उप्पल-णिहाउ पवरो
 पविरोलइ मन्थणीएँ पाणिउ 'कियन्त-अमरो ॥ ५
 पुणु पीलइ वालुआएँ घाणउँ जडाइ-णामो
 अत्थ-विरुद्धाई ताई अवरइ मि णिएँवि रामो ॥ ६
 पभणइ 'भो भो अयाण तुहुँ मूढ णिय-मणेणं
 किं सलिलहोँ करंहि हाणि जर-रुक्खे-सिञ्चणेणं ॥ ७
 माँयासँहि पियर मडय-जुअले य वीय-सीरे
 ण वि लोणिउँ होइ परिमन्थिए वि णीरे (?) ॥ ८
 वालुअ-परिपीलणेण तेहोवलद्धि कत्तो
 इच्छिय-फलु किं वि णत्थि आँयासु पर महन्तो' ॥ ९

॥ घत्ता ॥

तो बुच्चइ कियन्त-गिच्च्याणेँ 'तुहु मि एउ परिवज्जिउ पाणेँ ।
 वहहि सरीरु जेण अविस्सिद्धउ कहेँ फलु काई एँत्थु पई दिट्ठउ' ॥ १०

[५]

तं णिसुणेँवि वयणु णीसामेँ हरि अवरुण्डेँवि बुच्चइ रामेँ ॥ १
 'किं सिरि-णिलउ कुमारु दुगुच्छहि जइ ण मुणहि तो 'सेरउ अच्छहि ॥ २
 केत्तिउ चवहि अणिट्ठु अमङ्गलु दोसु पढुक्कई तउ पर केवलु' ॥ ३
 जम्पइ जाव वयणु इउ हलहरु ताव लएविणु सुहउ-कलेवरु ॥ ४
 आउ जडाइ वहन्तउ खन्धेँ वुत्तु वलेण भाइ-सोअन्धे ॥ ५

2 A दुक्खो. 3 P S पहाणे 4 P A °उ 5 P S करे° 6 P °क्के, S °क्के. 7 P S णासहि.
 8 P °उं. 9 P एउ, S यउ.

5. 1 P S पढुक्कं

[४] १ वियोगी इव उत्कृष्टगुरु २ सेवितो कुञ्चिन (?) नृपति निष्फलो भवति ३ वृषभौ
 युगे योक्त्रितौ. ४ विस्तरति ५ पापाणे कमलसमूह रोपति ६ कृतान्तवक्त्रवरदेव. ७ T मा
 खेद कुरुष्व ८ वीजहलौ ९ सेद.

[५] १ मौनेन

गेह-वसेण विवज्जिय-रज्जेँ एँहु णर-देहु वहहि किं कज्जेँ' ॥ ६
 तेण चविउ 'मइँ किर किं पुच्छहि अप्पाणउँ किर काइँ ण पेच्छहि ॥ ७
 जिह हउँ तेम तुहु मि मणँ मूढउ अच्छहि खन्धेँ कलेवर-वूढउ ॥ ८
 'पइँ पेक्खेप्पिणु महु अणुरुवउ मणँ परिअद्धिउ गेहु गरूअउ ॥ ९

5

॥ घत्ता ॥

भो भो मइँ-पमुहँ चिरु जायहँ तुहँ राणउँ सव्वहु मि पिसायहँ ।
 'आउ दुइ वि मह-मोह-व्वभन्ता हिण्डुँ गहिलउ' लोउ करन्ता' ॥ १०

[६]

इय वयणेँहि हलि-वल-पउम-णामु अइलज्जिउ सिद्धिलिय-मोहु रामु ॥ १
 10 सहसा हुउ वियसिय-कमल-णयणु परिचिन्तहुँ लग्गु जिणिन्द-वयणु ॥ २
 जं दुक्खिय-कम्मइँ खयहोँ णोइ जं अविचल-सासय-सुहइँ देइ ॥ ३
 'हउँ गेह-वसइउउ पेक्खु केव जाणन्तो वि अच्छमि मुक्खु जेम ॥ ४
 धण्णउ तिहुअणेँ अणरण-राउ जो छिन्देँवि' मोहु मुणिन्दु जाउ ॥ ५
 धण्णउ दसरहु चिरु जासु झत्ति कञ्जुइ पेक्खेप्पिणु हुअ विरत्ति ॥ ६
 15 धण्णउँ भरहु वि जेँ चत्तु रज्जु 'वोइहेँण वि किउ परलोय-कज्जु ॥ ७
 धण्णउँ सेणाणि कियन्तवत्तु जेँ मुणेँवि अणागय(?) लइउ तत्तु ॥ ८
 धण्णी सीय विहय-कुगइ-पन्थं ण वि दिट्ठु जाएँ एही अवत्थ' ॥ ९
 धण्णउँ हणुवन्तु वि जो गरूवेँ ण वि णिवडिउँ इय-मोहन्ध-कूवेँ ॥ १०
 धण्णा लवणङ्कुस हरि-सुआ वि जे दिक्खालङ्किय णव-जुवा वि ॥ ११

20

॥ घत्ता ॥

हउँ 'घइँ पुणु पाँएण 'गएण वि अण्णु वि लच्छीहरेंण मएण वि ।
 करमि काइँ वि अप्प-हियत्तणु कहां णिय-कज्जेँ ण होइ 'वढेँत्तणु' ॥ १२

[७]

पुणु पुणु रहुकुल-गयणयल-चन्दु परिचिन्तइ हियवएँ रामचन्दु ॥ १
 25 'लव्वभन्ति कलत्तइँ मणहराइँ छत्तइँ लव्वभन्ति स-चामराइँ ॥ २

2 P S °उ 3 A °वूढउ 4 P °उ 5 P हिउह, S हिँड, A हिडह. 6 P S गहिलउ. ;
 6. 1 P S °लु 2 P °सु. 3 P S °लु 4 P S छिदिवि, A छडिवि 5 P उ. 6 A
 गोहु°, P S वोहु° 7 P S वि पुणु कियत्तु. 8 P S A मुणि°. 9 P S °थु. 10 P S °हु.
 11 P S °थु. 12 A पडिउ 13 S पावेण. 14 P वडु°, S वडु°.

२ त्वया अवलोक्य मय्य अनुरूपो जात (१) ३ द्वौ अह त्वं महामो भ्रान्ता भ्रमतौ प्रथिलौ भवत*.

[६] १ यौवनेन, T तारुप्येन. २ अनागतम् ३ इदानीम् ४ यौवनावस्थया, T युवावस्था-
 याम् ५ सुगधत्वम्.

लब्भइ बहु-बन्धव सयण-सत्थु लब्भइ 'अणाय-परिमाणु अत्थु ॥ ३
लब्भन्ति हत्थि रह तुरय पवर अइ-दुल्लहु वोहि-णिहाणु णवर' ॥ ४
परियाणोवि वलु पडिवुज्जु एव णिय-रिद्धि वे वि दरिसन्ति देव ॥ ५
सुरवहु-सङ्गीउ सुअन्ध-पवणु जम्पाण-विमाणोहिं छण्णु गयणु ॥ ६
'अहो रहवइ किं गय-दिण-सुहेण' तेण वि पवुत्तु वियसिय-मुहेण ॥ ७
'चिरु पुण्ण-विहणहो मज्जु एत्थु मणो मूढहो णि' विसु वि सोक्खु केत्थु ॥ ८
इय मणुय-जम्मो पर कुसलु ताहँ जिण-सासणो अविचल भत्ति जाहँ ॥ ९

॥ घत्ता ॥

अण्णु वि णिसुणहो कहमि विसेसें ताहँ कुसलु ते मुक्क किलेसें ।
चत्त परिग्गह वयहिं अलङ्किय जे जिण-पाय-मूले दिक्खङ्किय' ॥१० १०

[८]

पुणरवि एव वुत्तु 'काकुत्थे' 'के तुम्हे अक्खहो परमत्थे ॥ १
के कज्जे इय रिद्धि पगासिय रिवु-साहणहो पयत्ति विणासिय' ॥ २
सरहसु एकु पजम्पिउ सुरवर 'किं सामिय वीसरियउ णहयरु ॥ ३
तुज्जु पइट्ठहो चिरु दण्डय-वणे जो अल्लीणु महारिसि-दंसणे ॥ ४
तुहँ घरिणिँ जो लालिउ तालिउ 'णियय-सरीरुवभवु जिह पालिउ ॥ ५
सीयाहरणे समुद्धेवि गयणहो जो अन्भिडिउ आसि दहवयणहो ॥ ६
जासु मरन्तहो सुह-वह्वारिय पइँ णवकार पञ्च उच्चारिय ॥ ७
तुज्जु पसाएँ रिद्धि-पसण्णउं सुरु माहेन्द-सग्गे उप्पण्णउं ॥ ८

॥ घत्ता ॥

जो अच्चन्त आसि उवयारिउ भव-सायरेँ पडन्तु उद्धारिउ ।
हउँ सो देउँ जडाइ महाइउ पडिउवयारु करेवएँ आइउ' ॥ ९

[९]

तो ताव कियन्त-देउ चवइ 'किं मइँ वीसरिउ णराहिवइ ॥ १
जो सेणावइ तउ होन्तु चिरु लल्लक-महारण-सएँहि थिरु ॥ २
जो पेसिउ पइँ सहँ भायरहो सत्तुहणहो समरेँ कियायरहो ॥ ३

7. 1 A अणेय°. 2 P S णिव°

8 1 P तुम्हेइ, 8 तुम्हेइ. 2 P S तुहु, A दुह. 3 A उँ. 4 P उप्पसण्णउं, A उप्प-
ण्णउं 5 P A देव.

[७] १ अजातप्रमाणम

[८] १ रामेण २ स्वपुत्र इव ३ उपकार कृतो यस्य मम.

पउ० च० ३५

जें वेहेंवि महुर पलम्ब-भुउ
 जसु केवलि-पासँ गिरन्तरइँ
 परियाणेंवि चउ-गइ-भवण-डरु
 जो पइँ पभणिउँ “अवसरु मुणेंवि
 5 सो हउँ किय-घोर-तवच्चरणु
 अवहिणँ परियाणेंवि हरि-मरणु
 इह आयउ अक्खहि किं करमि
 तें वयणु सुणेप्पिणु चवइ वलु
 अप्पउ दरिसिउ रिद्धीएँ सहुँ
 10 इय वयणेंहि ते परितुइ मणें

‘हउ लवण-महणणउँ महुहँ सुउ ॥ ४
 आयणेंवि तुम्ह-भवंन्तरइँ ॥ ५
 सहसा वइराउ जाउ पवरु ॥ ६
 वोहिज्जहि मइँ आयँरु कुणेंवि” ॥ ७
 माहिन्देँ जाउ सुरु दिव्व-तणु ॥ ८
 अणु वि उद्धाइउ वइरि-गणु ॥ ९
 तउ सव्व-पयारें उवगरमि’ ॥ १०
 ‘हउँ वोहिउ भग्गु अराइ-वलु ॥ ११
 ण पहुच्चइ एण जें काइँ महु’ ॥ १२
 गय सग्गहों सुरवर वे वि खणें ॥ १३

॥ घत्ता ॥

पुणु परिहरेंवि सोरँ सङ्खेवें

अट्टमु वासुएउ वलएवें ।

णिय-खन्धहों महियलें ओयारिउ सरऊ-सरिहें तीरें संकारिउ ॥ १४

[१०]

15 तं डहेंवि सहत्थें महुमहणु
 ‘लइ वच्छ सहोयर रज्जु करें
 हउँ सयलु परिग्गहु परिहरेंवि
 तं सुणेंवि चवइ महुराहिवइ
 परियाणेंवि णिच्छउ तहों तणउ
 20 तहों सिरें विणिवच्चु पड्डु पवरु
 गम्पिणु विणिहँय-चउगइ-णिसिहें
 परिसेसँवि मोहु गुणवभइउ

पुणु पभणिउ रामें सत्तुहणु ॥ १
 रहु-कुल-सिरि-णव-वहु धरहि करें ॥ २
 तउ लेमि तवोवणु पइसरेंवि’ ॥ ३
 ‘जा तुम्हहँ गइ सा महु वि गइ’ ॥ ४
 अवलोइउ सुउ लवणहों तणउँ ॥ ५
 सहसत्ति समप्पिउ रज्ज-भरु ॥ ६
 सुव्वयहों पासँ चारण-रिसिहें ॥ ७
 उप्पणण-वोहि वलु पव्वइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो गिवाणेंहि दुन्दुहि ताडिय

कुसुम-विट्ठि गयण-यलहों पाडिय ।

25 सुरहि-गन्ध-मारुउ खणें आ(?)इउ

तूर-महारउ जगें जें ण माइउ ॥ ९

[११]

मेळेंवि राय-लच्छि वियसिय-मुहु

णिय-सन्ताणें ठवेंवि णिय-तणुरुहु ॥ १

9 1 P °उ. 2 P सायर, A भायर 3 P S माहिदु 4 A सो

10 1 P S क° 2 P S सुणिवि, A णिसुणिवि 3 P °उ. 4 P S °हि°

[९] १ हत

[१०] १ गत्ता.

सत्तुहणु वि स-भिञ्चु रिसि जायउ वज्जजङ्घु णिय-भज्ज-सहायउ ॥ २
लङ्कहँ णिय-पएँ थवेँवि सु-भूसणु सहँ 'तियडएँ पव्वइउ विहीसणु ॥ ३
णिय-पउ अङ्गय-तणयहँ देप्पिणु सुग्गीवु वि थिउ दिक्ख लएप्पिणु ॥ ४
तिह णल-णील सेउ ससिवद्धणु तारु तरङ्गु रम्भु रइवद्धणु ॥ ५
गवउ गवक्खु सहु गउ दहिमुहु इन्दु महिन्दु विराहिउ दुम्भुहु ॥ ६
जम्भउ रयणकेसि महुसायरु अङ्गउ अङ्गु सुवेले गुणायरु ॥ ७
जणउ कणउ ससिकिरणु जयन्धरु कुन्दु पसण्णक्कित्ति वेलन्धरु ॥ ८
इय अवर वि जिण-गुण सुमरन्ता सोलह सहस पहुँहँ णिक्खन्ता ॥ ९

॥ घत्ता ॥

हरि-वल-मायरि-सुप्पह-पमुहँहँ सुग्गइ-गमण-परिद्धिय-समुहँहँ ।
पव्वइयइँ जगेँ णाम-पगासइँ जुवइहिँ सत्ततीस सहासइँ ॥ १०

[१२]

सो राम-महारिसि विगय-णेहु छणदिण-ससहर-कर-धवल-देहु ॥ १
उद्धरिय-महव्वय-गरुअ-भारु मय-वइरि-णिवारणु पहय-मारु ॥ २
वारह-विह-दुद्धर-तव-णित्तु परिह-परिसहणु ति-गुत्ति-गुत्तु ॥ ३
गिरि-सिहरेँ परिद्धिउ एक-झाणु सव्वरि-उप्पाइय-अवहि-णाणु ॥ ४
परियाणिय-हरि-उप्पत्ति-थाणु सुमरिय-भव-भय-कय-गुण-णिहाणु ॥ ५
विहडिय-दिढ-दुक्किय-कम्म-पासु अइकन्त-पवर-छट्ठोववासु ॥ ६
विहरन्तु पत्तु धण-कणय-पवरु सन्दणथलि-णामु पइडु णयरु ॥ ७
तहिँ पाराविउ णामिय-सिरँण भत्तिएँ पडिणन्दि-णरेसरँण ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहँ सुर-दुन्दुहि साहुक्कारउ गन्ध-वाउ वसु-वरिसु अपारउ ।
कुसुमञ्जलिँ समउ वित्थरियइँ 'अत्थक्कएँ पञ्च वि अच्चरियइँ ॥ ९

[१३]

पुणु पहुँहँ अपोयइँ वयइँ देवि तं सन्दणथलि-पट्टणु एवि (?) ॥ १
विहरइ मंहियलँ वल्लु-मुँणिवरिन्दु णं आसि पहिल्लउ जिण-वरिन्दु ॥ २

11. 1 A °उ 2 P S °णु

12. 1 P °उ

13. 1 A महि महियले 2 A °मुणिट्टु

[११] १ त्रिजटाभगिनीसह

[१२] १ वेगेन । आकस्मिकम्.

तव-चरणु चरइ अइ-घोरु वीरु ^१सहसउणु पवहुइ हियँ धीरु ॥ ३
 गय-मासाहारिउ मयवइ व्य सव्वोवरि सीयलु उँडुवइ व्य ॥ ४
 रस-रहिउ हीण-णट्टावउ व्य पर-भवण-णिवासिउ पँणउ व्य ॥ ५
^२मोक्खहँ अइ-उज्जउ ^३लोद्धउ व्य पयलिय-मय-विन्दु महागउ व्य ॥ ६
^५वहु-दिणँहिं भँसेवि महियलु असेसु सम्पाइउ कोडि-सिला-पएसु ॥ ७
 मुणिवरहँ ^४कोडि जहिं आसि सिद्ध जा तित्थ-भूमि तिहुअणँ पसिद्ध ॥ ८
 उद्धरिय-भुएँहिं जा लक्खणेण तहँ देवि ति-भामरि तक्खणेण ॥ ९
 ॥ घत्ता ॥

^{१०} उवँरि चडेवि पलम्बिय-वाहउ णं तरुवरु गिरि-सिहरँ स-साहउ ।
 सुग्गीवाइ-मुणिन्द-गणेसरु थियउ ज्ञायन्तु स य म्भु-जिणेसरु ॥ १०

*

इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह वि उवरिए ।
 तिहुअण-सयम्भु-रइए राहव-णिक्खमण-पवमिणं ॥
 वन्दइ-आसिय-कइराय-चक्कवइ-लहु-अङ्गजाय-वज्जरिए ।
 रामायणस्स सेसे अट्टासीमो इमो सग्गो ॥

*

15

[८९. णवासीमो संघि]

वायरण-दह-क्खन्धो आगम-अङ्गो पमाण-वियड-पओ^१ ।
 तिहुअण-सयम्भु-धवलो जिण-तित्थे वहउ कव्व-भरं ॥

*

तो अवहिँ जाणँवि तेत्थु राहउ मुणि थियउ ।
 अच्चुय-सग्गहँ सीएन्दु तक्खणँ आइयउ ॥ ध्रुवकं ॥

20

[१]

पियय-भवन्तराँ सुमरेप्पिणु जिण-धम्महँ वि पहाउ मुणेप्पिणु ॥ १
 चिन्तइ तक्खणँ अच्चुअ-सुरवइ 'एँहु सो मँ मणँ जाणिउ रहुवइ ॥ २
 जो मणुअत्तणँ कन्तु महारउ जसु चक्कवइ भाइ लहुआरउ ॥ ३
 सो गउ णरयहँ णेहँ छइयँउ एहु वि तहँ विओँ पव्वइयँउ ॥ ४

३ P A °ह, S °हो 4 P उअरे, S उअरि. 5 P °उं. Puspikā . 1 SA °वण°.

1. 1 P S A °उ. 2 P छइउ, S छायउ, A रइयउ 3 P S A पव्वइउ.

खवय-सेठि आरूढहों आयहों
जिह मणु टलइ ण होइ पहाणउ^४
जिह वइमाणिउ जायइ सुरवरु
पुणु तें सहँ भमेवि अहिणन्देवि
पञ्च वि मन्दर णवेंवि सुरोहएँ
पुत्तु सुमित्तहँ णरयहो होन्तउ^९
पुणु तइलोक-चक्क-जस-भामें^१

तिह करेमि इह ज्ञाण-सहायहों ॥ ५
धवलज्जल-वर-केवल-णाणउँ ॥ ६
मित्तु मणिट्टु मञ्जु मणि-गण-धरु ॥ ७
सव्वइँ जिण-भवणइँ जगें वन्देवि ॥ ८
जामि दीवु णन्दीसरु सोहएँ ॥ ९
आणेंवि लद्ध-वोहि-सम्मत्तउ ॥ १०
जम्पमि सुहँ-दुक्खइँ सहँ रामें^{१०} ॥ ११

॥ घत्ता ॥

चिन्तन्तु एम सो देउ
तं कोडि-सिला-यलु पत्तु

आउ णहन्तरेंण ।
^{१०}णिविसव्वभन्तरेंण ॥ १२

[२]

पुणु चउ-पासिउ तहिँ विणु खेवें
जं णवल-पल्लव-सोहिल्लउ
जं बहु-कोमल-कोम्पल-फल-दलु
जं सीयल-मलयाणिल-चालिउ
जं साहार-णियर-मञ्जरियउ
जं सुय-सयइँ(?)सु-किंसुअ-भरियउ
जं दस-दिसि-वह-पसरिय-परिमलु
जं सुरपुर-उज्जाण-समाणउँ

कउ उज्जाणु सयम्पह-देवें ॥ १
जं अल्लल-फुल्ल-रिद्धिल्लउ ॥ २
जं कल-कोइल-कुल-किय-कलयलु ॥ ३
जं चल-महुल्लिह-वलय-वमालिउ ॥ ४
जं कुसुम-रय-पुञ्ज-पिञ्जरियउ ॥ ५
जं बहुविह-विहङ्ग-संचरियउँ ॥ ६
तरु-पवभारन्धारिय-महियलु ॥ ७
मन्दर-णन्दण-वण-अणुमाणउँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तहिँ वियणें महावणें रम्में
सुरु जाणइ-रूवु धरेवि

मन्थरु णाँइँ गउ ।
रामहों पासु गउ ॥ ९

[३]

पुणु णियडन्तरें लीलएँ जाएँवि
'विरहे-वसङ्गइयएँ सुमरन्तिएँ
णिय-पुण्णेंहिँ गरुएँहिँ मणिट्टुउ

एवँ पवोल्लइ अगएँ थाएँवि ॥ १
सग-पएसु असेसु भमन्तिएँ ॥ २
वहु-कालहों केम वि तुहँ दिट्टुउ ॥ ३

4 P A °उ 5 P °गण° collected as °गुण°, A °गणहर 6 A °उ 7 A °भामहो.

8 A सुह. 9 A रामहो. 10 P S णिव °

2. 1 P °अउं 2 P A °उ.

3. 1 P S °गए अइ

[१] १ (P 's leading) बहुगुणरत्नवारक , वहरत्नवारक २ सुराणामोघो यस्या गोभायाम्.

[२] १ T शुक्रशतस्तशब्द २ T गज इव. ३ सीताल्पं कृत्वा

णिविखु वि सहेवि ण सक्कमि राहव दे ^१साइउ णिवूढ-महाहव ॥ ४
 पिय-महुरालावेहि सम्माणहि किं तवेण महु जोवणु माणहि ॥ ५
 णिच्चलु पाहाणु व किं अच्छहि सवडम्महु स-विआरु णियच्छहि ॥ ६
 लइउ पिसाएं ^२जेम अलज्जिउ कालु म खेवहि वत्थ-विवज्जिउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

सो लोयाहाणउ एहु सच्चउ पइँ कियउ
^३सुन्दरु णन्दन्तउ जेम ^३जो णियँ-णिग्गयउ ॥ ८

[४]

हउँ सा सीय तुहुँ जेँ सो रहवइ एह जेँ पिहिमि ते जि इय णरवइ ॥ १
 10 सा जि अउज्झा-णयरि पसिद्धी धण-कण-जण-मणि-रयण-समिद्धी ॥ २
 राउलु तं जेँ ते जि हय-गय-वर पुप्फ-विमाणु तं जेँ ते रहवर ॥ ३
 एउ मइँ-पमुहु सवु अन्तेउरु अवइणणउ मयरद्धय णं पुरु ॥ ४
 भुज्जहि काम-भोय हियइच्छिय छंडुहि ^१लच्छीहर-दुक्खु चियँ ॥ ५
 अणु वि ^३पडम होन्ति अइ-दूसह चउ कसाय वावीस परीसह ॥ ६
 15 पच्च वि इन्दिय सत्त महवभय को विसहइ पुणु अट्ट महा-मय ॥ ७
 जिण-तवचरणु ^३जाइ कहेँ छेयहेँ भज्जेवउ कालेण वि एयहेँ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तो वरि एवहिँ^४ जेँ ण लगु हासउ दिणेहिँ पर ।
 सज्जम-^५भण्डणेँ^५ पइसेवि भग्ग अणेय णर ॥ ९

[५]

महु कारणेँ पइँ आसि चडन्तइँ चावइँ सायर-वज्जावत्तइँ ॥ १
 महु कारणेँ साहसगइ भारिउ किक्किन्धेसरु णिरु उवयारिउ ॥ २
 महु कारणेँ मारुइ पट्टवियउ तेँ वज्जाउहु रणेँ णिट्टवियउ ॥ ३
 महु कारणेँ कोडि-सिलुच्चाइय अणु वि आसाली विणिवाइय ॥ ४
 25 महु कारणेँ भग्गउ णन्दण-वणु घाइउ अक्ख-कुमारु स-साहणु ॥ ५

2 The portion from जेम up to जेम (line 8 c) is omitted in A 3 P °उं.
 4 P S A णिइ.

4. 1 P A °उं 2 P छं°. 3 P चिय, S विय, A च्छिय 4 P S A °हि. 5 P S A °णि.

[३] १ आलिङ्गनम् २ तदत्र कथा । दक्षिणापथे गिरिकूटग्रामे प्रधानपुत्र (T पटफिलस्य पुत्र)
 सुदरनामा । स चिरवर्ती परिलज्ज्य निज-मामपुत्री-निमित्ते वृक्षशाखामालम्ब्य मृतस्तथा त्वमप्युभयप्रदो
 भविष्यसीति ३ निजेभ्यो निर्गत

[४] १ लक्ष्मणहृत्सम् २ T हे राम. ३ प्रमाणं कस्य जात ४ सग्रामे.

महु कारणे रयणायरु लङ्घिउ
परिपेसिउ अङ्गउ महु कारणे
इन्दइ वन्धेवि रणे लेवाविउ

महु कारणे लङ्का-गाहु
ते मइँ सहँ राहवचन्द

तउ पेक्खन्तहो उववणु गइय
तइयहँ विहरन्ती गुण-भरिया
पुणु तेहिँ पवोल्लिउ “दय करहि
जेँ सो भत्तारु तुरिउ वरहँ
तो एत्थन्तरेँ सुरवइ-कियउ
दस-सय-सङ्खउ वरं-भामिणिउ
अण्णउ मणहरु गायन्तियउ
अण्णउ चउदिसैँहिँ णडन्तियउ
कुङ्कुम-चच्चिक्क करन्तियउ

तो विअन्ति(म्भि ?)उ णिम्मल-ज्ञाणु
थिउ णिच्चलु रामु मुणिन्दु

हय-परिसह-वइरि ।
णावइ मेरु-गिरि ॥ १०

[७]

जं केम वि दुरिय-खयङ्गरासु
तं माह-मासेँ सिय-पक्खेँ पवरेँ
चउ-घाइ-कम्म-जिणियावसाणु
खणेँ केवल-चक्खुहेँ जाउ सयलु
सहसा चउ-देव-णिकाउ आउ
कियँ भत्तिँ वन्दण 'जाऽणवज्ज
तो ताव 'सयम्पह-णामु एवि
णविउत्तमङ्गु सो भणइ एव

मणु टलिउ ण राहव-मुणिवरासु ॥ १
वारसि-दिणेँ णिसिहेँ चउत्थ-पहरेँ ॥ २
उपण्णु समुज्जलु परम-णाणु ॥ ३
गोपय-समु लोयालोय-जुअलु ॥ ४
अइ-गरुअ-विहूइँ अमर-राउ ॥ ५
वर केवल-णाणुप्पत्ति-पुज्ज ॥ ६
सीएन्दु केवलच्चण करेवि ॥ ७
'मइँ तुम्हहेँ अण्णाणेण देव ॥ ८

6. 1 P °कत्तेहि, S° कत्तिहि. 2 P समुहउं, S सहमुहउ. 3 P S मण. 4 P S एत्तउ.
5 A प°. 6 P °उ

7. 1 The portion from चउ° up to सयलु (line 4 a) is omitted in A.
2 A °उ.

[७] १ T अनवद्या या. २ सीतेन्द्र .

॥ घत्ता ॥

‘जो अविणय-वन्तें सुट्टु
ते सयल खमेज्जहि सिग्घु

गुरु अवराह किय ।
तिहुअण-जण-णमिय’ ॥ ९

[८]

5 अप्पाणउं गरहँवि सय-वारउ
पुणु पुणु वन्दण-हत्ति करेप्पिणु^२
पडिवोहणहिं^१ पयड्डु सयम्पहु
पुणु अइकमँवि पुढवि-सक्करपहु
तेत्थु को वि कणु जिह कण्डिज्जइ
10 कौ वि सरसुच्छु जेम पीलिज्जइ
कौ वि वलि जिह दस-दिसु घलिज्जइ
कौ वि पिट्टिज्जइ वज्झइ मुच्चइ
कौ वि पुणु डज्झइ रज्झइ सिज्झइ
कौ वि मारिज्जइ खज्जइ पिज्जइ
15 कौ वि पउलिज्जइ को वलि दिज्जइ
को वि कणइ कन्दइ धाहावइ

कह वि खमवँवि रामु भडारउ ॥ १
सोमित्तिहँ गुण-गण सुमरेप्पिणु ॥ २
लङ्कवि पढम-णरउ रयणप्पहु ॥ ३
सम्पाइउ खणेण वालुयपहु ॥ ४
कौ वि पुणु रुक्खु जेव खण्डिज्जइ ॥ ५
तिलु तिलु करवत्तेहिं कप्पिज्जइ ॥ ६
कौ वि मयगल-दन्तेहिं^३ पेलिज्जइ ॥ ७
कौ वि लो^४ट्टिज्जइ रुज्झइ लुञ्चइ ॥ ८
कौ वि णरु छिज्जइ छँज्जइ विज्झइ ॥ ९
कौ वि चूरिज्जइ पुणु मूरिज्जइ^६ ॥ १०
को वि दलिज्जइ को वि मलिज्जइ^७ ॥ ११
को वि पुव्व-रिउ णिणँवि पधावइ ॥ १२

॥ घत्ता ॥

तहिं^१ सम्बुक्कँ हम्मन्तु
गय-पाणि-सवन्त-सरीरु

घोरारुणँ-णयणु ।
दीसइ दहवयणु ॥ १३

[९]

पुणु सम्बुकुमारहँ समउ तेण
‘रे रे खल-भावण असुर पाव

वोलिज्जइ झत्ति सुराहिवेण ॥ १
आढत्तु काँ ँउ दुट्ट-भाव ॥ २

8 1 P उं 2 P S कहि 2 P marginally reads the following passage after this कहि सो लम्पाणु जो चिरु देवरु । जेण सचके मारिउ दससिरु ॥ पभणइ वलु भइ भोयामत्तउ । वालुप्पहणरयह सो पत्तउ ॥ तं णिसुणेविणु हियए धरेप्पिणु । 3 P S A °दतिं. 4 P S को. 5 P S सु° 6 After this P S lead को वि हम्मइ पुणु तेहँ कडिज्जइ । को वि ताधिज्जइ को वि ताडिज्जइ । को वि चूरिज्जइ को वि पाडिज्जइ । 7 After this P S lead को वि धरिज्जइ सूले भरिज्जइ । को वि णरु वेण वि हकारिज्जइ ॥ को वि मोडिज्जइ को वि तोडिज्जइ । को वि पीत्तिज्जइ को वि छोडिज्जइ ॥ 8 P S A °णु.

[८] १ प्रवृत्त चीतन्द्र २ T ‘सबुक्कँ वीमड’ इति गम्बध । सम्बुकुमारेण सुरकुमारभूतेन नरक गत्वा तन्यमानो रामणनारमो दृश्यते इत्यर्थ (१).

अज्ज वि दुरास उवसमु ण होइ
 कूरत्तणु मुएँ करेँ विमल चित्तु'
 उवसम-भावहों सम्बुक्कु दुक्कु
 तो णवरि विमाणोवरि णिएवि
 'को तुहँ केँ कज्जेँ एत्थु आउ'
 'हउँ सा चिरु होन्ती जणय-धीय
 जा 'मत्तेँ' सार रामा-यणासु
 तव-चरण-पहावेँ जाय इन्दु
 तहों कोडि-सिलायलेँ णाणु जाउ

दुहु पत्तउँ अण्णु जि णाईँ कोइ ॥ ३
 तं णिसुणेँवि णं अमिएण सित्तु ॥ ४
 पुणु पुणु वि पवोहइ सीय-सक्कु ॥ ५
 लक्खण-रावण पुच्छन्ति वे वि ॥ ६
 विहसेप्पिणु अक्खइ अमर-राउ ॥ ७
 जा रावण पईँ अवहरेंवि' णीय ॥ ८
 जा जम-दिट्ठि व णिसियर-जणासु ॥ ९
 अण्णु वि दिक्खङ्किउ रामचन्दु ॥ १०
 हउँ पुणु तुम्हहँ वोहणहँ आउ ॥ ११

॥ घत्ता ॥

महु कारणेँ विहि मि जणेहिँ जाईँ महन्ताईँ ।
 भव-सायरेँ कोह-वसेण दुक्खइँ पत्ताईँ ॥ १२

[१०]

कोहु मूलु सव्वहुँ वि अणत्थहुँ
 कोहु विणास-करणु दय-धम्महों
 कोहु जेँ मूलु जग-त्तय-मरणहों
 कोहु जेँ वडरिउ सव्वहों जीवहों
 कोहु विसज्जहों' विसम-सहावहों
 तण्णिसुणेँवि इय वयणाणन्तरेँ
 'किं दय-धम्मेँ ण किय दिहि तइयहुँ
 हा 'हा काइँ' पाउ किउ वड्डुउ'

कोहु मूलु संसारावत्थहुँ ॥ १
 कोहु जेँ मूलु घोर-दुक्कम्महों ॥ २
 कोहु जेँ मूलु णरय-पइसरणहों ॥ ३
 तेँ कज्जेँ अहों हरि-दहगीवहों ॥ ४
 अवरोप्परु मित्तत्तणु भावहों' ॥ ५
 तिण्णि वि ते' उवसमिय खणन्तरेँ ॥ ६
 आसि लद्धु मणुअत्तणु जइयहुँ ॥ ७
 जेँ सम्पाइय दुहु एवइउ ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तुहँ पर धण्णउँ जिय-लोयएँ जेँ छण्डिय कु-मइ
 जिण-वयणामय परिपीयउ जाउ सुराहिवइ' ॥ ९

[११]

तो परिवहिय मणेँ कारुण्णेँ वासवेण 'दुव्वङ्कुरेँ-वण्णेँ ॥ १

- 9 1 A °उं. 2 P S A °रिवि 3 S मत्ति, A मति.
 10. 1 P S A °हु. 2 P S ते विन्नि (S °णिण) वि 3 A हो हो. 4 P S A °हु. 5 A वड्डुउं. 6 P A °उ.
 11. 1 P °कुरं, S °कुं.

[९] १ या मलेँ मनुष्येषु स्त्रीषु मध्ये सारभूता सीता

[११] १ पाण्डुरेण

पउ० च० ३६

सह-परम्पराएँ मम्भीसिय
 'लइ वइइ एत्थहों उद्धारमि
 विणिण वि जण सहसा सोलहमउँ
 एवँ भणेवि लेई किर जावहिँ
 5 जलणें तुप्पु जेम तिह ताविय
 सव्वोवायहिँ भग्गणन्दें
 अह जहिँ जेण जेव पावेवउँ
 तं समत्थु को 'विणिवारेवँएँ
 पुणु वहु-दुक्खाणल-सन्तत्ता

10

'उवएसु दयावर' किं पि
 जें पुणु वि ण पावहुँ एह

'एहु एहु' आलाव पभासिय ॥ २
 दुग्गइ-दुत्तर-तडिणिहें तारमि ॥ ३
 सग्गु पराणमि अच्चुअ-णामउँ ॥ ४
 लोणिउँ जेम विलेंवि गय तावहिँ ॥ ५
 अइ-दुग्गेज्झ दप्पण-छाय व थिय ॥ ६
 केम वि लेवि ण सक्किय इन्दें ॥ ७
 सुहु व दुहु व तिहुअणें भुज्जेवउँ ॥ ८
 कासु सत्ति परिरक्ख करेवएँ ॥ ९
 वे वि चवन्ति एव वेवन्ता ॥ १०

॥ घत्ता ॥

कहें गिन्वाण-वइ ।
 भीसण णरय-गइ' ॥ ११

[१२]

तेण वि पवुत्तु 'जइ करहों^१ वयणु
 15 जं परमुत्तमु तिहुअणें पसिच्चु
 जं कम्म-महणु कल्लाण-तत्तु
 जं कहिउ परम-तित्थङ्करेहिँ
 जं सुन्दरु कालें वोहि देइ
 इय-वयणेंहिँ दूरुज्झिय-भाएहिँ
 20 गउ सीया-हरि वि 'स-सङ्कु तेत्थु
 समसरणव्भन्तरें पइसरेवि

तो लेहु तुरिउ सम्मत्त-रयणु ॥ १
 अइ-दुल्लहु पुण्ण-पवित्तु सुच्चु ॥ २
 दुग्गेउ अभव्वहें भव-भयन्तु ॥ ३
 परिपुज्जिउ सुर-णर-विसहरेहिँ ॥ ४
 सासय-सिव-थाणु पहाणु णेइ' ॥ ५
 सम्मत्तु विहि मि 'पडिवणु तेहिँ ॥ ६
 वलएउ स-केवल-णाणु जेत्थु ॥ ७
 भत्तिएँ पुणु पुणु वन्दण करेवि ॥ ८

॥ घत्ता ॥

बोलणहुँ लग्गु 'महु होहि
 तिह करें परिच्छिन्दमि (?)

परमेसर-सरणु ।
 जेम जँरा-मरणु ॥ ९

[१३]

तुहुँ पर एक्कु वियहु वियहुहुँ

सूरहुँ सूरु गुणहु गुणहुहुँ ॥ १

2 PA °उ 3 A °उ 4 PS लेवि. 5 B °उ. 6 PS °व 7 PS को विणि°, A
 को वि विणि°. 8 PS °व्वए, A °वइ 9 A रि.

12. 1 P S A हु° 2 P S जाइजरा°.

२ नदी

[१२] १ विनाग २ अज्ञीकृतम्. ३ सीतेन्द्र ४ निन्दापरायण

णण-भैसवाहणेण भयावणु जेण दहु भव-चउगइ-काणणु ॥ २
 उँत्तम-लेस-तिसूलें दुद्धरु जें किउ मोह-वइरि सय-सकरु ॥ ३
 दिढ-महन्त-वइरगहों पासिउ जेण णेह-णामु वि णिण्णासिउ ॥ ४
 अण्णु वि एउ काइँ तउ जुत्तउ सिव-पउ एकें जइ वि विढत्तउ ॥ ५
 तो वि किं मइँ मुएँवि जाइज्जइ आवमि जेम हउ^२ मि तह किज्जइ^३ ॥ ६ ५
 पभणइ मुणिवरिन्दु 'सुणें सुन्दर दूरें पमायहि राउ पुरन्दरें ॥ ७
 जिणेंहिँ पगासिउ मोक्खु 'वि-रायहों कम्म-वन्धु दिहु होइ स-रायहों^४ ॥ ८

॥ वत्ता ॥

इय-वयणेंहिँ विमल-मणेण अञ्जलि-उड-जुएँहिँ ।
 सीएन्दें राम-मुणिन्दु णमिउँ स थ म्भु एँ हिँ ॥ 10

*
 इय-पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्त कह वि उव्वरिए ।
 तिहुअण-सयम्भु-रइए वल-णाणुप्पत्ति-पव्वमिणं ॥
 इय एत्थ महाकव्वे वन्दइ-आसिय-सयम्भु-तणय-कए ।
 रामायणस्त सेसे एसो सग्गो णवासीमो ॥

[९०. णवइमो संधि]

तिहुअण-सयम्भु-धवलस्स को गुणे^१ वण्णिउं 'जए तरइ ।
 वालेणं वि जेण सयम्भु-कव्व-भारो समुव्वूढो ॥

*
 पुणरवि सुरवइ आहासइ 'जो तव-सज्जम-णियम-जुउ ।
 परमेसर कहें सङ्खेवेंण दसरह-राणउं केत्थु हुउं ॥ ध्रुवकं ॥

13. 1 P °उं 2 P A हउ, s हउ मि जेम 3 P °रु corrected as °र, s °रु
 4 After this P marginally and s lead the following passage . मोक्खु होइ
 भवसुहइ विरत्तह । सुपर(s परम)विवेयणाणु चिंततहं ॥ सव्वसगपरिचाउ करतहं । सिवपउ
 होइ अप्पु स्नायतहं ॥ रयणत्तउ णिम्मल्लु धारतह । सेसकसायरायणिहणंतहं (s सेस भावणियवहि-
 जाणंतहं). After this P further leads वज्जअभंतरसुद्धिकरतहं । धम्मसुक्कझाणइं
 स्नायंतह । सवरपुक्कम्मणिहणतह । सिवसुहु होइ एम णिवच्छ...5 P A °उं

1. 1 P S गुणो. 2 P S वोलीण. 3 P °उं 4 P S भउ.

-[१३] १ अग्निना २ शुक्लेश्यात्रिश्लेन ३ शतखण्ड ४ T वैराग्यात्.

[१] १ जगति

[१]

अण्णु वि पइँ लक्खिय सुद्ध-मइ
का जणयहोँ कणयहोँ केकयहोँ
का लक्खण-मायहोँ केकयहोँ
५ अक्खइ केवलि सुर-गमिय-पउ
परमाउ वीस सायरइँ जहिँ
परिमाणु जेत्थु आहुइ कर
अवराइय-केकय-सुप्पहउ
अण्णउँ वि घोर-तव-तत्तियउ

१०

जे पुव्व-जम्मोँ तउ णन्दण
लवणङ्कुस-गामालङ्किय

णन्दण-वण-भूसिय-कन्दरहोँ
१५ कुरु-भूमिहोँ भामण्डलु वि हुउ
पुच्छिउ सुरवइणं 'केण फल्लण'
उज्झहोँ^१ चिरु कुलवइ पवर-भुउ
वज्जय-गामङ्किउ तहु तणउँ
णिवासिय सीय मुणेवि खणे
२० सा दिवोँहिँ गुणेहिँ अलङ्करिय
वर-रूवेँ सिरि-देवयहोँ णिह

२५

तासु असोय-तिलय दुइ णन्दण
सहुँ कन्तोँहिँ^२ वइराएँ लइया

२. 1 P S °ण 2 P S A °हि. 3 P °उं. 4 P S वर.
३. 1 P S °गर°. 2 P S कन्ते.

॥ घत्ता ॥

विण्णि वि तिहुवणेँक-विजइ ।
तहुँ होसइ पञ्चमिय गइ ॥ ९

[२]

दाहिण-दिसाएँ गिरि-मन्दरहोँ ॥ १
पल्ल-त्तय-आउ-पमाण-जुउ ॥ २
आयण्णहि तं पि वुत्तु वल्लेण ॥ ३
'मयरिँ मणिइ-मेहलिय-जुउ ॥ ४
णिय-धण-सम्पत्तिँ जिय-धणउँ ॥ ५
सो चिन्तावियउ स-सोउ मणेँ ॥ ६
सोमाल-देह अइ-सुन्दरिय ॥ ७
काऽवत्थ पेक्खु वणेँ पत्त किह ॥ ८

॥ घत्ता ॥

वइराउ तं जेँ तेँ भावेँवि
'दुइ-मुणिहोँ पासँ तवु लइयउ

पुत्त-कलत्तइँ परिहरैँवि ।
मुणि-सुव्वय-जिणु मणेँ धरैँवि ॥ ९

[३]

जणण-णेह-किय-गुरु-अकन्दण ॥ १
तेँ वि दुइ-मुणिहोँ पासँ पव्वइया ॥ २

[२] १ मगरीतीयुक्त २ T भार्यया. ३ कुलपतेः कुटुम्बिन्याः पुत्र. ४ वनप्रेक्षिता
यस्मिन् प्रस्तावे, T has णिण्णासियसिय rendered as लक्ष्मीनिर्नाशित ५ ह्यतिनामा मुनि.

बहु-दिवसहिं तउ घोरु करन्ता
तम्बचूड-पुरवरु गय अत्तिणें
तावऽगणें वालुय-रयणायरु
तवण-तर्त्त-वालुअ-णिवहालउ
सो कह कह वि दुक्खु आसङ्खिउ

परमागम-अुत्तिणें विहरन्ता ॥ ३
तिण्णि वि गय जिण-वन्दण-हत्तिणें ॥ ४
दीसइ णरंउ व दुग्गम-दुत्तरु ॥ ५
मणु सप्पुरिसहों णाई विसालउ ॥ ६
सिद्धेहिं भव-संसारु व लङ्खिउ ॥ ७

॥ घत्ता ॥

ते तिण्णि वि^१ जण मुणि-पुङ्गव णिण्णासिय-दुड्डु-मय ।
वज्जय-असोय-तिलएसर जोयणाई पञ्चास गय ॥ ८

[४]

तो घण-घण-घोरोरालि दिन्तु
अइ-धवल-वलाया-पन्ति-दाहु
ओसारिय-सूरायव-कुरङ्कु
हरिवर-वरहिण-रव-रुंजमाणु
जल-पूरिय-तडिणि-पवाह-चलणु
पचलन्त-महइह-रुन्द-वयणु
चल-विज्जु-ललाविय-दीह-जीहु

सुरधणु-पईह-णङ्गुलवन्तु ॥ १
जलधारा-घोरणि-केसराहु ॥ २
णिदारिय-गिम्भ-महा-मयङ्कु ॥ ३
फुल्लन्त-णीम-णहरेहिं समाणु ॥ ४
वावी-तलाय-सर-णियर-सवणु ॥ ५
दुत्तार-खड्डु-विच्छिड्डु-णयणु ॥ ६
सम्पाइयउ वासारत्त-सीहु ॥ ७

॥ घत्ता ॥

तं पेक्खेंवि णिरु आसण्णउं वियणें महा-वणें भय-रहिय ।
वडं-पायव-मूलें सु-वित्थणें तिण्णि वि जोगु लएवि थिय ॥ ८

[५]

तहिं अवसरें सिरिमालिणि-कन्तें
जणयहों णन्दणेण विक्खाएं
एउ महन्तु अच्चरिउ मणोहर
कहिं भव-पहु कहिं सिद्ध-भडारा
कहिं देसिउ कहिं वर-णिहि-रयणइ

उज्झाउरि गयणङ्गणें जन्तें ॥ १
पेक्खेंवि चिन्तिउ विणय-सहाएं ॥ २
कहिं वालुय-समुहु कहिं मुणिवर ॥ ३
कहिं अ-णिलणु कहिं गुण-गरुआरा ॥ ४
कहिं दुज्जणु कहिं सुन्दर-वयणइ ॥ ५

3 The portion from बहु^३ to अत्तिणु (line 4 a) is omitted in A. 4 A णरउ दुसमदुरुत्तरु. 5 P S °त्तु. 6 P S मि.

4. 1 P S हरि. 2 P S ओरु°. 3 P S °णीन्व.° 4 P A °उं. 5 A वे°. 6 P S सुवि-
त्यइए.

[३] १ समूहस्थान

[४] १ T मेघसिंह २ 'गुरुहराट' शब्द लोके ३ मण्डक ४ शब्द ५ नदीप्रवाहः
पादौ यस्य. ३ विस्तीर्ण ७ वर्षाकाल एव सिंह

कहिं दुग्गन्ध-रण्णु कहिं महुयर
दूर-भव्वु कहिं कहिं सु-पहाणइं
अह जाणिय-कङ्कालासण्णा

कहिं मह-णरय-भूमि कहिं सुरवर ॥ ६
तव-चरित्त-वय-दंसण-णाणइं ॥ ७
महु पुण्णोदएण सम्पण्णा' ॥ ८

॥ घत्ता ॥

5 एउ भामण्डलेंण वियप्पेवि
वर-विज्जा-वलेंण स-देसउ

अच्चासण्णउ पय-पउरु ।
किउ मायामउ परम-पुरु ॥ ९

[६]

णिम्मियाइं विउलइं अ-पमाणइं
थामें थामें धण-कण-जुअ-णयरइं
19 थामें थामें जिणहर-देवउलइं
थामें थामें बहु-गाम पुरोवम
थामें थामें पोक्खरणिउ सरवर
थामें थामें णिम्मल णिरु णीरइं
थामें थामें सालिउ फल-सारउ
15 थामें जण-णयणाणन्दणु

थामें थामें मणहर-उज्जाणइं ॥ १
गोड्डइं गोहण-गोरस-पउरइं ॥ २
डिम्भइं णाईं 'महच्छुह-वहुलइं ॥ ३
थामें थामें आराम मणोरम ॥ ४
वावी-कूव-तलाय लयाहर ॥ ५
महिय-ससाह-सिसिर-धिय-खीरइं ॥ ६
इक्खु-महारसु अइ-गुलियारउ ॥ ७
भविय-लोउ जिणवर-कय-वन्दणु ॥ ८

॥ घत्ता ॥

तं करेवि एव णिविसद्धेण
सद्धाइ-गुणालङ्करिण्ण

चरिया-गयं खम-दम-दरिसि ।
तें भुज्जाविय परम रिसि ॥ ९

[७]

20 जिह ते तिह अवर वि बहु-देसहिं
भरह-पमुह-खेत्तेहिं गिरि-विवरेहिं¹
णिज्जण-णिप्पाणिय-दुपवेसेहिं
तेण फलेण मरेवि स-कन्तउ
तहिं अच्छइ जण-णयण-मणोहरु
25 'दण्ड-सट्ठि-सय-तणु-परिमाणउं
तणिसुणेवि वयणु सिय-इन्दे(?)⁵
'णारायणु दस-कन्धरु दुम्मइ

दुग्गम-दीव-समुहुदेसहिं ॥ १
काणणेहिं जिण-तित्थेहिं पवरेहिं ॥ २
मुणि पाराविय विसम-पवेसेहिं ॥ ३
उत्तम-भोग-भूमि सम्पत्तउ ॥ ४
तुह केरउ चिर-पढम-सहोयरु ॥ ५
तिण्णिण-पल्ल-परमाउ-समाणउं ॥ ६
पुणु वि पपुच्छिउ गुरु-आणन्दे ॥ ७
वेण्णिण वि जण सम्पाइय-दुग्गाइ ॥ ८

5. 1 P S °रण्णे, A °रयणु.

6. 1 P S °मे.

7. 1 P S °वरेहि 2 A सक 3 P S °पवर° 4 P A उ. 5 A सियदेवे.

[५] १ क पानीयं तस्य काल वर्षाकाल .

[६] १ T महत् छुधा, बुभुक्षा । छुधा चूर्णं वा २ स-'मलाइ' लोके

[७] १ T क्रोशत्रयगरीप्रमाणम्. २ तृतीयनरके.

॥ घत्ता ॥

दुरियहों अवसाणें विणिगेंवि कहेँ किं होसइ महमहणु ।
को हउ मि भडारा होसमि को होएसइ दहवयणु' ॥ ९

[८]

तं णिसुणेंवि केवल-णाण-धरु पभणइ सीराउहु मुणि-पवरु ॥ १
'आयण्णहि पुव्वें सुरगिरिहें जग-पायड-विजयावइ-पुरिहें ॥ २
सम्मत्त-धीर-अंवलम्बियहों होसन्ति सुणन्द-कुडुम्बियहों ॥ ३
रोहिणिहें गव्भें दिढ-कढिण-भुअ तो अरुहदास-रिसिदासं सुअ ॥ ४
वहु-कालें वय-गुण-णियम-धर होसन्ति सुरालएँ पुणु अमर ॥ ५
तेत्थहों चवेवि णिम्ल-विउल्लें होसन्ति पडीवा तहिँ जें कुल्लें ॥ ६
दरिसाविय-चउविह-दाण-गुणु 'हरि-खेत्तें वे वि होसन्ति पुणु ॥ ७
तेत्थहों वि पीय-जिण-धम्म-रस होसन्ति सणय-कुमारें तियस ॥ ८

॥ घत्ता ॥

सायरइँ सत्त सुहु भुञ्जेंवि चवणु करेप्पिणु सुरपुरिहें ।
होसन्ति पडीवा वेणिण वि ताहें जें विजयावइ-पुरिहें ॥ ९

[९]

जस-धणहों कुमार-कित्ति-पहुहें गव्भवन्तरेँ लच्छी-वहुहें ॥ १
होसन्ति मणिट्ट पहाण सुय जयकन्त-जय'पह-गाम-जुअ ॥ २
तहिँ धरेंवि घोर-तव-भार-धुर सत्तमएँ सगें होसन्ति सुर ॥ ३
तहिँ कालें सयल-णिहि-रयणवइ तुहुँ भरहें हवेसहि चक्कवड ॥ ४
लन्तव-सगहों चवेवि विवुह होसन्ति वे वि तउ अङ्गरुह ॥ ५
णामें 'इन्दरहंभोयरहें तियसहें वि रणङ्गणें दुव्विसह ॥ ६
रयणत्थल्लें णयरें रज्जु करेंवि पच्छएँ पुणु दुङ्गरु तउ चरेंवि ॥ ७
पावेंवि समाहि तुहुँ विमल-मणु होएसहि वेर्जयन्तेँ सुमणु ॥ ८
इन्दरहु वि' जो चिरु दहवयणु जें वसिकिउ णीसेसु वि भवणु ॥ ९

॥ घत्ता ॥

सो मणुअत्तणें देवत्तणेंहिँ कइहि मि भवेंहिँ भवेवि णरु ।
अट्टविह-कम्म-विणिवारणु होसइ कालें तित्थयरु ॥ १०

8. 1 P S पुव्वेहि 2 P S °अवल्लोइयहो 3 A सिरि°. 4 P S °र°.
9. 1 P °वइहे, 8 °वइहि. 2 P S A °हि 3-4 P S °रुह 5 P वयि', 8 वय'.
6 P S जो वि

[८] १ भोगभूमि २ T इन्द्र भविष्यन्ति

[९] १ इन्द्रथाम्भोजरथनामानौ २ T देव

अहसिन्द-महासुहु अणुहवैवि
 पुणु गणहरु होसहि तासु तुहुँ
 अम्भोयरहो वि जो आसि हरि
 ६ सो भमेवि चारु जम्मन्तरइँ
 पुव्वविदेहें पुक्खर-दीवें वरें
 भरहेसर-सण्णिहु चक्कहरु
 णाण-मरुड्ढाविय-कम्म-रउ

१० वोलीणेंहिँ सत्तेहिँ वरिसेंहिँ
 भरहेस-पसुह वहु-मुणिवर

सु-णेंवि भविस्स-काल-भव-वइयरु
 अप्पउ सो सीएन्दु पणिन्दइ
 १६ तित्थङ्कर-तव-चरणुँदेसइँ
 दिव्व-ज्जुणि-णिव्वाण-णिवेसइँ
 सुहु विसाल तुङ्ग सक्कन्दर
 पुणु गम्पिणु णन्दीसर-दीवहों
 कुरु-भूमिहें चिरु भाइ गवेंसेवि
 २० गउ राहव-गुण-गण-अणुराइउ

तहिँ सुह-भावण-संजुत्तउ
 णिय-लीलएँ सीया-सुरवइ

२५ लवणङ्कुस वि वे वि वहु-दिवसेहिँ
 कय-कम्म-क्खय णाणा-तरुवरें
 वहु-कालें पुणु इन्दइ-मुणिवरु
 देउल-वीढिँआएँ वर-सत्तउ

10. 1 A °वमय° 2 P S पर°.

11. 1 P S A °वि वि 2 S मि, A omits पच वि.

12. 1 P S °तियसेसहिँ. 2 P विढि°, S विढि°

[११] १ उत्तमस्थानानि

[१२] १ तिरस्कृत. २ उत्तमसम्भव. (?).

[१०]

वर-वइजयन्त-सग्गहों चवेंवि ॥ १
 तहिँ कालें लहेसहि मोक्ख-सुहु ॥ २
 णामेण जि जसु कम्पन्ति अरि ॥ ३
 भाविय-जिणधम्म-णिरन्तरइँ ॥ ४
 होसइ सयवत्तज्झय-णयरें ॥ ५
 पुणु होसइ तित्थहों तित्थयरु ॥ ६
 जाएसइ वर-णिव्वाण-पउ ॥ ७
 ॥ घत्ता ॥

गमणु करेसमि हउ मि तहिँ ।
 अविचल-सुहु णिवसन्ति जहिँ ॥ ८

[११]

पुणु पुणु पणवेंवि^१ हलहरु मुणिवरु ॥ १
 गरहइ मणु जिण-भवणइँ वन्दइ ॥ २
 केवल-णाणुगमण-पएसइँ ॥ ३
 अञ्चेंवि पुज्जेवि णवेंवि असेसइँ ॥ ४
 खणें परिअञ्चेंवि पञ्चवि मन्दर ॥ ५
 थुइ करेवि तइलोक्क-पईवहों ॥ ६
 भामण्डलु स-कन्तु संभासेवि ॥ ७
 सरहसु अञ्चुअ-सग्गु पराइउ ॥ ८
 ॥ घत्ता ॥

अमर-सहासेहिँ परियरिउ ।

सइँ अच्छरहिँ रमन्तु थिउ ॥ ९

[१२]

णाणुप्पण णमिय वर-तियसेहिँ ॥ १
 गय णिव्वाणहों पावा-महिहरें ॥ २
 णिय-तणु तेओहामिय-दिणयरु ॥ ३
 णाणुप्पाएँवि णिव्वुइ पत्तउ ॥ ४

जिह सो तिह अणन्त-सुह-थाणहा गउ घणवाहणो वि णिञ्वाणहो ॥ ५
 जसु केरउं अज्ज वि अहिणन्दइ लोउ मेहरहु तित्थु पवन्दइ ॥ ६
 कुम्भयण्णु पुणु सासय-सोक्खहो सो वि वडहो खेडुहो गउ मोक्खहो ॥ ७

॥ घत्ता ॥

गउ रहुवइ कइहि^१ मि दिवसेहिं^२ तिहुअण-मङ्गलगाराहो ।
 अजरामर-पुर-परिपालहो पासु स य म्भु-भडाराहो ॥ ८

इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह वि उव्वरिए ।
 तिहुअण-सयम्भु-रइए राहव-णिञ्वाण-पव्वमिणं ॥
 वन्दइ-आसिय-तिहुयण-सयम्भु-परिविरइयम्मि मह-कव्वे ।
 पोमचरियस्स सेसे संपुण्णो णवइमो सग्गो ॥

॥ पोमचरियं समत्तं ॥

[प्रशस्तिगाथाः]

सिरि-विज्जाहर-कण्डे संधीओ होन्ति वीस परिमाणो ।
 उज्झा-कण्डम्मि तहा वावीस मुणेह गणणाए ॥ १
 चउदह सुन्दर-कण्डे एक्काहिय-वीस जुज्झ-कण्डे य ।
 उत्तर-कण्डे तेरह सन्धीओ णवइ सव्वाउ ॥ २

तिहुअण-सयम्भु णवरं एक्को कइराय-चक्किणुप्पण्णो ।
 पउमचरियस्स चूलामणि व्व सेसं^३ कयं जेण ॥ ३
 कइरायस्स विजय-सेसि^४यस्स वित्थारिओ जसो भुवणे ।
 तिहुअण-सयम्भुणा पोमचरिय-सेसेण णिस्सेसो ॥ ४
 तिहुअण-सयम्भु-धवलस्स को गुणे वण्णिउं जए तरइ ।
 वालेण वि जेण सयम्भु-कव्व-भारो समुव्वूढो ॥ ५
 वायरण-दढ-कखन्धो आगम-अङ्गो पमाण-वियड-पओ ।
 तिहुअण-सयम्भु-धवलो जिण-तित्थे वहउ कव्व-भरं ॥ ६

3 A °उं. 4 S °इहिं, A वहेडखडुहे. 5 P S °ह 6 P A °रहो 7 P S A °लाहो. 8 P
 गउ पासु, S गउ पासे

Praśasti. 1 P A °ण 2 S °से. 3 A °ससेसि°

चउमुह-सयम्भुएवाण वाणियत्थं अचक्खमाणेण ।
 तिहुअण-सयम्भु-रइयं पञ्चमिचरियं महच्छरियं ॥ ७
 सव्वे वि सुआ पञ्जर-सुअ व पढियक्खराइँ सिक्खन्ति ।
 कइरायस्स सुओ पुण सुय व्व सुइ-गव्व-संभूओ ॥ ८
 5 तिहुअण-सयम्भु जइ ण होन्तु^४ (?) णन्दणो सिरि-सयम्भुदेवस्स ।
 कव्वं कुलं कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरइ ॥ ९
 जइ ण हुउ छन्दचूडामणिस्स तिहुअण-सयम्भु लहु-तणओ ।
 तो पद्धडिया-कव्वं सिरि-पञ्चमि को समारेउ ॥ १०
 सव्वो वि जणो गेण्हइ णिय-ताय-विढत्त-दव्व-सन्ताणं ।
 10 तिहुअण-सयम्भुणा पुणु गहियं सुकइत्त-सन्ताणं ॥ ११
 तिहुअण-सयम्भुमेक्कं मोत्तूण सयरभु-कव्व-मयरहरो ।
 को तरइ गन्तुमन्तं मज्झे निस्सेस-सीसाणं ॥ १२

*

इय चारु पौमचरियं सयम्भुएवेण रइयं (यम ?) समत्तं ।
 तिहुअण-सयम्भुणा तं समाणियं परिसमत्तमिणं ॥ १३
 15 'चेष्टितमयनं चरितं करणं चारित्रमित्यमी यच्छब्दाः ।
 पर्याया रामायणमित्युक्तं तेन चेष्टितं रामस्य ॥ १४
 वाच^५यति श्रुणोति जनस्तस्यायुर्वृद्धिमीयते पुण्यं च ।
 आकृ^६ष्ट-खङ्ग-हस्तो रिपुरपि न करोति वैरमुपशममेति' ॥ १५

*

माउर-सुअ-सिरिकइराय-तणय-कय-पौमचरिय-अवसेसं ।
 20 संपुण्णं संपुण्णं वन्दइओ लहइ संपुण्णं ॥ १६
 गोइन्द-मयण-सुयणन्त-विरइयं वन्दइ-पढम-तणयस्स ।
 वच्छलदाएँ तिहुअण-सयम्भुणा रइयं (?) महप्पयं ॥ १७
 वन्दइय-गाग-सिरिपाल-पहुइ-अव्वयण-गण-समूहस्स ।
 आरोगत्त-समिद्धी-सन्ति-सुहं होउ सव्वस्स ॥ १८
 25 सत्त-महासग्गङ्गी ति-रयण-भूसा सु-रामकह-कण्णा ।
 तिहुअण-सयम्भु-जणिया परिणउ वन्दइय-मण-तणयं^{११} ॥ १९

*

4 S हुंतु 5 A बोधयति 6 A श्रीकृष्ण° 7 A मोवर° 8 A. omits. 9 A लहुउ.
 10 A °ससिदी°. 11 A °तणउ.

* *

‘पउमचरिउ’ तृतीय भाग
परिशिष्टम् ।

११



APPENDIX IV

Noteworthy glosses etc. from the anonymous Paumacariyu-Tippaṇa

(for PC Sandhi 1 to 67 5.)

[For the description of the Tippaṇa Ms see under the section 'Miscellanea' in the Introduction I and II here mean the respective PC Parts published earlier P, S, A stand for the three PC Mss]

ॐ नम सर्वज्ञाय ॥

खयम्भुवं महावीरं प्रणिपत्य जगद्गुरुम् ।
रामायणस्य वक्ष्यामि टिप्पणं मति-शक्तितः ॥

पठमो संधि

१ गुरु परमेष्ठि वृषभनाथ । अथवा गुरवश्च ते पञ्चपरमेष्ठिनश्च तेऽर्हत्सिद्धा-
चार्योपाध्यायसाधवस्तत्र । तिहुयण-लग्गण-खम्भ इति पाठ । पुणु पुन., सस्कृत-
प्राकृत-व्याकरण-छन्दो-द्विसन्धान-भारत-सूत्रकानन्तरम् । आरिसु चिरन्तन-महामुनि-प्रणीत-
रामायण-शास्त्रम् । पर-गुरु-परमेष्ठि नत्वेति पूर्व-नमस्कारादुपरि चतुर्विंशति-परम-जिनान्मस्कृत्य ।
२.८ अराणं अरातीन् ('तिना') २ ११ छिव्विर (A's leading) छिव्विरा ।
२.११ पविरल सान्तरम् । २.१२ णिम्मलु परदारादि-दोष-रहितमपशब्दादि-दोष-
त्यक्त च । २ १२ पुण्णं धर्मार्थ-काम-मोक्ष-परिपूर्णम् । ३ ३ पच्चाहार अपश्लेषिकः ।
वैपयिकः । अभिव्यापकः । अपचारिक । सामीप्यक । ३ ४ सत्त विहत्तियाउ कर्त्तारि
कारकेति प्रथमा । कर्मणि द्वितीया । करणे तृतीया । सम्प्रदाने चतुर्थी । अपादाने
पञ्चमी । सम्बन्धे षष्ठी । अविकरणे सप्तमी । ३.४ छिव्विह समास कर्मधारय ।
द्विगु । तत्पुरुष । बहुव्रीहि । द्वन्द्वु । अव्ययीभाव । ३ ५ छक्कारय कर्त्ता । कर्मु ।
करणु । सम्प्रदान । अपादान अधिकरणु । इति कारक ६ । ३ ५ दस ल(1 b)यार
सज्ञा । परिभाषा । विधि । नियम । प्रतिषेध । अधिकार । अतिदेसु । अनुवाद । विकल्प ।
निपात । लता सत्रेति । ३.५ वीसोवसग्ग प्र-पराप-समन्वव-निर्दुरभि-व्यधि-सूदति-
निप्रति-पर्यपय । उप आदिति विंशतिरेप सखे उपसर्गगणः कथितः कविना ॥
व्याख्या—प्र परा अप सम् अन् (1 e अनु) अव निद् दुर् अभि वि अधि अपि
(?)सु उत् अति [नि] प्रति परि उप [आ] २० । ३ ६ बलावल धाउ णिवाय-
गणु 'बलावल' वृत्ति, 'धाउ'—भुवादि । अदादि । दिवादि । खादि । चुरादि । रुधादि ।
तनादि । क्रियादि । एव धातु । ['णिवाय-गणु'] निपात-गण । ३ ७ सच्चु सर्व्वम् ।
३ ८ पिंगल-पत्थार पिङ्गल-च्छन्द-प्रस्तार । ३ ९ रयडा राडा । ३ १० छुडु
उवरि । ५.८ पुरवइ व श्रेष्ठिभि । ६.२ तिणयणु ईश्वरः । ६ ५ खारणीरु क्षार

जलमन्यत्र क्षारमनिष्ठं नीरयति ददातीति । ६ ७ सकु सक्यत इति । तरुस्तारक—रावणा-
दिभिरभिभवनीयो, राजा पुनर्न केनापि अभिभूयते । ७.२ चउकल्लाण गर्भावतरण-
जन्माभिपेकनिष्क्रमणज्ञानोत्पत्तय । ७.९ सम्भरहि आराधय(2 a)सि । ९ ३
अट्टविह परमगुणरिद्धि अष्ट महाप्रातिहार्याणि । तद्यथा—छत्रत्रय त्रिदशदुन्दुभिपुष्पवृष्टि-
र्भापाप्रभावलयविष्टरचामरं च । अशोकवृक्षश्चेति । ९ ६ परंपर आराध्यानामप्या-
राध्यः । १० ६ उव्वहति उच्चावयन्ति । झल्लरिमज्झाणुमाणु टिविलामध्यसदृशः ।
११.६ छव्विह कुलपव्वय समीपपर्वताः । हिमवान् महाहिमवान् । निपधनीलरुक्मि-
शिखरिनामपर्वताः । ११.७ कणय-सेलु मेरोः । ११.७ सहसिक-मूलु तथा भूम्या
द्व(१)तैते शैलः । कोऽर्थः । सहस्रमेकं भूमौ निमग्नः । १२.१ सुइवन्तो अवधि-ज्ञान-
युक्तः । १३.३ मरुएवि मरुदेवी । १३.३ महिसी प्रधान-राज्ञी १३ ८ कन्दोड्ड
नीलोत्पल । १५.२ पईहरच्छि दीर्घचक्षुः ॥

विईओ संधि

१. पुण्णपवित्तु पूर्वजन्मोपाजित-तीर्थकर-नाम-पुण्येन पवित्रोऽथवा पूर्णं सर्व-
पुरुषार्थ-परिपूर्णां । सहसा उत्पत्त्यनतरम् । १.४ अहिद्विय सर्वकालं द्रव्यरूपेण
ये स्थिता. सिंहाकारास्तेभ्यः । २ ५ परियंचिय प्रदक्षिणीकृताः । २.७ उवसोवणि
उत्कृष्ट-निद्रा । ३.१ अंकि उच्छेली । ३.२ तं प्रसिद्धम् । ३ ३ सणवइहिं
नवति-योजन-सहितैः । ३.८ सुरवरसारउ इद्वाराधनीयः । ६ २ वज्जसूइ वज्रसूचिका ।
६ ८ तरणि आदित्यः । ७.३ पंगुत्तइ प्रकर्षेण गुप्तानि । ७ ३ दावइ (?)
पशवः । ७.८ रिसहु वृषभः । कोऽर्थः । वृषभो धर्मस्तेन भाति शोभते । ८ २ भुक्खा-
वारं बुभुक्षामरणेन । बुभुक्षासमयेन वा । ८ ४ खाणं तावूलादिके । ९.३ सवसत्त-
हियत्तणु सर्वजीवहितत्वम् । १०.२ धिद्विगतथु धिक् २ निंद्यमस्तु । निंदाभर्त्सनयो-
र्विक् । ११.४ नमह नमःशब्दमुच्चारयता । अथवा अत्रार्थशब्दो (?) भरतराज्यदाना-
नतरे । १२.१ अविउलु अव्याकुलचित्तो निराश्रयो वा । १३.२ कवडकूड माया-
वहुत्वमथवा 'कवड' माया । 'कूड' असत्यम् । १३.४ णं तो सिग्घ (सद्यः ?) अथवा
शीघ्रम् । १७.३ जलवास पुण्पाजलिः । १७.९ चाहिउ (fo1 वन्दिउ ?) दृष्टः ॥

तईओ संधि

१ गयसंतो गतश्रमोऽथवा गत ज्ञाने स्वांत मनो यस्य स गतस्वातः । १.४
कुडंगेहिं केदारैः । १ ६ खज्जूरि पिंडखज्जुरी । १.९ मात्तूर कपित्थ । १ ९ सिरि
(in सिरिसामली to be divided as सिरि-सामली) विल्व । १ ११ भूय (for
भुव) विभीतकः । १.१२ अवरहि मि जाईहि अपर-पुष्प-जाति । १.१३ मोरउ
पिच्छलत्रम् । ३.११ परसमाणु सिद्धस्वरूपः । ५ २ (?) तरच्छ तरक्षः ।
५.४ सारंग चाक । ५ ४ पवंग मर्कटः । ५.५ गयगंडा गजाकार-गडः ।

गजा गंडका वा । ५.९ विबभमो भ्रूविकारः । ५.९ हावो मुखविकारः ।
 ५.९ भावो वित्तसंभवः । ५.९ संखोडिहिं आद्याभिः । ६.९ फंफावेहिं पढंतिहिं
 प्रोत्साहनैः पठ्यमानैः । ७.२ मणुसोत्तरेत्यादि मानुषोत्तरपर्वत-शिखर प्राप्ता ।
 ७.४ विउञ्चण विकुर्वणायुक्तः । ७.५ वेसैं प्रमाणेन । ७.९ गोत्त इद्र-सामानिक-
 त्रायत्रिंश-भवनवासि-व्यतरादि । ७.१० णज्जइ यथा ज्ञायते । ८.१ उत्तिण्ण
 उत्तरित । ८.४ रोहण क्षेत्रम् (१) । ८.१० पवहन्तएण अग्रे प्रवर्द्धमानेन ।
 ९.१० Reading उदेसैं व्याजेन । १३.३ दह पंचासउ पञ्च शतानि ।

चउत्थो संधि

१.१ पुण्णजयासहि पूर्णा जयस्यागा येषु तानि । २.८ वीर वीर्य । २.९ व ।
 संतिपधरियउ क्षमाधारकः । ३.९ व । विरिक्की (for गुरुक्की)—वटिता (१) ।
 ३. व । परिच्छिया । ५.६ मुसंडि वज्रमुष्टिः । १०.९ ओहट्टिउ अपसृतः ।
 १०.९ व । झुलुक्कए ज्वालया । १३.७ वज्जरिउ कथित । १४.७ तिहुयण-
 जणारि त्रिषु जाति-जरा-मृत्यु-म जनस्य तस्यारयः । 'तिहुयणजणेरि' च पाठः ।

पञ्चमो संधि

२.१ वेत्ताए अस्तमनकाले मुहूर्त्तद्वयेन... ९.५ मागहभासए मागधीभापया ।
 ११.२ व । परिपत्तिय । १२.३ [णिद्धुयगायइं] भ्रमररहितानि ।

छट्टो संधि

५.७ [करंवि]यइं पुष्पितानि । ६.२ कुहिणिउ मार्गाः । ६.९ बुकारु
 वृत्कारः । ७.५ दिय ब्राह्मणा । ७.९ पईवहो प्रदीपस्य । ९.५ अइकमिउ
 फुसिता अतिक्रमिनाश्च ९.९ मरिसाविय क्षमा कारिताः । १०.४ उवहिरउ
 उदधिरवः । १०.७ व । तक्कडेण चपलसमर्थेन । १०.८ तउ जउ तत्र यत्र । जइ
 यतिः । ११.१ विहाइयउ रुष्टः । ११.३ खुहु उपद्रवकारी लघुर्वा । मायापमय
 मायाप्रपञ्च (१) । १२.९ सेरउ स्थिर आलस्य (१) वा । १३.९ संतिहरु कल्याणगृह ।
 १५.४ इसीसि स्तोकस्तोकम् । १६.४ व । णामालउ नाम्ना पुरुषाभिधानामालयः
 स्थानम् । मकारस्य वकारः प्राकृते क्वचिदन्यत्र नात्रा काष्ठतरंडकानाम् । १६.५ व ।
 णिरयदलु धूलीरहितपुट । 'णिरयउलु' पाठान्तरे चौरकुलमित्थर्थः ।

सत्तमो संधि

१.५ परए प्रभाते । २.८ व । पुणो ण सत्थ पुनः न स्वस्थः । 'विसत्थ'
 इति पाठे विश्रब्ध इत्यर्थः । २.९ सपसाहण सुप्रसाधन । ३.४ णउरुंवु समूहम् ।
 ४.५ ईहा (१) अभिलाषुक । ४.७ वंसयरु वशतरुः । ९.२ व । एंतिउ
 आगच्छन्त्या । अन्यथा । १०.५ व । महुपह मधुप्रभापर्वतः । ११.८ सीसे
 राज्ये । णवर साम्प्रतम् ।

अट्टमो संधि

२.१ व १ णिछाडिहिं ललाटै । २.३ कप्पु दण्डः । गारहिं गर्वैः ।
 व १ आण गणंति वि ण आज्ञा न गणयत्सपि । २.४ व १ णिदालिहिं आज्ञा ।
 ४.२ पइट्ठा प्रस्थिताश्चलिता इत्यर्थः । ४.९ णीसावण्ण द्वितीयप्रभुरहिता । ५.१ व १,
 पउहत्थिय भृता । ५.३ तणुहेइ तनुप्रहरणः । व १ कुजारि (cf A's reading)
 वृक्षारि । ५.५ गइरिउ नैर्ऋत्यः । ५.६ करि मयरासणु मकरवाहन कृत्वा ।
 ५.९ विसासणु वलीवर्दारूढः । ५.११ पुलउगयइं पुलवेनोच्छ्वसितानि । ८.५ गोठिं (?)
 सभायाः । ८.६ चारिउ उपशमः । ८.७ वरुणहो जलस्य । ९.५ ओणल्लु अवष्ट-
 म्मित । ११.१ व १ धारायराः (cf A's reading) रात्रिचराः । ११.९ व. १,
 अवससइ उद्वेग करोति । १२.२ व १. फंफय वामनाः । कइविंदाहिं कविसमूहः ।

नवमो संधि

२.५ केण ण च(व)रिय सर्वैरपि याचिता । ३.१ दइएं भर्त्रा । व १ विय-
 सिकिय विकशित्वा । ३.२ अट्टंगणिमित्तइं अंग सरं वजणलक्खण च, छिण्ण च
 हिउव(?) भौम सिमिणतरिक्ख । एदे णिमित्ते हिदयम्मि किच्चा, जाणति लोयस्स सुहा-
 सुहाइ ॥ ३.४ डमर भय । ६.३ व १ विस्सावसु विश्वावसुः कैकसविद्याधरस्य
 पिता । ७.४ विप्पयइ पक्षिपुत्रकाः । प्रजाः, पुत्रका वा । ७.९ भाणुसुइ कुम्भकर्णः ।
 ९.४ व १ अणिउणहो अनृ(नि)पुणस्य । ९.६ वियंभियओ विकुर्वितः । ९.९ व १
 रुंजेवि अभ्यन्तरे उरु गभीर निनाद गर्जयित्वा । गजेवि तडतडशब्देनातीव गर्जन
 कृत्वा । वासारत्तु वर्षाकालः । १०.७ छारहडि छारहंडिका । १०.९ जहेत्यादि
 यथा पापात्मा-अग्रे धर्मविचारः कृतः । ११.२ रावणउ रावणस्येव रमणीयम् । १२.६ व १
 थिरजोवणइं स्थिरावलोकनानि । १४.४ रस्सि किरणाः ।

दसमो संधि

१.७ व १ एंतिउ पुनर्व्याघुट्ठय । १.८ कउह दिशाः । २.३ [मुणिउ] पयाउ
 प्रजायाः प्रताप ज्ञात्वा । २.५ दूसावासु णियंतु गुडुरावास कटकमालोकयन्तः ।
 २.६ व १ समहरेण । २.८ णमुक्क नमस्कृतः (?) । ३.५ सिहिण स्तनौ । ३.७ व १
 सेयवंधु वारयपालीत्यर्थः । ६.३ व १. इत्थियाउ भार्याः । ८.१ व १ परयाएं
 पर्यायेन । व. १ वियडिवण्णु ।

एगारहमो संधि

१.७ or १.८ कियइं (?) अत्र 'किय' कृत । इंकारश्च पदपूरण । २.९ एयइं
 एतानि । 'राजअनुच्छाया' इति लक्षणात् (?) । ३.५ सीयरेण सीत्कारेण । ११.१ जम-
 करणु मृत्युः । १२.६ उद्धायउ अतीव वेगेन । १४.४ कीररिंछोल्लिउ शुकपङ्कयः ।
 १४.६ व १ गल्लोह्लउ कपोलौ ।

वारहमो संधि

६.१ अण्णमणु विषण्णचित्त. । ६.४ सयणकिय खजनक्रिया । ७.९ v ।
 समरउ (for म मरउ)—पृथ्वी रजः समं जातम् (?) । ८.८ v । सुवचि (of A's
 reading) शोभनगिरा । ९.१० पुण्णालि पुश्चली । १०.१ गरुडपरायणिय
 गरुडतर्जनी ।

तेरहमो संधि

१.४ v । पुत्तु (for वत्तु in महायवत्तु)—यानपात्रम् । ३.२ किलित्त
 आद्रीभूतः । ३.४ तम्बु आरक्तः । ३.५ पङ्कुत्त झपितः । ३.६ v । अहिगि-
 लियगइंदपसूयसासु सपैर्ये ग्रस्ता गजेन्द्रास्तेभ्यः प्रसूत उत्पन्न. आसो यस्मिन् पर्वते ।
 ४.३ सिद्धउ श्रीध्वज. । ४.१० सायर समुद्र । लक्ष्म्याकरश्च । ५.८ वलाय
 वरानि । ५.१० v । मेह्लावियइं मोचापित. । ६.३ गिरीत्यादि गिरिडिम्भस्य
 कटिसरं त्रुटितम् । ६.७ कुंचिय सपुटिन । ७.४ रंखोलिरेण भासुरेण विलसता
 वा । ७.८ परित्त रक्षाम् । ७.१० v । पच्चुद्धरिउ प्रत्युद्धरितम् । ८.४ झड झम्पा
 लुञ्चन वा । ९.१० v । पलोड्डिएण प्रवृत्तेन । १०.५ v. 1 तं साहु णवेप्पिणु
 तं वालिमुनिं नत्वा । 'तीसाह' इति पाठे त्रिंशद्दिनानीत्यर्थः । ११.७ खल खुद्द पिसुण
 (v 1) परधिद्ध दुर्जना, निकृष्टा नीचा वा, दोषभापकाः, अतीवघृष्टाः ।
 १२.१ v । समग्गु समस्तः । १२.२ साहिय साधिक. । १२.६ वरिसग्गवत्थ
 उपरिस्सर्गवत्ताः ।

चउद्दहमो संधि

१.३ v । भोइ (for दूउ, of A's reading होइ) भोक्ता.

As folio No 7 is missing we have a gap in the Gloss extending from here up to Sandhi 16, Kadavaka 1, line 7.

सोलहमो संधि

From the Sanskrit passage given in the footnote on p 128 of Part One, the explanation of terms अरिपड्वर्ग and अष्टादश तीर्थ is found in the gloss. The portion preceding it is lost with the missing folio.

१९ v । पसाहणि (for ए साहणे, the same is noted at the end of the passage on p 128) शृङ्गारिते । ([अ]ष्टाङ्गानि ते in the above-mentioned passage is thus corrupt)

५ ७ मन्नमव्ये किं मन्न विशिष्ट सारं मन्त्र बलद तम् । ७.८ v । अवमाणमि
 अवमानयामि । ९९ कप्पिणु कल्पित्वा । १५७ v. 1. आरणिहिं तिहिं आ
 समन्ततो हस्तैस्त्रिभिः ।

सत्तरहमो संधि

२.२ हेइ प्रहरण । १२.१ v 1 पहरे समिह्णिवि प्रहारे दत्तेऽपि ।
 १२.६ वाहिरंतरु शरीरबहिर्भागः । १२.८ हरि व विष्णुरिव बलिवन्धनकाले ।
 १२.१० फग्गुणि णाई सहसकिरणु फाल्गुनमासे शीतपटल भेदित्वा आदित्यो रक्तच्छविः
 प्रतिभासते । १४ ४ बलिउ व्याघ्रटितः । १४.८ आलीविउ प्रज्वालितः । १५.८
 v 1 खगउले पक्षिकुले । १६ १ उद्भिण्ण प्रकटम् । १६.८ पंतिणो शृङ्गारितौ
 पत्रावलीवन्तौ वा । १६ ९ सुरवइ लंकाहिवेत्यादि इन्द्ररावणयोर्यदुत्तम प्रचुरं भवभ्रमण
 नदेव भवन गृहं तत्र । १७.४ अंसुएण वखेण (the gloss वरत्र, Part I,
 p 145, is a mistake)

अट्टारहमो संधि

३ ७ लइ वट्टइ पूर्यते । पर्यालोचनेन प्रस्ताव पूर्यते । ४.३ दूसावासु
 गुडरावासम् । ४.५ गन्दीसराहे नन्दीश्वरदिने । ५ ४ जलइ जलार्द्रवस्त्राणि ।
 ८.५ पवर प्रधानपुरुषः । १०.३ v 1 ण इट्ट । १०.४ म होसइ मा कदाचिद्
 भविष्यति ।

एगुणवीसमो संधि

४.७ सुचवि सुवचनवान् । 'सुय वि' इति पाठे श्रुतेऽपि । ५.२ भत्तारु भणेसई
 etc. पवनञ्जयो यदा दोषवती भणिष्यति तद्विषये दोषो भविष्यति । १०.५ वाहंभ
 अश्रुजलम् । १४. v 1 वे पच्चक्खाणउ (cf P's leading)—द्विविध सन्या ..
 [As folios No 20 and 21 are missing, there is a gap in the Gloss
 extending from here up to Sandhi 23, Kadavaka 10, line 5]

तेवीसमो संधि

१२.२ v 1 मुकु कुमारि व त्यक्ता विद्या यथा न गोभते । 'मुक्क कुमारि व'
 केचित् पठन्ति । तत्र विदग्धस्त्रीः । १३.५ जलपओह जलस्य प्रकृष्टा ओघाः ।
 १३ ६ v 1 समुल्लसंति उच्छलन्ती । १३ ६ वोल उपर्युपरिसभवनम् । १५.४
 तिमुंडं मनोवचनकायाः (?) । १५ ५ v 1 अण्ण धवल धवल अन्ये राजानो
 निश्चिता धवला इव धवलाः । १५.७ विजय नामेदम् ।

चउवीसमो संधि

१.२ मुरव मृदङ्ग । १.३ सुइ आचारोपासकाध्ययनादि । १.१० v 1 उव-
 हाणउं गडुकम् । २.३ संगीयं समुदायः । २.५ v 1 घोणउल्लो etc चतुर्दिक्षु
 भूमि ऊर्ध्वं गच्छन् जनसमुदायकोलाहलप्रतिध्वनिः । २ ६ गुंदल etc युद्ध-उद्दाम-उच्छ-
 लत-प्रचुर-उपर्युपर्याश्रयं येषां ते सुभटसङ्घाताः । ४.१ etc अज्ज वि तावत् ।
 ४.६ v. 1. लोउ (cf P's leading) लोच. । ४.७ आयामिय केनाक्रम्यते ।

६ ६ परयारिय परलीगमन । भिक्षार्थं परगृहद्वारगमनश्च । १०.९ v । दुइ मुणि
 बुतिनामा मुनिस्तस्य पार्श्वे । ११.६ जडहारिय शिरे जटाभारधारिणः । वृक्षभक्षकाः ।
 ११.७ धाडीसर तीर्थयात्रागामिनः । छलप्रहारिणः । ११.२ v । मणिवत्थ कवली ।
 'मयवत्थ' पाठे मृगचर्म । १२.३ मूल दीर्घजटाः । १२.६ v । आवइयउ
 आपतिताः । १३.७ णावइ कुडउ नमुकरोति कुटजवृक्षम् । 'णावइ' न आगच्छति ।
 १४ ३ v । सवंदणं स्तुति । वनपक्षे च वन्दननामवृक्षाः । ससावयं सश्रावकम् ।
 वनपक्षे पशवश्च । १३ ४ v । सवाणयं वाणाः काण्डाः । वृक्षविशेषाश्च । १५.८
 v । हडहडपुट्टसीसु ।

पञ्चवीसमो संधि

२ ८ Like P and S, T also appears to have read two lines o
 a Dohā between lines 8 and 9, for like P it gives the gloss v । णियत्तु
 निसृतः । ३.१० ओलग्गए स्थानरचनायाः (१) । ४.४ v । धूअंतइ उडुंतानि ।
 ४.७ पचलंतउ प्रकर्षेण चलन्तः । ६.८ हकडकल्लुक्क हुडुक्काडक्कयोरतीवरौद्रशब्दः (१)
 ६.९ v । सीरि हलः । १० ९ कलाए (the gloss at II 36 is to be collected
 accordingly). ११ २ v । बुल्लु (fol अण्णु^१)—भोजनम् । १२ ४ v ।
 मुहरसयड्डिउ मुखेन रसमाकर्णिते (१ रस आकर्णितो) यस्य । मुखरसाद् यो वा ।
 १५ ५ णिसुंभिउ मारित । १५ ६ रसंतु शब्दायमानः । १८.८ v । गंधउ
 गन्धर्वः । २०.३ अत्थंतउ अस्तगतः ।

छव्वीसमो संधि

४ २ v । तावे लित्तउ । ४.२ v । चत्तउ (cf A's leading)—
 मद्यकोसकः (१) । ९ ७ णडु जह (v ।)—नृत्यकारी यथा । १०.४ v । मंथरु
 नात्तिदीर्घम् । ११ ८ v । फुलंधुव भ्रमर इव । १२ ४ पियासणु मिष्टान्नम् ।
 १५ ९ हार अङ्गहारः । सूर्यपक्षे (१) थाल मुखमण्डलम् । १७ २ पट्टइं जलसारणी
 इक्षुपक्षे । १७ ३ डालइं अब्रलानि वस्त्रपक्षे । १७.४ चारण नग्नाचार्याः ।
 १५ ७ v । महव्वलवलु निद्रावलम् ।

सत्तवीसमो संधि

१.५ v । मुहु (cf, S's leading) वारवारम् । २ १ सिरिवच्छेँ लक्ष्मणेन ।
 ४.२ v । अब्भयघण लघुमेघाः । ५ ५ घण नृ(नि)विड । ८.९ v । विगयगउ
 (cf P's leading) विगतगर्वः । १२ ३ मोक्ख देशत्यागः कर्माभावश्च द्वाभ्या
 ल्यक्तम् । १३ २ णिम्माणु गौरवहीन नरक्षेत्रप्रमाण च ।

अट्ठावीसमो संधि

४ ५ v । पराइउ । ४ ९ v । णिविसद्धहो अट्ठे क्षणमात्रेण । ६ ३ ससं-
 कउ सम्यक् क्रमः परिपाटी सक्रमः । सह सक्रमेण वर्तते 'ससकउ' । अन्यत्र सह सक्रमेण

संक्रान्त्या वर्तते 'ससकउ' । पुनः 'ससंकउ' नगरपक्षे सह शङ्कया वर्तते 'ससंकउ,' अकस्मादुत्पन्नत्वात्, अथवा सह सक्रमेण मार्गेण वर्तते 'ससंकउ' । अन्यत्र 'सं' सुख तदर्थं 'क' पानीय 'संक', सह सकेन वर्तते सहातकं (१) 'ससकउ' । 'क'शब्दो जलपर्यायः अकारान्तः ।
१२.९ v 1. जगसूहउ जगत्सौभाग्यः ।

एगुणतीसमो संधि

२.८ v 1. उकमिउ उदूवात. (१) । ५.२ परिवायणु निवडणक जल्पन वा ।
१०.९ v 1 गुणियउ (cf P's reading)—अभ्यस्तः । ११.३ हवि अग्निः ।
११.३ अपरायणासु न परे जना लोका यस्य । नाभिभवनीयस्य वा ।

तीसमो संधि

२.३ हरिणकखरहिं पाण्डुराक्षरैर्हरिताक्षरैर्वा । हरिणवसतिस्थानैश्च 'लंपिक्कु (१) व' व्याधो यथा । ५.१ वेह्लहले ललितगर्भेश्वरे विल्वीफले च ।

[As folio No 26 is missing, there is a gap in the Gloss extending from here up to the end of Sandhi 32]

तेत्तीसमो संधि

२.७ v 1 उववाएवी महादेवी उपवाचित्वा (१). ३.६ आलवाल अटमटान्यायो वृक्षमूलजलास्थानक च । ६ १ v 1 दुन्वहइ दुःखेन धरति । ६ ४ v 1. जियंतिहिं (cf S's reading)—तुलाभि. । ९.१० v 1 पचेडिवि (cf A's reading)—अभिभूय । v 1 अवरत्तएण पश्चात्तापेन ।

चउतीसमो संधि

१.२. v 1 उववासपोसहवयं वंछिए उपवासप्रोषध व्रत गृह्यते । २.६ कुंटमंट कुब्जः, हस्तवद्धः । २.७ काणीण कन्याजातः । ५ ६ पंकए पद्मे पापे च ।
७.९ v 1 महइ वाञ्छति । 'वहइ' वा धरतीत्यर्थः । ८.८ उम्महइ निराकरोति ।
११ २ v 1 गोलउ गावः । ११ ४ v 1 धणधणतंदुलेहि धनधान्यतन्दुलैः ।

[As folio No 28 is missing, there is a gap in the Gloss extending from here up to Sandhi 37; Kadavaka 3, line 2]

सत्ततीसमो संधि

३ २ v 1 लंवति केस लम्बकेशाः । ३.९ पलउ भञ्जनम् । ४.३ v 1 जरण (cf A's reading)—परिणामः । 'चरण' वा पाठे भक्षण इत्यर्थः ।

अट्टतीसमो संधि

१.५ v 1 उचारिउ कथित. । १७.७ जणहुवजोत्तेहि जानुयुगलाभ्याम् । जानुभ्यामित्यर्थः ।

एगुणचालीसमो संधि

३.९ अत्र कथा । उत्तरमथुराया श्रावको जिनदासस्तेन मुनिभक्त^(१)नामा ब्रह्मचारी विद्या याचितस्तेन च कामरूपिणीविद्या दत्ता । ततो जिनदासो यस्मिन् दिने यद्रूपं ग्रही-
स्यति (१) तस्मिन् दिने न तद्रूप पुनः गृह्णीयास्त्वमिति । एवमेकदा जिनदासो निजभार्या-
गुणमत्या सह अटव्यां क्रीडितुं गतः तत्र सरलतरा[णि] सुवृक्षाग्रे फलान्यालोक्य याचित-
स्तया । जिनदासेन च तस्याश्चक्षुषी वस्त्रेण बद्ध्वा मर्कटरूपेणानीय दत्तानि । तथा मृष्टानि
ज्ञात्वा पुनराग्रहेण याचितः स यावत् तथा पुनर्वृक्षमारूढस्तावद् विद्यया मर्कट एव कृत
इति । ४.५ णमिय आरोपित । ६.५ सिक्किरिउ वर्धते पुण्यप्रदेशः ।

चालीसमो संधि

Opening Stanza, सम्मय शोभनमतम् (P's gloss also, given at l 146 as on a word in l 1, is to be connected here)

१.१ 'गयगस' इति गतशरीरसुखम् । चारु रुचा शोभनदीप्त्या कृत्वा । अथवा
रुचा अन्तरङ्गभक्त्या वन्दे । णएण वंदे नीत्या आगमोक्तविधिना वन्दे । सासं अहिसकं ।
अत्र कियती वाऽश्वरावृत्तिर्यथा 'तंसत तसतं । गयग गयंग । सघीअघीस सघीअघीस'
इत्यादि । (The text of the gloss on I 146, last two lines, is to be
corrected as here) १ २ असाहणं मण्डनरहितम् । २.६ गए गजे सति । २.६
आहए पानिते सति तुरङ्गमे । २.७ 'रुहिर' etc—रुधिरविन्दुमण्डिते । सायरे etc—
समुद्र इव सुरमयिते तथा...स्थिते सति । २.८ v 1 विच्छिड्डु । १६४ v 1 धुव
हस्तिपु रथेषु निश्चलाः । १६.५ चवल वक्रग्रीवा धावनशीलाश्च । चडुल अस्थिरक्षुराः ।

एकचालीसमो संधि

१.९ v 1 पइं संतें भाएण । ५.९ v 1 दुक्खच्छइ दुःख तिष्ठति ।
११.११ v.1 सीमंतं मर्यादावसान^(२)करेति । 'सयल' वा । १६.८ णिसण्डिहिं
वृसमूहेः । १७.५ v 1 अइउ आदर्श ।

बायालीसमो संधि

२.९ v 1 सेज्जए (cf A.'s reading)—लीलया । ३.४ णियलीलए सरा-
(^(१)खैरा)गमनेन । ४.४ v 1 सुवउ । ६.७ मणि रत्नप्रभा चेद्रग्रीवा । पश्चात्त्यभागः^(२) ।
९.४ v 1 सवासउ म-इन्द्रः । १२.१ v 1 वाइ वापी । १२.११ ताडिय विस्तारिता ।

चउयालीसमो संधि

Opening Stanza v 1 सहीरण आत्मनो धीरणम् । ४.४ विसंथुल
शिथिलाङ्गः । ५.४ सिद्ध प्रमाणावाधितम् । ६ १ अणिट्टिय असङ्ख्यात । ६ ४ अड्डे
अध्वनि । १४.९ धरमि उद्धग्मि । १५.६ कंकाले क जल तस्य काले, वर्षाकाले ।

पञ्चचालीसमो संधि

२३ व १. सञ्जे साध्वे । २.८ व १ मज्झारणुउ मध्ये क्षामः । २.९ व १ उवएसु उपदेशो मन्त्रः । ४.९ व. १ अइवडउ श्रीमदणहिलपत्तनस्य नामेदम् । १०.५ व १ इंदु चन्द्रः । १०.१० व १ छुलुछुलु गीघ्र, उत्तावलकम् । १२.१४ रिह लेखा ।

छायालीसमो संधि

११ व १ खइयाय (cf S's reading) खचिते । ५२ वाइणा वातस्या-
पत्येन । तमालयं अन्वकारगृहम् । ६.२ जुए युग्मे । ७.७ बहलपत्तलो घनपर्णः ।

सत्तचालीसमो संधि

१.९ भुव etc भूर्य, हस्ताश्च । षोत्त नेत्र, वल्लविशेष नयनश्च (?) । सुत्त सूत्र,
यज्ञोपवीतश्च (?) । ४.४ व १ हरिहरु स्वर्गः । ४.५ पुण्णाय पुरुषे सर्पे च । खरहितः
प्रसिद्धवचन पक्षे (?) । ११.८ व १ संवडरु (cf P's reading)

एकूणपण्णासमो संधि

४.८ सर गुणा वाणाश्च । ८.५ व १ णयपालएण नयपालदेशानाम् ।
१०.१ तियडइ तृ(त्रि)जटायैः । ११.१ धयरद्वगइ हसगतिना (?) । ११.७ गंभीरउ
महत् । ११.८ इंखोलिर आत्कारः । ११.९ कंची चीर (?) । १२.२ व १
णिम्मयलंछण मदकलङ्करहिता (?) । १२.७ सेरी थिर । १३.११ व. १. जूडि
(cf. P's reading)—केशजूडिका । १४.७ व १ अहिसारइ (cf P's read-
ing)—स्यापयति । १६.९ व १ भीसाणहं भीष्माणाम् । १७.२ णियाणे वि
निदानेऽपि । १८.६ व. १ कुसामउ (for कुडेवउ, cf P's reading) कुसमयैः (?) ।

पण्णासमो संधि

२२ व १ णिरु षंदणु साया इव अतीव पुत्रो मातरं यथा स्मरति । सिहि
मयूरः । २.३ पहु प्रमु । ४.७ व १ पच्चायारु प्रत्याख्यान इव । ५.१ व १
गुणग्घविउ (cf P's reading)—गुणै. भरितः । ६.९ व १ पवंघहो (for
'पवञ्चहो?)—विस्तारस्य । ७.९ व १ मोक्खसुहासेहिं मोक्षसुखासीनैरितिभाषितम् ।
७.१० व १ सव्वु (for चउ, cf P's reading)—अहोरात्रि । ८.१० सुहासय
शोभनहृदयानि । ९.६ व १ मेहली सीता । १०.५ कंचीदामु वल्लमाला । १०.६
हलीसमणोहरि सीता । ११.१३ व १ धूयवत्ति वधारितानि । सोवीरिहिं काञ्चिकैः ।
The Gloss figures in II 11 13b are to be adjusted according to this.
१२.१b. v. 1. -हत्थासोयणउ cf P's reading. The gloss is same as in
P १३.३ वासाणि व मार्ग इव (?)

एकवण्णासमो संधि

२.३ व I अइमुत्तमा अत्युत्तमा (?). २.६ वया वचा । ३.३ रसंतु
आरटन्तः । ३.७ व I णम्मय (fol णिम्मउरु ?)—नर्मदा । ४.३ उब्भिण्ण
उत्पन्न । ४.४ चंचरिय भ्रमरः । ४.७ अलि तेज. (?) । ४.८ व I वित्थिण्ण
विस्तीर्णः । ४.९ समग्गु समानः । ६.९ दलणिवेसु दलानि पदानि पत्राणि च ।
७.९ v. I तमि रात्रि । ८.७ बहुखम बहु भूमि प्रविष्टोऽन्यत्र बहुक्षान्तिः ।
११ ३ परिकरावद्ध सनाहकृतः । ११.७ व I उब्भिण्णकरवाल उद्धुपितहस्तरो
माण. । १२.५ पहंजणेहिं वानवलयैभिः (?) । १५.१ व I. विणकु The reading
and its gloss here correspond to those in P

दुवण्णासमो संधि

२.१० ण विहावमि न पश्यामि । २.१० दलु निर्णयः । ८.१० v. I
छायाविकखणउं (cf P's reading) ९.१० व I जीवभयाणवसरइ (cf A's
reading)—जीवितव्यभयणेत्रसराणि (?) । १०.१० व I ससणुज्जुय (cf P's
reading)—वातोद्धृतैः ।

तिवण्णासमो संधि

१.३ व I संसारणं सा-रते, अथवा 'संसा' प्रशंसा रदति, अथवा 'ससा'
सुखलक्ष्मी रदति 'ससारदे' । 'रद' विलेखने धातुः । १.५ णरवरसंदण नरवरमर्दकाः ।
१.७ व I अवराहउ अपराभवः । [पराभव]रहित. । १९ v. I उव्वडइ (cf P's
reading) ३.५ आमोहिय गृहीताः । ५ ६ चाल चत्वारिंशत् । ७.३ व I
अणिट्टियगव्वे अनस्थित (?) गर्भेण । ७.६ गयरुप्पे गजा (? दा) रूपेण ।

चउवण्णासमो संधि

६.१० व I परिरक्खइ सर्वत्ररक्षा करोति । ७ २ कुवलय गढहूल (?).
७.१० पर किन्तु । ८.६ मेलावक्के मेलापकेन । ८ ९ व I एहए अस्मिन्नपि
जन्मनि । अण्णभवंतरे अंतरे अस्मिन् जन्मान्तरेण विना । १०.५ वेत्तासण स(श)-
राव । वेत्तासनो वा । ११ ७ व I आयहु (cf P's reading) एतानि (?) कल्ल-
षितैः पीडितैर्जीवः । १२ १ साउ सर्व्वम् । १२.७ मइलसमुज्जलेहिं उच्चनीचैभिः (?) ।
१ ६ २ वोहि ज्ञानानुप्रेक्षा ।

पञ्चवण्णासमो संधि

Opening Stanza. दुवक्खी द्विपक्षे जातः । २ ३ वाल विवेक (?) ।
५.३ सकुसुमं गृहप्राकारसहितम् । ५ ४ तवंग उपरितनभूमावस्थानपट्टमण्डपिका ।

छप्पण्णासमो संधि

३.९ व I आहवइ (fol अप्पाहइ)—आढवति । ४ ४ पवलयमालारंखोलिर

प्रवाल्लता-आन्दोलिता । ५.१ v. 1 गज्जो (१) शब्दितः (१). ५.३ फार वितीर्ण ।
१२.९ डीणु उड्डित्वा ।

सत्तवण्णासमो संधि

१.३ कुलसेलु कुलपर्वतः । १.८ v 1 परिहरिएवउ P's reading and
gloss correspond ३.१ [हि]रावणो अभिरामकः । v 1 हरिणाएरावणो
हरिणामेरावतः शक्रराजः । ३.४ परिहरावणो मोचकः । ३.५ v 1 मणोहरवहु-
परावणो मनोहरवधूनां प्रकर्षेणानन्दकारकः (cf P's reading and gloss) 'बहुय-
रावणो' इति पाठे अमरमनोहरवधुकानां रावणः प्रक्रन्दकारकः । ३.६ तुरावणो
प्रेरकः । ४.१ v. 1 विहीसणो हे विगतभीस्तथा हे इस णोऽस्माकम् । ४.२ v 1
विसोसहिं (cf P's reading and gloss) कदर्थयसि । ४.५ Between the
glosses on कधरो (line 5) and on जपिय (line 6), T has 'णायउ' ज्ञातः and
गहिरणायउ' गम्भीरशब्दः Possibly these suggest an extra Yamaka between
lines 5 and 6, not lead by PSA. The fact that the Kadavaka-body
here unusually contains six lines only, instead of eight or even seven
may go to support this surmise ६.१ विरुयउ अशोभन कृतं त्वया ।
६.२ दुद्धर etc T. has P's reading and gloss ६.८ पवराहुउ प्रवरा आहवाः
सद्धामा यस्य । अथवा प्रवरा श्रेष्ठा विटसुग्रीवादयो हता येन । ७.४ जो जणे
संकुइउ यो लोकमध्ये पूर्वं सकुपितः । ७.४ विहीसणो विगतभीर्भयरहितःस्वनः
शब्दो यस्य । ९.१ a. वरत्थयं उत्तमप्रहरणकम् । ९.२ सुहडसुहड सुभटाः ।
रथाः । भासुरं मीष्मम् । संखोहभासुरं पटहमेरीशङ्खौघानां शब्दमाहात्म्य सुष्ठु राभि (१ति)
ददाति भासुरं । ९.३ a 'रिउमंडलगए' इति पाठे रिपुमग (१ड) लगते इत्यर्थः ।
१०.३ देइ ददाति पत्नीं सीतां यदि (The foot-note under 10-2 is to be
corrected as P देइ.). १०.७ a v 1 पहु रुचइ (cf P's reading)—
प्रसुरुच्यते भण्यते ।

अट्टवण्णासमो संधि

६.५ v 1 मुसंढिगय वज्रमुष्टिगदाः । ६.७ a v 1. समायरेहि आदरयुक्तैः ।
९.३ b v 1 विंदूय परे सविसज्जणीउ दूतहेरिकसहितोऽन्यत्र बिन्दुद्वय । ११.९ a
v 1 हत्थहुं (The Gloss corresponds to that in P for ऊंकार, T. reads
अकार). ११.९ c v. 1 अण्णउ दुव्वयण (cf P's reading)—अकाररूपवर्जितं
द्विवचनानाम् । v. 1 सरासणहं खरसंज्ञकानाम् । १२.५ v 1 वलिविरिच
वल्लिदानम् । १५.८ कइकइअवरज्जिय(सुअ) वल्लिभद्रः । लक्ष्मणः ।

एकसट्ठिमो संधि

४.१३ जसोहभूरिणा यशौघभूरिणा शत्रूणाम् । ७.२ v. 1. तामिच्छ (=P's

reading)—अ[ग]स्थिवृक्ष । हङ्गतरु इत्यर्थः । १२.३ धारा रात्रि । १३.६ करि
etc. हस्ती रटन्तः सन् कर्परितः ।

त्रासट्टिमो संधि

१०.२ v 1. उड्डहणु (=P's reading) उपतापकः । १२.६ v 1. सम-
दिट्टि (=P's reading)—समविषमक्रादयो दृष्टयः । १२.७ अयणु अयनपट्केति ।

तिसट्टिमो संधि

१.४ रुंजा शब्दायमान । ३.६ कलेवरं रुण्डम् । ७.३ विड शुक्रः (?)

[The folio No 39 is missing The gap in the Gloss extends up
to Sandhi 66.]

सत्तसट्टिमो संधि

१.७ लवंतिए स्फुरन्त्या ।

[Useful materials from this *Tippana* for the rest of the PC.
will be found under the designation T among the glosses reproduced
in the footnotes to the text-portion].

शब्दसूचिः



Abbreviations · D—Deśināmamūla of Hemacandra. f—feminine gender gl—gloss in Ms P. or T. G.—Gujarati. H.—Hindi. Hc—Hemacandra's Prakrit Grammar (=Siddhahema, Chapter VIII). m—masculine gender, M.—Marathi n—neuter gender, ND—Turner's Nepālī Dictionary nom prop.—nomen proprium op. st—opening stanza PSM.—*Pārasuddamahanṣavo* of H Sheth Sk—Sanskrit ref.—referring to Part I—word-index of the first Part of the *Paumacaru*. Part II—word-index of the Second Part of the *Paumacaru* A query (?) indicates doubtfulness of form or sense √—verbal root

Reverting to the practice adopted in Part I, *y* has been placed between the vowels and consonants in the alphabetical order.

अइरावण 57 3 1 ऐरावत	अणुअपाउय 68 1 10 अन्वाप्यायिन replenished
अहव 69 22 9, 79 4 2 अवित्रा	√अणुण 57 1 8 अनु + नी-
अगलें 64 10 5 in front	अणुमरिय 60 10 9 68 1 1 [अनुन्त]
अगहर 65 3 9 [अग्रह] front yard (or = अग्रहार ?)	योग्य (PSM)
°अगिमय 58 6 3 सूपमुद्गादि (cf 34 13 3)	अत्यघोरं 65 8 2, 67 4 2, 69 18 11, 79 11 10 all of a sudden
अगहर 62 4 7 अग्रहार, gl करणमेद	अत्यन्तय 67 12 9 dying
अङ्गुथलिय 77 20 6 finger-ring	अन्दोलिय 74 17 7 [आन्दोलिका] आन्दोलन
अच्छहल 81 10 8 bear (D 1 37 अच्छभल)	अप्यपरिहृत 75 9 6 confused as to one's own and enemy's flanks
अच्छोडिय 66 9 9 आस्फालिन	अप्याण 57 1 8 आत्मीय
अजहु° 71 11 22 (१) अजउ, (२) अजाल्य	°अप्यायण 77 3 8 आप्यायन
अट्ट-उण 64 10 3 अट्ट-गुण	√अप्याह 59 3 2 teach (PSM) (gl आहव 'begin' does not fit the context)
अड्ड 61 4 8, 61 6 9 crosswise, sideways (PSM, G आड्ड)	अप्पुण 68 4 9 नगम्
√अड्ड 71 14 6 station (ref army) स्थापय (cf PSM अड्डिय=आरोपित)	√अट्टभइय 71 9 10, 80 7 3, 86 19 11, अट्टभइय 85 11 4 अतिगय, अभाविक
अड्डय 74 7 3 gl takes this to be a sort of weapon (प्रहरणविशेष), but it may mean shield (cf PSM अट्टण 'shield')	अट्टभरुहुइं (√ 1 आभ°, आभर°) 73 6 4 gl उभयत्र श्लाघ्यानि (?)
अणयाणन्त 84 3 5 अजानत्	अविभट्ट 61 op st, 62 12 6, 63 7 2, 64 1 1 joined in battle
अणिट्टिय 78 2 2 अनिट्ट	√अभिभड 59 5 4, 61 9 9, 62 2 7, 64 5 4, 64 6 3 fight
√अणुअत्त 57 1 9 अनु + वर्त्त	

°अभिमत 74 5 6 मद्राम
 अभोक्त्वण° 68 2 10 अभ्युक्षण
 अभोक्स्त्रयय 68 2 9 अभ्युक्षित, gl सिञ्चित
 अभी-ईयार 58 15 7 the vowel *i* of *omī*
 अरित्त 73 13 8 अरित्त
 अलमल° 82 4 1, 82 5 9 दुर्दान्त (quali-
 fying बल 'strength'), gl प्रचुर
 (cf D. 1 25 अलमल=दुर्दान्त-वृषम)
 अलय 71 5 5 gl अलम्
 अलियल° 60 5 3, 81 10 8 व्याघ्र (cf
 D 1 24 अरिअत्री, 1 56 अलिअत्री),
 gl चित्रक, व्याघ्र
 अलिमा 71 5 4 gl अल्यम्
 अल्लल° 84 7 6 आर्द्रार्द्रं
 अल्लोण 66 2 2 प्राप्त
 अवयञ्जिय 73 1 1 gl अवलोकित
 अवज्ज 70 8 7 अयोध्या
 अवड 71 5 3 gl न पिद्यतेऽन्यत्र वृहद्
 यस्याद् वटान् (?)
 अवस्तण 62 1 6 [=अपरत्त] gl पश्चिमभागे
 °अवरुण्डण 63 7 5 आलिङ्गक
 अवरुण्डिय 57 12 9 आलिङ्गित
 अवहेरि 59 5 7, 71 12 10 अवधीरणा
 अविणीयय 81 4 7 (१) अविनीत, (२)
 अविनीत
 असणि-जलय 59 1 9 [अगति-जलड]
 प्रलय-मेघ (PSM)
 °अहिरावण 57 3 1 अमिरामरु [gl अमिराम]
 °आअद्रियय 69 20 10 उत्कण्ठित (मयणा-
 अद्रियय love-sick, cf PSM आयल्ल्या,
 D 1 75 आअल्ल=रोग)
 आयल्लड 83 2 1 gl आरार्तिक कामपीडा
 वा (see आअल्लियय)
 √आयाम 61 11 1, 61 12 2, 63 8 9,
 63 10 7, 64 3 9, 64 12 8, 64
 13 9, exert force (Pe I)
 आखखण 02 6 9 plucking
 °आजाण (?) 82 6 2 देगविज्ञय
 °आहुम्भण 77 10 4 causing turbulence
 √आडोह 76 9 5 cause turbulence
 by wading through

आढविय 78 14 1 आरब्ध
 °आणन्दय 60 2 1 आनन्दकर
 आण-वडिच्छा 77 19 6 obedient
 आरण्ण 67 2 8 व्याकूल
 °आभङ्गण 73 1 6 अभ्यङ्गन
 आमेल्ल 58 14 3, मुच, लज्, आमेल्लिय
 61 11 8, 61 8 4, 63 6 10 मुक्त
 √आरणाल 75 17 7 कमल (D 1 67)
 °आरुक्किय 68 11 7 grunting (ief
 boar)
 √आरोक्क 65 1 2 check the advance
 (cf रोक्क I)
 √आरोड 57 2 7 आक्रम् attack
 °आलण° 76 6 9 आलान
 आलिय 79 12 6 tied (cf PSM आलड्य=
 आलणित, यथास्थानस्थित and आला-
 णिय=वड)
 आलेवियम° 72 2 7, 72 4 10 आलेखित-रूप
 आवग्गय 62 2 7, 63 12 8, 79 5 8
 entuely, आवग्गी 58 5 9 gl स्वाधीना
 समन्ता वा
 √आवट 70 3 10 विलय प्राप्, अवट्टिड 66
 9 5, 81 13 5 विलय प्रापितम्, विनाशितम्
 √आवट 62 5 8, 81 5 10 [आपत्]
 भास्, आवडिय 78 8 9 भावित
 °आविट्ट° 73 8 9 व्याप्त (cf D 1 63
 आपिट्ट=प्रेरित)
 आवन्दुर 68 5 3 [आन्दुर] gl मनोज
 आवीलिय 60 1 5, 67 15 4, 68 1 1
 [आपीडित?] (ief quiver) fasten,
 put on
 आसद्धिय 68 10 3, 89 5 6, 90 3 7
 सभावित, आथित
 °आमीविमहर 74 11 5 [आसीविषधर]
 आशीविष
 आहयण 63 9 2, 66 6 1, 74 13 1 सद्भाम
 √आहिण्ड 62 4 2, 63 12 10 ध्रम्
 °आहिन्दोलण 77 10 1 causing to
 undulate
 आहीरिया 71 9 7 damsel from the
 Ābhīra country

°भाहुट्ट° 86 3 4, 90 1 6 अर्धचतुर्थं
 इण्ण (in ण-इण्ण) 70 4 1 दत्त
 इन्दाइणि 62 14 5 gl इद्रमणि-आभरण
 °इन्दिन्दिर 63 1 6, 64 4 8, 71 2 3 bee
 ईसाइय 59 3 10 ईष्यायित
 उक्कण्डुल° 81 12 4 उत्कण्ठ, उत्सुक
 उक्कण्णय 80 5 3 उत्कर्तन
 उक्कण्ड 77 4 6 [उत्कर] dung-heap
 (G ऊकरडो)
 °उक्कोयण 81 3 1 see उक्कोवण
 उक्कोवण° 62 13 8 [उत्कोपन] उद्दीपन
 उक्कन्नध 70 11 6, 80 5 7 invasion
 उग्गामिय° 61 1 5 raised
 °उग्गिण्ण° 58 3 8, 59 1 1, 63 9 4 उक्षित
 °उग्घाय 72 15 6 समूह
 उच्चल्लाविय 77 5 9 was caused to be
 carried (cf Maithi उचल्लो
 carry)
 उच्चारय 83 10 1 उच्चतरक (gl ऊर्वाकार)
 उच्चालण 77 10 6 carrier
 उज्जोत्तिय 64 13 7 forced to unyoke
 °उज्झर 66 3 2, 72 1 8 निर्झर
 उट्टुद्द 87 1 6 नियन्त्रित, गृहीत subjected,
 possessed
 √उट्टु 64 14 2 offer, present (cf
 समोष्ट) (G. ओडुं)
 उट्टुसर 63 2 2 nom prop
 °उण्ड 77 4 8 lump
 उण्णिहाविय 69 20 6 made to dispel
 sleep (i. e. swoon), brought to
 consciousness
 उत्तर-सक्खिणय 69 1 8 [उत्तरसाक्षिन्]
 assistant
 °उत्ताल 80 11 1 उद्धत
 √उत्तर 62 10 4, 64 14 9, 63 10 2,
 65 6 1 आक्रम, उत्तरन्त 59 5 3,
 उत्तरिय 61 9 5, 63 9 7 (see Part
 I उत्तर)
 °उत्थार 72 1 11 आक्रमण

उट्टहण 62 10 2, 68 5 9 (v. l. उट्टहण)
 चोर [D. 1 101 उट्टहण]. At 68
 5 9 P s read उट्टहण and gl. in P
 gives उट्टु=मन, gl in T. wrongly
 रुट्टहणो=मर्कट.
 √उट्टाल 72 8 3 snatch, उट्टालिय 74 4 1
 °उट्टेहि° 81 10 5 [उपदेहिका] termite
 (G. उधेई, उधई)
 उट्टुसिय 64 12 3, उट्टूसिय 58 12 10,
 60 1 4 पुलकित (see Part II)
 °उत्पङ्क° 73 3 6 बहुल (D 1 130)
 °उत्पित्थ° 60 5 8 nom. prop. (cf.
 D 1 129 उत्पित्थ=कुपित)
 °उत्पील 66 3 1, 66 4 5, 72 15 5,
 उत्पीलय 77 9 1 समूह, सहात
 √उत्तमज्ज 77 14 6 gl मदं मुच्
 उत्तमाहय 79 7 7 uneasiness due to
 intense longing
 उत्तमिह्ल° 68 7 4 gl. उच्चत, ऊर्ध्वभूत
 उन्वट्टिय 73 2 1 [उद्वर्तित] shampooed
 with fragrant unguents
 √उत्तर 66 3 5 escape, be saved
 उन्मड 58 4 7 उद्धत
 उल्लुह 81 10 3 उल्लुह (cf D 1 109
 उल्लुहत=काक derived from उल्लुकान्त
 'destroyer of owls')
 °उल्लाव° 71 4 8 [उल्लाप] आलाप
 उल्लूरण 60 7 5 nom prop (cf. He.
 4 116 उल्लूर=बुद्ध)
 °उल्लावण 59 8 10 nom prop (cf
 उल्लाव Part I)
 °उल्लास° 59 8 10 [उल्लास] nom prop
 उव 69 20 8 पश्य
 √उवडस 78 3 1 [उपदश] bite
 °उवहाण 62 8 5 [उपधान] pillow (gl
 गड्क इव शिरोवधंभ)
 उहु 69 10 2, 69 17 1, 78 20 7
 yonder one (H वह, G ओ)
 उदन्ताइ-णिवाय 58 2 9 [उदन्तादि-निपात]
 occurrence of words ending in रु
 एकन्तर 74 5 7, gl. 76 3 6 सद्भाम

एकपाणि 72 15 4 [एकपाणि] वाद्यविशेष
 °एकमेक 80 11 7 एकैक
 एकल्य 58 2 8 एकाकिन्
 एकेकम 73 3 6, 7, 75 5 5 अन्योन्य (D
 1 145 एकेकम)
 ओणह 63 3 8, 64 8 9, 76 1 4, 87
 16 8 अवनत, म्लान exhausted,
 drooping, ओणह्रिय 64 6 5, 64
 11 9, ओणह्रियय 63 9 10
 ओरसिय 61 11 2 उद्रसित
 ओराल् 66 5 4 grunt, ओरालिय 71 3 2,
 66 13 8, 73 3 2 गजित
 ओराल 61 1 5, 64 12 1, 73 8 3, 90
 4 1 गर्जना, सिंहनाद
 ओलग्ग 68 8 2 सेवा
 ओलगिय 66 6 3, 88 4 3 सेवित
 ओलगियय (n) 62 5 3 सेवा
 ओलम्ब 72 5 3 [अवलम्ब] कलाप
 ✓ओवह 64 5 4, 64 6 3 [अवपत्]
 fall upon, attack, ओवडिय 61
 10 1, 61 12 7, 63 8 2 fell
 upon each other
 ओवदियय 62 3 2 उपस्थित
 ओवुट्ट 78 18 6 [अववृष्ट] showered
 ओवुण्ण 64 2 8 exhausted (see
 युण्ण)
 ओहट्ट 72 10 5 क्षीण
 ओहट्टण 77 10 8 reducer
 °ओहर 58 8 5, 59 9 7, 60 5 6
 जलजतुविशेष (see Part I)
 ओहाह्य 64 13 8 [अवधावित or अपभावित]
 put to run or overpowered
 कहुड 87 18 6 कदाचित्
 °कडम 84 5 5 कडुद्
 कयङ्गि 78 11 7 ?
 °कङ्गा 62 7 4 फलविशेष ?
 °कङ्गाल 90 5 8 gl. वर्षाकाल (क पानीय
 तस्य काल)
 कञ्जी 73 5 8 (१) काञ्जी, (२) ferrule,
 metal ring ? (cf D 2 1 कची=
 मुसलमुखे लोहवलयं, Telugu 'kañcu')

कचोल 62 5 6 bowl (cf G. कचोळं)
 कजय 71 4 7 lotus
 कडच्छ (f.) 57 8 1 कटाक्ष
 °कडन्तरिय 80 11 9 विदारित (D 2 20)
 °कडमहण 57 3 2, 58 7 6, 77 11 8 विनाश,
 58 2 6, 59 9 9, 63 7 3 विनाशक
 °कडित्त 62 6 4 a technical term
 of a gambling game called
andhukā (see कत्ति)
 कडुआल 59 6 7 nom prop (cf. D.
 2 57 कडुआल=घण्टा)
 °कडुवाविय 61 8 4 पीडित (see Part
 I कडुआविय)
 °कणय 58 6 6 वाण
 °कणय 86 3 7 [कनक] gl बुध
 कण्णाडिया 71 9 6 damsel from
 Karnāṭaka
 कण्डिय 79 4 4 काण्डिका ?
 °कण्णोऊरय 76 10 7 कण्णूर
 कत्ति 62 6 7 a cowrie used in the
 gambling game called *andhukā*
 (cf. D 2 1 कत्ता=अन्धिकाद्युतकपर्दिका)
 कं-दावण 73 9 3 gl. मस्तकदर्शक
 कन्दोट्ट 77 1 3 नील-कमल (D 2 9).
 °कप्परिय 61 7 6, 61 13 6, 9, 80 7 8
 कप्परियय 68 1 3, 67 8 4 कृत
 °कप्परावण 57 3 3 कर्तनकारक
 कप्पियय 62 3 6 कृत
 कप्पुरिस 85 17 4 कापुरय
 कम 61 8 9, 61 13 9 चरण
 कम्भीर 82 6 3 कश्मीर
 करकग्यरन्त 63 3 3 creaking
 °करड (f) 63 1 4, (n.) 79 3 7,
 करटा 79 3 7 वाद्यविशेष
 करसाह-भङ्ग 87 8 8 [करशाखा-भङ्ग] gl.
 अङ्गुल्यारफोटन
 कर-ह 71 5 5 gl करै किरणैर्भाति करभ
 करिह्ल 79 12 8 हस्तिपक
 कलहण 63 5 3 qualielsome
 कलहणय 62 2 6 कलहक्रिया
 °कलिल 79 13 8 गहन

°कलवण° 58 6 6 [cf PSM कलविभ=आद्रित,
G. कालवृत्त mix with a liquid,
Tamil *kala* 'mix', *kalavan* 'mix-
ture'] sort of savoury food
additive in the daily dish
कलुणइ 63 13 7 pathetically
कवणीय 81 15 7 कमनीय
कविलास° 66 12 4 कैलास
कहकहकहन्त 59 1 5 roaring with
kakahaha sound (1ef *pralaya*)
कायल° 81 10 3 काक (D. 2 58, cf
Marathi कावळा)
कालेजर 87 3 3 derty at Kālmjara?
काहार° 82 6 3 देशविशेष
क्रिय 65 4 2, 71 14 6 किल (ef
Part I)
क्रिडिक्रिडिजन्त° 68 6 6 cf. Part I
(Perhaps some meaning like
'tardily moving' fits better)
किष्णरय 72 7 12 वाद्यविशेष?
किलिकिडिय° 79 11 3 रमण, gl. विपरीत-
सुरतमेद (Hc 4 168 किलिकिच=रम्)
किलिविण्ड° (f.) 61 6 8 gl कन्दल,
सद्गाम
कु 73 13 8 पृथ्वी
कुट्टारियय 82 10 2 कुठारधारिन्
कुढ 58 2 4 पृष्ट
कुहल° 82 10 2 कुदाल
कुमुणिवर 61 68 कुमुनि
कुम्हार 77 14 9 कुम्भकार (H. कुम्हार)
कुरल (for कुरल) 71 2 7 कुटिल-केश
कुरव 82 6 1 देशविशेष
कुरुड 60 10 3 निर्दय (D 2 63), gl
क्रूर, 61 7 1 कठोर
कुरुमालण 72 6 8 gl. कडवण (1 e
कड्वयन) stroking
कुरल 72 5 3 कुटिल केश
°कुरुर° 59 6 4 nom prop.
√कुलकुल 78 15 3 caw (G कलकलवु)
कुसिय (f) 82 10 4 [कुनिका] a digging
non implement (cf G कोश)

°कुहिणि 63 5 4, 73 13, 3 रथ्या
केकार° 65 8 3 केकारव
°केर 82 11 9 सेवा
°केसुअ° 61 2 1 किशुक (G केसु)
√कोङ्क 63 6 1, 64 9 1, 77 15 1,
83 4 1 call
कोङ्काविय 69 16 5 called (causative)
कोट्टमिय° 79 11 4 सुरत-विशेष (Hc 4
168 कोट्टम=रम्, and PSM कोट्टम,
कोट्टमिय, which may be corrupt
readings)
कोट्टवाल 58 12 6, 74 5 4 दुर्गपाल
कोड्डु 77 11 10 कुत्तहल
°कोम्पल° 89 2 3 कुड्डमल (cf G. कूम्पल f)
°कोहल 59 7 5 [कुत्तहल] nom prop
कोहल 82 6 4 देशविशेष
√खञ्ज 70 12 10 curb, pull back,
खञ्जिय 59 10 1 curbed
खड° 83 11 3, 83 12 1 तृण (D.
2 67, G. खड)
°खडक 81 10 6 rock (G. खडक m)
°खडु° 90 4 6 गर्ता (G खाड f)
खडिया-जुत्ति 62 6 5 a technical term
in the gambling game called
andhikā (see कत्ति) (cf the
term खडुं करुं used in the
present day game of चोपाट as
current in Gujarat etc)
खणखणखणन्त 63 3 4 clanging
खत्थय 81 4 8 (१) [ख-स्थ] gl. गगनस्थ,
(२) gl भीत
ख-मगग 61 12 4 [ख-मार्ग] आकाशमार्ग
°खयाल 58 4 9 पर्वत-गर्ता (see Part I)
√खस 78 3 1 swerve, 87 14 8 be
dislodged
√खील 82 2 9 [कीळ] nail to a
place, confine (cf G. खीलो nail,
freezing the free movement of
commodity by cornering it)

- √ सुट् 64 7 8 खण्ट् cut off, chop off,
सुडिय 57 6 7, 63 8 10, 69 4
8 खण्डित
- √ सुट् 63 11 7 pluck (ref fruit)
सुण्ट 81 10 6, 85 7 9 stump
(H. ख्या)
- °सुन° 82 13 7 निमग्न
- °सुपन्तय 60 1 2, 70 5 8, 76 5 4, 72
15 5 getting stuck up
- °सुहृप् 58 6 3, 61 7 6, 63 8 10 धुरप्र
खेरि 82 2 7, 82 12 5 धार hostile
malice gl. कन्दल (1 e. कल्ह)
- खेव 69 18 4 विलम्ब (Old G खेव)
- खेवणि° 82 10 3 [क्षेपनी] sort of
implement
- गयासणि 74 7 2 गदा (see Pat II)
- गगर° 67 9 3 गद्गद
- गञ्जोदिय° 61 12 8, 66 12 8, 84 21 1
रोमाहित
- गणियारि° 73 14 2, 76 5 6 करिणी
- गणण (f) 66 8 12, 75 22 8 गणना
- गमयत्तण 67 1 1 गमकच
- °गम 60 10 4 march
- °गलरात्रिय° 59 5 4 grunting (ref
elephant)
- °गलन्धिय 65 10 2 प्रेरित, क्षित
- गलयद्विय 70 10 8 गलहस्तित caught
by the nape
- गलयद्वाविय 78 20 2 caused to be
thrown out
- गलीण 67 2 1 गलित
- गहकडोल 77 12 2 ग्रहवैरिन्, राहु
- °गहण 62 6 8 a technical term of a
gambling game (see कृति)
- गहिलिय 61 7 9 उन्मत्ता (G वेनी)
- °गाड (v. 1 गद्यु) 61 14 5 गर्व
- गिरोमय 60 2 9 (v 1 गिरोमह) tiny
seedvessel, gl on v 1 अजमोदस्य
मध्यरीजम् Possibly made up of गिरि
'seed-vessel' (D 6 148) + ओम
(=अवम) 'tiny' (PSM) (cf G गर
'flesh of the fruit')
- गिह° 58 3 3, 61 9 3, 66 5 4 आर्द्र
- गीह 59 2 8 गृहीत
- °गुजा° 79 3 8 वाद्यविशेष
- गुट 58 7 7, 65 1 7 अद्यसनाह, 61 6
9 करियनाह
- °गुप्पन्तय 60 1 2 72 15 5, 74 16 7
becoming entangled in (cf.
20 10 5, 23 6 7, MP 7 24 10)
- °गुष्क 71 9 2 प्रयन
- गुमुगुमुगुमन्त° 63 1 6 humming
- गुरुभक्ति (for गुरुभक्ति?) 71 2 9,
गुरुएन्ति 85 1 7 great eagerness
(?) (cf परमन्ति)
- गुरुएन्ति 85 1 7 see गुरुभक्ति
- गुफ-हार 82 19 3 pregnant
- गुलगुलन्त 59 1 7, 66 10 1 grunting
(ref elephant)
- गुलियारय 90 6 7 मधुरतर
- गुलगुलगुलन्त 63 3 5 giving a prolon-
ged grunting (ref elephant)
- गोज° 73 7 5 प्रवेयक
- गोस° 70 6 3 प्रभात (D. 2 96)
- घई 71 13 4, 74 5 3, 75 9 10, 75 22
8, 80 2 3, 88 6 12 indeclinable
particle, generally signifying
an alternative position, a
counterposition or a modifi-
cation to a position previously
stated, glossed with शीघ्रम्, ईदानीम्
or नाग्रतम्, Hc. 8 4 424 takes it
to be अनर्थक 'expletive' Actually
it has the force of पुणु = पुन or
supplements it
- °घग्वर° 60 4 5 छुट्टघटिका
- °घट्टल 59 7 10 nom prop (cf
Hc 8 4 422 घंघट्ट=झकट्ट=ककट्ट)
- घडिया-वन्ध 73 6 5 (१) घटिका-वन्ध 1
(२) folded? (cf G. घडिवध?)
- √ घत्त 57 1 9, 63 5 1 क्षिप्
- घत्थ 69 13 3 प्रल
- घडियय 63 9 10 क्षित

घाणय 88 4 6 [घातनक] oilpress
(G घाणो)

√घार 78 2 8 induce a toxic swoon

√घिड (for भिड?) 72 4 3 bump
into ?

घिणिवन्त 77 4 10 जुगुप्सा-जनक

°घुग्घ° 60 11 5 nom prop. (cf
PSM घुग्घ=कपिचेष्टा and G nom
prop. घृषो)

घुग्घुर 60 11 5 nom prop (cf D 2
109 घुग्घुरी = मण्डक)

घुम्मुक्° 63 1 4 sounding
ghummukha? (cf cf घुम्मन्त Part
II and घुमघुमिय PSM)

घोरिय 73 8 3 snoled

√घुरदुर 65 5 6 snole

√घुल 66 9 3 घूर्ण

घोलन्त 61 11 5 घूर्णमान

चउ-धुर 62 6 5 a technical term of
the gambling game called
andhakā (see कति)

चक्खियय 84 7 5 आस्वादित

चङ्गय 66 6 3, 70 3 4 सुन्दर

चञ्चरि 62 9 6, 71 3 6 चर्चरी

°चञ्चिक 89 6 9 विलेपन

°चञ्चिक्रिय° 75 20 6 विभूषित

°चडक 75 6 3 विनाग ?

चडीण 74 15 9 आरुढ

°चडुण 77 9 10 मर्दन

चणड 69 5 2 चन्द्र

चन्दिम 73 8 3 चन्द्रिका

°चन्दुजय 58 11 6 कमल day-lotus

√चप्प 69 13 2, 81 15 10 press,
crush, occupy with force

√चलवल 72 9 3 tanker

√चत्र 58 2 8, 59 4 1, 62 5 1, 69
17 2 speak, चवन्त° 61 4 4

चव 78 8 1 वार्ता talk

च-सद 58 4 7 the word *ca*

°चाडल° 83 4 9 तण्डुल (D 3 8)

°चिक्खिड° 72 15 5 कर्म (M. चिखल)

°चीर 72 13 5 विदारक (G चीखे 'to
tear'), चीरण° 63 10 4 tearing

√चुक्क 58 13 4, 5 etc (Hc 4 177
अश्र.) escape unharmed, °चुक्क
61 14 4 अष्ट

°चुण्णुग्घ 81 10 5 ग्ल अग्नि

°चुग्मल 61 4 9 जेखर (see part
I चुग्मल, and M. चुवळ 'a ring
put under a load upon the
head')

चोज 58 6 2 आश्वर्य (D 3 14)

°चोप्पडय° 58 6 4 fatty substance
1 e oil or ghee (cf Hc 4 191
चोप्पड=म्रक्ष्)

चोल 57 8 1 nom prop (cf D 3
18 चोल=वामन)

°चोवाण 62 8 9 the stick for hitting
the playing ball (called *gedī* in
Hindi, Guj etc)

°च्छोह° 75 3 7 क्षेप

छइय° 75 1 9, 80 7 3, छइयय 89 1
4 छादित

छउअ 71 9 8, 73 6 6 कृश (D 3 25)

°छड° 76 5 4, छइय 73 10 11, °छडा°
79 4 2 floor-plaster

√छडु 58 9 9 मुच्

छणछणछणन्त° 63 3 2 twanging (1ef
bow-string)

√छम्म 58 2 4 (from छन्न) वच्, छलय्
छह 78 14 9 पद्

छार 62 11 9, 71 13 5 [क्षार] ashes

छिच्छइ° 69 2 3 पुश्वली

छित्त 65 8 4, छित्तय 61 8 7 स्पृष्ट

√छिच् 72 3 2 स्पृष्ट

छुडु 64 9 4 (with म) lest (In
many of the occurrences of मञ्जुडु
in Part I & II this is the sense
and hence its derivation from
मं=म plus छुडु is now quite clear.
Its connection with मञ्जु first

suggested by Alsdorf is to be given up)

खुड 75 22 5 यदि

खुड 69 4 9, 73 1 9, 74 16 5 शीघ्रम्

खुडखुड 72 14 4 hastily, just then

खुड 63 10 10 क्षिप्त

✓ खुह 63 12 6 क्षिप्

खेव° 72 6 8 [खेद] प्रान्त

°छोह 62 6 6 [क्षोभ] a technical term of a gambling game (see कति)

✓ जगड 64 13 8, 65 1 9, 75 14 9, 82 14 13 युग्

जगडावण 71 op st, 75 op st पीडक

जट्टिय 64 3 9 यष्टिका

जलु° 69 20 4 यजुम्

जट्ट 82 6 2 देगविशेष

जड्ड 71 2 8 जड, स्थूल (cf. G. जाडुं thick, fat)

जणु-जोत्त 71 11 33 जाजुयुगल (see Part I जुण-जोत्त)

जमकरण 64 4 7, 67 13 3, 71 14 1 मृत्यु

जम्पणय 71 14 6 वदन

जम्पाण 79 1 6, 88 7 6 वाहनविशेष

जवणि (f) 73 5 3 invitation for dinner ? gl. जेवनार (=H dinner) मदिरा (?)

जससेसीहूअय 78 1 1 यश शेपीभूत

जाइ-सर 79 11 8 जातिस्मर remembrance of the past existence

✓ जिगिजिग् 66 7 5 glitter

जीवण 80 op. st, 80 1 8 जीवनवृत्ति land for subsistence

°जूरावण 59 1 10, 66 6 1, 77 10 10 खेदयित्, पीडक

जेत्तडय 59 3 1 यावत् as many

जेवणय 61 12 6 [जेमनक] right (hand) (i. e. the hand used in eatiug, G. जमणो)

✓ जोअ 80 6 8 द्योतय्

जोकारिय 62 1 2, जोकारिय 65 13 9 जयकारित hailed

✓ जोत्त 74 6 4 [योक्त्रय्] yoke,

जोत्तिय 58 1 9 योजित

°अड 69 5 9 gust

अड° 75 6 3 प्रहार

°अडक (f) 59 4 4 प्रहार

अडक (f) 75 6 3 शीघ्रपात

°अडकिय 67 4 7 onslaught

अडअडअडन्त 66 10 3 lashing

अम्प 61 2 4, 66 3 8 jump

°अम्प 75 10 12 आच्छादक

अलअलअलन्त 63 3 7 gushing

°असर° 58 6 4 आयुधविशेष

असिय 82 10 3 टड्क-धर (cf D 3 60 अस=टड्कच्छिन)

°अिक्किरी 71 6 9 वाद्यविशेष

अिन्दुअ 62 8 9 कन्दुक

अिन्दुवय 72 10 2 कन्दुक

अुणुक्° 71 6 9 वाद्यविशेष

✓ अुलुक 77 7 9 burn (cf. G. अलकवुँ to shine brightly)

°टक्° 82 6 1 देशविशेष

टक्कर° 70 10 28 knock or bump dealt with body-part (cf G H. टक्कर)

°टट्टरी (v 1 टट्टरी) 71 6 9 वाद्यविशेष

✓ टल 89 1 6 नश्

टलटलिहूइं 69 11 8 became unsteady, wobbling

टालिय 72 11 1 dislodged

टिण्टाउत्त 71 10 6 officer in charge of gambling houses (D. 4 3 टेंटा= द्यूतस्थान, D 1 16 आउत्त=प्राम-महत्तर (=आयुक्तक))

°टिविल° 79 3 7, टिविला 63 1 4, 72 15 3 वाद्यविशेष

ठउल 62 6 4 gl दाय a stake in the gambling game called *andhukā* (see कति)

डउण्ड° 71 6 9 वाद्यविशेष

°द्वय 61 4 7 battle cry (cf. 25 6 8)
 °द्वय 71 6 9 वाद्यविशेष
 √ उद्ग 67 4 7, 78 4 9 bite
 °द्वय 71 12 10 rebellion
 °द्वय 74 1 9 भय
 °द्वय 69 8 6, 88 9 6 भय
 °द्वय 57 3 5 gl भयोत्पादक
 दक्षिण 59 7 2 nom. prop
 √ उह 67 12 9 दह
 °द्वय 73 op. st., 75 op. st. भय
 °द्वय 86 10 11 भय
 डाल 63 11 3, 61 7 6 वाता
 °द्वय 59 7 1 (A's variant
 डिण्डिर is preferable) nom
 prop. (cf D 4 7 डिनी=वृत्तान्ति-
 वस्त्राण्ड)
 °द्वय 58 8 3, 66 3 1 फेन
 °द्वय 59 7 2 nom prop
 टीण 62 2 3 jumped on? (cf. D
 4 10 डीण=अवतीर्ण)
 डोम्य 79 4 8 धपच (D. 4 11 डुम्य, H
 डोन)
 °द्वय 59 7 6 nom prop. (cf PSM
 टख=डंरु=काक)
 डहृद्वरी 72 15 3 वाद्यविशेष
 डहृस 73 9 7 साहस wonderful feat
 (H दाटस m. =धैर्य, टटता, साहस. G
 दाडम f.=धैर्य)
 डहृय 79 3 8, डहृया 72 15 4 वाद्यविशेष
 °द्वय 59 7 6 nom prop (cf D 4
 16 डंवर=पिशाच)
 °द्वय 68 11 8 bellowing (ref
 bull) (He 4 99 डिङ=गर्ज्)
 √ दोय 59 3 9 [दौक्य्] bring forth,
 offer
 गयणकडन्त्रिय 69 16 1 looked at
 sideways (Part II)
 गह् 81 10 2 न्य
 नह् 62 4 4, 9 [नाद्य्] dance
 गन्दिणि 78 16 1 [गन्दिनी] गो

गह् 83 1 7 नागमय
 गं ग 79 9 2 etc न्य (Part I)
 गा 73 13 8 न्य
 °गाह्य 71 17 6 rope (G. नाह्)
 गियन् 73 6 8 (1) निगं, (2) पतिहा
 °गिर 59 7 8 nom prop (v. l. नह्)
 गियन् 61 10 9 [गिरन्] repayment
 of debt
 गियन् 78 10 4 मुदिमैट (PSM गिर)
 cleaned by sweeping away
 dirt
 गितान् 61 11 2 विगत, gl आरोपित
 √ गितान् 80 2 6 दिवन्
 गितान् 71 6 10 diver (gl. renders
 it with नरलीपा=ग. 'diver for
 pearls') (v l गितावा=gl गिरामरु
 helmsman)
 गितान् 60 2 8 हट
 √ गिटव 58 7 9 विनाम्
 गिटव 65 10 4 नह्
 गिटव 59 7 3, 61 12 3, 74 1 7
 भगोनाम्
 गिटव 68 5 2? (Gl m Ms. p.
 paraphrases वृष्टा निप्रतो (1 e.
 वृष्टान्मन्तो ?) आरो यन्, अय निद्र
 वृष्टा वा हरिता मेन वा
 गितान् 57 7 3 निन्दक
 गितान् 65 7 9, 66 6 1 denounced
 गिरारिड 57 1 4, 59 3 7, 76 11 2
 अतिग्यम्
 गिरारिड 57 1 7 निधितम्
 गिरारिड 68 13 5 [= निरावसय] गृह्णात-
 रहित ?
 √ गिरारिड 65 3 8, 84 17 7 hide
 गिरारिड 63 9 2 पतित
 गिरारिड 58 10 5 पातित
 गिरारिड 69 6 11 [निर्लक्षण] (1) saltless,
 (2) without beauty, ugly.
 °गिरारिड 72 10 4 gl. आघात

गिवाण 78 10 1, 9 gl. शुभस्थान
memorable places
°गिसत्थर° 81 10 6 छस्तर, गय्या (²)
°गिसुदिय° 62 op. st, 63 11 9 शिथिलीकृत,
gl शिथिल
°गिसुम्भण 77 10 4 विनाशक
गिहट्ट 58 10 7, 60 2 8, 72 10 4, 60
3 4 [निघृष्ट] मृदित (D 4 34 गिग्घट्ट=
कुगल is different)
°गिहस° 81 10 5 घषेण
गिहालय 77 11 10, 78 5 6 [निभालक]
दर्शक
°गिहि (f) 68 13 4 निधि
°गीम° 90 4 4 नीप
गीवट्टिय 66 9 5 ² (cf PSM वट्टिय, G
वाटवुं grind)
गीसाम 77 20 1, 88 5 1 [°नि शाम]
विनाशक
गीसावण्ण 57 12 2 gl समस्त
गीसीह-वड 69 3 9 (corrupt for
गीसियवड) [नि सितपट] without sail
√गे 58 2 1 take [नी, H. G ले, M
ने, ND hnu]
गेत्त 77 6 6 [नेत्र] वल्लविशेष
√ण्हाण 77 15 7, 77 17 9 क्त्वा
तज्जोणि° 77 7 8 [तद्योनि] gl काष्ठ
तडयडन्त 65 8 2 emitting crackling
sound (ref lightning)
तडतडतडन्त 59 1 9 intensively
emitting crackling sound (ref
lightning)
तणव 79 3 8 वाद्यविशेष
तण्डविय° 63 1 6, 65 2 4 विस्तारित
(Part I)
तण्णय 78 16 10 [तणेक] gl वत्स
तत्ति 70 7 9 चिन्ता
तप्पय 74 17 5 1aft, boat (cf G त्रापो)
तमाल 63 10 6, 63 11 8, 66 10 8
84 8 2 gl अन्वकार
तम्मिच्छ° (v 1 तामिच्छ) 61 7 2 तापिच्छ

तम्वार 62:3 1 मृत्यु, विनाश
°तरण्डय 83 18 6, 86 10 11 नौका
°तलवर 78 10 7 नगरारक्षक
ताह्य 82 6 3 [ताजिक] देगविशेष
°तिय° 57 2 1, 58 2 2, 67 7 9 स्त्री
तियक्ख 67 12 4 व्यक्ष 1 e व्यंजक
तियमह 69 6 11, 83 17 9, 85 7 11;
नियमइया 73 13 6 स्त्री
तिय हच्च 81 13 9 स्त्री-हत्या
°तिडन्त 61 1 9
°तिडिक्क (f) 84 17 2 स्कुलिङ्ग
°तिडिक्किय 63 5 9 (v 1. तडक्किय) चमत्कृत
suddenly scared
तिम्मण 48 6 5 sort of curry (²), at
71 10 4 one of the two
meanings is the same as the
preceding, and gl. 1enders
it with व्यञ्जन (see Part II
तिम्मण), the second meaning at
71 10 4 is स्त्री-मनस्
तिरिडिक्किया 72 15 4 वाद्यविशेष
तिसिर 82 6 4 देशविशेष
तिहासरी (²) 71 6 10 वाद्यविशेष
तीर 75 17 3 शब्दविशेष
तीरिय 58 6 5, 75 21 1 वाणविशेष
तुह 82 6 1 देशविशेष
तुणव 72 15 4 वाद्यविशेष
तुप्प 89 11 6 घृत (cf D 5 22 तुप्प=
अक्षित, त्रिगध, M तुप्प 'ghee')
°तूह 58 8 7 gl. तट
तेत्तडय 59 3 1 तावत् so many
तेरणिय 68 6 7 practising the pena-
nce called तेरण (²)
थक्कय 64 8 11, 64 9 1 stood
थट्ट 58 10 5, 61 6 9, 63 9 2, 65 1 3,
65 8 7, 68 9 7 घटा low
थड 60 9 5, 63 7 3, 72 7 14, 74 11
10 घटा, पङ्क्ति
थत्ति 69 18 1, 75 19 1 म्यान, स्थिति

धरहरन्त 59 1 7, 61 13 6 fluttering.
trembling
धरथरहरन्त 65 6 1 flashing (ref.
sword)
थाणु 87 3 3 स्थाणु, शङ्कर
°धामलय 62 7 4, 69 3 10 स्थान
°धावर° 80 2 3 [स्थावर] gl. दोहलीभूमि
as much land as can be sown
by two ploughs
येरासण 69 2 5 कमल (D. 5 29)
थोडय 62 14 6²
दडि 59 5 2, 61 11 2, 62 10 5, 79 3
8; दडी 72 15 3 वाद्यविशेष
दडिक° 71 6 7 वाद्यविशेष
°ददुर° 62 10 5, 79 3 8 [ददुर] वाद्यविशेष
✓दरमल 72 12 7 crush; दरमलियय
76 1 3 crushed
दलवट्टण 77 10 8 crusher, destroyer
दवणा-भञ्जणिय 62 9 8 [= दमनकभञ्जणिका]
a game connected with the
spring festival
दवत्ति 69 17 7 द्रुतम्
दाडिय (pl.) 58 2 7, दाडिया° 75 17 9
इमथु (D 2 101)
°दालि 72 7 7 small block-like piece²
(cf. Sk दल)
°दावणि 76 10 6 [दामन+इन्?] वन्धक
दिणार 62 14 6 दीनार
दिवेदिवे 61 4 14 daily (Part I दिउ)
दिहि° 65 11 2 धृति
दुअं 86 7 4 द्रुतम्
दुग्घोह 58 10 5, 61 6 9, 63 9 2, 65
8 7, 68 2 6, (= द्विप) गज
दुहकुर° 73 6 6 दुष्टकुर a bad master
दुप्पगउ (v l. दुप्पगउं) 62 12 3 [दुष्प्र-
गमम्] दुर्गमम्
°दुवालि 88 3 8 mischief²
दूण 75 16 10 द्विगुण
दूसन्धवय 57 1 4 gl दुष्कर, 74 5 7
✓दोच्छ=जुगुप्स, लिन्द, दोच्छन्त 65 7 7,
दोच्छिय 64 9 5, 66 9 1

°दोव° 78 12 2, °दोव° 79 4 3 दुर्वा
धगधगधगन्त 59 1 5, 65 9 7 blazing
hot, raging (ref file)
धण 59 4 9, 59 4 10, 62 3 4, 62 6
3, 72 14 11 प्रिया
धणिय 73 13 7 प्रिया
धणेह 73 13 7 gl. प्रीणयति पीडयति वा
धन्त 59 10 7 ध्वान्त
°धम्मेल्ल 68 1 10 धम्मिल्ल
धर 75 9 10 (derived from √ धा 'be
satisfied') दुष (gl wrongly
equates with धरा, as its rend-
ering भूमि indicates)
धरत्ति 79 6 4 धरित्री
धव 75 13 3, 75 13 10, gl. तृप्ति (cf.
G. धरव=तृप्ति)
धाहउ 62 13 10 [धात°] satisfied
धाणुक्किय 61 6 7 धाणुक्किक
धामिर° 60 7 4 nom. prop
धारायर° 84 1 3 निगाचर
धाह 67 5 1 cry for help (Part I)
धाहाविय 62 3 4 cried for help
(Part I)
धीर 58 9 9, 72 13 5 वैद्य
धुद्धुवन्त 66 10 3 roaring (cf Hc.
8 4 396 (7) धुद्धुअड and G. धूषकारो)
धुद्धुद्धुवन्त 59 1 9 thundering (see
धुद्धुवन्त)
धुन्धु° 59 7 1 nom prop.
धुम्मुक्क 72 15 4 वाद्यविशेष
धुवगाय 73 14 3 अमर (D 5 57 धुअगाय)
✓धूलिहो 74 14 5 धूलिभू
धूमवत्ति 73 6 1 gl कर्पूरागरुमिश्रित पानीयम्
°धोरिय 60 11 2 धौरिय
धुव 84 25 5 [धुवा] nom. prop.
धुव-तार 85 7 4 धुवतारा pole star
°पइउल्ल° (v. l. वइहल्ल) 81 10 8 gl.
वृक्षविशेष (°) (cf D 7 51 वइवल्लय=
दुन्दुभसर्प)
°पइग्घ 63 10 7 प्रदीर्घ

पइज 67 13 1, पइजा 62 10 2 प्रतिज्ञा
 ✓ पइमर 62 9 3 enter
 पइंह 64 13 9 प्रदीर्घ
 पइजिय 71 6 17 प्रयोजक (?)
 पउराणिय 83 8 9 gl पवित्रा चिरन्तना वा
 ✓ पउल 89 8 11 पञ्च (Hc. 8 4 90)
 पओलिय 77 13 1 पञ्च (see पउल)
 पय-रक्ख 74 6 4 पदरक्षक
 °पफन्ड° 58 10 6 क्रन्दन
 पफन्डन्त 67 5 1 आमन्दमान
 पक्कल° 75 3 1 दृढ (cf PSM पक्कल=समर्थ)
 पक्खरिय 60 9 5, 63 1 7 सञ्चाहित (D
 6 10 पक्खरा=तुरगसञ्चाह)
 ✓ पक्खर 88 4 4 प्रकीर्
 °पगीढ° 64 10 4 प्रगृहीत
 पवहिय 63 10 8 प्रक्षित
 ✓ पङ्कुर 76 5 9 प्राप्नु to cover
 oneself with
 ✓ पच्च 57 12 6 वद् (see च्व),
 पच्चिय 57 11 1, 69 17 7 उक्तवत्,
 पच्चिय° 63 1 3 भाषित, नादित
 पच्चिय° see पच्चिय
 पच्चल 75 21 4 दृढ (cf D 6 69
 पच्चल=समर्थ)
 पच्चारिय 61 12 8, 72 12 1 challenged
 पच्चहार 72 3 11 [पच्चद्गृह] backdoor?
 (cf पच्चहर)
 पच्चोहिय 71 13 9 पत्युत (?) (cf
 पच्चोहिय Part I)
 पच्चल 58 7 1, 61 2 3, 64 10 5, 64
 11 9, 68 5 5 पृष्ट, पृष्टतः, पश्चात्
 पच्चहर 77 4 5 latrine, gl वेष्ट At
 54 11 8 gl equates पच्चहार
 with वेष्टाकार, which seems to be
 a corrupt reading for वेष्टागार (or
 विष्टागार?) (cf D 6 22 पलोहर
 backyard, and the words पलोहड,
 परोहड in PSM)
 पजोह्य 69 1 1 दृष्ट looked at
 पज्झर 77 14 5 flow
 °पडहत्थ 82 3 7 gl मृत
 पड० च० ४१

पडि 78 15 8 (v. l. पुण्ण) [प्रति] back,
 again
 पडिकत्तय 62 6 6 a technical term
 of a gambling game called
 andhukā (see कत्ति)
 पडिकूलणय 57 1 9 प्रतिकूलकारिन् (gl.
 शत्रु).
 पडिचारय 83 17 9 again, 64 3 6
 in return
 पडिहरिय 86 5 3 परिपूर्ण
 पडीवय 62 14 10, 64 9 8, 65 5 9
 again, towards (Part I)
 पडोहिय 71 13 9 highly agitated
 (cf डोह Part I)
 पणव 79 3 8 वाद्यविशेष
 पण 59 4 7, 61 3 5 [पणं] betel-leaf
 (G H पान)
 पणह 79 6 1 प्रत्नव (G. पानो)
 पत्तल° 75 21 5 तीक्ष्ण (D 6 14)
 पत्त-वाड 74 16 3 fence(?) (cf H पतवार?)
 °पमय 60 5 5, 64 14 2, 75 14 10,
 82 7 6 मर्कट
 पमयवइ 75 6 10 वानरपति, gl सुग्रीव
 ✓ पमाय 57 4 8 (?)
 परत्तिय 77 9 9 (cf 17 14 1 °वण्णुपरत्तड)
 प्राप्त, कृत reduced to (cf परत्तिय=
 भस्मीकृत्य Mahāpurāna 65 24 1)
 परएँ 58 6 7, 62 7 9, 72 11 9 प्रभाते,
 58 5 9 कल्पे tomorrow
 परमन्तिएँ 79 13 1 gl अत्यादरेण (see
 गुरुभक्ति)
 ✓ परिअच्छ 87 4 11, परियच्छ 58 14 3
 जा (PSM)
 ✓ परिअच्छाव 74 2 3 दर्शय्, ज्ञापय्
 °परिअन्त° 79 9 6 पर्यन्त
 ✓ परियच्छ 58 14 3 see परिअच्छ
 परियल 73 5 6, 88 1 10 स्थाल,
 भोजन-भाण्ड (D 6 12 परिअली)
 परिकरण° 70 8 4 ?
 परिगीढ 65 1 7 परिगृहीत

फर° 58 6 6, 58 8 6, 59 1 6 74 17 5
shield

°फसल्लिञ्ज 75 3 7 कृत्विभूय (D 6 83,
also फमलाणिञ्ज, cf D. 6 87 फमल=

1 मार variegated and 2 म्यासक)
°फंसण 66 6 2 पामन
फारक्षिय 61 6 7, 82 10 6 [स्फारकिङ्क]
warriors fighting with the
spharaka weapon (see PSM
फारङ्क)

फिट्ट 84 22 4, फिट्टिय 61 6 9 नष्ट

°फुटिङ्ग 72 6 11 लन ?

फुड्डन्धुञ्ज° 59 9 2 nom prop (cf
Part I s v)

फुड्डन्धुञ्ज 86 5 8, फुड्डन्धुञ्ज° 69 2 8
भ्रमर (D 6 85)

✓फेन्नर 62 1 9 howl (ref jackal)

°फेद्विय 68 11 8 howl (ref jackal)

फेन्द (v. 1 फेद) 73 3 5 (In the
light of 79 4 8, 81 2 9 the
reading फेद is to be preferred,
see फेन्द)

फेन्द° 79 4 8, 81 2 9, 73 3 5 (to
be collected as फेन्द) dancer

°फोफस 82 14 12 lung (see पुफस)

मडय (f) 66 2 1 मय

मयड 87 3 4 मगवान्

मयाल 59 7 5 nom prop

मड-बोक् 80 4 2 boast of bravery
(मड from मड, plus बोक्, cf Hc
4 98 बुक्=गर्ज्, PSM बुक्का, बुक्कार=गर्जना,
बुक्किञ्ज=गर्जित)

✓मण्ड 64 4 9 fight

°मण्डण 61 4 1, 89 4 9 gl मङ्गाम

भम्भीम 72 15 3 वाद्यविशेष

भरह 73 5 9 भरत-नाट्य

भल्ल 57 4 4 मद्र

भवित्ति 57 4 3, 67 4 6 [भवित्री] evil
destiny i e death

भसल 60 2 3, 62 13 6 भ्रमर, भसलाड्ड
71 7 9 [भसल + आदिभ] भ्रमरव्याप्त

भाङ्ग-णर 79 7 8 brother ? (cf.
6 1 2)

भायण (f) 67 7 9 भाजन

°भावण 81 13 2 भ्रामक

✓भिट 58 7 2, 61 4 4, 61 4 14,
61 6 7, 61 12 7, 63 3 1, 63 8 2,
63 12 5 be engaged in battle
(Part I)

✓भिट 72 4 4 knock against

भिट 65 1 10 मग्राम

भिण्टिमाल 74 7 5 भिण्टिपाल

°भित्त 77 5 1 piece (of wood), gl
इन्वन (PSM भित्तय piece, part,
half)

°भीसाण° 58 13 9 मीपण

भिसिण° 62 13 6 [=विसिनी] कमलिनी

भिसी° 73 7 5 वृसी

°भुम्भल 59 7 5 nom. prop (see
Part I s v)

°भूम° 78 9 4 भूपा

भेहन्तय 59 1 10 breaking, bursting
(cf PSM भिट्टिञ्ज, गुज गड भेह्यो
broke open the fortress in
battle)

भोज 58 6 2 भोज dinner

°भोट 82 6 2 देवविशेष

°भोल° 59 7 5 nom prop (cf PSM
भोल=मरलचित्त)

°मडयवट्ट 58 10 5, 64 6 7, 65 1 3,
78 2 4, 81 6 3, 82 4 1 विनाशक, मर्दक

मडन्द, मडन्दा° 63 1 3, 71 6 6, 72 15
3, 79 3 6 वाद्यविशेष

मयत्त 86 8 8 मातङ्ग

मजाणय 73 op st मजनयह

मज्जार° 71 9 8 मभ्य (D 6 121
मज्झाधार)

मञ्जुडु 81 12 5, 87 1 6, 87 9 4 lest

मडप्पर 57 6 4, 58 7 3, 58 8 1, 63
7 6, 64 2 4, 66 9 6, 77 10 7 दर्प

मड्ड 82 6 9 वलात्

मण्ड 57 7 7, 59 5 8, 67 9 7, 74 4 1,
75 22 10 बलात्

मत्त 89 9 9 मर्त्य

°मत्तवारणं 62 8 6 [मत्तवारण] veranda,
pavilion

मन्दल 78 12 4 मृदङ्ग

√मम्भीस 71 14 5 अभयवचनं दा
comfort, allay fear (Part I)

मम्भीस 61 9 1, 66 4 1, 66 5 1, 68
12 3, 77 10 2 अभयवचन (Part I)

°मम्भीसण 60 4 8 comforter, pacifier

°मरट्ट 60 2 1, 64 2 8, 64 10 8, 77
16 1 गर्व, मरट्टिय 72 14 11 गर्वित

मरहट्टिया 71 9 9 damsel from
Mahārāstra

√मरुस 83 16 3 मर्ग

°मलणं 60 2 2 मर्दन

°मलणकर 60 2 2 मर्दनकर

°मलहर 72 1 4 तुमुलध्वनि (D 6
1 20), gl गर्जि, 87 12 3 gl शोक
(Part II)

मलित्त 82 8 2 [मलित्त] कलङ्क

मल्लहण 59 8 10 nom prop (cf मल्ल
Part II)

मल्लहण° 81 2 1 sportive joyful
movement (Part II)

महाइय 84 10 4, 88 8 9 [महाइत] महर्षिक

महियं 90 6 6 [मथित] diluted curds

माम 64 7 1, 68 4 2, 82 2 6 मातुल,

श्वशुर (cf D. 6 112 मामा=मातुलानी,
G मामो=मातुल)

मालविणिया 71 9 8 damsel from
Mālava

माहव° 76 7 6 [माधव] वसन्त

मित्तु 86 17 4 मृत्यु

मुद्धड 68 8 4 gl. अकुटिला, प्राञ्जला

मुद्धयन्द° 68 8 4 gl पौर्णमास्यामुदयक्राले
यो भासुरध्वन्द

मुसण्डि 74 7 9, °मुसण्डि (v 1 मुसण्डि)

58 6 5 आयुधविशेष

√मुसुमूर=भङ्ग (Hc 4 106), मुसुमूरिय
74 13 8, 75 15 1 मुसुमूरण 67 3
11 (Part I)

मुह-पत्ति 59 3 3, 59 4 1, 61 3 3
[मुखपत्री] पत्रकर्त्री ornamental
designs drawn on the face

°मुहवड 74 11 3 मुगपट veil

√मूर 89 8 10 भङ्ग (Hc 4 106)
मूरण 72 10 4 भङ्गन

√मेह 62 2 5, 64 2 5, 88 11 1
मुच् (Hc 4 91)

मेरय 57 1 4, 68 2 10 मदीय

मेसवाहण 89 13 2 [मेपवाहन] gl अग्नि

मेहलि 78 7 9, मेहलिय 90 2 4 gl भार्या
(H मेहरी)

मेहुणिय 68 2 5 मातुलात्मजा (D 6 148)

√मोकलि 85 5 2, 86 11 9 send,
permit (PSM, G मोकलवु send)

मोद्वाविय 79 11 4 मोद्वायित, gl बलात्कारेण
यत् सुरत तद्

√मोड 58 7 5, 58 12 8 भङ्ग; मोडन्त
65 8 7, मोडिय 61 8 3

म्ब 76 7 5 इव

रयं 80 8 8 [रद] दन्त

√रङ्गोलाव 76 12 1 make to dangle
(Hc 4 48 रसोल=दोलय्)

°रङ्गोलिरं 61 11 3, 63 11 4, रङ्गोलिरय
62 13 3 dangling (Part I)

रडि 62 3 3 cīy

रणउह 58 6 9, 61 3 9 रणमुख battle
front

°रणङ्गणन्तं 68 1 1 jingling

रण 68 11 2 अरण्य (G रान f)

रत्तिन्दिहु 78 15 2 रात्रिदिवम्

रमाउल 84 4 3 [रमाकुल] रमणीय

रवण 66 2 5 रमणीय

°रावण 57 3 5 रङ्गक

रावणहृत्थय 71 6 18 वाद्यविशेष (G
रावणहृत्थो)

°रिड° 79 4 4 ऋच्

°रिय 69 20 4 ऋचा

°रिच्छ° 60 5 4 ऋक्ष (G रीछ)

रिञ्जोळि 72 9 8, 79 12 6 पङ्क्ति
(D 77)
रिव 71 7 4²
°रच्छ° (v I °कच्छ°) 59 8 4 nom
prop
°रञ्ज° 71 6 7, °रञ्जा° 63 1 4, 79 3 8,
86 4 7 वाद्यविज्ञेय (cf Hc 4 57 रुज)
°रञ्जमाण 90 4 4 गजत् (cf Hc 4 57)
रञ्जा see रञ्ज
रणन्त° 64 4 8, रण्टमाण 58 3 4
humming (cf Hc 4 57)
°रुन्ड° 61 11 3, 5, 77 13 4 विन्तीण
रुपिम° 73 4 2, 73 5 5 गैष्य . .
रेकारिय 72 12 1, रेकारिय 71 15 1
आक्षिप्त [रे+कारित] (cf D रेक्षिप्त=
आक्षिप्त]
√रिह् 58 8 8, 65 5 9, 82 10 9 flood
रुह् 74 2 8, 75 14 9, 75 2 2, 3, 7,
88 10 2, 89 11 3 (particle
with the meaning shades of
granting, offering, appealing,
inviting) come on, look up
(G ले)
रुण् 75 8 9 (see रुण्) look I have
the joy of it I
रुण् 77 5 3 गृहीत
°रुक्कड° (for रुक्कड²) 83 11 3, 83 12
1 काष्ठ (G लक्कड, cf Sk लकृट,
लकुड stick)
रुक्किय 79 4 5 pole-dancer (PSM
रुक्क, रुक्कग)
°रुक्किय° 68 5 6 लक्षित
°रुद्ध° 59 8 10 nom prop. (cf D
7 17 रुद्ध=रुद्ध, विदग्ध)
रुद्धन्त 58 3 5, 60 1 5, 61 4 9
dangling
रुद्धक° 75 17 8, 88 9 2 आह्वाननाद
(Part II)
रुद्धि-रुद्धि 77 4 9 (°) ग्लि गृह्यविवर
(cf. D 7 18 रुद्धि=रुद्ध and
रुद्धि=रुद्ध)

°लाडिया 71 9 7 damsel from Lāta
√लाव 61 3 5, 62 5 9 employ,
apply (causative of ले, with
sense contamination from लाग्)
°लीह 62 6 7 रेखा
√लुक् 86 17 3 hide (Hc. 4 55)
°लुचय° 60 7 5 nom prop
√लुल 64 7 7 roll
°लुली 59 6 8 nom prop
√लुह् 62 6 9, 65 7 4, 78 15 9
wipe (Hc 4 105)
लेख 63 6 8 [लेख्य] a technical
term in the gambling dice-
game called अन्विका (see कति)
°लेहड 60 3 8 लम्पट greedy (D 7
25, cf D 1 172 ओलेहड=अन्यासक्त,
तृष्णापर)
लोटन्त 65 8 7, 65 9 4, लोटन्तय 64
13 9 rolling
लोटमाण 64 6 5 retreating
लोटाविय° 80 7 8 पातित
लोणिय 88 4 8, 89 11 5 नवनीत
°लोलि 83 9 9 'coil' or 'ear-
ornament' ? (cf √लुल् and G
लोलियु 'sort of earring')
लुहसिय 82 5 2 [हसित] छस्त (cf Hc
4 197)
√लिहक् 67 12 6 hide (Hc 4 55)
लिहक् 78 12 9 गत disappeared
(PSM, cf Hc 4 258 लिहक्=नष्ट)
वह 75 10 18 व्रतित्
वहसणाय 81 11 5 seat
√वहसर 62 9 3, 68 12 1 उपविष्
(Part I)
√वहसार 74 16 5 उपवेण्य (Part I)
°वयर 64 5 6 प्रकर
वगलामुह 67 4 5 (=वडवामुख) वडवानल
(cf PSM वलयामुह)
°वच्छ 64 8 9 वृक्ष
√वज्जर 58 15 6 83 20 5 कथ्
(Hc 4 2)

वज्रासणि 57 2 5 57 4 5, 67 1 6 [वज्रा-
 शक्ति] वज्राणि lightning bolt (see
 PSM s. v. अमणि)
 वट्ट 70 11 10, 72 14 9, 73 13 9,
 77 4 13, 82 8 3, 89 11 3 निश्चितम्
 °वट्ट 73 5 7 (१) बर्तन, (२) bowl
 (G. वाटको)
 वट्टि (२ I घट्ट, घट्टि) 82 6 4 देगविशेष(?)
 वट्टे खेट्टे 90 12 7 (corrupt for पिठर-
 खट्टे? cf पीठरखट्ट at Vimalasūni's
Paumacariya 77 64 and पिठरखट्ट
 at Raviṣena's *Padmapurāna*
 80 140)
 वट्ट 62 6 3, वट्ट 61 5 9, 67 14 8, 81
 11 5 महत् (D 7 29, H वटा,
 G वट्ट)
 वट्टत्त 57 2 8 महत्त
 वट्टारय 77 15 9 महत्तर
 वट्टिन 77 18 7 महत्ता
 वट्टत्त 88 6 12 gl सुवत्त (cf He
 48 4 422, 4, 15 वट्ट=मूढ)
 °वत्तारुण 79 1 5 [वरत्रारोहक?] rope
 dancer?
 वत्ताउत्त 63 10 2 वत्ताफोन or वत्तकूर्च?
 (PSM आउत्त=आकुत्त, D 1 65
 आउत्त=कूर्च)
 वत्तणि 77 20 6?
 वत्त 69 20 8, 80 3 9, 82 8 5, 88 1 2
 पित्र, नान (D. 6 88 वत्त)
 वत्पिनी 81 15 10 पैन्नी (He 4 39 5
 (G) वत्पिनी, G वापीनी)
 वत्पिण 62 10 6 चातर (D वत्पिह 6 90,
 H पनीठा, G वत्पियो)
 °वत्तल 58 1 8, 59 5 2, वत्तलि (f.)
 73 8 1 बोलाहल, gl. कलकल
 (Part I)
 °वत्तल 63 3 5 सत्त
 °वत्तलिय 79 12 6 व्याह
 √वत्त (v. I वट्ट) 81 11 10 सत्त
 (He. ' 192)
 वत्तल 67 12 3 सत्त

°वरण 77 4 9 embankment
 वराङ्ग 76 3 9 वराक
 वराहव (?) 72 14 6 राहु
 वरि 78 2 7 उपरि (cf M. वर)
 √वलग 61 2 8 [उपलग्न, अवलग्न] आरुह,
 अवलग्न (He 4 206) वलग्न 59 4 2,
 61 3 1, 64 12 3, वलग्नय 73 1 8 अवलग्न
 वलन्त 67 12 9 ज्वलन्त
 वला 74 13 4, 75 21 1, 77 16 1 वलात्
 वल्लिम्पड्डे 68 9 1, 84 16 9 वलात्कारेण
 (Part I वल्लिम्पड्डे)
 वल्लय 77 13 1 खाद्यविशेष?
 वल्लोम 71 6 10 वाद्यविशेष
 वाड 64 8 1 [वाति] वाद्यपुत्र=हनुमत्
 वाड्य 86 6 10 gl. निधानोत्पादनधालु-
 वादविवरप्रवेगकारिण
 वाड्य 87 1 7 gl मन्त्रवादिन्
 वाड्योलि 65 8 6, 73 8 3 [=वातावली]
 वातालि, जन्नावात
 वायाल 71 9 7 (१) वायाल, (२) विट
 वाणियकल 81 5 7 [वाणिककल] वाणिग्विद्या
 °वार 62 12 4 gl नाण
 °वालव 82 16 2 [वाडव] अग्नि
 वालालुत्ति 61 6 9, 74 13 5 केलाकेशि
 वालालिय 61 5 9 lake, pond, gl
 सरोवर झीलग (H झीलर small
 pond) (cf D 7 39 वाहली=लघुजल-
 प्रवाह. PSM वाहलिया, G वहेलो)
 √वावर 63 7 8, 66 3 5, 74 1 6 fight,
 वावरन्त 63 11 1 fighting
 वावल 75 17 4 आयुधविशेष
 °वासण 68 5 3 gl विशेषेण क्षेपनं
 °वाडनिय 62 8 8 play ground (cf
 PSM वाहिलाली 'riding ground')
 वाहिन 72 15 6 व्याहत्त
 वाहिन-घिट्ट 83 8 4 [वहिर्घट्ट] shamelessly
 bold in public
 वाहिन-घिट्ट (?) 82 18 9 (Possibly
 corrupt for वाहिनघिट्ट, see वाहिन
 घिट्ट)
 वाहिनन्त (for वाहिनन्त?) 70 9 1 व्याहत्त

विउणय 64 4 9, 75 18 10 द्विगुण
 विउरुचण° 61 11 7 a magic arrow
 (cf Jam Sk विकुर्वण=त्रैकियगक्तियुक्त
 possessing magic power of
 production)
 √ वियट्ट 77 15 10 turn hostile, be
 emaged gl विघट्ट
 वियाइय 82 7 9 (from वि + जन्) जात
 (G वियावु 'give birth'-restricted
 to animals)
 √ विक्खिर् 64 7 8 scatter, विक्खिरिय
 61 13 9 scattered
 °विग° 83 6 5, 84 5 6 वृक
 °विच्छट्ट° 62 8 5, 63 9 3, 64 8 6, 74
 12 1, 76 6 2 समूह (D 7 32)
 °विच्छट्ट° (for √ विच्छट्ट°) 90 4 6 समूह
 (see विच्छट्ट)
 विच्छोय 67 3 3 13 वियोग; विच्छोय्य 60
 1 3, 69 13 8 विरहित (cf Old
 G वछोहो=विरह)
 विट्टल 77 14 1 filthy² (see II s v
 धिणि and विट्टल)
 °विडप्प° 62 12 8 राहु (D 7 65)
 √ विणिग्ग 90 7 9 gl विनिर्गम्
 °विणित्त 84 3 12 विनिर्गत
 √ विणिभिन्द 68 2 8 विनिभिन्द
 विणिग्गह 75 13 8 द्विभूत
 वित्तिण्ड° 59 7 3 nom prop (=विनिर्दिन्
 1 e. हिंसक)
 वित्थक्क 61 9 1 विष्टिन took position
 as opponents (PSM)
 वित्थेहें (for वित्थेणें²) 72 13 10 विस्तृते
 विहाणय 67 4 1, 67 9 2, 78 15 1 आर्त्त
 विन्वणय 61 13 2 वेदनशील
 विन्भाडण 77 3 3 विनाश, 77 10 5
 विनाशक, विन्भाडिय 79 10 6 (cf D
 7 70 विप्फाडिअ=नाशित)
 विमल 78 15 5 gl प्रकट
 °विम्भल 61 4 9 विह्वल
 °विरच्च 58 12 5 विरजन 1 e विनाश (°)
 विरहि 88 4 2 वृक्षविशेष?

√ विरिद्ध 74 9 10 विस्तार्य (PSM)
 विरुवय 57 6 1 कुत्सित bad (Part II
 विरुवय)
 विर्यारय 71 16 8, विर्यारय 73 12 4
 कुत्सितकारक or कुत्सिततर (see विरुवय)
 °विरोलण 77 10 1 churner
 °विलय 79 10 1 वनिता
 विवरामुह 66 3 10 पराबुख
 विवरेरय 57 3 7 विपरीत
 विवरोक्खणें 62 2 3 परोक्षे at the back,
 secretly
 °विच्चोक्क° 79 11 4 विच्चोक्क
 विसदस 84 5 6 [वृपदस] विडाल
 विनट्ट 60 0 2, 60 2 7, 61 op st, 64
 op st, 64 2 8 विकसित, विघटित
 विमट्ट 64 6 6 विसृष्ट
 विसन्थुल 76 6 3 [विसणुल] विह्वल
 विसंरिय 62 6 4 [विसदस] अद्वितीय
 √ विसूर 59 10 6, 72 15 6 खिद्
 (Hc 4 132)
 विमोसु 66 8 2²
 विहट्टिय 73 2 1 stroked (°)
 विहडय 84 12 1²
 विहडप्फड° 58 7 6, 64 13 2, 65 3 2,
 61 9 8, 69 18 9, 74 2 4, 76 5 2
 व्याकुल शीघ्र
 विहलहल 61 12 6 विह्वल, व्याकुल
 विहाण 62 6 3 morning (Part I
 विहाणय)
 विहि (f) 68 13 4 विधि
 विहीसण 57 4 1 [वि-नीपण] gl विगत भी
 विट्टुर 84 11 10 [विधुर] gl आपद्
 °विहाय 86 9 4, 87 1 8 विभव, gl
 विभूति (Part I)
 वीडी° 72 6 6 betel [नीटिका] 1oll
 (G वीडी)
 °वीमड 76 6 1 विस्र stinking with
 वीमम्भर 82 12 8, 82 13 8 [वीधम्भरा] भू
 बुक्कन्त 63 10 9 गर्जत् (ref monkey)
 बुक्किय 68 11 7 गर्जित (ref monkey)
 (Hc 4 98 बुक्क=गर्ज)

√बुद्ध 66 3 5, 77 14 8 मस्त्र
(Hc 4 101)

बुद्धुण° 76 10 3 मज्जन

बुण्ण° 61 8 3, 66 7 3, 69 13 4 त्रस्त
(D 7 94)

ब्रूहि 74 2 8 ब्रूहि

°वेयडिय 62 5 4 खचित (cf Hc 4
89 वेअड)

वेयण्ड 65 10 5, 68 1 4, 74 9 9 गज

वेद्धि-विसय° 73 6 5 वेद्धीविषय

वेणी° 74 17 4 प्रवाह

वेल्लडिय 81 12 10, 81 8 10 a poor
creeper (G वेल्डी)

°वेल्लहल 62 11 6 सुन्दर

वेहाविद्ध 72 1 1, वेहाविद्धय 65 3 1,
65 5 1, 66 1 1, 72 8 9 कोपाविष्ट
(Part I)

°वोक्क 62 13 1, 64 4 9 boast
(see भड-वोक्क)

वोद्ध 88 6 7 तरुण (gl यौवन, ताण्य)
(D 7 80 वोद्धह=तरुण, Hc 8 2 80)

वोलीण 66 2 1 अतिक्रान्त

√वोह्ल 72 1 9 आक्रम attack

वोह्ल (f) 61 8 1, 65 7 6, 69 15 1,
79 5 1 talk

√वोहार 78 3 5 sweep (cf H
बुहारना)

वोहित्य 69 3 8, 74 6 10 (बहित्त
influenced by वो° of वोह) नौका
(D 6 96)

सइय° 69 1 2, 5 स्वकीय (?)

°सइत्तय 68 3 7 gl स्वस्थ, 76 4 4 मुदित
[D 8 5 सइत्त=मुदित]

सई 87 2 10 सदा

सयणिज्ज 72 9 11 स्वजन, gl वान्धव

°सयत्तण 76 1 7 [सय=लक+तण] rela-
tionship

सक 82 6 5 [शक] देशविशेष

सकियत्तय 81 15 9, 85 8 4 कृतार्थ

सकोमल 75 19 10 सुकोमल

सकन्दण 87 4 13 [सकन्दन] इन्द्र

°सकन्दिय° 81 2 9 see सकुन्दिय

√सकार 88 op st सस्कार्य, सकारिय
88 9 14 सस्कारित, दग्ध

संकुन्दिय (v l सकुन्दिय, सकुन्दिय) 73 3
5 (?), सकुन्दिय at 81 2 9, कुदन्त
(v l कुदन्त, कुदन्त) at 79 4 8, used
in connection with the activity
of sort of dancers called फेन्द.

सङ्ग 74 7 3 gl takes this to be
a sort of weapon (प्रहरणविशेष),
but it can be the conch
generally kept by all leading
warriors of old

सगहण 77 6 6 gl पुश्वल-त्री-पुरुष-युगल

°सङ्घट्टण 61 6 9 समर्दन

सच्च 69 18 7 [सत्य] promise

सञ्चल 60 9 1 सचलित

सञ्चारिम° 79 12 2 mobile

सञ्जय 64 8 6 सयुग

सञ्जोत्तिय° 60 10 6 (सयोक्त्रित) tethered

सणोह 57 1 5 स्नेह

°सण्ड° 86 6 4 [षण्ड] समूह

सन्तिहर 70 11 10, 71 3 9 शान्तिगृह

सन्धारय 80 12 9 [सन्तारक] दर्भजघ्या

°सन्दाणवन्वत्तय 64 8 7 (१) स्यन्दनवत्
(२) रोवनयुक्त

सप्पडिसय 68 3 5 characterized by
a throat [cf D 6 17 पडिसाओ=
धर्घरकण्ठ]

सम 73 1 9 gl समुद्र

समकण्डिय 65 5 1 attacked with
arrows in a concert

समणोहर 69 22 3 अति-मनोहर

समलद्ध 58 5 6 समालब्ध anointed
with unguents

समल्लविय 68 13 5 समर्पित

√समल्लिय [सम् + आ + ली] 62 2 2 hide

समसुत्ती 70 11 7 [समसुत्ति] universal
sleep?

समुत्तय 57 7 2 समुद्गामित

समुद्दूसिय° 61 9 4 अत्यन्त-पुलकित (see
Part II उद्दूसिय)

समुप्याय° 59 1 5 [समुत्पात] gl. कल्पान्त
समुह 60 5 9, 61 1 8 संसुख
✓समोढ (for समोड्) 61 2 2 offer
(see समोड्)
✓समोड् 58 9 9, 80 3 6, 82 2 9,
83 8 6 make ready, offer (see
Part II), समोद्विय 83 op st
समोत्परन्त 61 13 6 attacking (Part
I समुत्पर)
समोहाइय 66 8 5 समुखागत
सर° 71 9 6 (१) खर, (२) उपमाला
(D 8 2 सरा=माला, G सर string
of garland or necklace)
सल 65 11 6, 77 6 9 चिता
सवडम्मुह° 60 10 4, 64 8 11, 64 4 8,
65 5 9, 66 4 15, सवडम्मुहय 64 5 2
समुल
सव्व° 81 5 5 (१) सर्व, (२) [सर्व] gl
शङ्कर
सव्वण्ह 76 14 5 सर्वज्ञ
सव्वर 82 6 1 [शबर] देगविशेष
सव्वल° 58 6 6, 61 1 4, 61 4 5
sort of lance
सव्वंसह 77 2 5 [सर्वमहा] gl पृथ्वी
सहेज 67 9 9 सहाय
संवाय 84 22 4, 9 [सवाद] अपवाद
साइय 60 9 9, 66 6 10, 77 18 10,
79 6 2, 89 3 4 आलिङ्गन (G
साई f)
°साडण 68 5 8, 77 10 5 destroyer
सारच्छ 75 7 9 सारथ्य
°सारि 74 17 8 piece at a daughts-
like dice game
सारि 74 6 1 गजपर्याण (Part I)
°सालणय° 58 6 4 dried and fied
pickles (Part I)
साव 58 6 9, 72 11 9 (rhyme-
secure) सर्व
पठ० च० ४२

°साह° 90 6 6 gl 'मलाइ' लोके (G. मलाइ
cream) (see साहा)
साहण° 58 3 8, 58 7 9 [साधन] सैन्य
साहा° 71 8 10, 71 10 9 (१) शाखा,
(२) cream of curds (D. 8 51
साह=दधिसर) (see साह)
साहिमाणि 59 2 7 साभिमान
°सिय° 76 15 6 श्री
°सिगिरि° 86 3 9 पताका (Old G सिकिरि)
°सिन्ध° 63 3 2 bow-string (cf
PSM सिन्ध)
सिप्पि° 73 5 8 (१) शक्ति, (२) (?)
°सिप्पीर° 62 11 4 straw
सिमिर 61 5 5, 74 16 7 [शिविर] सैन्य
सिरत्ति 73 14 7 [शिरस+आर्त्ति] शिरोवेदना
सिल्हय° 77 5 गन्धद्रव्यविशेष
सिसिर° 71 8 9, 90 6 6 [शिशिर] दधि
सिहिण 66 3 7, 72 5 7 स्तन
सीय 76 1 7 श्री
°सील 69 3 3 [श्रील] श्रीयुक्त
सीसक् 64 14 5 शिरस्त्राण
सुकुडअ 57 7 4 ?
सुडिय° 74 14 1 श्रान्त (D 8 36)
सुणासीर° 78 11 4 [सुनासीर] इन्द्र
सुण्णहर 77 12 9 gl प्रमाण (?)
सुण्णासण 68 11 2 gl ऊर्ध्वसस्थान (?)
°सुम्ब° 62 8 4 [शुम्ब] choid or
string woven from Sumba
grass
सुवन्त° 61 1 9 सुवन्त
सुहच्छी 67 7 5 सुखासिका
सुंसुभर° 59 9 7, 60 5 6, °सुसुयर° 58 8
5, सुंसुभर 66 3 3 शिशुमार crocodile
(cf सुंसुभर Part I, Buddhist
Hybrid Sanskrit Dictionary
s v súsumāia)
सुडिय° 67 8 9 chopped off, 76 7 5
shorn off, 76 6 7 cudgelled (nc
सुड=भङ्ग, G सुडुं beat with a club
सुणाविय 84 22 6 caused to swell
°सूर° 73 3 8 शौर्य (cf G शूर)

सूव 82 6 देगविशेष
 से 71 15 6, 73 3 8 तस्य
 सेउण-देस 69 6 3 देशविशेष
 सेय-वड 74 6 10 श्वेतपट sarl
 सेरउ अच्छहि 88 5 2 मौन भजस्व
 °सेस° 79 4 2 निर्माल्य (Part I)
 मोयामणि° 86 13 9 मौदामिनी
 °सोमाल° 66 5 8 सुकुमार
 सोमालिय° 74 17 6 gl हस्तिशुण्डा
 सोरद्विया 71 9 8 damsel from
 Saurāstra
 सोहलय 67 2 5 उत्सव (Old G मोहलो)
 °हक° (f) 61 4 7 challenge
 हट्ट-सोह 81 15 2 आपणगोभा
 हड्ड 61 4 8, 63 5 10, 63 9 3, 64
 8 6, 76 6 2 अस्थि
 हथियार 75 14 5 weapon (G हथियार)
 ✓ हत्थुत्थल्ल 85 5 2 permit with
 the gesture of hand (Part II)
 हरिवर° 90 4 4 gl मण्डक
 °हल 69 3 9 anchor
 हल 64 1 2 हल् consonant
 हलप्फलय 65 3 9 प्रलोभ (cf D 8 59
 हलप्फलिअ=जीघ्न, आकुल्य)
 हल्लिय 67 9 1 (D 8 62, G हल्लु,
 हाल्लुं)

हल्लोहल्लिह्व(य) 75 8 7, 75 12 6
 व्याकुलीभूत (cf He 4 396 हल्लोहल्ल)
 हवि 58 4 6, 59 9 8, 67 5 9, 78
 3 4 अग्नि
 हाणण 57 7 1 घातक
 °हाल° 59 6 8 nom prop
 हिण्डन्तय 61 8 9 roaming
 हिण्डिव 82 6 4 देगविशेष
 हिन्दोला 62 9 9 swing
 हिलिहिलिहिलन्त 63 3 4 neighing
 हिंस (हेप्) neigh, हिंसन्त 61 1 6, हिंसिय
 66 2 8
 हीर° 81 10 6, 85 7 9 सूचीमुखामं
 नार्वादि वस्तु (D 8 70)
 हुड्डक 71 6 6, °हुड्डका° 63 1 5, 72 15
 3 वायविशेष
 °हुलि° 58 6 6, 61 1 4 आयुधविशेष
 °हुली 59 6 8 nom prop (cf. He
 4 143 हुल=क्षिप्)
 हुल्लुर° (v 1 हुल्लुर) 60 7 5 nom prop
 °हुल्ल° 59 7 10 nom prop
 हेड° (v 1 हेडि) 60 7 2 nom prop
 हेल 59 6 8 nom prop
 हेवाइय 74 4 1, 82 11 4 (gl गर्व
 नीत) accustomed to (Part
 I, II)

Corrections and Alterations.

Page	Line	Correction	Page	Line	Correction
8	34-35	Every warrior sought out his match from the opposite side and	२०	८-९	All forms with final ँहिं to be read as ऐहिं
11	27	Tivmphal	२३	१६	-कलहंस-
12	30	complained	२५	१८	तुङ्ग यङ
12	37	shattered	२८	२३	सम्मान दाण-
14	7	deer	२९	११	-भूरिणाऽरिणी
17	9	Bhāmandala	"	२८	11 A घया
21	23	Variable	३०	१४	गिङ्गुराई
23	28	rhyme	३५	२०	अदरते
23	28	moias	३७	२२	गिसुणेवि
26	1	Visamā	३९	२	विजुलोहिं
26	23	(cancel the whole line)	३९	९	घणे
29	32	" "	४०	२	रह हय गय
32	40	illustration	४१	१९	जाहे
"	43	metres	४६	२४	विसालहो
"	44 (end)	different	४७	१	-सच्छायहो
"	47	" well	५०	३	सरइ (?)
"	49	" in	"	१४	Metre requires-कुद्धेण and-लुद्धेण
३	१३	सत्तुत्तमद्दणो	५१	"	गलगजेवि
४	१४	हाणणो.	५३	"	तो गिसियरु
६	४	देवै पत्ति जड	"	२२	गिन्वाणरवण-
"	१५	कलेहवि	५४	१२	ओदाइय-
"	२३	2 P (" ") देइ	६१	८	राहवेण
८	२८	गिबडेसड	६६	१	Metre requires पाड and राडं
९	५	आसीविष्ठ उहु फणिन्दु	७२	८	-लक्खणे
"	२५	2 PS विस°	८०	११	विसल्लहे
११	६	चक्कोहररह-	८१	१८	अ तोरणिड
१२	८	थिर-थोर-	८३	९	किक्क रोहिं
१३	१५	भड-वोक्केहिं	८४	१०	वइसेरेवि
"	२९	1 A °चक्केहिं	८६	७	जलेण
१७	४	गय-गण्ड-वल्लगइँ	"	९	shift '[१]' after line 11
"	२८	15 A वण णड	८६	१२	पयट्टऐहिं
१८	२५	डवित्तय-डित्तय-	"	१२	-रक्खसेण
१९	९	-हालादल			

Page	Line	Correction	Page	Line	Correction
८८	१६-१७	Put the lines into inverted comas.	२०९	११	पइसन्तें
८९	७	सिद्ध व	२१४	१५	कोडि दस
९१	„	महक० वें	२१६	१८	अविभट्ट
„	last	Kadavaka S	२२५	१८	The first verse-line is short by two moras
९८	४	चप्पउ	२३३	२४	वसहद्धएण
१०१	१४	उज्झेसउ (?)	„	२५	णिऐवि
१०२	२१	Metre requires जिव	२३८	७	सम्भुं सिरिभूइ विवाइउ
१०२	१८	स-सुहु appears to be a mistake for स-रहु	२४०	९	उवलद्धउ
१०४	१५	कुरलइँ	२४२	९-१०	Read these as single verse lines
१०६	२५	एक्कु मणु	„	१०	°वरिन्देण
१०९	४	ऐहु	२४३	२-३	Read these as single verse-lines
११३	६	किय कालहों	„	१७-१८	ताह, -रावणाह
१२३	२५	व राहवेण	„	१३	°कए थिय
१२६	४	छाया-	२४५	२४	महरिसि
१३१	१	दुल्लिएँण	„	२५	-भूसिओ
„	२	°लिएँण	२४७	२	एत्थन्तरेँ
„	२६	4 A°लियएण 5 PA °लियएण	२५३	५	दुँअ तोहँ
१४१	२५	अथोहँ	२५७	१९	एवँ
१५१	१४	सतीवियइँ	२५८	१८	एँउ
१६४	१२	वज्जमए	२५९	२३	सों
„	१९	-सिय-	२६६	२५	रुवन्तु
१६८	९	उच्चाइए	२७२	३०	महामोह-
१७१	२२	सुहेहँ	२७५	११	The last verse-line is short by one mo
१७८	१८	मि (?)	„	२०	°सिरेण, °सरेण
„	२१	Shift the figure 20 one line up	२८८	१३	सुणेंवि
१८०	२४	पत्ताहों	२८९	१	-थाणहों
१८१	७	किउ लक्खणेंण	३०१	७	ज्ञात्वा
१८७	२२	पेलावेळ्ळि	„	१०	at I
१९२	२५	A word of two moras is missing from the last verse-line			

